


सम्पूर्ण 1635 कुण्डलियों से युक्त
भृगु-संहिता फलित-दर्पण
(फलित-प्रकाश)

Bhrigu-Sanhita Phalit-Darpan
(Phalit-Prakash)



देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली ने इससे पूर्व श्री राजेश दीक्षित द्वारा संपादित 1632 कुण्डलियों वाली 'भृगु-संहिता फलित-प्रकाश' नामक पुस्तक छापी थी। अब उसी को संशोधित-परिर्वाहित रूप में 1635 कुण्डलियों से युक्त 'भृगु-संहिता फलित-दर्पण' (फलित-प्रकाश) के नाम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।



- **सरल ज्योतिष शास्त्र**—ज्योतिष विद्या का घर बैठे सरलतापूर्वक ज्ञान कराने वाली, यह पुस्तक हर घर में इसका अध्ययन तथा मनन करने योग्य है। मू० 15-00
- **फलित ज्योतिष मार्तण्ड**—फलित ज्योतिष के विषय पर इससे अच्छी पुस्तक आज तक नहीं छपी। ज्योतिष से सम्बन्धित समस्त भाष्यों के लिए। 15-00 501/- एक सौ इक्यावन रुपये वाला असली प्राचीन, हस्तलिखित
- **असली प्राचीन हस्तलिखित भृगुसंहिता महाशास्त्र**—जिस ग्रन्थ की तलाश में पंडित लोग भटकते फिरते हैं। वही असली प्राचीन हस्तलिखित भृगु संहिता महाग्रन्थ शोध ही प्रकाशित हो रहा है। ग्रन्थ की न्यौछावर 501/- है। नोट—501/- एक सौ इक्यावन रु० अग्रिम भेजकर आज ही अपनी प्रति सुरक्षित करा लें।
- **ज्योतिष सर्व संग्रह (भा. टी.)**—इस पुस्तक में होठाचक्र, मुहूर्त तान्त्रिक, प्रश्न, स्वर, शकुन, जातक आदि विषयों का वर्णन ऐसी सरल भाषा में दिया है कि साधारण पढ़े-लिखे मनुष्य भी इसकी सहायता से जन्म-पत्र, टेवा, वर्षफल बनाकर लोगों को स्वर, स्वप्न, शकुन और प्रश्नों का सही फलादेश बताकर यथा व घन दोनों की प्राप्ति कर सकते हैं। मू० 10-00 (दस रुपये)
- **नवीन विवाह-पद्धति**—(एक घंटे में विवाह संस्कार)—अब वह जमाना बीत गया जब वर-वधु की विवाह-संस्कार पर चार-पाँच छः घंटे बँठना पड़ता था। इस पुस्तक की सहायता से एक ही तिथि में 5-6 विवाह-संस्कार शास्त्रीय पद्धति से करायें। मू० 10-00
- **हस्तलिखित मन्त्र महार्णव**—आज का भौतिकवादी समुदाय यन्त्र-मन्त्र-तंत्र शक्ति पर विश्वास नहीं करता। परन्तु प्राचीन मंत्र मंत्रों का निरर्थक नहीं है। हाँ रिसर्च की आवश्यकता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में अत्यन्त दुर्लभ हस्तलिखित मन्त्र संग्रहीत किये गये हैं। इन मंत्रों की शक्ति के लिए स्वयं सिद्ध करके आजमायें। दक्षिणा 171/- आज ही 171/- का M.O. भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करालें।

असली, प्राचीन, हस्तलिखित

यन्त्र - तन्त्र - मन्त्र शिरोमणि

हिमालय की कन्दराओं तथा बियाबान जंगलों में तप करने वाले साधु-महात्माओं, तपस्वियों, तान्त्रिकों तथा महापण्डितों की सेवा-सुश्रुषा करके उनकी कृपा एवं अनेक वर्षों तक संकड़ों प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का अध्ययन, मनन व अनुशीलन करके अत्यन्त दुर्लभ यन्त्र-तन्त्र-मन्त्र इस ग्रन्थ में संकलित किये गये हैं। अब, जबकि मनुष्य चन्द्रमा तक पहुँच गया है, उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। आज के भौतिकवादी वैज्ञानिक इस प्राचीन यन्त्र-तन्त्र-मन्त्र प्रणाली को ढकोसला करार देते हैं, परन्तु सिद्ध-साधक लोग अब भी इन प्राचीन यन्त्र-तन्त्र-मन्त्रों के सहारे सब कुछ कर सकने का दावा करते हैं। किसी का अनिष्ट न करके, परोपकार का भाव रखते हुए, यन्त्र-तन्त्र-मन्त्रों का प्रयोग ही फलदायी सिद्ध होता है। सिद्धि कार्यकर्ता पर निर्भर है। भेंट 321/- M.O. भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करा लें।

देहाली पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, दिल्ली

भृगुसंहिता फलित-दर्पण फलित-प्रकाश

BHRIGU-SANHITA . PHALIT-DARPAN (PHALIT-PRAKASH)

[जन्मकुण्डली के द्वादश भावों में स्थित नवग्रहों का जातक के जीवन पर प्रभाव, ज्योतिष के सिद्धान्त एवं ग्रह-राशि आदि के विषय में विस्तृत जानकारी सहित संसार के प्रत्येक स्त्री-पुरुष की जन्मकुण्डली के फलादेश का अत्यन्त सरलतापूर्वक ज्ञान कराने वाला सर्वोपयोगी ग्रन्थ]



मूल ग्रन्थ के लेखक

भृगु ऋषि

महर्षि भृगु को भारत में जन्म लिये हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परन्तु भारत की 60,00,00,000 (साठ करोड़) धर्मप्राण जनता आज भी उनके द्वारा लिखित इस ग्रन्थ-रत्न से प्रेरणा लेती है। जिस दैवज्ञ (ज्योतिषी) के पास यह ग्रन्थ-रत्न रहेगा, लक्ष्मी उसके सदा चरण-चुम्बन करेगी।

—राजेश दीक्षित



देहाती पुस्तक भण्डार (Regd.)

चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006

फोन : 261030

प्रकाशक

देहाती पुस्तक भण्डार (Regd.)

चावड़ी बाजार, चौक बड़शाहबुला,

दिल्ली-110006

फोन : 261030

लेखक :

पं० राजेश दीक्षित

© देहाती पुस्तक भंडार, दिल्ली

संशोधित संस्करण

मूल्य

स्वदेश में : 51/- (इक्यावन रुपये)

विदेश में £ 10 (दस पाँड) या

\$ 20 (बीस डालर)

मुद्रक : रूबी प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली-६

ज्योतिष ■ सामुद्रिक की पुस्तकें

1. ज्योतिष विज्ञान	24/-
2. व्यापार चमत्कार (तेजी-मंदी)	24/-
3. रमल ज्योतिष शास्त्र	24 -
4. सरल सुगम ज्योतिष	15 -
5. शीघ्र बोध	10 -
6. सरल ज्योतिष शास्त्र	15 -
7. भाग्य की कसौटी	21 -
8. रत्न अंगूठी, आपका भाग्य	30 -
9. शकुन ज्योतिष शास्त्र	24 -
10. फलित ज्योतिष प्रकाश	15 -
11. आयु निर्णय (आयु कितनी)	24 -
12. आपका भविष्य	24 -
13. भृगु संहिता फलित प्रकाश	51 -
14. बृहदवकहडाचक्रम्	15 -
15. एक घंटे में विवाह संस्कार	10 -
16. व्यापार रत्न गाइड	24/-
17. स्वर ज्योतिष शास्त्र	24 -
18. श्वेत कौतुकम्	24/-
19. मुहूर्त चिन्तामणि	15/-
20. बृहद् ज्योतिष मार	24 -
21. बृहद् ज्योतिष शास्त्र	24 -
22. कुण्डली दर्पण	15/-
23. अंक ज्योतिष लाटरी	10/-
24. अंक ज्योतिष विज्ञान	15/-
25. लाटरी गाइड	24/-
26. गुटका भाग्यांक रहस्य	10/-
27. ज्योतिष सर्व संग्रह	10/-
28. प्रश्न ज्योतिष शास्त्र	15/-
29. स्वप्न ज्योतिष शास्त्र	10/-
30. हनुमान ज्योतिष	6/-
31. केरल ज्योतिष शास्त्र	18/-
32. रत्न परिचय	21/-
33. पुस्तक सिद्ध बीसा यन्त्र	21/-
34. बृहद् हस्त रेखा विज्ञान	24/-
35. हस्त सामुद्रिक शास्त्र	10/-
36. भृगु संहिता महाशास्त्र	501/-
37. लक्ष्मी सिद्धि	21/-
38. हनुमान सिद्धि	21/-
39. बटुक भैरव सिद्धि	21/-
40. हनुमान छाया पुरुष सिद्धि	21/-
41. बृहद् मन्त्र महामंत्र	171/-



समर्पण

हिन्दी-जगत् के मूढ्दंन्य विद्वान्, तपस्वी लेखक,
यशस्वी शैलीकार, अनुपम पत्रकार
सहारनपुर (उ० प्र०) के गौरव
पं० कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'
के
कर-कमलों में सादर !

ज्योतिष को पुस्तकें वी.पी.पी. द्वारा मंगाइए !

- **ज्योतिष विज्ञान**—जन्म-जन्मान्तर का हाल बताना, जन्म-कुण्डली बनाना, गुप्त प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर देना, मृत्यु व जन्म बताना, वर्षफल, तेजी मन्दी, मुहूर्त-शकुन, ग्रहों का स्पष्टीकरण, गणित व फलित के गूढ़ रहस्य । (ले०—पं० विशुद्धानन्द) मूल्य 24-00
- **व्यापार चमत्कार**—धन खोकर व्यापार में सफलता प्राप्त करने वाले व एक ही चांस में बारी-बारी देखने वाले व्यापारी इस पुस्तक को अवश्य मंगायें । तेजी-मन्दी के अद्वितीय चांस, ग्रह तथा नक्षत्र आदि का पूरा विवरण । (ले०—स्वर्गीय पं० रतीराम) मू० 24-00
- **रमल ज्योतिष शास्त्र**—रमल के पासों द्वारा जीवन का भूत, भविष्य तथा वर्तमान (तीनों कालों का) हाल जानने के लिए इस ग्रन्थ को मंगाकर अवश्य पढ़ें । (ले०—राजेश दीक्षित) मू० 24-00 ह० । रमल के पासों वास्ते 51 (इक्यावन रुपये) M. O. द्वारा भेजें ।
- **भृगु संहिता फलित प्रकाश**—असली भृगु संहिता, जिससे संसार भर के व्यक्तियों की कुण्डलियों के फलादेश द्वारा जीवन में घटने वाली विशेष घटनाओं का उल्लेख, धनोत्पत्ति, पारिवारिक समस्याएँ, सन्तान, सुख-दुःख, माता-पिता, स्त्री, भाई-बहिन, मकान-जायदाद, आयु, हानि-लाभ, मित्र-शत्रु, यश-अपयश, विदेश-भ्रमण, वकील, डाक्टर, नेता इत्यादि का खुलासा विवरण जानिए न्योच्छावर 51-00 । इक्यावन रुपया मात्र ।
- **शकुन ज्योतिष शास्त्र**—यात्रा, परदेश अथवा अन्य अवसरों पर शकुन निकालना, जीवन पर शकुनों का अच्छा बुरा प्रभाव, विभिन्न पशु-पक्षी, पदार्थ, शब्द, अंग फड़कना तथा अन्य घटनाओं का सचित्र दिग्दर्शन । (ले०—राजेश दीक्षित) मू० 24-00
- **स्वर ज्योतिष शास्त्र**—यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि यदि नाक के विभिन्न छिद्रों से श्वास वायु का आगमन निश्चित तिथि और समय के अनुसार न हो तो शरीर में विचित्र प्रकार के रोग हो जाते हैं । नीकरी प्राप्ति, मुकदमे में जीत, इच्छानुसार संतान, शत्रु को वश में करना, मृत्यु का समय जानना, भाग्य चमकाने का उपाय आदि में स्वर ज्योतिष चमत्कारपूर्ण कार्य करता है । पहली बार छपी, दिलचस्प पुस्तक । (राजेश दीक्षित) मू० 24-00
- **आयु निर्णय**—यदि आप अपनी या परिवार के किसी सदस्य की आयु के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी यह पुस्तक आपके लिए एक भविष्यवक्ता का काम देगी । आप या आपकी धर्मपत्नी में से किस की आयु अधिक है, इसका निर्णय ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर स्वयं ज्ञात कीजिए । बारह लगनों में से किसी भी लगन में जन्म लेने वाले जातक का पूरा विवरण, मृत्यु सूचना व मृत्यु सूचक चिह्न, सेटकेटुकम् सहित । मू० 24-00

वी० पी० पी० द्वारा पुस्तकें मंगाने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान—

वेहाती पस्तक भण्डार, चावडी बाजार, चौक बडशाहबूला, दिल्ली-6

ज्योतिर्विज्ञान-प्रशंसा



यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा ।
तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम् ॥

* * *

ज्योतिश्चक्रे तु लोकस्थ सर्वस्योक्तं शुभाशुभम् ।
ज्योतर्ज्ञानं तु यो वेद स याति परमां गतिम् ॥

* * *

अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम् ।
प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्को यत्र साक्षिणौ ॥

* * *

स्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम् ।
ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्देवविद् द्विजः ॥

* * *

सूर्यो यच्छतु भूपतां द्विजपतिः प्रीति परां तन्वतां
माङ्गल्यं विदधातु भूमितनयो बुद्धि विधत्तां बुधः ।
गौरं गौरवमातनोतु च गुरुः शुक्रः सशुक्रार्थदः
सौरिवैरि - विनाशनं बितनुते रोगक्षयं संहिकः ॥

* * *

सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः
सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्रः सुखं शं ज्ञानिः ।
राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नति
नित्यं प्रीतिकराः भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्नाः ग्रहाः ॥

* * *

कल्याणं कमलासनः स भगवान् विष्णुः सजिष्णुः स्वयं
प्रालेयाद्रिसुतापतिः सतनयो ज्ञानं च निर्विघ्नताम् ।
चन्द्रज्ञास्फुजिदर्कभौमधिषणच्छाया सुतेरन्वितश्चः
ज्योतिश्चक्रमिदं सदैव भवतामायुश्चिरं यच्छतु ॥

- **मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र**—मुहूर्त विज्ञान बनाता है कि किम कार्य के लिए किस नक्षत्र की स्थिति शुभ फलदायक रहेगी और किसकी अशुभ फल देने वाली। जैसे काम घंघे का मुहूर्त, गृह प्रवेश, कृषि कर्म मुहूर्त, षोडश संस्कार मुहूर्त, थोड़े पढ़े-लिखे व्यक्ति भी आसानी से जान सकते हैं। (ले०—राजेश दीक्षित) मू० 24-00
- **आपका भविष्य**—पाश्चात्य एवं प्राच्य ज्योतिष पर आधारित विभिन्न महानों में जन्म लेने वाले प्रत्येक राशि के स्त्री-पुरुष एवं बच्चों के स्वभाव, चरित्र, गुण, प्रेम सम्बन्ध, आजीविका, व्यवसाय एवं भविष्य का पूर्ण विवरण। (ले०—राजेश दीक्षित) मूल्य 24-00
- **प्रश्न चमत्कार**—(प्रश्न ज्योतिष शास्त्र)—प्रश्न मार्तण्ड, प्रश्न कौतुहल प्रश्न, भास्कर, प्रश्न चूड़ामणि, प्रश्न-दीपिका बहरहाल कोई नाम रखें जीवन में होने वाले सैकड़ों प्रश्न तथा उनका सही उत्तर, जो आश्चर्य में डाल देते हैं इस पुस्तक द्वारा मिलेंगे। मू० 15-00
- **अंक ज्योतिर्विज्ञान**—(NUMEROLOGY)—अपने सह-चारी मित्र, पत्नी, पुत्र-पुत्री, सेवक (नोकर), प्रेमिका आदि की जन्म-तिथि जानकर अंकों के माध्यम में उनका स्वभाव, रुचि यहाँ तक कि उसकी विचारधारा तक की पूर्ण जानकारी देने वाली सर्वोत्तम पुस्तक। (ले०—राजेश दीक्षित) मू० 15-00
- **लाटरी गाइड**—(लाटरी विज्ञान)—आप बड़े भाग्यवान हैं। लाटरी का प्रथम पुरस्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है; आपकी लाटरी निकल सकती है, यह सोच-विचार आप हर समय करते होंगे। आशा विश्वास पर दुनिया कायम है। ऐसे-ऐसे उपाय जो भाग्य का पामा पलट कर लखपति की श्रेणी में ला देंगे। आप में कोई कमी नहीं है। पुस्तक खरीदिये और अपने भाग्य को चमकाइये। (ले०—रामगोपाल शास्त्री) मू० 24-00
- **हस्त सामुद्रिक शास्त्र**—आपकी आयु लगभग कितनी होगी, रोग से मुक्ति, मृत्यु विवरण, जीवन सुखमय रहेगा या दुःखमय, भयंकर घटनाओं का विवरण, धर्मपत्नी की मृत्यु पहले होगी या बाद में, प्रेम में बाधा तो नहीं आयिगी आदि का समाधान हाथ की रेखाओं द्वारा जानिए। (ले०—बालभद्र गाल्ठीय) सचित्र मू० 10-00
- **भृगु गुप्त प्रश्नोत्तरी**—भृगु प्रश्न मार्तण्ड, भृगु प्रश्न शिरामणी, भृगु मूक दीपिका, भृगु प्रश्नावली इत्यादि सभी नाम इस पुस्तक के हो सकते हैं। प्राचीन काल में भृगु ऋषि द्वारा अपने शिष्यों को बताये 128 गुप्त प्रश्नों के उत्तर जो लाखों वर्ष बीत जाने पर आज भी उपयोगी हैं। आप भी अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए। मू० 15-00
- **पञ्च पत्नी तन्त्र**—कौवा, उल्लू, बाज, मुर्गा, गूढ इन पाँचों पक्षियों के छूने, पंखों के फड़फड़ाने, किसी स्थान पर बैठने, बोलने के शुभ-अशुभ फल, यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र प्रयोग विधि मन्त्रित सरल हिन्दी भाषा में दिये गये हैं। (ले०—राजेश दीक्षित) मू० 30-00
- **मन्त्र महोदधि**—हिमालय आदि पर्वतों की गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनियों के वे चमत्कारी मन्त्र जो सुरम्भ फल देने वाले हैं, इस पुस्तक में विधि सहित दिये गये हैं। मू० 21-00

हर प्रकार की पुस्तकें मंगाने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान—

बेहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, दिल्ली फोन : 261030

दो शब्द

(Preface)



- 'यत्पिण्डे तत्ब्रह्माण्डे' की कल्पना के आधार पर, आज से सहस्रों वर्ष पूर्व भारतीय मनीषियों ने अपनी अन्तर्मुखी सूक्ष्म प्रज्ञा-शक्ति द्वारा गहन पर्यवेक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्येक वस्तु की रचना का मूलाधार सूक्ष्म 'परमाणु' हैं तथा असंख्यों परमाणुओं के समाहार-स्वरूप निर्मित मानव-शरीर का आकार आकाशीय सौर-अणु से न केवल मिलता-जुलता ही है, अपितु आकाशचारी ग्रह-नक्षत्रों का मानव-शरीरस्थ सूक्ष्म सौर-अणु से अन्योन्याश्रय सम्बन्ध भी रहता है और वे उस पर अपनी गतिविधियों का निरन्तर प्रभाव भी डालते रहते हैं। यही कारण है कि आकाशीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार पृथ्वीतलवासी मनुष्य के जीवन में अर्हानिशि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं।
- मनुष्य जिस समय पृथ्वी पर जन्म लेता है, उस समय भक्त्र (आकाश-मण्डल) में विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसका प्रभाव जातक के जीवन को निरन्तर प्रभावित करता रहता है। जन्म-कुण्डली जातक के जन्म-समय में भक्त्रान्तर्गत विभिन्न ग्रहों की स्थिति की ही परिचायक होती है। यदि उसका गहन अध्ययन किया जाय तो जातक के जीवन में क्षण-क्षण पर घटने वाली सभी घटनाओं का सम्यक् ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
- कहावत है—'अदृष्ट का लेख कोई नहीं पढ़ पाता'—परन्तु जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में तमसावृत वस्तुओं का स्वरूप दृष्टिगोचर हो उठता है, उसी प्रकार ज्योतिर्विज्ञान-रूपी दीपक का उजाला भी अदृष्टलेख-रूपी तिमिरावरण को चीर कर भूत, भविष्य एवं वर्तमानकाल में घटने वाली घटनाओं को उजागर कर देता है—इसमें कोई संदेह नहीं।
- ज्योतिष-शास्त्र के विभिन्न अंगों में 'गणित' तथा 'फलित' का स्थान मुख्य है। फलित-ज्योतिष द्वारा मानव-जीवन पर पड़ने वाले आकाशीय ग्रहों की गति-विधियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। सहस्रों वर्षों के अनुभवों तथा अन्वेषणों के आधार पर यह विद्या अब एक सुनिश्चित विज्ञान का स्वरूप ग्रहण कर चुकी है तथा प्राणिमात्र के लिए परम उपयोगी भी सिद्ध हुई है।
- "जन्मकुण्डली के किस भाव में स्थित कौन-सा ग्रह जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है"—प्रस्तुत ग्रंथ में इसी विषय का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत

किया गया है। ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध, युति, अंश, उच्च-नीचादि स्थिति आदि अनेक ज्ञातव्य विषयों का विवरण भी इसमें संकलित है। फलित-ज्योतिष सम्बन्धी अन्य विषयों को भी स्थान देकर, इसे सर्वसाधारण के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न भी किया गया है। परन्तु, इस एक ही ग्रंथ द्वारा ज्योतिष-विद्या से सर्वथा अपरिचित सामान्य व्यक्ति भी पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं तथा किसी भी स्त्री-पुरुष की जन्मकुण्डली के ग्रहों का फलादेश ज्ञात कर सकते हैं। विषय-वस्तु को अधिकाधिक बोधगम्य बनाने की भी भरसक चेष्टा की गई है। अपने प्रयत्न में हम कहाँ तक सफल हुए हैं, इसे विज्ञ पाठक-गण स्वयं ही अनुभव कर सकेंगे।

- आज से लगभग ५ वर्ष पूर्व भी हमने एक ऐसे ही ग्रंथ की रचना की थी, जिसे पाठकों का स्नेह प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत ग्रंथ उसी परिपाटी में, अधिक बोधगम्य तथा सुगठित रूप में प्रस्तुत किया गया है। आशा है इसे भी पाठकों का स्नेह मिलेगा। ग्रंथ के प्रणयन में हमें जिन सूत्रों से सहायता मिली है, उन सबके प्रति हम हृदय से आभारी हैं।
- मानव-कृति दोष-विहीन नहीं होती, अतः विज्ञ सुधीजनों से निवेदन है कि वे इस ग्रंथ की त्रुटियों को ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें, ताकि इसके आगामी संस्करण में उनका निराकरण किया जा सके।

कृष्णपुरी, मथुरा
रामनवमी : सं० २०३२ वि० } .

—राजेश दीक्षित

विषय-सूची

प्रथम खण्ड	
[आवश्यक ज्ञातव्य]	
क्र० सं०	पृष्ठ-संख्या
१. ग्रह-शान्ति के उपाय	१८
२. प्रारम्भिक जानकारी	१९
३. तिथि अथवा मिति	१९
४. तिथियों के स्वामी	२०
५. नक्षत्र	२०
६. नक्षत्रों के स्वामी	२१
७. नक्षत्रों के चरणाक्षर	२२
८. वार	२२
९. राशि	२३
१०. राशि के चरणाक्षर	२४
११. ग्रह—स्वभाव और प्रभाव	२५
१२. राशि—स्वभाव और प्रभाव	२७
१३. राशियों के स्वामी	२९
१४. राशिशबोधक चक्र	३०
१५. ग्रहों का राशि-भोग-काल	३०
१६. ग्रहों की बक्री तथा अतिचारी गति	३१
१७. ग्रहों की नैसर्गिक मेली	३१
१८. ग्रहों के अंश	३२
१९. जन्मकुण्डली के द्वादश भाव	३३
२०. भावों की त्रिकोण, केन्द्रादि संज्ञा	३६
२१. मूल त्रिकोण	३७
२२. ग्रहों की उच्च स्थिति	३९
२३. ग्रहों की नीच स्थिति	४०
२४. ग्रहों का बलाबल	४०
२५. ग्रहों के पद	४२
२६. ग्रहों के ६ प्रकार के बल	४२
२७. ग्रहों की दृष्टि	४५
२८. उच्चराशिस्थ ग्रहों का फलादेश	५१
२९. मूल त्रिकोणास्थ ग्रहों का फलादेश	५३
३०. स्वक्षेत्रस्थ ग्रहों का फलादेश	५६
३१. मिश्रक्षेत्रस्थ ग्रहों का फलादेश	५८
३२. शतक्षेत्रस्थ ग्रहों का फलादेश	६१

क्र० सं०	पृष्ठ संख्या
३३. नीचराशिस्थ ग्रहों का फलादेश	६३
३४. ग्रहों का दृष्टि-सम्बन्ध और स्थान-सम्बन्ध	६६
३५. ग्रहों का जातक के जीवन पर प्रभाव	६७
३६. लग्न और राशि	६७
३७. स्थानाधिपति	७१
३८. स्थानाधिपतियों के नाम	७१
३९. विशिष्ट ज्ञातव्य विषय	७२
४०. दैनिक ग्रहगोचर का प्रभाव	७६
४१. सम्मिलित परिवार का फलादेश	७६
४२. गलत जन्म-कुण्डली का संशोधन	७७

द्वितीय खण्ड

[फलादेश]

१. विभिन्न लगनों वाली जन्म-कुण्डलियों का फलादेश जानने की विधि	८०
'भेष लग्न'	
२. 'मेष' लग्न का फलादेश	८२
३. 'सूर्य' का फलादेश	८३
४. 'चन्द्रमा' का फलादेश	८३
५. 'मंगल' का फलादेश	८४
६. 'बुध' का फलादेश	८४
७. 'गुरु' का फलादेश	८५
८. 'शुक्र' का फलादेश	८६
९. 'शनि' का फलादेश	८६
१०. 'राहु' का फलादेश	८७
११. 'केतु' का फलादेश	८७
१२. 'सूर्य'	८८
१३. 'चन्द्रमा'	९२
१४. 'मंगल'	९६
१५. 'बुध'	१००
१६. 'गुरु'	१०४
१७. 'शुक्र'	१०८
१८. 'शनि'	११२
१९. 'राहु'	११६
२०. 'केतु'	११९

‘वृष’ लग्न

क्रमांक	पृष्ठ-संख्या
२१. ‘वृष’ लग्न का फलादेश	१२३
२२. ‘सूर्य’ का फलादेश	१२४
२३. ‘चन्द्रमा’ का फलादेश	१२४
२४. ‘मंगल’ का फलादेश	१२५
२५. ‘बुध’ का फलादेश	१२५
२६. ‘गुरु’ का फलादेश	१२६
२७. ‘शुक्र’ का फलादेश	१२६
२८. ‘शनि’ का फलादेश	१२७
२९. ‘राहु’ का फलादेश	१२८
३०. ‘केतु’ का फलादेश	१२८
३१. ‘सूर्य’	१२९
३२. ‘चन्द्रमा’	१३३
३३. ‘मंगल’	’१
३४. ‘बुध’	१०१
३५. ‘गुरु’	१४५
३६. ‘शुक्र’	१४९
३७. ‘शनि’	१५३
३८. ‘राहु’	१५७
३९. ‘केतु’	१६१

‘मिथुन’ लग्न

४०. ‘मिथुन’ लग्न का फलादेश	१६६
४१. ‘सूर्य’ का फलादेश	१६७
४२. ‘चन्द्रमा’ का फलादेश	१६७
४३. ‘मंगल’ का फलादेश	१६८
४४. ‘बुध’ का फलादेश	१६९
४५. ‘गुरु’ का फलादेश	१६९
४६. ‘शुक्र’ का फलादेश	१७०
४७. ‘शनि’ का फलादेश	१७०
४८. ‘राहु’ का फलादेश	१७१
४९. ‘केतु’ का फलादेश	१७२
५०. ‘सूर्य’	१७२
५१. ‘चन्द्रमा’	१७६
५२. ‘मंगल’	१८०
५३. ‘बुध’	१८४
५४. ‘गुरु’	१८८
५५. ‘शुक्र’	१९२
५६. ‘शनि’	१९६
५७. ‘राहु’	२००
५८. ‘केतु’	२०४

‘कर्क’ लग्न

क्रमांक	पृष्ठ-संख्या
५९. ‘कर्क’ लग्न का फलादेश	२०९
६०. ‘सूर्य’ का फलादेश	२१०
६१. ‘चन्द्रमा’ का फलादेश	२१०
६२. ‘मंगल’ का फलादेश	२११
६३. ‘बुध’ का फलादेश	२१२
६४. ‘गुरु’ का फलादेश	२१२
६५. ‘शुक्र’ का फलादेश	२१३
६६. ‘शनि’ का फलादेश	२१३
६७. ‘राहु’ का फलादेश	२१४
६८. ‘केतु’ का फलादेश	२१५
६९. ‘सूर्य’	२१५
७०. ‘चन्द्रमा’	२१९
७१. ‘मंगल’	२२३
७२. ‘बुध’	२२७
७३. ‘गुरु’	२३१
७४. ‘शुक्र’	२३५
७५. ‘शनि’	२३९
७६. ‘राहु’	२४३
७७. ‘केतु’	२४७

‘सिंह’ लग्न

७८. ‘सिंह’ लग्न का फलादेश	२५२
७९. ‘सूर्य’ का फलादेश	२५३
८०. ‘चन्द्रमा’ का फलादेश	२५३
८१. ‘मंगल’ का फलादेश	२५४
८२. ‘बुध’ का फलादेश	२५५
८३. ‘गुरु’ का फलादेश	२५५
८४. ‘शुक्र’ का फलादेश	२५६
८५. ‘शनि’ का फलादेश	२५६
८६. ‘राहु’ का फलादेश	२५६
८७. ‘केतु’ का फलादेश	२५८
८८. ‘सूर्य’	२५८
८९. ‘चन्द्रमा’	२६२
९०. ‘मंगल’	२६६
९१. ‘बुध’	२७०
९२. ‘गुरु’	२७४
९३. ‘शुक्र’	२७८
९४. ‘शनि’	२८२
९५. ‘राहु’	२८६
९६. ‘केतु’	२९०

'कन्या' लग्न

क्रमांक	पृ०सं०
९७. 'कन्या' लग्न का फलादेश	२९४
९८. 'सूर्य' का फलादेश	२९५
९९. 'चन्द्रमा' का फलादेश	२९५
१००. 'मंगल' का फलादेश	२९६
१०१. 'बुध' का फलादेश	२९७
१०२. 'गुरु' का फलादेश	२९७
१०३. 'शुक्र' का फलादेश	२९८
१०४. 'शनि' का फलादेश	२९८
१०५. 'राहु' का फलादेश	२९९
१०६. 'केतु' का फलादेश	३००
१०७. 'सूर्य'	३००
१०८. 'चन्द्रमा'	३०४
१०९. 'मंगल'	३०८
११०. 'बुध'	३१२
१११. 'गुरु'	३१६
११२. 'शुक्र'	३२०
११३. 'शनि'	३२४
११४. 'राहु'	३२८
११५. 'केतु'	३३२

तुला लग्न

११६. 'तुला' लग्न का फलादेश	३३६
११७. 'सूर्य' का फलादेश	३३७
११८. 'चन्द्रमा' का फलादेश	३३७
११९. 'मंगल' का फलादेश	३३८
१२०. 'बुध' का फलादेश	३३८
१२१. 'गुरु' का फलादेश	३३९
१२२. 'शुक्र' का फलादेश	३४०
१२३. 'शनि' का फलादेश	३४०
१२४. 'राहु' का फलादेश	३४१
१२५. 'केतु' का फलादेश	३४१
१२६. 'सूर्य'	३४२
१२७. 'चन्द्रमा'	३४६
१२८. 'मंगल'	३५०
१२९. 'बुध'	३५४
१३०. 'गुरु'	३५८
१३१. 'शुक्र'	३६२
१३२. 'शनि'	३६६

क्रमांक

१३३. 'राहु'	३७०
१३४. 'केतु'	३७४
वृश्चिक लग्न	
१३५. 'वृश्चिक' लग्न का फलादेश	३७८
१३६. 'सूर्य' का फलादेश	३७९
१३७. 'चन्द्रमा' का फलादेश	३८०
१३८. 'मंगल' का फलादेश	३८०
१३९. 'बुध' का फलादेश	३८१
१४०. 'गुरु' का फलादेश	३८१
१४१. 'शुक्र' का फलादेश	३८२
१४२. 'शनि' का फलादेश	३८२
१४३. 'राहु' का फलादेश	३८३
१४४. 'केतु' का फलादेश	३८४
१४५. 'सूर्य'	३८४
१४६. 'चन्द्रमा'	३८८
१४७. 'मंगल'	३९२
१४८. 'बुध'	३९६
१४९. 'गुरु'	४००
१५०. 'शुक्र'	४०४
१५१. 'शनि'	४०८
१५२. 'राहु'	४१२
१५३. 'केतु'	४१६

'धनु' लग्न

१५४. 'धनु' लग्न का फलादेश	४२१
१५५. 'सूर्य' का फलादेश	४२२
१५६. 'चन्द्रमा' का फलादेश	४२२
१५७. 'मंगल' का फलादेश	४२३
१५८. 'बुध' का फलादेश	४२४
१५९. 'गुरु' का फलादेश	४२४
१६०. 'शुक्र' का फलादेश	४२५
१६१. 'शनि' का फलादेश	४२५
१६२. 'राहु' का फलादेश	४२६
१६३. 'केतु' का फलादेश	४२७
१६४. 'सूर्य'	४२७
१६५. 'चन्द्रमा'	४३१
१६६. 'मंगल'	४३५
१६७. 'बुध'	४३९
१६८. 'गुरु'	४४३

क्रमांक	पृ०स०
१६९. 'शुक्र'	४४७
१७०. 'शनि'	४५१
१७१. 'राहु'	४५५
१७२. 'केतु'	४५९

मकर लग्न

१७३. 'मकर' लग्न का फलादेश	४६३
१७४. 'सूर्य' का फलादेश	४६४
१७५. 'चन्द्रमा' का फलादेश	४६४
१७६. 'मंगल' का फलादेश	४६५
१७७. 'बुध' का फलादेश	४६६
१७८. गुरु का फलादेश	४६६
१७९. 'शुक्र' का फलादेश	४६७
१८०. 'शनि' का फलादेश	४६७
१८१. 'राहु' का फलादेश	४६८
१८२. 'केतु' का फलादेश	४६९
१८३. 'सूर्य'	४६९
१८४. 'चन्द्रमा'	४७३
१८५. 'मंगल'	४७७
१८६. 'बुध'	४८१
१८७. 'गुरु'	४८५
१८८. 'शुक्र'	४८९
१८९. 'शनि'	४९३
१९०. 'राहु'	४९७
१९१. 'केतु'	५०१

कुम्भ लग्न

१९२. 'कुम्भ' लग्न का फलादेश	५०५
१९३. 'सूर्य' का फलादेश	५०६
१९४. 'चन्द्रमा' का फलादेश	५०६
१९५. 'मंगल' का फलादेश	५०७
१९६. 'बुध' का फलादेश	५०८
१९७. 'गुरु' का फलादेश	५०८
१९८. 'शुक्र' का फलादेश	५०९
१९९. 'शनि' का फलादेश	५०९
२००. 'राहु' का फलादेश	५१०
२०१. 'केतु' का फलादेश	५११
२०२. 'सूर्य'	५११
२०३. 'चन्द्रमा'	५१५
२०४. 'मंगल'	५१९
२०५. 'बुध'	५२३

पृ०स०

क्रमांक

पृ०स०

२०६. 'गुरु'	५२७
२०७. 'शुक्र'	५३१
२०८. 'शनि'	५३५
२०९. 'राहु'	५३९
२१०. 'केतु'	५४३

'मीन' लग्न

२११. 'मीन' लग्न का फलादेश	५४८
२१२. 'सूर्य' का फलादेश	५४९
२१३. 'चन्द्रमा' का फलादेश	५४९
२१४. 'मंगल' का फलादेश	५५०
२१५. 'बुध' का फलादेश	५५१
२१६. 'गुरु' का फलादेश	५५१
२१७. 'शुक्र' का फलादेश	५५२
२१८. 'शनि' का फलादेश	५५२
२१९. 'राहु' का फलादेश	५५३
२२०. 'केतु' का फलादेश	५५३
२२१. 'सूर्य'	५५४
२२२. 'चन्द्रमा'	५५८
२२३. 'मंगल'	५६२
२२४. 'बुध'	५६६
२२५. 'गुरु'	५७०
२२६. 'शुक्र'	५७४
२२७. 'शनि'	५७८
२२८. 'राहु'	५८२
२२९. 'केतु'	५८६

तृतीय खण्ड

[ग्रहों की युति का फलादेश]

१. ग्रहों का युति	५९२
२. दो ग्रहों का युति फलादेश	५९३
३. तीन ग्रहों का युति	५९८
४. चार ग्रहों का युति	६०७
५. पाँच ग्रहों का युति	६१६
६. छः ग्रहों का युति	६२१
७. सात ग्रहों का युति	६२३
८. स्त्री-जातक	६२३
९. विशिष्ट योग	६३१
१०. विविध	



हम भारतवासी उन ऋषियों,
मुनियों तथा आचार्यों के
चिर-ऋणी हैं, जिन्होंने अपने
तप, त्याग से दीर्घायु प्राप्त
करके सैकड़ों वर्षों के शोध-
स्वरूप ऐसे ग्रन्थों की रचना
की जिन्हें आज तक विश्व का
कोई भी मानव (वैज्ञानिक)
असत्य सिद्ध नहीं कर पाया।



गाँवों तथा नगरों से दूर, घोर जंगलों के मध्य, तपश्चर्या में लीन, साधु-महात्माओं के आगे वन्य हिंसक जन्तु भी नत हो जाते हैं, उन्हीं ने आत्मिक प्रेरणास्वरूप [सर्वजन - हिताय ऐसे महाग्रन्थों की रचना की है।



हस्तलिखित, असली, प्राचीन
भृगुसंहिता फलित प्रकाश

वृष २	मीन १२	
मिथुन ३	मेघ १	कुंभ ११
कर्क ४	मकर १०	
सिंह ५	तुला ७	धनु ९
कन्या ६	वृश्चिक ८	

1

प्रथम खण्ड

[आवश्यक ज्ञातव्य]

ग्रह-शान्ति के उपाय



यदि कोई ग्रह किसी जातक के लिए अशुभ हो तो उसकी शान्ति के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का दान करके, उस ग्रह के मन्त्र का जप करना चाहिए—

- (१) सूर्य—माणिक्य, तांबा, लाल चन्दन, लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, लाल कमल, गाय ।
- (२) चन्द्र—मोती, चाँदी, कपूर, श्वेतवस्त्र, चावलों से भरी बाँस की पिटारी, जल-पूर्ण घट, गाय, शंख ।
- (३) मंगल—प्रवाल, लाल रंग का वस्त्र, स्वर्ण, लाल रंग का बँल, मसूर, तांबा, गेहूँ तथा कनेर के फूल ।
- (४) बुध—पन्ना, स्वर्ण, घृत, पीतवस्त्र, नीलवस्त्र, कांसी, मूंगा, हाथी दाँत ।
- (५) गुरु—पुखराज, स्वर्ण, पीतवस्त्र, हल्दी, पीले रंग का अन्न, नमक, धोड़ा ।
- (६) शुक—हीरा, स्वर्ण, चित्र-विचित्र रंग का वस्त्र, चावल, गाय, घृत, मुगन्धित वस्तुएँ तथा श्वेत रंग का धोड़ा ।
- (७) शनि—नीलम, लोहा, काले तिल, तैल, कृष्णवस्त्र, स्वर्ण, नीले रंग का कम्बल, काले रंग की गाय, उड़द तथा भैंस ।
- (८) राहु—गोमेद, स्वर्ण, कृष्णवस्त्र, कम्बल, तनवार, तिल का तैल तथा धोड़ा ।
- (९) केतु—वैदूर्य, कस्तूरी, स्वर्ण, कम्बल, तिल का तैल, शस्त्र तथा बकरा ।

प्रारंभिक जानकारी

जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों का फलादेश जानने से पूर्व ज्योतिष-विषयक प्रारम्भिक जानकारी, यथा—तिथि, वार, नक्षत्र, राशि, ग्रहों का पारस्परिक सम्बन्ध आदि का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। अस्तु, इस प्रथम-खण्ड में उन्हीं सब प्रारम्भिक, परन्तु अत्यावश्यक ज्ञातव्य विषयों का उल्लेख किया जा रहा है, जिन्हें जाने बिना ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं मिल सकता।

तिथि अथवा मिति

भारतीय ज्योतिष में चन्द्रमा की एक 'कला' को 'तिथि' कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में तिथि को ही 'मिति' के नाम से पुकारा जाता है।

विक्रम-सम्बत्सर का प्रारम्भ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से होता है तथा अन्त चैत्र कृष्णपक्ष की अमावस्या को होता है। जिस रात्रि में चन्द्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वह तिथि कृष्णपक्ष की 'अमावस्या' कही जाती है। कृष्णपक्ष की अमावस्या के दूसरे दिन से शुक्लपक्ष की प्रतिपदा आरम्भ होती है।

जिन पन्द्रह दिनों में चन्द्रमा प्रतिदिन आकाश में थोड़ा-थोड़ा बढ़ना आरंभ होता है तथा पन्द्रहवें दिन अपने पूर्णरूप में दिखाई देता है, उसे 'शुक्लपक्ष' कहते हैं तथा बाद के जिन पन्द्रह दिनों में चन्द्रमा आकाश में प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा करके घटने लगता है तथा पन्द्रहवें दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे 'कृष्णपक्ष' कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक महीने में पन्द्रह-पन्द्रह दिन के दो पक्ष हुआ करते हैं—(१) शुक्ल-पक्ष और (२) कृष्णपक्ष। पक्ष को आम बोलचाल की भाषा में 'पखवाड़ा' कहा जाता है।

यद्यपि नवीन संवत्सर का प्रारम्भ चैत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से होता है, परन्तु प्रत्येक मास (महीने) का प्रारम्भ कृष्णपक्ष से ही माना जाता है अर्थात् प्रत्येक महीने का पहला आधा भाग कृष्णपक्ष का और दूसरा आधा भाग शुक्लपक्ष का होता है।

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से जो पन्द्रह दिन की पन्द्रह तिथियाँ होती हैं, उन्हें क्रमशः (१) प्रतिपदा, (२) द्वितीया, (३) तृतीया, (४) चतुर्थी, (५) पंचमी, (६) षष्ठी, (७) सप्तमी, (८) अष्टमी, (९) नवमी, (१०) दशमी, (११) एकादशी, (१२) द्वादशी, (१३) त्रयोदशी, (१४) चतुर्दशी, तथा (१५) पूर्णिमा के नाम से अभिहित किया जाता है। इसके बाद कृष्णपक्ष की तिथियों का भी प्रतिपदा से चतुर्दशी तक इन्हीं नामों से पुकारा जाता है परन्तु कृष्णपक्ष की अन्तिम अर्थात् पन्द्रहवीं तिथि को 'अमावस्या' कहा जाता है। दोनों पक्षों की प्रतिपदा से चतुर्दशी तक की तिथियों को क्रमशः १, २, ३, ४ आदि अंकों में लिखा जाता है, परन्तु पूर्णिमा को १५ तथा अमावस्या तिथि को ३०, अंक के रूप में लिखा जाता है।

तिथियों के स्वामी

विभिन्न देवताओं को विभिन्न तिथियों का स्वामी माना गया है। किस तिथि का स्वामी कौन-सा देवता होता है, इसे नीचे बताया गया है। जिस तिथि के स्वामी का जैसा स्वभाव है, वही स्वभाव उस तिथि का तथा उस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति का भी समझना चाहिए—

तिथि	स्वामी	तिथि	स्वामी
प्रतिपदा	अग्नि	नवमी	दुर्गा
द्वितीया	ब्रह्मा	दशमी	काल
तृतीया	गौरी	एकादशी	विश्वेदेवा
चतुर्थी	गणेश	द्वादशी	विष्णु
पंचमी	शेषनाग	त्रयोदशी	कामदेव
षष्ठी	कार्तिकेय	चतुर्दशी	शिव
सप्तमी	सूर्य	पूर्णिमा	चन्द्रमा
अष्टमी	शिव	अमावस्या	पितर

नक्षत्र

ज्योतिषियों ने सम्पूर्ण आकाश-मण्डल को २७ भागों में विभक्त कर, प्रत्येक भाग को एक-एक 'नक्षत्र' की संज्ञा दी है। अर्थात् जिस प्रकार पृथ्वी पर स्थान की दूरी को किलोमीटर आदि में नापा जाता है, उसी प्रकार आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को नक्षत्रों के माध्यम से नापा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर नापने की दूरी में किलोमीटर के अन्तर्गत मीटर, सेन्टीमीटर आदि होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्र को भी ४ चरण तथा ६० अंकों में विभाजित किया गया है। नक्षत्रों के 'अंश' को 'घटी' नाम से भी सम्बोधित किया जाता है।

नक्षत्रों के नाम क्रमशः निम्नानुसार हैं—

१ अश्विनी	८ पुष्य	१५ स्वाति	२२ श्रवण
२ भरणी	९ अश्लेषा	१६ विशाखा	२३ धनिष्ठा
३ कृत्तिका	१० मघा	१७ अनुराधा	२४ शतभिषा
४ रोहिणी	११ पूर्वाफाल्गुनी	१८ ज्येष्ठा	२५ पूर्वाभाद्रपद
५ मृगशिरा	१२ उत्तराफाल्गुनी	१९ मूल	२६ उत्तराभाद्रपद
६ आर्द्रा	१३ हस्त	२० पूर्वाषाढा	२७ रेवती
७ पुनर्वसु	१४ चित्रा	२१ उत्तराषाढा	

उत्तराषाढा की अन्तिम १५ घटी तथा श्रवण नक्षत्र की पहली ४ घड़ी— इस प्रकार कुल १९ घड़ी का एक नक्षत्र 'अभिजित्' भी माना जाता है। 'अभिजित्' सहित नक्षत्रों की कुल संख्या २८ हो जाती है। २८ नक्षत्रों के क्रम में अभिजित् २२वाँ नक्षत्र माना जाता है उसके बाद श्रवण से रेवती पर्यन्त क्रमशः २३ से २८ तक की संख्या वाले नक्षत्र माने जाते हैं।

नक्षत्रों के स्वामी

पूर्वोक्त २८ नक्षत्रों के स्वामी २८ विभिन्न देवता माने गये हैं। जिस देवता का जो स्वभाव है, उसी के अनुरूप नक्षत्र तथा उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव भी माना जाता है। विभिन्न नक्षत्रों के स्वामी निम्नानुसार हैं—

नक्षत्र	स्वामी	नक्षत्र	स्वामी
१ अश्विनी	अश्विनीकुमार	१५ स्वाति	पवन
२ भरणी	काल	१६ विशाखा	शुक्राग्नि
३ कृत्तिका	अग्नि	१७ अनुराधा	मित्र
४ रोहिणी	ब्रह्मा	१८ ज्येष्ठा	इन्द्र
५ मृगशिरा	चन्द्रमा	१९ मूल	निऋति
६ आर्द्रा	रुद्र	२० पूर्वाषाढा	जल
७ पुनर्वसु	अदिति	२१ उत्तराषाढा	विश्वेदेवा
८ पुष्य	बृहस्पति	२२ अभिजित्	ब्रह्मा
९ अश्लेषा	सर्प	२३ श्रवण	विष्णु
१० मघा	पितर	२४ धनिष्ठा	वसु
११ पूर्वाफाल्गुनी	भग	२५ शतभिषा	वरुण
१२ उत्तराफाल्गुनी	अर्यमा	२६ पूर्वाभाद्रपद	अजंकपाद
१३ हस्त	सूर्य	२७ उत्तराभाद्रपद	अहिर्बुध्न्य
१४ चित्रा	विश्वकर्मा	२८ रेवती	पूषा

नक्षत्रों के चरणाक्षर

ऊपर बताया जा चुका है कि प्रत्येक नक्षत्र को ४ चरण तथा ६० अंशों में विभाजित किया गया है। ज्योतिषियों के प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण का एक-एक 'अक्षर' भी निर्धारित किया है। जिस नक्षत्र के जिस चरण के लिए जो अक्षर निश्चित है, उसका उल्लेख नीचे किया गया है। जो मनुष्य जिस नक्षत्र के जिस चरण के भोग-काल में जन्म लेता है, उसका नाम उसी चरणाक्षर के आधार पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ हो तो उसका नाम का आदि अक्षर 'चो' होगा और उसी के आधार पर उसका नाम 'चोवसिंह', 'चोइयराम' आदि रखा जाएगा।

किस नक्षत्र के किस चरण के लिए कौनसा अक्षर नियत है, इसे निम्नानुसार समझ लें।

नक्षत्र नाम	चरणाक्षर				नक्षत्र नाम	चरणाक्षर			
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
१. अश्विनी	च	ले	वा	ला	१५. स्वाति	रु	रे	रो	ता
२. भरणी	लो	लू	ले	लो	१६. विशाखा	ती	तू	ते	तो
३. कृत्तिका	आ	ई	ऊ	ए	१७. अनुराधा	ना	नी	नू	ने
४. रोहिणी	ओ	बा	बी	बू	१८. ज्येष्ठा	नो	या	यी	यू
५. मृगशिरा	वे	बो	का	की	१९. मूल	ये	यो	भा	भी
६. आर्द्रा	कू	ष	ऊ	छ	२०. पूर्वाषाढ़ा	भू	धा	फा	ढा
७. पुनर्वसु	के	को	हा	ही	२१. उत्तराषाढ़ा	भे	भो	जा	जी
८. पुष्य	हू	हे	हो	डा	२२. अभिजित्	जू	जे	जो	खा
९. अश्लेषा	डो	डू	डे	डो	२३. श्रवण	खी	खू	के	खो
१०. मघा	मा	मी	मू	मे	२४. धनिष्ठा	गा	गी	गू	गे
११. पू. फाल्गुनी	मो	टा	टी	टू	२५. शतभिषा	गो	सा	सी	सू
१२. उ. फाल्गुनी	टे	टो	पा	पी	२६. पू. भाद्रपद	से	सो	दा	दी
१३. हस्त	पू	ष	ण	ठ	२७. उ. भाद्रपद	दू	ध	झ	जा
१४. चित्रा	पे	पो	रा	री	२८. रेवती	दो	धो	धा	धी

वार

भारतीय ज्योतिष के अनुसार आकाश-मण्डल में मुख्य ग्रहों की संख्या ७ है। ये ग्रह हैं—(१) शनि, (२) बृहस्पति, (३) मंगल, (४) रवि, (५) बुध, (६) शुक्र और (७) चन्द्रमा। इन ग्रहों की अवस्थिति क्रमशः एक दूसरे से नीचे है। अर्थात् शनि की कक्षा सबसे ऊपर तथा चन्द्रमा की कक्षा सबसे नीचे है।

एक दिन-रात २४ घंटे का होता है। ज्योतिष में एक घंटे के समय के लिए 'होरा' शब्द प्रचलित है। यह 'होरा' शब्द 'अहोरात्र' शब्द का संक्षिप्त रूप है अर्थात्

‘अहोरात्र’ शब्द में से ‘अहो’ का अन्तिम अक्षर ‘हो’ तथा ‘रात्र’ का आदि अक्षर ‘रा’ लेकर ‘होरा’ शब्द का निर्माण हुआ है। इस तरह ‘होरा’ शब्द को घण्टे का पर्याय-वाची भी कहा जा सकता है।

सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम सूर्य दिखाई दिया, अतः पहली ‘होरा’ का स्वामी ‘सूर्य’ को माना गया तथा सृष्टि के पहले दिन का नामकरण किया गया—‘रविवार’ अर्थात् सूर्यवार। तत्पश्चात् अगली प्रत्येक होरा पर अन्य एक-एक ग्रह का अधिकार माना गया। फलतः एक दूसरे के समीपी क्रम में दूसरी होरा का स्वामी शुक्र, तीसरी का बुध, चौथी का चन्द्रमा, पाँचवीं का शनि, छठी का बृहस्पति तथा सातवीं का मंगल हुआ। इसी क्रम के पुनरावर्तन के फलस्वरूप पहले दिन की चौबीसवीं अर्थात् अन्तिम होरा बुध के स्वामित्व पर समाप्त हुई, तब दूसरे दिन की पहली होरा का स्वामी चन्द्रमा हुआ, अतः उस दिन का नाम रखा गया—सोमवार अर्थात् चन्द्रवार। इसी क्रमानुसार तीसरे दिन की पहली होरा का स्वामी ‘मंगल’, चौथे दिन का बुध, पाँचवें दिन का बृहस्पति, छठे दिन का शुक्र तथा सातवें दिन की पहली होरा का स्वामी शनि हुआ। फलतः सृष्टि के पहले वारों का क्रम हुआ—(१) रविवार, (२) सोमवार, (३) मंगलवार, (४) बुधवार, (५) गुरुवार, (६) शुक्रवार और (७) शनिवार। आठवें दिन फिर पहली होरा का स्वामी सूर्य हुआ। इसी क्रम से अगले दिनों की पहली होरा के स्वामी पूर्ववत् ग्रह होते चले आ रहे हैं। अस्तु उन सात वारों का चक्र निरन्तर चल रहा है। सात दिनों के इस समूह को ही ‘सप्ताह’ कहा जाता है।

प्रत्येक वार का स्वामी उसी का अधिपति ग्रह होता है। गुरु, सोम, बुध तथा शुक्र—इन चार वारों को ‘सौम्य’ तथा मंगल, रवि एवं शनि—इन तीन वारों को ‘क्रूर’ संज्ञक माना गया है। जिस वार के स्वामी का जैसा स्वभाव है, वही स्वभाव उस वार का तथा उस वार में जन्म लेने वाले जातक का भी माना जाता है।

राशि

जिस प्रकार सम्पूर्ण खमण्डल को २७ या २८ नक्षत्रों में बांटा गया है, उसी प्रकार उसे १२ राशि, १०८ भाग यथा ३६० अंशों में भी बांटा गया है। बारह राशियों के नाम इस प्रकार हैं—

१. मेष	४. कर्क	७. तुला	१०. मकर
२. वृष	५. सिंह	८. वृश्चिक	११. कुम्भ
३. मिथुन	६. कन्या	९. धनु	१२. मीन

अस्तु, खमण्डल अर्थात् भ-चक्र के ३० अंश अथवा ९ भागों की एक राशि होती है। पहले बताया जा चुका है कि एक-एक नक्षत्र को चार-चार भागों में बाँटा

गया है और प्रत्येक भाग के लिए एक-एक चरणाक्षर भी निश्चित किया गया है अस्तु २७ नक्षत्रों के कुल १०८ भाग अर्थात् 'चरण' हुए और एक राशि के अन्तर्गत आये ६ भाग अर्थात् नक्षत्रों के ६ चरण । इस प्रकार सवा दो नक्षत्रों की हुई एक राशि ।

किस राशि के अन्तर्गत कौन-कौन सा नक्षत्र समाहित है, इसे नक्षत्रों के चरणाक्षरों के आधार पर निम्नानुसार समझ लेना चाहिए—

राशि का नाम	राशि के चरणाक्षर
१. मेष	चू वे चो ला ली लू ले लो आ
२. वृष	ई ऊ ए ओ वा वी वू वे वो
३. मिथुन	का की कू ष ड छ के को हा
४. कर्क	ही हू हे हो डा डी डू डे डो
५. सिंह	मा भी मू मे मो टा टी टू टे
६. कन्या	टो पा पी पू ष ण ठ पे पो
७. तुला	रा री रू रे रो ता ती तू ते
८. वृश्चिक	तो ना नी नू ने नो या यी यू
९. धनु	ये यो भा भी भू घा फा ढा भे
१०. मकर	भो जा जी खी खू के खो गा गी
११. कुम्भ	गू गे गो सा सी सू सं सो दा
१२. मीन	दी दू य झ ञ दे दो बा भी

टिप्पणी—'अभिजित्' नक्षत्र के चारों चरणों—जू, जे, जो, जा—की गणना 'मकर' राशि के अन्तर्गत की जाती है ।

ग्रह : उनका स्वभाव और प्रभाव

अकाशमण्डलस्थ असंख्य ज्योतिष्पिण्डों में से जो पिण्ड पृथ्वी स्थित सभी जड़-चेतन पदार्थों को अपने प्रभाव से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उनकी गणना ग्रहों में की जाती है। प्राचीन भारतीय-ज्योतिष में ऐसे ग्रहों की कुल संख्या ७ बताई गई है। वे हैं—१. सूर्य, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. बुध, ५. बृहस्पति, ६. शुक्र और ७. शनि।

परवर्ती ज्योतिषियों ने अपने अनुसन्धानों के बल पर यह सिद्ध किया कि भूमण्डल की दोनों ओर पड़ने वाली छाया भी ग्रहों जैसी ही प्रभावशालिनी है, अतः उन्होंने 'राहु', 'केतु' नामक दो अन्य छायाग्रहों की कल्पना करके ग्रहों की कुल संख्या ९ कर दी।

आधुनिक काल के पाश्चात्य ज्योतिषियों ने आकाशमण्डल में ३ अन्य ग्रहों की भी खोज की है। वे हैं—(१) हर्षल, (२) नेपच्यून और (३) प्लूटो। ये सभी ग्रह पूर्वोक्त ७ ग्रहों से भी अत्यधिक ऊँचाई पर स्थित हैं। इस प्रकार कुल ग्रहों की संख्या १२ हो जाती है। परन्तु भारतीय-ज्योतिष में अभी तक पाश्चात्य ज्योतिषों द्वारा नवीन-आविष्कृत तीन ग्रहों को स्थान नहीं दिया गया है। अतः उसमें छायाग्रह राहु-केतु सहित केवल ९ ग्रहों का ही उल्लेख मिलता है।

चन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्र इन तीन ग्रहों को शुभ ग्रह माना जाता है। बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है, वह जिस ग्रह के साथ बैठता है, उस जैसा ही प्रभाव देता है। सूर्य, मंगल तथा शनि क्रूर ग्रह कहे गये हैं। राहु-केतु की गणना भी क्रूर ग्रहों में की जाती है। परन्तु कुछ विद्वानों के मतानुसार 'केतु' को भी शुभ ग्रह माना जाता है।

उक्त ९ ग्रहों में कौनसा ग्रह किस स्वभाव, बल तथा प्रभाव वाला है तथा उसके द्वारा किन विषयों का विशेष रूप से विचार करना चाहिए, इसे निम्नानुसार समझ लें—

(१) सूर्य—यह ग्रह 'पाप' संज्ञक, पूर्व दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, रक्त-वर्ण एवं पित्त प्रकृति का है। स्नायु, मेरुदण्ड, नेत्र, हृदय आदि अवयवों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। इसके द्वारा आत्मा आरोग्य, स्वभाव, पिता, राज्य, देवालय, शोक, अपमान, कलह तथा रोग—अतिसार, क्षय, मंदाग्नि, मानसिक रोग, नेत्र विकार आदि के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

यह लग्न से सप्तम स्थान में बली एवं मकर से ६ राशियों तक चेष्टा-बली होता है।

(२) **चन्द्र**—यह ग्रह 'शुभ' संज्ञक, पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी, स्त्री जाति, श्वेत वर्ण एवं जलीय प्रकृति का है। यह रक्त का स्वामी तथा वातश्लेष्मा धातु वाला है। इसके द्वारा मन, चित्त वृत्ति, सम्पत्ति, माता, पिता, निरर्थकभ्रमण, राजकीय अनुग्रह, उदर, मस्तिष्क एवं शारीरिक स्वास्थ्य तथा कफज एवं जलीय रोग, स्त्रीजन्य रोग, मानसिक रोग तथा पीनस रोग आदि के विषय में विचार करना चाहिए।

यह लग्न से चतुर्थ स्थान में बली तथा मकर से ६ राशियों तक चेष्टा बली होता है।

कृष्णपक्ष की षष्ठी से शुक्लपक्ष की दशमी तक बहु क्षीण रहता है। इस अवधि में इसे पाप ग्रह तथा क्षीण माना जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक यह पूर्ण ज्योतिर्मान्, बली तथा शुभ ग्रह माना है।

चतुर्थभाव में बली चन्द्रमा ही पूर्ण फलदायी होता है, क्षीण चन्द्रमा नहीं।

(३) **मङ्गल**—यह ग्रह 'पाप' संज्ञक, दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, रक्त वर्ण, पित्त प्रकृति तथा अग्नि तत्व वाला है। यह उत्तेजक, तृष्णाकारक तथा दुःखदायी है। इसके द्वारा धैर्य, पराक्रम, भाई-बहिन, शक्ति तथा रक्त सम्बन्धी विचार करना चाहिए।

यह तीसरे तथा छठे स्थान में बली, दशम स्थान में दिग्बली। चन्द्रमा के साथ चेष्टा बली तथा द्वितीय भाव में बलहीन होता है।

(४) **बुध**—यह ग्रह 'नर्पसक', संज्ञक उत्तर दिशा का स्वामी, श्यामवर्ण, त्रिदोष तथा पृथ्वी तत्व वाला है। यह व्यवसाय, चिकित्सा, ज्योतिष, शिल्प, कानून, चतुर्थ एवं दशम स्थान का कारक है। इसके द्वारा बुद्धिभ्रम, विवेक, शक्ति, जिज्ञा एवं तालु से उच्चारण किये जाने वाले शब्द एवं अवयव तथा गुप्त रोग, श्वेतकृष्ठ, गुंजापन, वातरोग, संग्रहणी आदि का विचार किया जाता है।

बुध चतुर्थ स्थान में 'निर्बल' होता है। यह जैसे ग्रह के साथ बैठा हो उसी के स्वभाव का बन कर, शुभ अथवा अशुभ फल देने वाला शुभग्रह अथवा पापग्रह बन जाता है। पूर्ण चन्द्र, गुरु तथा शुक के साथ शुभ फलदायक तथा सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ अशुभ फलदाता होता है। यदि यह अकेला हो तो शुभ फल देता है।

(५) **बृहस्पति**—यह ग्रह 'शुभ' संज्ञक, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, पीतवर्ण तथा आकाश तत्व वाला है। यह हृदय की शक्ति का कारक है। इसके द्वारा पारलौकिक सुख, आध्यात्मिक-सुख, धर, विद्या, पुत्र, पीत तथा शोध, गुल्म आदि रोगों का विचार किया जाता है।

लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति बली तथा चन्द्रमा के साथ कहीं भी बैठा हुआ चेष्टा-बली होता है।

(६) **शुक्र**—यह ग्रह 'शुभ' संज्ञक, दक्षिण-पूर्व दिशा का स्वामी, श्याम-गौर वर्ण तथा जलीय तत्त्व वाला है। यह कफ, वीर्य आदि धातुओं तथा काव्य-संगीत, वाहन, शय्या, कामेच्छा, पत्नी (स्त्री), आँख, वस्त्राभूषण आदि का कारक है। इसके द्वारा सांसारिक-सुख, व्यावहारिक-सुख, एवं चातुर्य का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो इसके द्वारा उसकी माता के सम्बन्ध में भी विचार किया जाता है।

यह छठे स्थान में निष्फल तथा सातवें स्थान में अनिष्टकर होता है।

(७) **शनि**—यह ग्रह 'क्रूर' संज्ञक, नपुंसक जाति, पश्चिम दिशा का स्वामी कृष्णवर्ण, वातश्लेमिक प्रकृति का तथा वायुतत्त्व वाला है। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, दृढ़ता, ऐश्वर्य, यश, मोक्ष, योगाभ्यास, नौकरी, विदेशी भाषा, विपत्ति एवं मूर्च्छा आदि रोगों का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो तो यह ग्रह माता-पिता का कारक होता है। पापग्रह होने पर भी इसका अन्तिम परिणाम सुखदायक होता है। यह जातक को दुर्भाग्य एवं संकटों का शिकार बनाने के बाद उसे शुद्ध एवं सात्विक बना देता है।

यह सप्तम स्थान में बली तथा चन्द्रमा अथवा किसी अन्य वक्त्री ग्रह के साथ रहने पर चेष्टा बली होता है।

(८) **राहु**—यह ग्रह 'क्रूर' संज्ञक, दक्षिण दिशा का स्वामी तथा कृष्णवर्ण है। यह गुप्त युक्ति-बल, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है। यह जिस स्थान में बैठता है वहाँ की उन्नति को रोक देता है।

(९) **केतु**—यह ग्रह 'क्रूर' संज्ञक, उत्तर दिशा का स्वामी तथा कृष्णवर्ण है। कुछ विद्वान इसे 'शुभ ग्रह' भी मानते हैं। यह गुप्त-शक्ति-बल, कठिन कर्म, भय एवं त्रुटियों का कारक है। इसके द्वारा जातक के हाथ-पाँव, क्षुधाजनित कष्ट, माता-मह (नाना) एवं चर्म रोगों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

राशि : उनका स्वभाव और प्रभाव

कुल राशियाँ १२ हैं। किस राशि का क्या स्वभाव, प्रभाव है तथा उसके द्वारा किन विषयों का विशेष रूप से विचार किया जाता है, निम्नानुसार समझ लें—

(१) **मेघ**—यह राशि 'पुरुष' जाति, पूर्व दिशा की स्वामिनी, लाल-पीले रंग वाली, कान्तिहीन, क्षत्रिय वर्ण, चर-संज्ञक, अग्नि तत्त्व, समान अंग, अल्प-सन्तति तथा पित्त प्रकृति वाली है। यह अहंकारी, साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालु-स्वभाव

रखने वाली है। इसके द्वारा जातक के मस्तक के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(२) वृष—यह राशि 'स्त्री' जाति, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, श्वेत रंग वाली, कान्ति-हीन, वैश्य वर्ण, स्थिर संज्ञक, शिथिल शरीर, शुभकारक, महा कष्टकारी तथा भूमितत्त्व वाली है। यह स्वार्थी तथा सांसारिक कार्यों में दक्षता एवं बुद्धिमत्ता से काम लेने वाली है। इसके द्वारा जातक के मुँह तथा कगोलों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। इसे 'अर्द्ध जलराशि' भी कहते हैं।

(३) मिथुन—यह राशि 'पुरुष' जाति, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, हरित रंग, चिकनी, उष्ण स्वभाव, शूद्रवर्ण, शिथिल शरीर, विपमोदयी तथा महाशब्दकारी है। यह शिल्पी तथा विद्या-व्यसनी स्वभाव की है। इसके द्वारा जातक के स्कन्ध तथा बाहुओं के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(४) कर्क—यह राशि 'स्त्री' जाति, उत्तर दिशा की स्वामिनी, रक्त-धवल मिश्रित रंग वाली, जलचारी, सौम्य, कफ प्रकृति, बहु सन्ततिवान्, बहुत पावों वाली, रात्रिबली एवं समोदयी है। यह लज्जालु स्वभाव की, समयानुसार चलने वाली तथा सांसारिक उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने वाली है। इसके द्वारा जातक के वक्षस्थल एवं गुदों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(५) सिंह—यह राशि 'पुरुष' जाति, पूर्व दिशा की स्वामिनी, पीले रंग वाली, क्षत्रिय वर्ण, उष्ण-स्वभाव, पुष्ट शरीर, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्त्व वाली, निर्जल एवं अल्प सन्ततिवान् है। इसका स्वभाव मेष राशि जैसा है, परन्तु इसमें स्वातन्त्र्य-प्रियता एवं उदारता अधिक है। इसके द्वारा जातक के हृदय के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(६) कन्या—यह राशि 'स्त्री' जाति, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, पिगल रंग वाली, द्वि-स्वभाव, पृथ्वीतत्त्व वाली, वायु एवं शीत-प्रकृति, अल्प सन्ततिवान् तथा रात्रिबली है। इसका स्वभाव मिथुन राशि जैसा है, परन्तु यह अपनी उन्नति एवं सम्मान पर अधिक ध्यान देती है। इसके द्वारा जातक के पेट के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(७) तुला—यह राशि 'पुरुष' जाति, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, श्याम रंग की, शूद्रवर्ण, क्रूर-स्वभाव, वायुतत्त्व वाली, शीर्षोदयी, चर-संज्ञक, दिनबली, अल्प सन्ततिवान् एवं पादजलराशि है। यह स्वभाव से ज्ञानप्रिय, राजनीतिक, विचारशील तथा कार्य-सम्पादक है। इसके द्वारा जातक के नाभि से नीचे के अंगों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(८) वृश्चिक—यह राशि 'स्त्री' जाति, उत्तर दिशा की स्वामिनी, सुभ्र रंग वाली, ब्राह्मणवर्ण, कफ प्रकृति, रात्रि बली, अर्द्धजल तत्त्व वाली तथा बहु सन्ततिवान्

है। इसका स्वभाव निर्मल, स्पष्टवादी, हठी, दम्भी तथा दृढ़-प्रतिज्ञ है। इसके द्वारा जातक की जननेन्द्रिय के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(९) धनु—यह राशि 'पुरुष' जाति, पूर्व दिशा की स्वामिनी, सुनहरे रंग वाली, क्षत्रियवर्ण, अग्नि तत्त्व वाली, पित्त-प्रकृति, द्वि-स्वभाव, दिनबली, दृढ़-शरीर, अल्प सन्ततिवान् तथा अर्द्धजल राशि है। इसका स्वभाव करुणामय, अधिकार प्रिय तथा मर्यादा युक्त है। इसके द्वारा जातक के पाँवों की संधि एवं जाँघों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(१०) मकर—यह राशि 'स्त्री' जाति, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, पिगल रंग की, वैश्य वर्ण, पृथ्वी तत्त्व वाली, शिथिल शरीर, वात प्रकृति तथा रात्रिबली है। इसका स्वभाव उच्चस्थिति का अभिलाषी है। इसके द्वारा जातक के पाँवों के घुटनों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(११) कुम्भ—यह राशि 'पुरुष' जाति, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, विचित्र रंग वाली, शूद्र वर्ण, वायुतत्त्व एवं त्रिदोष प्रकृति वाली, उष्ण-स्वभाव, क्रूर, मध्यम सन्तति वाली, दिनबली तथा शीर्षोदयी है। इसका स्वभाव नवीन वस्तुओं का आविष्कारक, विचारशील, धार्मिक तथा शान्त है। इसके द्वारा जातक के पेट के भीतरी भागों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(१२) मीन—यह राशि 'स्त्री' जाति, उत्तर दिशा की स्वामिनी, पिगल रंग वाली, ब्राह्मणवर्ण, कफ प्रकृति, जल तत्त्ववाली तथा रात्रिबली है। यह पूर्णतः जल-राशि है। इसका स्वभाव श्रेष्ठ, दयालु तथा दानशीलता का है। इसके द्वारा जातक के पाँवों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

राशियों के स्वामी

विभिन्न राशियों के विभिन्न ग्रहस्वामी माने गये हैं। कौनसा ग्रह किस राशि का स्वामी है, इसे निम्नानुसार समझना चाहिए—

मेघ एवं वृश्चिक—इन दोनों राशियों का स्वामी 'मंगल' है।

१ २

वृष एवं तुला—इन दोनों राशियों का स्वामी 'शुक्र' है।

२ ७

मिथुन एवं कन्या—इन दोनों राशियों का स्वामी 'बुध' है।

३ ६

कर्क—इस राशि का स्वामी 'चन्द्रमा' है।

४

सिंह—इस राशि का स्वामी 'सूर्य' है।

५

धनु एवं मीन—इन दोनों राशियों का स्वामी 'वृहस्पति' है।

६ १२

मकर एवं कुम्भ—इन दोनों राशियों का स्वामी 'शनि' है।

१० ११

द्विप्यणी—राहु तथा केतु छाया-ग्रह होने के कारण किसी राशि के स्वामी नहीं माने जाते, परन्तु कुछ ज्योतिर्विद बुध की राशि 'कन्या' पर 'राहु' तथा 'मिथुन' पर 'केतु' का भी आधिपत्य स्वीकार करते हैं।

राशीश बोधक चक्र

राशि	स्वामी	राशि	स्वामी
१. मेष	मंगल	७. तुला	शुक्र
२. वृष	शुक्र	८. वृश्चिक	मंगल
३. मिथुन	बुध/केतु	९. धनु	वृहस्पति
४. कर्क	चन्द्रमा	१०. मकर	शनि
५. सिंह	सूर्य	११. कुम्भ	शनि
६. कन्या	बुध/राहु	१२. मीन	वृहस्पति

ग्रहों का राशि-भोग काल

भ-चक्र में सभी ग्रह क्रमशः सभी राशियों में विचरण करते हैं। कौनसा ग्रह एक राशि में कितने समय तक ठहरता है, इसे निम्नानुसार समझना चाहिए—

ग्रह का नाम	एक राशि पर ठहरने की अवधि	ग्रह का नाम	एक राशि पर ठहरने की अवधि
१. सूर्य	एक मास	६. शुक्र	पौन मास
२. चन्द्र	सवा दो दिन	७. शनि	ढाई वर्ष
३. मंगल	ढेढ़ मास	८. राहु	ढेढ़ वर्ष
४. बुध	पौन मास	९. केतु	ढेढ़ वर्ष
५. वृहस्पति	तेरह मास		

ग्रहों की बन्की तथा अतिचारी गति

सूर्य, चन्द्र, राहु तथा केतु—इन चार ग्रहों के अतिरिक्त शेष पाँचों ग्रह—अर्थात् मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि—कभी-कभी बन्की अथवा अतिचारी हो जाते हैं।

ग्रह के राशियों में क्रमशः परिभ्रमण को 'मार्गी', शीघ्रतापूर्वक परिभ्रमण को 'अतिचारी' तथा अगली राशि की ओर बढ़ने की बजाय पीछे की राशि में लौट पड़ने को 'बन्की' गति कहा जाता है।

अतिचारी तथा बन्की ग्रह एक राशि पर अपने भ्रमण को निश्चित अवधि में पूरा करने की बजाय कुछ आगे पीछे भी हो जाते हैं। आकाश-मण्डल में किस समय कौनसा ग्रह मार्गी, बन्की अथवा अतिचारी चल रहा है, इसका ज्ञान पंचांग देखकर हो सकता है। जातक के जन्म के समय जो ग्रह आकाश-मण्डल में जिस गति से भ्रमण कर रहा होता है उसका वैसे ही प्रभाव जातक के ऊपर जीवन भर पड़ता रहता है।

ग्रहों की नैसर्गिक-मैत्री

कौनसा ग्रह किस ग्रह का मित्र, सम अथवा शत्रु है, इसे नीचे प्रदर्शित 'निसर्ग मैत्री चक्र' में देख कर समझ लेना चाहिए—

निसर्ग मैत्री चक्र

सम्बन्ध का स्वरूप	ग्रहों के नाम						
	सूर्य	चन्द्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
मित्र	चन्द्र मंगल गुरु	सूर्य बुध	सूर्य चन्द्र गुरु	सूर्य शुक्र	सूर्य चन्द्र मंगल	बुध शनि	बुध शुक्र
सम	बुध	मंगल बुध शुक्र शनि गुरु	शुक्र शनि	मंगल गुरु शनि	शनि	मंगल गुरु	गुरु
शत्रु	शुक्र शनि		बुध	चन्द्र	शुक्र बुध	सूर्य चन्द्र	सूर्य चन्द्र मंगल

टिप्पणी (१)—कुछ विद्वानों के मतानुसार चन्द्रमा गुरु से शत्रुता मानते हैं।

(२) राहु केतु छायाग्रह हैं, अतः 'निसर्ग मंत्री चक्र' में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु ये दोनों ग्रह शुक्र तथा शनि से मित्रता मानते हैं तथा सूर्य, चन्द्र, मंगल, एवं गुरु—इन चारों से शत्रुता रखते हैं। बुध इन दोनों के लिए सम है। इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र, मंगल और गुरु—ये चारों ग्रह राहु तथा केतु से शत्रुता मानते हैं, बुध इन दोनों से समभाव रखता है तथा शुक्र और शनि इन दोनों से मित्रता मानते हैं।

ग्रहों के अंश

प्रत्येक ग्रह के ३० अंश होते हैं। 'जातक के जन्म के समय कौनसा ग्रह कितने अंश पर था', इसका ज्ञान उस समय के पंचांग द्वारा ज्ञात हो सकता है। इस विषय में किसी ज्योतिषी से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

३ से ९ अंश तक का ग्रह किशोरावस्था का, १० से २२ अंश तक युवावस्था का, २३ से २८ अंश तक वृद्धावस्था का तथा २९ से २ अंश (२९, ३०, १ और २) तक मृतक अवस्था का माना जाता है।

किशोर एवं वृद्धावस्था वाले ग्रह बालक पर अपना प्रभाव अल्प परिमाण में तथा युवावस्था वाले ग्रह पूर्व परिमाण में प्रकट करते हैं। मृतक-अवस्था वाले ग्रहों का प्रभाव न के बराबर होता है।


जन्म कुण्डली के द्वादशभाव

जन्म-कुण्डली इस बात की परिचायक है कि जातक के जन्म के समय आकाश-मण्डल में कौन-सा ग्रह, किस राशि में, कितने अंशों पर परिभ्रमण कर रहा था। बारह राशियों के प्रतीक रूप जन्म-कुण्डली में बारह खाने होते हैं, जिन्हें 'भाव', 'स्थान' अथवा 'घर' आदि नामों से पुकारा जाता है।

जन्म-कुण्डली के द्वादशभावों के नाम निम्नलिखित हैं—

- | | | |
|--------------------|-------------------|------------|
| (१) तनु, | (२) धन, | (३) सहज, |
| (४) सुहृद्, | (५) पुत्र, | (६) रिपु, |
| (७) जाया (स्त्री), | (८) आयु, | (९) धर्म, |
| (१०) कर्म, | (११) माय (साध) और | (१२) व्यय। |

जन्म-कुण्डली के द्वादशभाव



३

उक्त भावों को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। द्वादश भावों के विभिन्न नाम तथा किस भाव द्वारा किन-किन विषयों का विचार किया जाता है, इसे निम्नानुसार समझना चाहिए—

(१) **पहला भाव**—इसे प्रथम, तनु, लग्न, केतु आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के स्वरूप, आकृति, आयु, चिह्न, जाति, मस्तिष्क, विवेक, शील, सुख-दुःख आदि के विषय में विचार किया जाता है। लग्नेश की स्थिति एवं बलाबल के आधार पर जातक की कार्यकुशलता एवं जातीय-उन्नति-अवनति का ज्ञान भी इसी भाव से प्राप्त होता है।

इस भाव का कारक 'सूर्य' है। यदि इस भाव में मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुम्भ—इनमें से कोई राशि हो तो उसे बलवान माना जाता है।

(२) **दूसरा भाव**—इसे द्वितीय, धन, वित्त, पणफर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के स्वर, सौन्दर्य, सत्यवादन, आंख, नाक, कान, कुल, कुटुम्ब मित्त, सुखोपभोग, बन्धन, गायन, क्रय-विक्रय, रत्न, स्वर्ण-चाँदी, धन, संचित पूँजी आदि के विषय में विचार किया जाता है।

(३) **तीसरा भाव**—इसे तृतीय, सहज पराक्रम, मातृ, आपोक्लिम आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के पराक्रम, शौर्य, धैर्य, साहस, कर्म, सहोदर, सेवक, आयुष्य, काम, योगाभ्यास तथा क्षय-श्वास, दमा आदि रोगों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

(४) **चौथा भाव**—इसे चतुर्थ, सुहृद्, सुख, केन्द्र आदि नामों से भी पुकारा

जाता है। इसके द्वारा जातक की माता, पिता का सुख, अन्तःकरण, घर, गांव, उपवन, चतुष्पद, सम्पत्ति, वाहन, निधि, दयालुता, उदारता, छल-कपट तथा यकृत एवं उदर रोग आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। यह स्थान विशेष कर 'माता' का है।

इस भाव के कारक चन्द्रमा तथा बुध हैं।

(५) **पाँचवाँ भाव**—इसे पंचम, सुत, विद्या, पणफर, त्रिकोण आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक की विद्या, बुद्धि, सन्तान, विनय, नीति, प्रबन्ध-कुशलता, देवभक्ति, धन प्राप्ति के उपाय, आकस्मिक-धन की प्राप्ति, नौकरी छूटना, मामा का सुख, हाथ का यश तथा बस्ति, गर्भाशय, मूत्रपिण्ड आदि के विषय में विचार किया जाता है।

इस भाव का कारक गुरु है।

(६) **छठा भाव**—इसे षष्ठ, रिपु, त्रिक, उपचय, आपोक्लिम आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के शत्रु, चिन्ता, सन्देह, जागीर, यश, मामा की स्थिति, गुदा तथा पीड़ा, व्रण, रोग आदि के विषय में विचार किया जाता है।

इस भाव के कारक शनि तथा मंगल हैं।

(७) **सातवाँ भाव**—इसे सप्तम, जाया, केतु आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक की स्त्री, कामेच्छा, काम चिन्ता, रमणशक्ति, विवाह, स्वास्थ्य, मित्र, दैनिक आय, व्यवसाय, झगड़े-झंझट, जननेन्द्रिय तथा बवासीर की बीमारी आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

इस भाव में 'वृश्चिक' राशि को बलवान मानते हैं।

(८) **आठवाँ भाव**—इसे अष्टम, आयु, जीवन, मृत्यु, चतुरस्र, पणफर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक की आयु, जीवन, मृत्यु, मृत्यु के कारण, मानसिक चिन्ताएँ, पुरातत्त्व, संकट, ऋण, समुद्र-यात्रा, जननेन्द्रियों के रोग आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

इस भाव का कारक 'शनि' है।

(९) **नवाँ भाव**—इसे नवम, धर्म, भाग्य, त्रिकोण आदि नामों से पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के पुण्य, धर्म, तप, शील, तीर्थ-यात्रा, दान, प्रवाम, विद्या, मानसिक वृत्ति, पिता का सुख एवं भाग्योदय आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

इस भाव के कारक 'सूर्य' तथा 'गुरु' हैं।

(१०) **दसवाँ भाग**—इसे दशम, कर्म, राज्य, केन्द्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के ऐश्वर्य-भोग, यश, नेतृत्व, प्रभुत्व, मम्मन, राज्य-संबंध व्यवसाय, नौकरी, अधिकार तथा पिता के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

इस भाव में मेष, वृष तथा सिंह राशियां, धनु राशि का उत्तरार्द्ध तथा मकर राशि का पूर्वार्द्ध बलवान होता है।

इस भाव के कारक सूर्य, बुध, गुरु तथा शनि हैं।

(११) ग्याहवाँ भाव—इसे एकादश, लाभ, आय, उपचय, पणफर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक की आय, सम्पत्ति, ऐश्वर्य, रत्न, वाहन, मांगलिक-कार्य आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।


इस भाव का कारक 'गुरु' है।

(१२) बारहवाँ भाव—इसे द्वादश, व्यय, त्रिक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के व्यय, व्यसन, दान, बाहरी-सम्बन्ध, यात्रा, रोग, दण्ड, हानि आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

इस भाव का कारक 'शनि' है।

विभिन्न भावों से प्रमुख विचारणीय विषय निम्नांकित कुण्डली चक्र में प्रदर्शित हैं :—

विभिन्न भावों - विचारणीय विषय



विभिन्न भाव के कारक ग्रहों को आगे दिए गए कुण्डलीचक्र में प्रदर्शित किया गया है—

विभिन्न भावों के कारक

द्वितीय	प्रथम सूर्य	द्वादश शनि
तृतीय	चतुर्थ चन्द्र, बुध	सकादश गुरु
पंचम गुरु	सप्तम	दशम सूर्य, बुध, गुरु, शनि
षष्ठ शनि, मंगल	अष्टम शनि	नवम सूर्य, गुरु

५

भावों की त्रिकोण, केन्द्रादि संज्ञा

भावों की (१) त्रिकोण, (२) केन्द्र, (३) पणफर, (४) आपोक्लिम तथा (५) मारक—ये पांच विशिष्ट संज्ञाएँ भी हैं, इनके विषय में नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए—

(१) **त्रिकोण**—पाँचवें तथा नवें भाव को 'त्रिकोण' कहते हैं।

(२) **केन्द्र**—पहले, चौथे, सातवें तथा दसवें—इन चारों भावों को 'केन्द्र' कहा जाता है।


(३) **पणफर**—दूसरे, पाँचवें, आठवें तथा ग्यारहवें—इन चारों भावों को 'पणफर' कहा जाता है।

(४) **अपोक्लिम**—तीसरे, छठे, नवें तथा बारहवें—इन चारों भावों को 'अपोक्लिम' कहा जाता है।

(५) **मारक**—दूसरे तथा सातवें भाव को 'मारक' कहा जाता है।

टिप्पणी—कुछ विद्वान् दूसरे तथा दसवें भाव को 'पणफर' तथा तीसरे और ग्यारहवें भाव को 'अपोक्लिम' मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान् छठे तथा आठवें भाव को 'पणफर' तथा दूसरे और बारहवें भाव को 'अपोक्लिम' मानते हैं।

त्रिकोणादि बोधक चक्र



टिप्पणी—मतान्तरों को कुण्डली चक्र के कोष्ठकों में प्रदर्शित किया गया है ।

मूल त्रिकोण

निम्नानुसार जो ग्रह जिस राशि के जितने अंश पर हो उसे मूल त्रिकोण-स्थित समझना चाहिए—

१. सूर्य—सिंह राशि में १ से २० अंश तक ।
२. चन्द्र—वृष राशि में ४ से ३० अंश तक ।
३. मंगल—मेष राशि में १ से १८ अंश तक ।
४. बुध—कन्या राशि में १ से १५ अंश तक ।
५. गुरु—धनु राशि में १ से १३ अंश तक ।
६. शुक्र—तुला राशि में १ से १० अंश तक ।
७. शनि—कुम्भ राशि में १ से २० अंश तक ।


टिप्पणी—राहु को कर्क राशि में तथा केतु को मकर राशि में मूल त्रिकोण मत माना जाना है ।

मूल त्रिकोण की राशि एवं ग्रह-बोधक चक्र


ग्रह	सूर्य	चन्द्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	राहु	केतु
राशि	सिंह १ से २० अंश तक	वृष ४ से ३० अंश तक	मेष १ से १८ अंश तक	कन्या १ से १५ अंश तक	धनु १ से १३ अंश तक	तुला १ से १० अंश तक	कुम्भ १ से २० अंश तक	कर्क	मकर

नीचे की पहली ६ उदाहरण कुण्डलियों में विभिन्न ग्रहों को उनके मूल त्रिकोण में स्थित अलग-अलग दिखाया गया है। अन्तिम उदाहरण कुण्डली में सभी ग्रहों को एक साथ अपनी-अपनी मूल त्रिकोण राशियों में स्थित दिखाया गया है। ये सभी कुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं। इन्हीं के आधार पर अन्य लग्न वाली कुण्डलियों के विषय में भी समझ लेना उचित है—


मूल त्रिकोणस्थ 'सूर्य'




मूल त्रिकोणस्थ 'चन्द्र'




मूल त्रिकोणस्थ 'मंगल'




मूल त्रिकोणस्थ 'बुध'




मूल त्रिकोणस्थ 'गुरु'




मूल त्रिकोणस्थ 'शुक्र'




मूल त्रिकोणस्थ 'शनि'




मूल त्रिकोणस्थ 'राहु'



मूल त्रिकोणस्थ 'केतु'



मूल त्रिकोणस्थ 'सभी ग्रह'



ग्रहों की उच्च स्थिति

कौनसा ग्रह किस राशि के कितने अंश बीत जाने पर उच्च का माना जाता है, इसे निम्नानुसार समझना चाहिए—

१. सूर्य—'मेष' राशि के १० अंश पर।
२. चन्द्र—'वृष' राशि के ३ अंश पर।
३. मंगल—'मकर' राशि के २८ अंश पर।
४. बुध—'कन्या' राशि के १५ अंश पर।

५. गुरु—'कर्क' राशि के ५ अंश पर ।
६. शुक्र—'मीन' राशि के २७ अंश पर ।
७. शनि—'तुला' राशि के २० अंश पर ।

टिप्पणी—कुछ विद्वान् मिथुन राशि के १५ अंश पर तथा कुछ वृष राशि में 'राहु' को उच्च मानते हैं । इसी प्रकार, कुछ के मत में धनु राशि के १५ अंश पर तथा कुछ वृश्चिक राशि में 'केतु' को उच्च का मानते हैं ।

ग्रहों की नीच स्थिति

जिस ग्रह को जिस राशि के जितने अंशों पर उच्च का माना जाता है, उससे सातवीं राशि पर उतने ही अंशों में वह नीच का माना जाता है । यथा—

१. सूर्य—'तुला' राशि के १० अंश पर ।
२. चन्द्र—'वृश्चिक' राशि के ३ अंश पर ।
३. मंगल—'कर्क' राशि के २८ अंश पर ।
४. बुध—'मीन' राशि के १५ अंश पर ।
५. गुरु—'मकर' राशि के ५ अंश पर ।
६. शुक्र—'कन्या' राशि के २७ अंश पर ।
७. शनि—'मेष' राशि के २० अंश पर ।

• टिप्पणी—कुछ विद्वानों के मतानुसार 'राहु' धनु राशि के १५ अंश पर तथा कुछ के मतानुसार वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है । इसी प्रकार, कुछ के मत में मिथुन राशि के १५ अंश तक तथा कुछ वृष राशि में 'केतु' को नीच का मानते हैं ।

ग्रहों का बलाबल

ग्रहों के बल चार प्रकार के कहे गये हैं—

१. सर्वोच्चबली—उच्च का होने पर ।
२. उच्च बली—मूल त्रिकोण में होने पर ।
३. बली—स्वक्षेत्री (अपने घर) का होने पर ।
४. निर्बल—नीच का होने पर ।

टिप्पणी—जो ग्रह जिस राशि का स्वामी होता है, यदि वह उसी राशि में बैठा हो तो उसे 'स्वग्रही' अथवा 'स्वक्षेत्री' कहा जाता है ।

विभिन्न ग्रहों के उच्च क्षेत्रीय, मूल त्रिकोणस्थ, स्वक्षेत्री तथा नीच का होने के सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टता की नीचे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए—

१. सूर्य—'सिंह' राशि स्थित सूर्य स्वक्षेत्री होता है। सिंह राशि के १ से २० अंश तक उसका मूलत्रिकोण, तथा २१ से ३० अंश तक स्वक्षेत्र माना जाता है। मेष राशि के १० अंश तक उच्च का और तुला राशि के १० अंश तक नीच का होता है।

२. चन्द्र—'कर्क' राशि स्थित चन्द्र स्वक्षेत्री होता है। वृष राशि के ३ अंश तक उच्च का, एवं वृष राशि के ४ से ३० अंश तक मूलत्रिकोण स्थित माना जाता है। वृश्चिक राशि के ३ अंश तक नीच का होता है।

३. मंगल—'मेष' अथवा 'वृश्चिक' राशि में स्थित मंगल स्वक्षेत्री होता है, परन्तु मेष राशि के १ से १० अंश तक मूलत्रिकोणगत तथा १६ से ३० अंश तक स्वक्षेत्री माना जाता है। मकर राशि के २८ अंश तक उच्च का तथा कर्क राशि के २८ अंश तक नीच का होता है।

४. बुध—'कन्या' अथवा 'मिथुन' राशि में स्थित बुध स्वक्षेत्री होता है, परन्तु कन्या राशि के १ से १८ अंश तक मूलत्रिकोणगत तथा १६ से ३० अंश तक स्वक्षेत्री माना जाता है। कन्या राशि के १५ अंश तक उच्च का तथा मीन राशि के १५ अंश तक नीच का होता है। इसी प्रकार कन्या राशि स्थित बुध १ से १५ अंश तक उच्च का, साथ ही १ से १८ अंश तक मूलत्रिकोणगत तथा १६ से ३० अंश तक स्वक्षेत्री माना जाता है।

५. गुरु—'धनु' अथवा 'मीन' राशि में स्थित स्वक्षेत्री होता है, परन्तु धनु राशि के १ से १३ अंश तक उसे मूलत्रिकोणगत तथा १४ से ३० अंश तक स्वक्षेत्री माना जाता है। कर्क राशि के ५ अंश तक उच्च का तथा मकर राशि के ५ अंश तक नीच का होता है।

६. शुक्र—'वृष' अथवा 'तुला' राशि स्थित शुक्र स्वक्षेत्री होता है, परन्तु तुला राशि के १ से १० अंश तक उसका मूलत्रिकोण तथा ११ से ३० अंश तक स्वक्षेत्र माना जाता है। मीन राशि के २७ अंश तक उच्च का तथा कन्या राशि के २७ अंश तक नीच का होता है।

७. शनि—'मकर' अथवा 'कुम्भ' राशि स्थित शनि स्वक्षेत्री होता है, परन्तु कुम्भ राशि के १ से २० अंश तक उसका मूलत्रिकोण तथा २१ से ३० अंश तक स्वक्षेत्र माना जाता है। तुला राशि के २० अंश तक उच्च का तथा मेष राशि के २० अंश तक नीच का होता है।

८. राहु—कन्या राशि में स्थित राहु स्वक्षेत्री होता है। मिथुन राशि के १५ अंश तक उच्च का तथा धनु राशि के १५ अंश तक नीच का माना जाता है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों की राय में राहु वृष राशि में उच्च का तथा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। कर्क राशि को राहु का मूल त्रिकोण माना जाता है।

९. केतु—मिथुन राशि में स्थित केतु स्वक्षेत्री होता है। धनु राशि के १५

अंश तक उच्च का, मिथुन राशि के १५ अंश तक नीच का माना जाता है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों की राय में केतु वृश्चिक राशि में उच्च का तथा वृष राशि में नीच का होता है। मकर राशि को केतु का मूलत्रिकोण माना जाता है।

ग्रहों के पद

नवग्रहों में सूर्य तथा चन्द्र को राजा, बुध को युवराज, मंगल को मेनापति, गुरु तथा शुक्र को मन्त्री एवं शनि को सेवक का पद दिया गया है। अरनु, जिस जातक के ऊपर जिस ग्रह का जितना अधिक प्रभाव होता है, वह उसे अपने ही अनुरूप बनाने की चेष्टा करता है।


ग्रहों के ६ प्रकार के बल

ग्रहों के बल ६ प्रकार के कहे गये हैं, उन्हें निम्नानुसार समझ लेना चाहिए—

(१) स्थान बल—उच्च, स्वग्रही, मित्रग्रही अथवा मूल त्रिकोणम्य ग्रह को 'स्थान बली' माना जाता है।

चन्द्र तथा शुक्र 'सम राशि' अर्थात् वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर एवं मीन राशि में स्थित होने पर तथा सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु एवं केतु 'विपम राशि' अर्थात् मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु एवं कुम्भ में स्थित होने पर भी 'स्थान बली' कहे जाते हैं।

स्थान-बल निरूपण चक्र




१७

उक्त उदाहरण कुण्डली की भाँति ही अन्य कुण्डलियों में भी ग्रहों के स्थानबल के विषय में समझ लेना चाहिए।

(२) दिग्बल—जन्मकुण्डली में प्रथम भाव को पूर्व, चतुर्थ को उत्तर, सप्तम को पश्चिम तथा दशमभाव को दक्षिण दिशा माना जाता है ।

बुध तथा गुरु प्रथमभाव अर्थात् लग्न (पूर्व दिशा) में, चन्द्रमा तथा शुक्र चतुर्थभाव (उत्तर दिशा) में, शनि सप्तमभाव (पश्चिम दिशा) में तथा मंगल दशमभाव (दक्षिण दिशा) में स्थित हों तो उन्हें 'दिग्बली' माना जाता है ।

निम्नांकित उदाहरण कुण्डली में दिशाओं तथा दिग्बली ग्रहों की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है—



(३) कालबल—यदि जातक का जन्म रात्रि के समय हुआ हो तो उसकी जन्मकुण्डली के ग्रहों में से (१) चन्द्रमा, (२) मंगल और (३) शनि—ये तीनों ग्रह कालबली होते हैं और यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो (१) सूर्य, (२) बुध और (३) शुक्र—ये तीनों ग्रह कालबली होते हैं ।


मतान्तर में, 'बुध' को दिन-रात्रि दोनों ही समय में कालबली माना जाता है ।

(४) नैसर्गिक बल—शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र तथा सूर्य—ये ग्रह उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक बली होते हैं । अर्थात् शनि से मंगल अधिक बलवान होता है, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चन्द्र तथा चन्द्र से सूर्य अधिक बलवान होता है । इसी क्रम की विपरीत स्थिति में ग्रह एक दूसरे से उत्तरोत्तर कम बलवान होते हैं अर्थात् सूर्य से चन्द्रमा कम बलवान है तथा चन्द्र से शुक्र, शुक्र से गुरु, गुरु से बुध, बुध से मंगल तथा मंगल से शनि कम बली होता है ।

(५) **चेष्टाबल**—मकर से मिथुन तक (मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन) किसी भी राशि में स्थित सूर्य तथा चन्द्रमा चेष्टाबली होते हैं और मंगल, बुध, गुरु, शुक तथा शनि—ये पाँचों ग्रह चन्द्रमा के साथ रहने पर चेष्टाबली होते हैं।

निम्नांकित उदाहरण कुण्डली में ग्रहों के 'चेष्टाबल' को प्रदर्शित किया गया है इसी भाँति अन्य कुण्डलियों में भी समझ लें।


ग्रहों का चेष्टाबल निरूपण चक्र



(६) **दृग्बल**—जन्मकुण्डली में जिन क्रूर (दुष्ट या पाप) ग्रहों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, वे उनकी शुभ दृष्टि को पाकर 'दृग्बली' हो जाते हैं। जैसे—किसी जातक की कुण्डली में शनि पंचम भाव में बैठा हो तथा गुरु लग्न में बैठा हो तो क्रूर-ग्रह शनि के ऊपर शुभ ग्रह गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण शनि दृग्बली हो जाएगा। किस ग्रह की दृष्टि किन-किन भावों पर पड़ती है इसका वर्णन आगे किया गया है।

नीचे का उदाहरण कुण्डली में क्रूर-ग्रहों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि को प्रदर्शित किया गया है। इसी के अनुसार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए।

हों का ग्रहबल निरूपण चक्र



आवश्यक ज्ञातव्य—पूर्वोक्त ६ प्रकार के बलों में से किसी भी प्रकार के बल को प्राप्त बलवान ग्रह जिस भाव में बैठा होता है जातक को उस भाव का विशेष फल अपने स्वभावानुसार देता है। किसी भाव स्थित किसी भी ग्रह के फलाफल की यथार्थ जानकारी के लिए उस भाव में स्थित राशि तथा ग्रह के स्वभाव एवं बल आदि का समन्वयन करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए।

ग्रहों की दृष्टि

ग्रहों की दृष्टियाँ चार प्रकार की मानी गई हैं—

- (१) एक पाद या एक चरण दृष्टि (चतुर्थांश दृष्टि)।
- (२) द्विपाद या दो चरण दृष्टि (अर्धांश दृष्टि)।
- (३) त्रिपाद या तीन चरण दृष्टि (तीन चौथाई दृष्टि)।
- (४) पूर्ण दृष्टि (सम्पूर्ण दृष्टि)।


जन्मकुण्डली में जो ग्रह जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव से तृतीय तथा दशम भाव को एकपाद दृष्टि से, पंचम तथा नवम भाव को द्विपाद दृष्टि से, चतुर्थ तथा अष्टम भाव को त्रिपाद दृष्टि से तथा सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यह नियम सभी ग्रहों पर समान रूप से लागू होता है। परन्तु इन दृष्टियों के अतिरिक्त मंगल जिस भाव में बैठा होता है, वहाँ से सप्तम भाव के अतिरिक्त चतुर्थ तथा अष्टम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार गुरु जिस भाव में बैठा हो, वहाँ से सप्तम भाव के अतिरिक्त पंचम तथा नवम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है एवं शनि जिस भाव में बैठा हो, वहाँ से सप्तम भाव के अतिरिक्त

तृतीय तथा दशम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अपूर्ण दृष्टि को 'खण्ड दृष्टि' भी कहते हैं।

राहु तथा केतु की दृष्टि अन्य ग्रहों के समान सीधी न पड़कर उल्टी पड़ती है। जैसे लग्न में बैठा हुआ मंगल तृतीय तथा दशम भाव को एक पाद दृष्टि से देखेगा तो लग्न में बँठे हुए राहु-केतु एकादश तथा चतुर्थ भाव को एक पाद दृष्टि से देखेंगे।


आगे दी गई मेष राशि की उदाहरण कुण्डलियों में लग्न (प्रथम भाव) स्थित विभिन्न ग्रहों की विभिन्न भावों पर पड़ने वाली एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद तथा पूर्ण दृष्टि को अलग-अलग प्रदर्शित किया गया है। इसी भाँति अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए।

'सूर्य' की विभिन्न भावों पर दृष्टि




टिप्पणी—जिस भाव में भी 'सूर्य' बैठा हो, उस भाव से उपर्युक्त आधार पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए।

‘चन्द्रमा’ की विभिन्न भावों पर दृष्टि




टिप्पणी—जिस भाव में भी ‘चन्द्रमा’ बैठा हो, उस भाव से उपर्युक्त आधार पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए।

‘मंगल’ की विभिन्न भावों पर दृष्टि



टिप्पणी—जिस भाव में भी मंगल बैठा हो, उस भाव से उपर्युक्त आधार पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए।


'बुध' की विभिन्न भावों पर दृष्टि



२४

टिप्पणी—जिस भाव में भी 'बुध' बैठा हो, उस भाव से उपर्युक्त आघात पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए।


'गुरु' की विभिन्न भावों पर दृष्टि



२५


टिप्पणी—जिस भाव में भी 'गुरु' बैठा हो, उस भाव से उपर्युक्त आघात पर उसका खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए।

‘शुक्र’ की विभिन्न भावों पर दृष्टि




टिप्पणी—जिस भाव में भी ‘शुक्र’ बैठा हो, उस भाव से उपर्युक्त आधार पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए ।

‘शनि’ की विभिन्न भावों पर दृष्टि




टिप्पणी—जिस भाव में भी ‘शनि’ बैठा हो, उस भाव से उपर्युक्त आधार पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए ।

‘राहु’ की विभिन्न भावों पर दृष्टि



टिप्पणी—जिस भाव में भी ‘राहु’ बैठा हो, उम भाव से उपयुक्त आधार पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए।

‘केतु’ की विभिन्न भावों पर दृष्टि




टिप्पणी—जिस भाव में भी ‘केतु’ बैठा हो, उम भाव से उपयुक्त आधार पर, उसकी खण्ड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए।

विशेष टिप्पणी—कुछ ज्ञिद्वानों के मतानुसार राहु तथा केतु की खण्ड दृष्टियाँ एकपाद, द्विपाद तथा त्रिपाद होती ही नहीं हैं। प्राचीन भारतीय ज्योतिष में राहु-केतु की न तो ग्रहों के अन्तर्गत गणना की गई है और न इनके दृष्टि-सम्बन्ध का ही

उच्चराशिस्थ ग्रहों का फलादेश

उच्चराशिस्थ ग्रहों का संक्षिप्त विशिष्ट फलादेश निम्नानुसार समझना चाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण कुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं। अन्य लग्नों की कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।


उच्चराशिस्थ 'सूर्य'



उच्चराशिस्थ 'सूर्य'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'सूर्य' उच्च (मेष) राशि का हो, वह गौरवर्ण, भाग्यवान, धैर्यवान, धनी, सम्पन्न, यशस्वी, सुखी, विद्वान्, दण्डाधिकारी, सेनापति, शूरवीर तथा बलवान् होता है।


उच्चराशिस्थ 'चन्द्र'



उच्चराशिस्थ 'चन्द्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'चन्द्र' उच्च (वृष) राशि का हो, वह सुखी, यशस्वी, सम्मानित, स्त्री-वियोगी, अलंकार-प्रिय, विलासी, मिष्ठान्न भोजी, चपल स्वभाव, लोकप्रिय तथा उदार हृदय वाला होता है।


उच्चराशिस्थ 'मंगल'



उच्चराशिस्थ 'मंगल'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'मंगल' उच्च (मकर) राशि का हो, वह उग्र स्वभाव, शस्त्रविद्या में निष्णात, संग्रामजयी, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, शूर-वीर, बलिष्ठ, क्रोधी तथा राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला होता है।


उच्चराशिस्थ 'बुध'



उच्चराशिस्थ 'बुध'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'बुध' उच्च (कन्या) राशि का हो, वह बड़ा विद्वान्, अत्यन्त बुद्धिमान, लेखक, सम्पादक, सुखी, राजा अथवा राजमान्य, शत्रु-नाशक तथा अपने वंश की वृद्धि करने वाला, निष्पाप, धैर्यवान्, परन्तु आलसी स्वभाव का होता है।


उच्चराशिस्थ 'गुरु'



उच्चराशिस्थ 'गुरु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'गुरु' उच्च (कर्क) राशि का हो, वह सुन्दर, विद्वान्, चतुर, मुशोल, सद्गुणी, सुखी, राजप्रिय, मंत्री, शासक, ऐश्वर्य-शाली, सत्कर्म करने वाला, अनेक सेवकों से युक्त तथा सदाचारी होता है।


उच्चराशिस्थ 'शुक्र'



उच्चराशिस्थ 'शुक्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शुक्र' उच्च (मीन) राशि का हो, वह सुखी, भाग्यवान्, संगीतप्रिय, कामी, विलासी, कला-प्रेमी, यन्त्र-मंत्र का ज्ञाता, ज्योतिषी, कवि, संगीतज्ञ तथा यशस्वी होता है।


उच्चराशिस्थ 'शनि'



उच्चराशिस्थ 'शनि'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शनि' उच्च (तुला) राशि का हो, वह सुखी, यशस्वी, ऐश्वर्यशाली, पृथ्वीपति, राजा, कृषक, सम्पन्न, भायाधी, बाहनों से युक्त, साहसी, दुर्गमल्लो करने वाला, लोक-प्रसिद्ध सम्मानित तथा धूर्त होता है।


उच्चराशिस्थ 'राहु'



उच्चराशिस्थ 'राहु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'राहु' उच्च (मिथुन, मतान्तर से वृष) राशि का हो, वह धनी, साहसी, लम्पट, सरदार, शूर-वीर, गुप्त-स्वभाव वाला, दुष्ट, क्रूर, राजा द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला, प्रतापी तथा धैर्यवान होता है।

उच्चराशिस्थ 'केतु'



उच्चराशिस्थ 'केतु'


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केतु' उच्च (धनु, मतान्तर से वृश्चिक) राशि का हो वह भ्रमण-प्रिय, सरदार, नीच प्रकृति वाला, सुखी, अधिकार सम्पन्न व मिथ्यावादी, नीच तथा वृद्धों जैसा आचरण करने वाला होता है।

टिप्पणी—किसी ग्रह का केवल उच्च होना ही पूर्ण फलदायक नहीं होता, उसके साथ ही अन्य विषयों पर भी विचार करके निष्कर्ष निकालना चाहिए।

मूलत्रिकोणस्थ ग्रहों का फलादेश

मूल त्रिकोणस्थ ग्रहों का संक्षिप्त विशिष्ट फलादेश निम्नानुसार समझना चाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण कुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं। अन्य लगनों की कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।


मूलत्रिकोणस्थ 'सूर्य'



मूल त्रिकोणस्थ 'सूर्य'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'सूर्य' मूल त्रिकोणस्थ (मिह राशि के २० अंश तक) हो, वह सम्मानित, पूज्य, यशस्वी, सुखी, धनी तथा सब कार्यों में कुशल होता है।


मूल त्रिकोणस्थ 'चन्द्र'



मूल त्रिकोणस्थ 'चन्द्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'चन्द्रमा' मूल त्रिकोणस्थ (वृष राशि के ४ से ३० अंश तक) हो, वह सुन्दर, भाग्यवान, ऐश्वर्यशाली धनवान, भोगी तथा सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है।


मूल त्रिकोणस्थ 'मंगल'



मूल त्रिकोणस्थ 'मंगल'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'मंगल' मूल त्रिकोणस्थ (मेघ राशि के १८ अंश तक) हो, वह सामान्य धनी, अपयशी, स्वार्थी, क्रोधी, दुष्ट, निर्दय, लम्पट, खल, चरित्रहीन क्रूर, श्रमी तथा साहसी होता है।


मूल त्रिकोणस्थ 'बुध'



मूल त्रिकोणस्थ 'बुध'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'बुध' मूल त्रिकोणस्थ (कन्या राशि के १६ से २० अंश तक) हो, वह विद्वान्, राजमान्य, धनवान, प्राध्यापक चिकित्सक, सैनिक, व्यवसायी, महत्वाकांक्षी, विजयी, विनोदी तथा बुद्धिमान होता है।


मूल त्रिकोणस्थ 'गुरु'



मूल त्रिकोणस्थ 'गुरु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'गुरु' मूल त्रिकोणस्थ (धनु राशि के १३ अंश तक) हो, वह तपस्वी, सुखी, यशस्वी, सम्मानित, राजप्रिय, भोगी, उच्च अधिकारी, परम बुद्धिमान तथा नगर या मठ का स्वामी होता है।


मूलत्रिकोणस्थ 'शुक्र'



मूलत्रिकोणस्थ 'शुक्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शुक्र' मूल त्रिकोणस्थ (तुला राशि के १० अंश तक) हो, वह अनेक पुरस्कारों का विजेता, स्त्रियों को प्रिय, जागीरदार तथा वाहन, भूमि, भवन आदि के सुखों से सम्पन्न, राजों के समान ऐश्वर्यवान्, प्रतापी तथा यशस्वी होता है।


मूलत्रिकोणस्थ 'शनि'



मूलत्रिकोणस्थ 'शनि'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शनि' मूल-त्रिकोणस्थ कुम्भ (राशि के २० अंश तक) हो, वह कर्तव्य-निष्ठ, वैज्ञानिक, अस्त्र-शस्त्रों का निर्माता एवं ज्ञाता, यान-चालक, शूर-वीर, साहसी, सेनापति, कुल का पालन करने वाला, सुखी तथा धन-धान्य से पूर्ण होता है।

मूलत्रिकोणस्थ 'राहु'




मूलत्रिकोणस्थ 'राहु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'राहु' मूल त्रिकोणस्थ (कर्क राशि में) हो, वह धनी, लोभी तथा वाचाल होता है।

टिप्पणी—प्राचीन ज्योतिषी 'राहु' का मूलत्रिकोण नहीं मानते।

मूलत्रिकोणस्थ 'केतु'



मूलत्रिकोणस्थ 'केतु'


जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केतु' मूल-त्रिकोणस्थ (मकर राशि में) हो, वह सुखी, धनी, वाचाल, प्रवासी तथा गुप्त युक्तियों वाला होता है।

टिप्पणी—प्राचीन ज्योतिषी 'केतु' का मूलत्रिकोण नहीं मानते।

स्वक्षेत्रस्थ ग्रहों का फलादेश

स्वक्षेत्री अर्थात् अपनी राशि में स्थित विभिन्न ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश निम्नानुसार समझना चाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण कुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं। अन्य लगनों की कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।


स्वक्षेत्रस्थ 'सूर्य'



स्वक्षेत्रस्थ 'सूर्य'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'सूर्य' स्वक्षेत्री (सिंह राशि का) हो, वह सुन्दर, सुखी, ऐश्वर्यवान्, पराक्रमी, व्यभिचारी, निरन्तर उद्योग तथा परिश्रम करने वाला, धैर्यवान्, साहसी, तेजस्वी तथा अत्यन्त उग्रस्वभाव का होता है।


स्वक्षेत्रस्थ 'चन्द्र'



स्वक्षेत्रस्थ 'चन्द्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'चन्द्र' स्वक्षेत्री (कर्क राशि का) हो, वह सुन्दर, धनी, तेजस्वी, भाग्यवान् विनम्र, साधु चरित्र, परोपकारी, दयालु, मनस्वी, यशस्वी तथा सहृदय होता है।


स्वक्षेत्रस्थ 'मंगल'



स्वक्षेत्रस्थ 'मंगल'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'मंगल' स्वक्षेत्री (मेष अथवा वृश्चिक राशि का) हो, वह माहमी, बलवान्, यशस्वी, कृषक, भूस्वामी अथवा सैनिक, धनी तथा अंधान् स्वभाव वाला होता है।


स्वक्षेत्रस्थ 'बुध'



स्वक्षेत्रस्थ 'बुध'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'बुध' स्वक्षेत्री (कन्या अथवा मिथुन राशि का) हो, वह विद्वान्, बुद्धिमान, सम्पादक, शास्त्रज्ञ, लेखक तथा अनेक कलाओं का ज्ञाता होता है।


स्वक्षेत्रस्थ 'गुरु'



स्वक्षेत्रस्थ 'गुरु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'गुरु' स्वक्षेत्री (धनु अथवा मीन राशि का) हो, वह सुखी, शास्त्रज्ञ, वैद्य, काव्य-प्रेमी, कवि, विद्वान्, आत्मवली तथा धनवान् होता है।


स्वक्षेत्रस्थ 'शुक्र'



स्वक्षेत्रस्थ 'शुक्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शुक्र' स्वक्षेत्री (वृष अथवा तुला राशि का) हो, वह विद्वान्, गुणी, विचारक, धनवान्, स्वतन्त्र प्रकृति का, कृषि-सम्बन्धी व्यवसाय करने वाला तथा सुन्दर होता है।


स्वक्षेत्रस्थ 'शनि'



स्वक्षेत्रस्थ 'शनि'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शनि' स्वक्षेत्री (मकर अथवा कुम्भ राशि का) हो, वह पराक्रमी, कष्ट-सहिष्णु, उग्र स्वभाववाला, सुन्दर नेत्रोंवाला, यशस्वी तथा लोकप्रिय होता है।


स्वक्षेत्रस्थ 'राहु'



स्वक्षेत्रस्थ 'राहु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'राहु' स्वक्षेत्री (कन्या राशि का) हो, वह सुन्दर, यशस्वी तथा भाग्यवान् होता है।

स्वक्षेत्रस्थ 'केतु'




स्वक्षेत्रस्थ 'केतु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केतु' स्वक्षेत्री (मिथुन राशि का) हो, वह धन्यवान्, कष्ट-महिष्णु, कर्मठ, चिन्ताशील तथा गुप्त-युक्तियों वाला होता है।

मित्र क्षेत्रस्थ ग्रहों का फलादेश

अपने मित्रग्रह की राशि में स्थित विभिन्न ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश निम्नानुसार समझना चाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण-कुण्डलियाँ भेष लग्न की हैं। अन्य लगनों की कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।


मित्रक्षेत्रस्थ 'सूर्य'



मित्रक्षेत्रस्थ 'सूर्य'

जिस जातक की कुण्डली में 'सूर्य' अपने मित्रग्रहों (चन्द्रमा, मंगल अथवा गुरु) की राशि (कक, भेष, धनु, वृश्चिक अथवा मीन) में स्थित हो, वह व्यवहारकुशल, यशस्वी, दानी, सौभाग्यवान्, शास्त्रज्ञ, सुप्रसिद्ध तथा दृढ़मैत्री करने वाला होता है।


मित्तक्षेत्रस्थ 'चन्द्र'



मित्तक्षेत्रस्थ 'चन्द्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'चन्द्रमा' अपने मित्तग्रहों (सूर्य अथवा बुध) की राशि (सिंह, कन्या अथवा मिथुन) में बैठा हो, वह सुखी, धनी, गुणी, चतुर तथा भाग्यवान् होता है।


मित्तक्षेत्रस्थ 'मंगल'



मित्तक्षेत्रस्थ 'मंगल'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'मंगल' अपने मित्त ग्रहों (सूर्य, चन्द्र अथवा गुरु) की राशि (सिंह, कर्क, धनु अथवा मीन) में बैठा हो, वह धनी, मित्त-प्रेमी, तेजस्वी, पराक्रमी, शक्तिशाली, शास्त्र द्वारा जीविकोपाजन करने वाला तथा उग्र स्वभाव वाला होता है।


मित्तक्षेत्रस्थ 'बुध'



मित्तक्षेत्रस्थ 'बुध'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'बुध' अपने मित्तग्रहों (सूर्य अथवा शुक्र) की राशि (सिंह, वृष अथवा तुला) में बैठा हो, वह शास्त्रज्ञ, विनोदी-स्वभाव का, कार्यदक्ष, सुन्दरस्वरूप वाला, यशस्वी, ज्ञानी तथा धनवान् होता है।


मित्तक्षेत्रस्थ 'गुरु'



मित्तक्षेत्रस्थ 'गुरु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'गुरु' अपने मित्त ग्रहों (सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल) की राशि (सिंह, कर्क, मेष अथवा वृश्चिक) में बैठा हो, वह सुखी, उन्नतिशील, बुद्धिमान, प्रसिद्ध यशस्वी, सत्कर्म करने वाला तथा श्रेष्ठ लोगों द्वारा पूजित होता है।


मित्रक्षेत्रस्थ 'शुक्र'



मित्रक्षेत्रस्थ 'शुक्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शुक्र' अपने मित्र ग्रहों (बुध अथवा शनि) की राशि (कन्या, मिथुन, मकर अथवा कुम्भ) में बैठा हो, वह सुखी, गुणी, सन्ततिवान, धनवान तथा बन्धु-बान्धवों को प्रिय होता है।


मित्रक्षेत्रस्थ 'शनि'



मित्रक्षेत्रस्थ 'शनि'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शनि' अपने मित्र ग्रहों (बुध अथवा शुक्र) की राशि (कन्या, मिथुन, वृष अथवा तुला) में बैठा हो, वह सुखी, धनी, परान्न-भोजी, प्रेमी-स्वभाव का, कुकर्म करने वाला तथा कभी-कभी दुःख पाने वाला होता है।


मित्रक्षेत्रस्थ 'राहु'



मित्रक्षेत्रस्थ 'राहु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'राहु' अपने मित्र ग्रहों (शुक्र अथवा शनि) की राशि (वृष, तुला, मकर अथवा कुम्भ) में बैठा हो, वह धनी, गुप्त योजना-कर्ता, सुखी, मिथ्यावादी, बुद्धिमान, पनाकामी, माहनी तथा कुकर्म-रत होता है।

मित्रक्षेत्रस्थ 'केतु'




मित्रक्षेत्रस्थ 'केतु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केतु' अपने मित्र ग्रहों (शुक्र अथवा शनि) की राशि (वृष, तुला, मकर अथवा कुम्भ) में बैठा हो, वह भ्रमणशील, दुःखी तथा परोपकारी होता है।

शत्रुक्षेत्रस्थ ग्रहों का फलादेश

अपने शत्रु की राशि में स्थित विभिन्न ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश निम्नानुसार समझना चाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण-कुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं। अन्य लगनों की कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिस जातक की जन्मकुण्डली में जितने अधिक ग्रह शत्रुक्षेत्री होते हैं, वह उतना ही दुःखी, दरिद्र, भाग्यहीन, चिन्तित तथा निराश रहता है। यदि तीन या इससे अधिक ग्रह शत्रुक्षेत्री हों, तो वह जीवनभर दुःखी रहकर अन्तिम भाग में सुख पाता है।


शत्रुक्षेत्रस्थ 'सूर्य'



शत्रुक्षेत्रस्थ 'सूर्य'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'सूर्य' अपने शत्रु (शुक्र अथवा शनि) की राशि (वृष, तुला, मकर अथवा कुम्भ) में बैठा हो, वह सदैव दुःख पाने वाला, नौकरी करने वाला, विषयों से पीड़ित तथा नीच स्वभाव का होता है।


शत्रुक्षेत्रस्थ 'चन्द्र'



शत्रुक्षेत्रस्थ 'चन्द्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'चन्द्रमा' अपने शत्रु (राहु अथवा केतु) की राशि (कन्या अथवा मिथुन) में बैठा हो, वह हृदयरोगी तथा अपनी माता के कारण दुःख पाने वाला होता है।


शत्रुक्षेत्रस्थ 'मंगल'



शत्रुक्षेत्रस्थ 'मंगल'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'मंगल' अपने शत्रु (बुध) की राशि (मिथुन अथवा कन्या) में बैठा हो, वह विकलांग, व्याकुल, दीन-मलिन तथा स्त्रियों के वश में रहने वाला होता है।


शत्रुक्षेत्रस्थ 'बुध'



शत्रुक्षेत्रस्थ 'बुध'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'बुध' अपने शत्रु ग्रह (चन्द्रमा) की राशि (कर्क) में बैठा हो, वह सामान्य सुख पाने वाला, वासनाशील, कर्त्तव्यहीन, दुःखी, मूर्ख परन्तु अपनी बात का धनी होता है।


शत्रुक्षेत्रस्थ 'गुरु'



शत्रुक्षेत्रस्थ 'गुरु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'गुरु' अपने शत्रु (शुक्र अथवा बुध) की राशि (वृष, तुला, कन्या अथवा मिथुन) में बैठा हो, वह भाग्यशाली, क्रोधी, चतुर, क्षुधातुर तथा अपनी आजीविका को स्वयं ही नष्ट करने वाला होता है।


शत्रुक्षेत्रस्थ 'शुक्र'



शत्रुक्षेत्रस्थ 'शुक्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शुक्र' अपने शत्रु (सूर्य अथवा चन्द्रमा) की राशि (सिंह अथवा कर्क) में बैठा हो, वह दास्य-वृत्ति (नौकरी) करके अपनी आजीविका का उपार्जन करने वाला, दुःखी तथा दुर्बुद्धि होता है।


शत्रुक्षेत्रस्थ 'शनि'



शत्रुक्षेत्रस्थ 'शनि'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शनि' अपने शत्रु (सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल) की राशि (सिंह, कर्क, मेष अथवा वृश्चिक) में बैठा हो, वह किसी-न-किसी कारण से निरंतर चिन्तित एवं दुःखी बना रहने वाला, मलिन-हृदय वाला, रोगी तथा धनहीन होता है।


शत्रुक्षेत्रस्थ 'राहु'



शत्रुक्षेत्रस्थ 'राहु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'राहु' अपने शत्रु (सूर्य, चन्द्र, अथवा मंगल) की राशि (सिंह, कर्क, मेष अथवा वृश्चिक) में बैठा हो, वह शत्रुक्षेत्री शनि जैसा फल प्राप्त करता है। सूर्य अथवा चन्द्रमा की राशि पर बैठा हो तो उनके प्रभाव को अधिक हानि पहुँचाता है।

शत्रुक्षेत्रस्थ 'केतु'




शत्रुक्षेत्रस्थ 'केतु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केतु' अपने शत्रु (सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल) की राशि (सिंह, कर्क, मेष अथवा वृश्चिक) में बैठा हो, वह शत्रुक्षेत्री शनि जैसा फल प्राप्त करता है। सूर्य अथवा चन्द्रमा की राशि पर बैठा हो तो उनके प्रभाव में बहुत कमी ला देता है।

नीच राशिस्थ ग्रहों का फलादेश

नीच राशिस्थ विभिन्न ग्रहों का सक्षिप्त फलादेश निम्नानुसार समझना चाहिए। यहाँ प्रदर्शित सभी उदाहरण-कुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं। अन्य लगनों की कुण्डलियों के विषय में भी इन्हीं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिस जातक की जन्मकुण्डली में जितने अधिक ग्रह नीच राशिस्थ होते हैं, वह उतना ही अशुभ फल प्राप्त करता है। यदि तीन या अधिक ग्रह नीच राशि के हों तो वह जातक मूर्ख होता है।


नीचराशिस्थ 'सूर्य'



नीचराशिस्थ 'सूर्य'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'सूर्य' नीच राशि (तुला) का हो, वह बन्धु-सेवी, पाप कर्म करने वाला, कटुभाषी, आत्म-बलहीन, किसी पर विश्वास न करने वाला, अल्पकेशी तथा विकृत दाँतों वाला होता है।


नीचराशिस्थ 'चन्द्र'



नीचराशिस्थ 'चन्द्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'चन्द्रमा' नीच राशि (वृश्चिक) का हो, वह नीच प्रकृति वाला, रोगी, अल्पधनी, कुबुद्धि, बकवादी, संशयालु तथा घूर्ता एवं नाचने तथा वाजा बजाने वालों की संगति करने वाला होता है।


नीचराशिस्थ 'मंगल'



नीचराशिस्थ 'मंगल'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'मंगल' नीच राशि (कर्क) का हो, वह नीच स्वभाव का, कृतघ्न, चोर, दुष्ट हृदय वाला, रात्रि में भ्रमण करने वाला, परन्तु बुद्धिमान, गुणवान तथा धनवान होता है।


नीचराशिस्थ 'बुध'



नीचराशिस्थ 'बुध'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'बुध' नीचराशि (मीन) का हो, वह बन्धु-विरोधी, चंचल-स्वभाव वाला तथा उग्र प्रकृति वाला, क्षुद्र बुद्धि एवं सन्तान-विहीन होता है। उसकी पत्नी सुशीला तथा पतिव्रता होती है।


नीचराशिस्थ 'गुरु'



नीचराशिस्थ 'गुरु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'गुरु' नीचराशि (मकर) का हो, वह अपयश प्राप्त करने वाला, अपवादी, दुष्ट होता है। परन्तु इसके माथ ही मुख भोगने वाला, बहुत से लोगों का मरण-पोषण करने वाला, परदेश में रहने वाला तथा फल-फूस एवं सुन्दर स्त्री से युक्त भी होता है।


नीचराशिस्थ 'शुक्र'



नीचराशिस्थ 'शुक्र'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शुक्र' नीचराशि (कन्या) का हो, वह किसी-न-किसी कारणवश निरन्तर दुःखी बना रहने वाला, विनोदी, कौतुकी, चतुर, पंडित तथा सब कलाओं में कुशल होता है।


नीचराशिस्थ 'शनि'



नीचराशिस्थ 'शनि'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'शनि' नीचराशि (मेष) का हो, वह स्वतन्त्र-विचारक, बन्धु-बान्धवों से युक्त, स्वेच्छाचारी, दृढ़ शरीर वाला, उच्च अधिकारी, ग्राम आदि का अधिपति, सुखी, सुन्दर तथा चंचल स्वभाव का होता है। मतान्तर से वह दुःख एवं दरिद्रता भी भोगता है।


नीचराशिस्थ 'राहु'



नीचराशिस्थ 'राहु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'राहु' नीचराशि (धनु, मतान्तर से वृश्चिक) का हो, वह कुरूप, पापी, दुर्बुद्धि, बन्धु-बान्धवों से हीन, खल तथा दुष्ट हृदय वाला होता है।

नीचराशिस्थ 'केतु'




नीचराशिस्थ 'केतु'

जिस जातक की जन्मकुण्डली में 'केतु' नीचराशि (मिथुन, मतान्तर से वृष) का हो तो वह सुशील, दुःखी, काना, कामी, शत्रुजयी तथा स्त्री-विहीन होता है।

ग्रहों का दृष्टि-सम्बन्ध और स्थान-सम्बन्ध

ग्रहों के दृष्टि सम्बन्ध दो प्रकार के होते हैं—(१) सामान्य दृष्टि सम्बन्ध और (२) पारस्परिक दृष्टि सम्बन्ध। इनके विषय में नीचे निम्न अनुसार समझना चाहिए—

सामान्य दृष्टि-सम्बन्ध




सामान्य दृष्टि-सम्बन्ध

जब कोई ग्रह अपने स्थान से किसी अन्य स्थान (भाव) को देखता है अथवा उस स्थान (भाव) में बैठे हुए किसी ग्रह को देखता है तो उसे 'सामान्य दृष्टि-सम्बन्ध' कहा जाता है।

उदाहरण कुण्डली में एकादश भाव में बैठा हुआ शनि अपने स्थान से दसवें अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु को देख रहा है, अतः इस गुरु के साथ शनि का 'सामान्य दृष्टि-सम्बन्ध' कहा जाएगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के 'सामान्य दृष्टि-सम्बन्ध' के विषय में भी समझ लेना चाहिए। कौन-सा ग्रह अपने स्थान से किन-किन भावों को किन दृष्टियों से देखता है, इस विषय का वर्णन पहले ही किया जा चुका है।

पारस्परिक दृष्टि-सम्बन्ध




पारस्परिक दृष्टि-सम्बन्ध

जब कोई दो ग्रह अलग-अलग भावों में बैठे हुए एक दूसरे के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उसे उन ग्रहों का 'पारस्परिक दृष्टि-सम्बन्ध' कहा जाता है।

उदाहरण कुण्डली में लग्न में बैठा हुआ मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए शनि पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है तथा सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि लग्न में बैठे हुए मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अतः यह दोनों ग्रहों का पारस्परिक दृष्टि-सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के बारे में भी समझ लेना चाहिए।

स्थान सम्बन्ध



स्थान-सम्बन्ध

जब कोई दो ग्रह अलग-अलग एक दूसरे के स्थान (भाव) में बैठे हों, तो उसे उन ग्रहों का 'स्थान-सम्बन्ध' कहा जाएगा।

उदाहरण कुण्डली में चन्द्रमा की बर्क राशि में शुक्र बैठा है तथा शुक्र की वृष राशि में चन्द्रमा बैठा है। इस प्रकार ये दोनों ग्रह एक-दूसरे के स्थान में बैठे हैं।

फलतः इनमें 'स्थान-सम्बन्ध' हो गया। इसी भाँति अन्य ग्रहों के 'स्थान-सम्बन्ध' के बारे में भी समझ लेना चाहिए।

ग्रहों का जातक के जीवन पर प्रभाव

उक्त 'सामान्य दृष्टि-सम्बन्ध', 'पारस्परिक दृष्टि-सम्बन्ध' तथा 'स्थान-सम्बन्ध' के कारण ग्रह अपने गुण-कर्म-स्वभाव आदि का एक दूसरे से मिलकर, जातक के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तात्पर्य यह कि ऐसे सम्बन्धों से एक ग्रह का स्वभाव दूसरे में सम्मिलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में, यदि दोनों ग्रह परस्पर 'मित्र' हुए तो वे जातक के जीवन पर अपना विशेष प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, यदि 'शत्रु' हुए तो एक-दूसरे के विपरीत प्रभाव डालेंगे, और यदि 'सम' हुए तो संयुक्त सामान्य-प्रभाव डालेंगे।

ग्रहों के उक्त पारस्परिक सम्बन्धों का विचार करते समय उनकी उच्च-नीच, स्वक्षेत्री, शत्रुक्षेत्री आदि स्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक है। उन सबके समन्वय स्वरूप जो निष्कर्ष निकलेगा, वही सच्चा फलादेश होगा।

लग्न और राशि


जन्मकुण्डली में द्वादश भाव होते हैं। जातक के जन्म के समय जो राशि आकाशमण्डल में दिखाई दे रही होती है, उसी को 'लग्न' मान कर कुण्डली के प्रथम भाव में स्थापित किया जाता है, शेष राशियों को क्रमशः उससे आगे के भावों में स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी जातक का जन्म आकाशमण्डल में सिंह राशि के दिग्दर्शन के समय हुआ तो सिंह राशि के सूचक अंक ५ को जन्म-कुण्डली के प्रथम भाव में लिखा जाएगा और यह कहा जाएगा कि जातक का जन्म सिंह लग्न में हुआ है। उसी समय भचक्र में चन्द्रमा यदि सिंह राशि में ही भ्रमण कर रहा होगा तो चन्द्रमा को भी कुण्डली के पहले भाव अर्थात् लग्न वाले खाने में ही लिखा जाएगा और यह कहा जाएगा कि जातक का जन्म सिंह लग्न तथा सिंह राशि में ही हुआ है। परन्तु यदि चन्द्रमा उस समय भचक्र की तुला राशि में भ्रमण कर रहा होगा तो चन्द्रमा को कुण्डली के तीसरे खाने अर्थात् अंक ७ वाली जगह में लिखा जायगा और यह कहा जायगा कि जातक का जन्म सिंह लग्न में तथा तुला राशि में हुआ है।

लग्न और राशि के इस अन्तर को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जातक की जन्मकुण्डली के प्रथम भाव में जिस राशि का अंक होगा, उसे जातक की 'लग्न' कहा जाएगा तथा जिस भाव में चन्द्रमा की स्थिति होगी, उसे जातक की 'राशि' कहा जाएगा।


आगे १२ उदाहरण कुण्डलियों के माध्यम से यह बताया गया है कि विभिन्न लगनों की कुण्डलियों का स्वरूप कैसा होता है।

कुण्डली में कौन-सा ग्रह कहाँ बैठेगा, इसका निर्णय जातक के जन्म के समय तथा उम्र समय भ्रूचक्र में विभिन्न ग्रहों की स्थिति के अनुसार पञ्चांग के आधार पर किया जाता है। इस विषय के सम्यक्-ज्ञान के लिए या तो किमी ज्योतिषी से सम्पर्क करना चाहिए अथवा हमारी लिखी पुस्तक 'ज्योतिष शास्त्र' का अध्ययन करना चाहिए।


'मेघ' लगन की कुण्डली




'वृष' लगन की कुण्डली




'मिथुन' लगन की कुण्डली




'कर्क' लगन की कुण्डली




'सिंह' लगन की कुण्डली




'कन्या' लगन की कुण्डली




‘तुला’ लग्न की कुण्डली




‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली




‘धनु’ लग्न की कुण्डली




‘मकर’ लग्न की कुण्डली



‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली




‘मीन’ लग्न की कुण्डली




विभिन्न राशियों की कुण्डली के स्वरूप को नीचे प्रदर्शित उदाहरण कुण्डलियों के आधार पर समझ लेना चाहिए। ये सभी कुण्डलियाँ मेष लग्न की हैं, परन्तु इनमें ‘चन्द्रमा’ की स्थिति को अलग-अलग भावों में दिखाया गया है। जिन कुण्डली के जिस भाव में चन्द्रमा बैठा है उस भाव में स्थित राशि ही जातक की ‘जन्मकालीन राशि’ मान्ने जायेगी। इन कुण्डलियों के आधार पर अन्य लग्न वाली कुण्डलियों से भी राशि का निश्चय किया जा सकता है।


'मेष' राशि की कुण्डली




'वृष' राशि की कुण्डली




'मिथुन' राशि की कुण्डली




'कर्क' राशि की कुण्डली




'सिंह' राशि की कुण्डली




'कन्या' राशि की कुण्डली




'तुला' राशि की कुण्डली




'वृश्चिक' राशि की कुण्डली




'धनु' राशि की कुण्डली




'मकर' राशि की कुण्डली



'कुम्भ' राशि की कुण्डली



'मीन' राशि की कुण्डली



स्थानाधिपति

जातक की जन्मकुण्डली में जो राशि जिस स्थान (भाव या खाने) में स्थित होती है, उस राशि का स्वामी ग्रह ही उस स्थान भाव का अधिपति अर्थात् 'स्थानाधिपति' होता है। जैसे—किमी कुण्डली के चतुर्थभाव में सिंह राशि (५) स्थित है तो सिंह राशि के स्वामी 'सूर्य' को ही उस स्थान अर्थात् भाव का अधिपति अर्थात् 'मुखेश' माना जायेगा, फिर चाहे वह सूर्य कुण्डली के अन्य किमी भी भाव में स्थित क्यों न हो। मान लीजिए कि वह चतुर्थभाव में न रह कर दशमभाव में बैठा है तो यह कहा जायेगा कि 'चतुर्थेश या मुखेश राज्य अर्थात् दशमभाव में चला गया है।' इसी प्रकार सब भावों, राशियों तथा ग्रहों के सम्बन्ध में समझ कर किस भाव का स्थानाधिपति कहाँ बैठा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

स्थानाधिपतियों के नाम

विभिन्न भावों के स्वामियों को निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता है :

१. प्रथम भाव के स्वामी को—प्रथमेश, लग्नेश, देहाधीश।
२. द्वितीयभाव के स्वामी को—द्वितीयेश, धनेश, द्रव्येश।
३. तृतीयभाव के स्वामी को—तृतीयेश, सहजेश, पराक्रमेश।

४. चतुर्थभाव के स्वामी को—चतुर्थेश, सुखेश, सुहृदेश ।
५. पंचमभाव के स्वामी को—पंचमेश, सन्तानेश, विद्येश ।
६. षष्ठ भाव के स्वामी को—षष्ठेश, द्वेषेश, शत्रवेश ।
७. सप्तमभाव के स्वामी को—सप्तमेश, जायेश, मदनेश ।
८. अष्टमभाव के स्वामी को—अष्टमेश, जीवनेश, कालेश ।
९. नवमभाव के स्वामी को—नवमेश, भाग्येश, धर्मेश ।
१०. दशमभाव के स्वामी को—दशमेश, राज्येश, कर्मेश ।
११. एकादशभाव के स्वामी को—एकादशेश, लाभेश, उत्तमेश ।
१२. द्वादशभाव के स्वामी को—द्वादशेश, व्ययेश, दण्डेश ।

विशिष्ट ज्ञातव्य-विषय

१. भावों की गणना लग्न से आरंभ की जाती है। लग्न को पहला भाव (घर) मान कर क्रमशः उसके बाईं ओर को गिनते हुए द्वादश भावों की गणना करनी चाहिए। लग्न कोई भी क्यों न हो, इससे क्रमिक-गणना में कोई अन्तर नहीं आता।

२. जन्मकुण्डली के द्वादश भावों में स्थित विभिन्न राशियों के नामों को उनके लिए निश्चित अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे—मेघ के लिए १, वृष के लिए २, मिथुन के लिए ३, कर्क के लिए ४, सिंह के लिए ५, कन्या के लिए ६, तुला के लिए ७, वृश्चिक के लिए ८, धनु के लिए ९, मकर के लिए १०, कुम्भ के लिए ११ और मीन के लिए १२।

३. उच्चस्थ, स्वक्षेत्री, मित्रक्षेत्री अथवा उच्चक्षेत्र एवं स्वक्षेत्र पर दृष्टि डालने वाले ग्रह जिस स्थान पर बैठे होते हैं अथवा जहाँ दृष्टि डालते हैं, उस स्थान के फल की वृद्धि करते हैं। यथा—

‘सूर्य’ सिंह, मेष, वृश्चिक, धनु अथवा मीन राशि पर बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि डालता हो।

‘बुध’ कर्क, वृष, सिंह, मिथुन अथवा कन्या राशि पर बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि डालता हो।

‘शुक्र’ मेष, वृश्चिक, मकर, सिंह, कर्क, धनु अथवा मीन राशि पर बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि डालता हो।

‘गुरु’ मिथुन, कन्या, सिंह, वृष अथवा तुला राशि पर बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि डालता हो।

‘शुभ’ धनु, मीन, कर्क, सिंह, मेष अथवा वृश्चिक राशि पर बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि डालता हो।

‘शुक्र’ वृष, तुला, मीन, कन्या, मिथुन, मकर अथवा कुम्भ राशि पर बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि डालता हो।

‘शनि’ मकर, कुम्भ, तुला, कन्या, मिथुन, वृष अथवा तुला राशि पर बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि डालता हो ।

‘राहु’ मिथुन (मतान्तर से वृष) राशि पर बैठा हो, अथवा लग्न से तीसरे, छठे अथवा ग्यारहवें में से किसी भी ऐसे स्थान में बैठा हो, जहाँ धनु राशि न हो ।

‘केतु’ धनु (मतान्तर से वृश्चिक) राशि पर बैठा हो अथवा लग्न से तीसरे, छठे अथवा ग्यारहवें में से किसी भी ऐसे स्थान में बैठा हो, जहाँ मिथुन राशि न हो ।

केन्द्र अर्थात् पहले, चौथे, सातवें एवं दसवें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह विशेष शक्तिशाली होने के कारण अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं ।

५. त्रिकोण अर्थात् पाँचवें एवं नवें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह जातक के धन की वृद्धि करते हैं ।

६. दूसरे तथा ग्यारहवें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह जातक के धन की वृद्धि करते हैं । विशेषतः ग्यारहवें भाव में बैठा हुआ प्रत्येक ग्रह विशेष लाभकारी होता है ।

७. तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के पराक्रम को बढ़ाते हैं ।

८. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम तथा एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह उत्तम फल देते हैं ।

९. षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित करते हैं ।

१०. लग्न से तीसरे, छठे तथा ग्यारहवें भाव में क्रूर ग्रहों—शनि, केतु का बैठना शक्ति एवं शुभफल देने वाला होता है ।

११. ग्यारहवें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह शुभफल देते हैं ।

१२. आठवें तथा बारहवें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह जातक को थोड़ी-बहुत हानि अवश्य पहुँचाते हैं ।

१३. जिस भाव का जो ग्रह कारक माना गया है, वह यदि अकेला उसी भाव में बैठा हो तो उस भाव को बिगाड़ देता है ।

१४. जिस भाव का स्वामी उच्च राशिस्थ, स्वक्षेत्री, मितक्षेत्री अथवा मूल त्रिकोण स्थित होता है, उस भाव का शुभ फल प्राप्त होता है ।

१५. जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, उसका फल उत्तम होता है तथा जिसमें पाप ग्रह बैठा हो, उसके शुभ फल को हानि पहुँचती है ।

१६. जो ग्रह सूर्य के बराबर अथवा उसके निकटवर्ती अंशों पर होता है, उसे ‘पूर्ण अस्त’ माना जाता है । जो ग्रह सूर्य से ८ अंश की दूरी पर होता है, उसे ‘आधा अस्त’ माना जाता है तथा जो ग्रह सूर्य से 15 अंश की दूरी पर होता है उसे ‘पूर्ण उदय’ माना जाता है ।

पूर्ण उदय ग्रह पूर्ण प्रभाव देता है, आधा अस्त ग्रह आधा प्रभाव देता है तथा पूर्ण अस्त ग्रह प्रभावहीन होता है ।

१७. जिन भाव का अधिपति किसी शुभग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो अथवा जिन भाव को शुभग्रह देख रहा हो, उसका फल शुभ होता है ।

१८. जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो अथवा उस भाव के अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो अथवा उस भाव या उस भाव के अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उसका फल अशुभ होता है ।

१९. किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और वह लग्न में तृतीय स्थान में बैठा हो तो शुभ फल देगा, परन्तु किसी भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और वह उस भाव से तीसरे स्थान पर बैठे तो मध्यम फल देगा ।

२०. जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह अथवा शुक्र, बुध या गुरु में कोई बैठा हो अथवा इन पर दृष्टि पड़ रही हो अथवा वह अपने भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह संयुक्त अथवा दृष्ट न हो तो वह शुभ फल देने वाला मित्र होगा ।

२१. आठवें भाव में जो राशि हो, उसका स्वामी जिस भाव में बैठा होता है, उसे बिगाड़ देता है ।

२२. राहु, केतु जिस भाव में रहते हैं, उसे बिगाड़ देते हैं ।

२३. चन्द्रमा, बुध, शुक्र, केतु तथा गुरु—ये सब क्रमशः एक दूसरे में अधिक शुभ ग्रह हैं । ये ग्रह यदि अपनी राशियों में बैठे हों तो अधिक शुभ फल देते हैं और यदि पाप ग्रहों (सूर्य, मंगल, शनि तथा राहु) की राशि में बैठे हों तो अल्प शुभ फल देते हैं । स्मरणीय है कि फल का विचार करते समय केतु को प्रायः पापग्रह माना जाता है, परन्तु वैसे केतु की गणना शुभ ग्रहों में की जाती है ।

२४. सूर्य, मंगल, शनि तथा राहु—ये सब क्रमशः एक दूसरे में अधिक पाप ग्रह हैं । ये ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे हों तो अधिक शुभ फल देते हैं । यदि अपने मित्र की राशि, अपनी उच्च राशि अथवा किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों तो न्यून मात्रा में अशुभ फल देते हैं ।

२५. राहु जिसे अशुभ फल देता है, केतु उसे शुभ फल देता है तथा केतु जिसे अशुभ फल देता है, राहु उसे शुभ फल देता है—यह इन दोनों ग्रहों की एक विशिष्टता है ।

२६. आठवें भाव का अधिपति अर्थात् अष्टमेश जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव को बिगाड़ता है ।

२७. राहु-केतु जिस भाव में बैठे होते हैं, उसे बिगाड़ देते हैं ।

दैनिक ग्रहगोचर का प्रभाव

जन्मकुण्डली जातक के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति की परिचायक होनी है तथा उन ग्रहों की स्थिति का जातक के जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता रहता है, परन्तु आकाशमण्डल में विभिन्न ग्रह निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं जिनका तात्कालिक-अस्थायी प्रभाव भी जातक के दैनिक-जीवन पर पड़ता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह प्रत्येक प्राणी के जीवन पर अपना दो प्रकार से प्रभाव डालता है। अस्तु, स्थायी प्रभाव के साथ ही ग्रहों के अस्थायी प्रभाव का विचार करना भी आवश्यक होता है। दैनिक ग्रह गोचर में किस समय कौनसा ग्रह किस स्थान पर चल रहा है, इसका ज्ञान 'पंचांग' द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विषय की जानकारी किसी ज्योतिषी से पूछ कर, अथवा एतद् विषयक हमारी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करके प्राप्त की जा सकती है।

इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड में जन्मकुण्डली के जिस भाव तथा राशि में स्थित स्थायी ग्रहों के जिस फलादेश का उल्लेख किया गया है, दैनिक ग्रहगोचर कुण्डली के विभिन्न भावों तथा राशियों में स्थित विभिन्न ग्रहों का फलादेश भी ठीक वंसा ही होता है। किस दिन, मास अथवा वर्ष में दैनिक ग्रह गोचरस्थ ग्रहों का फलादेश किम उदाहरण कुण्डली द्वारा ज्ञात करना चाहिए, इसका उल्लेख द्वितीय खण्ड में प्रत्येक लग्न की उदाहरण-कुण्डलियों का फलादेश आरंभ करने से पूर्व ही कर दिया गया है।

जन्म कुण्डलीस्थ ग्रह के स्थायी तथा दैनिक ग्रहगोचर के अस्थायी फलादेश के समन्वय स्वरूप जो भी निष्कर्ष निकले, उमी को सच्चा फलादेश समझना चाहिए।

'वर्ष कुण्डली' स्थित ग्रहों के फलादेश का ज्ञान भी जन्मकुण्डली स्थित ग्रहों के फलादेश की भाँति इसी पुस्तक की सहायता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वर्षकुण्डली स्थित 'मुंथा' एवं 'वर्षेश' के विशिष्ट फलादेश के विषय में किसी ज्योतिषी द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अथवा हमारी लिखी पुस्तक 'वर्षकुण्डली फल विचार' का अध्ययन करना चाहिए।

सम्मिलित परिवार का फलादेश

सम्मिलित परिवार होने पर उस परिवार के सभी सदस्यों की जन्मकुण्डली के ग्रहों का थोड़ा-बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता रहता है। अतः सम्मिलित-परिवार के किसी सदस्य के विषय में ग्रहों का फलादेश ज्ञात करते समय यदि उस परिवार के अन्य सदस्यों की जन्मकुण्डलियों का भी सम्यक् अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाय तो उचित रहेगा। इस पुस्तक की सहायता के किसी भी स्त्री, पुरुष, बालक युवा अथवा वृद्ध मनुष्य की जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव की जानकारी सरलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है।

गलत जन्मकुण्डली का संशोधन

जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों के फलादेश की यथार्थता शुद्ध लग्न पर निर्भर करती है। यदि लग्न ठीक न होगी तो जन्मकुण्डली के ग्रहों का फलादेश भी ठीक नहीं बैठेगा।

शुद्ध 'लग्न' का निर्णय जातक के ठीक जन्म समय के आधार पर किया जाता है। समय में थोड़ा-सा भी अन्तर पड़ जाने से लग्न के अशुद्ध हो जाने की सम्भावना रहती है, अतः लग्न की शुद्धता का विचार कर लेना आवश्यक है।

लग्न की शुद्धता का विचार करने की एक सरल विधि यहाँ दी जा रही है। इसके आधार पर हर गलत लग्न वाली कुण्डली का बिना किसी विशेष परिश्रम के सुधार किया जा सकता है। विधि इस प्रकार है—




उपस्थित जन्मकुण्डली के ग्रहों के फलादेश से यदि ज्ञात हो कि वह जातक के जीवन से ठीक मिल रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं, परन्तु यदि फलादेश ठीक न मिले तो लग्न को अशुद्ध समझ कर दो कुण्डलियाँ ऐसी तैयार करनी चाहिए, जिनमें से एक में लग्न आगे की तथा दूसरी में पीछे की हो, फिर उन दोनों कुण्डलियों के विभिन्न भावों में उपस्थित कुण्डली के आधार पर ग्रहों को लिखकर उनके फलादेश का अध्ययन करें तथा जिस कुण्डली का फलादेश ठीक बैठता हो, उसी लग्न की कुण्डली को शुद्ध समझें।

उदाहरण के लिए नीचे तीन कुण्डली-चित्र दिये जा रहे हैं। उपस्थित कुण्डली 'वृश्चिक' लग्न की है, जिसे बीच में प्रदर्शित किया गया है। पहली तथा तीसरी उसी के आधार पर धनु तथा मकर लग्न की कुण्डलियाँ दिखाई गई हैं। इन तीनों कुण्डलियों में से जिसका फलादेश जातक के जीवन पर ठीक-ठीक घटे, उसी की लग्न शुद्ध समझनी चाहिए।

'धनु' लग्न की कुण्डली

'वृश्चिक' लग्न की कुण्डली

'मकर' लग्न की कुण्डली



इन उदाहरण-कुण्डलियों में जिस प्रकार लग्न को बदल कर उसके आधार पर विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों का बैठाय़ा गया है, इसी आधार पर किसी भी गलत लग्न वाली कुण्डली को शुद्ध किया जा सकता है।

Attention Please कृपया ध्यान दें !

CCI प्लान्ट प्रोसेस नो हाऊ रिपोर्ट (CCI Plant Process Know How Report)

- क्या आप नये उद्योग लगाने के इच्छुक हैं ?
- क्या आप अपने चालू (Running) उद्योग को किसी अन्य अधिक मुनाफेबख्त उद्योग में परिवर्तित करना चाहते हैं ?
- क्या आपके चालू उद्योग में कोई रुकावट या क्षति हो रही है ?

तब आप CCI द्वारा बनाई गई प्लान्ट प्रोसेस नो हाऊ रिपोर्ट खरीद कर लाभान्वित हों। प्रत्येक रिपोर्ट CCI के विशेष इन्जीनियर तथा टेक्नालाजिस्टों द्वारा तैयार की जाती है, जोकि सत्यता (Authenticity) की प्रतीक हैं।

चाहे, आपका कोई भी क्षेत्र हो जैसे, कार्बनिक या अकार्बनिक कॅमीकल्स, रबड़, प्लास्टिक, फूड, डाई एवं डाई इन्टरमीडियट, फाइन कॅमीकल्स, ड्रग्स एवं फार्मासिटिकल्स, सोप एवं डिटरजेंट, एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट्स, लुब्रीकैन्ट, पेपर एवं पेपर प्रोडक्ट्स, आयल एवं फैट्स, एलाकट्रानिक, इलेक्ट्रिकल, मिर्कॅनिकल, मेटालर्जिकल, पेंट एवं वार्निश, रैजिन एवं एमल्शन, पैस्टीसाइड्स इत्यादि।

CCI की प्लान्ट प्रोसेस नो हाऊ रिपोर्टें प्रत्येक कदम पर आपका पथ-प्रदर्शन करेगी। इन रिपोर्टों के अन्तर्गत निम्न मुख्य बातें होंगी :—

- 1. उत्पादक की रूपरेखा (Product Introduction)
- 2. उपयोग एवं प्रयोग (Uses & Applications)
- 3. गुण (Properties)
- 4. मार्केट की स्थिति (Market Position)
- 5. बनाने की विधि, लेखा-चित्र के साथ (Manufacturing Process with Flow sheet)
- 6. मशीन व उपकरण का विवरण तथा मूल्य (List of Plant and Machinery with estimated cost)
- 7. कच्चे माल की आवश्यकता तथा कीमत (Requirement of raw materials and estimated cost)
- 8. लाभ व हानि (Profitability Analysis)
- 9. कच्चे माल के निर्माताओं के पते।
- 10. मशीनरी निर्माताओं के पते।

1/50 M.O. भेजकर CCI 'प्लान्ट प्रोसेस नो हाऊ रिपोर्ट्स एण्ड नो हाऊ बुक्स' नामक पुस्तक जिसमें 1000 (एक हजार) से अधिक प्रोजेक्ट्स रिपोर्टों का विवरण है मंगा लें।

900 (नौ सौ) प्रकार की रिपोर्टें हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, अतः आर्डर देते समय स्पष्ट लिखें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिन्दी में चाहिए या अंग्रेजी में।

चार्जिज—200/- प्रति रिपोर्ट, कोई भी 2 रिपोर्टें 350/-, तीन रिपोर्टें 500/-, 4 रिपोर्टें 650/-, 5 रिपोर्टें 800/- परामर्श फीस 50/- प्रति आइटम 50% (पचास प्रतिशत) रकम अग्रिम भेजकर रिपोर्टें का आर्डर बुक करावें।



CONSULTANTS CORPORATION OF INDUSTRIES

113-B, Chowk Barohaballa, (Inside Market Rai Niwas)

Chawri Bazar, Delhi-110 006 Phone : 261030

हस्तलिखित, असली, प्राचीन
भृगुसंहिता फलित प्रकाश

●
फलादेश

सहज ३	धन २	१ तनु	व्यय १२	आय ११
	सुहृद् ४		राज्य १०	
५ पुत्र	६ रिपु	जाया ७		८ दार्म
			९ आयु	

११४

2

द्वितीय खण्ड

[द्वादश लक्ष्णों की कुण्डलियों का फलादेश]

विभिन्न लग्नों वाली जन्मकुण्डलियों का फलादेश जानने की विधि

इस द्वितीय खण्ड में विभिन्न लग्नों वाली कुण्डलियों के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का वर्णन अलग-अलग उदाहरण-कुण्डलियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक लग्न की उदाहरण कुण्डलियों को अलग-अलग अध्यायों में बाँट कर, विभिन्न ग्रहों के फलादेश को सूर्यादि के क्रम से अलग-अलग लिखा गया है। किस लग्न वाली कुण्डली का फलादेश किन संख्याओं वाली उदाहरण कुण्डलियों में देखना चाहिए, इसे निम्नानुसार समझ लें—

१. 'मेष लग्न'—उदाहरण-कुण्डली संख्या ११६ से २२३ तक
२. 'वृष' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या २२५ से ३३२ तक
३. 'मिथुन' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या ३३४ से ४४१ तक
४. 'कर्क' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या ४४३ से ५५० तक
५. 'सिंह' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या ५५२ से ६५९ तक
६. 'कन्या' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या ६६१ से ७६८ तक
७. 'तुला' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या ७७० से ८७७ तक
८. 'वृश्चिक' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या ८७९ से ९८६ तक
९. 'धनु' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या ९८८ से १०९५ तक
१०. 'मकर' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या १०९७ से ११०४ तक
११. 'कुम्भ' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या ११०६ से १२१३ तक
१२. 'मीन' लग्न—उदाहरण-कुण्डली संख्या १२१५ से १३२२ तक

यह बात पहले बताई जा चुकी है कि जन्मकुण्डली में स्थित ग्रहों का जातक के जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, परन्तु तात्कालिक गोचर कुण्डली के ग्रह भी उसके जीवन पर अपने स्थितिकाल में अस्थायी प्रभाव डालते रहते हैं। अतः जिस समय जो ग्रह जिम राशि पर चल रहा हो, उसके बारे में पंचांग अथवा किसी ज्योतिषी द्वारा जानकारी प्राप्त करके तात्कालिक प्रभाव के विषय में भी अवश्य जान लेना चाहिए।

उदाहरण के लिए 'सूर्य' किसी जातक की मेष लग्न वाली जन्मकुण्डली के द्वितीय भाग में बैठा है तो वह उदाहरण-कुण्डली संख्या ११७ के अनुसार जातक के जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव डालता रहेगा। परन्तु जब वह तात्कालिक गोचर में मिथुन राशि पर चल रहा होगा, तब जातक के ऊपर मेष लग्न वाली कुण्डली के, मिथुन राशि वाले तृतीय भाग में स्थित सूर्य के अनुसार उदाहरण-कुण्डली संख्या

११८ में वर्णित फलादेश रूपी प्रभाव भी तब तक डालता रहेगा, जब तक कि वह गोचर में उस राशि से हट कर आगे कर्क राशि में नहीं चला जाता। कर्क राशि में पहुँच कर उदाहरण-कुण्डली संख्या ११६ के अनुसार प्रभाव डाल उठेगा। इसी प्रकार गोचर की सब राशियों तथा उनके ग्रहों के अस्थायी-फलादेश के विषय में समझ लेना चाहिए।

उक्त विधि से प्रत्येक ग्रह के स्थायी तथा अस्थायी प्रभाव को जानकर, उनके समन्वय स्वरूप जो निष्कर्ष निकलता हो, उमी को अपने वर्तमान काल का यथार्थ फलादेश समझना चाहिए। गोचर के आधार पर किस ग्रह का फलादेश किस उदाहरण-कुण्डली में देखा जाय, इसका निर्देश प्रत्येक लग्न की उदाहरण-कुण्डलियों के आरम्भ में यथास्थान किया गया है।

स्मरणीय है कि इस ग्रंथ में प्रदर्शित प्रत्येक लग्न की उदाहरण-कुण्डलियों में विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का वर्णन अलग-अलग किया गया है, अतः प्रत्येक जन्मकुण्डली का फलादेश ज्ञात करने के लिए ६ उदाहरण-कुण्डलियों के अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। यही नियम गोचर कुण्डली के फलादेश पर भी लागू होगा।


यदि जन्म कुण्डली के किसी भाव में दो या उससे अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनके विशिष्ट प्रभाव को 'ग्रहों' की युति, सम्बन्धी वाले तृतीय खण्ड में देखना चाहिए।

स्मरणीय है कि जो ग्रह जितने अंश का होता है, उसी के अनुरूप वह न्यूनाधिक फल प्रदान करता है। अतः ग्रहों के अंशों की जानकारी रखना भी आवश्यक है। यह जानकारी पंचांग अथवा किसी ज्योतिषी द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

उक्त विधि से इस पुस्तक द्वारा संसार के किसी भी स्त्री-पुरुष की जन्म कुण्डली का फलादेश ज्ञात किया जा सकता है। यदि ग्रंथ में वर्णित किसी विषय को समझने में कोई कठिनाई हो अथवा जन्मपत्र-निर्माण आदि ज्योतिष सम्बन्धी भी कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो जवाबी-पत्र लिख कर निम्न पते पर पूछताछ की जा सकती है। पता यह है—

पं० राजेश दीक्षित, कृष्णापुरी, मथुरा (उ० प्र०)

‘मेष लग्न’



[‘मेष’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘मेष’ लग्न का फलादेश

‘मेष’ लग्न में जन्म लेने वाले जातक का शरीर दृढ़हरा तथा कुछ तालिमा लिए गौर वर्ण का होता है। वह स्वभाव से रजोगुणी, पित्त प्रकृति वाला, उग्र, अहंकारी, चंचल, अत्यन्त चतुर, बुद्धिमान, धर्मात्मा, उदार, कुल-दीपक तथा अल्प-संततिवान् होता है। स्त्रियों के प्रति उसका स्वार्थपूर्ण अल्प लगाव अथवा द्वेष होता है।

इस लग्न वाले जातक को अपनी आयु के ६, ८, १५, २१, ३६, ४४, ५६ तथा ६३वें वर्ष में धन-हानि एवं शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आयु के १६, २०, २८, ३४, ४१, ४८ तथा ५१वें वर्ष में उसे धन, वाहन, मीभाग्य आदि का सुख प्राप्त होता है।

‘मेष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी-फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ११६ में २२३ के बीच देखना चाहिए।

गोचर-कुण्डली ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देगे, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।

‘मेष’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१—‘मेष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में ‘सूर्य’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण कुण्डली-संख्या ११६ से १२७ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘मेष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ११६
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ११७
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ११८
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ११९
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १२०
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १२१
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १२२
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १२३
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १२४
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १२५
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १२६
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १२७

‘मेष’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१—‘मेष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२८ से १३९ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘मेष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन ‘चन्द्रमा’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १२८
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १२९
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १३०
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १३१
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १३२

- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३३
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १३४
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १३५
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १३६
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १३७
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १३८
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३९

‘मेष’ लग्न में ‘मंगल’ का फलादेश

१—‘मेष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित ‘मंगल’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १४० से १५१ के बीच देखना चाहिए।

२—‘मेष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित ‘मंगल’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘मंगल’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १४०
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १४१
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १४२
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १४३
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १४४
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १४५
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १४६
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १४७
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १४८
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १४९
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १५०
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १५१

‘मेष’ लग्न में ‘बुध’ का फलादेश

१—‘मेष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १५२ से १६३ के बीच देखना चाहिए।

२—‘मेष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित ‘बुध’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'बुध'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १५२
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १५३
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १५४
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १५५
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १५६
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १५७
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १५८
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १५९
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १६०
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १६१
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १६२
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १६३

'मेष' लग्न में 'गुरु' का फलादेश

१—'मेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुरु' का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या १६४ से १७५ के बीच देखना चाहिए।

२—'मेष' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुरु' का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'गुरु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १६४
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १६५
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १६६
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १६७
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १६८
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १६९
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १७०
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १७१
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १७२
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १७३
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १७४
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १७५

‘मेष’ लग्न में ‘शुक्र’ का फलादेश

१—‘मेष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शुक्र’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १७६ से १८७ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘मेष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शुक्र’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘शुक्र’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १७६
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १७७
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १७८
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १७९
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १८०
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १८१
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १८२
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १८३
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १८४
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १८५
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १८६
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १८७

‘मेष’ लग्न में ‘शनि’ का फलादेश

१—‘मेष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शनि’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १८८ से १९९ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘मेष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शनि’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘शनि’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १८८
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १८९
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १९०
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १९१

- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १६२
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १६३
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १६४
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १६५
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १६६
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १६७
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १६८
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १६९

'मेष' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१—'मेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २०० से २११ के बीच देखना चाहिए ।

२—'मेष' लग्न वालों को अपनी गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या २००
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या २०१
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २०२
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या २०३
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या २०४
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २०५
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या २०६
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २०७
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या २०८
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या २०९
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या २१०
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या २११

'मेष' लग्न में 'केतु' का फलादेश

१—'मेष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु' का स्थायी-फलादेश उदाहरण कुण्डली संख्या २१२ से २२३ के बीच देखना चाहिए ।

२—'मेष' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु' का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—


जिस वर्ष में 'केतु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या २१२
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या २१३
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २१४
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या २१५
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या २१६
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २१७
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या २१८
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २१९
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या २२०
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या २२१
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या २२२
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या २२३

'मेष' लग्न में 'सूर्य'

'मेष' लग्न वाली कुण्डली के 'प्रथमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

मेष लग्न : प्रथमभाव : सूर्य




पहले भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में उच्चस्थ सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि पर है, अतः जातक तेजस्वी, विद्वान्, साहसी, स्वस्थ, स्वाभिमानी तथा पराक्रमी होगा। महत्वाकांक्षा, व्यवहार-कुशलता, धैर्य आदि सद्गुण प्राप्त होंगे तथा सन्तानें भी अधिक होंगी।

परन्तु सूर्य की सप्तमभाव पर नीच-दृष्टि पड़ने के कारण जातक के दाम्पत्य-सुख में कमी रहेगी। पत्नी (यदि स्त्री की जन्मकुण्डली हो तो पति) अधिक सुन्दर नहीं होगी। पति-पत्नी में मन-मुटाव भी रह सकता है। दैनिक जीविकोपार्जन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती रहेंगी।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ ‘सूर्य’ का फलादेश

मेष लग्न : द्वितीय भाव : सूर्य




दूसरे भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना होगा। इस कुण्डली में सूर्य पंचमभाव का स्वामी होकर शत्रु की राशि पर बैठा है, अतः जातक के विद्याध्ययन एवं संतान पक्ष में भी कठिनाइयाँ आती रहेंगी। कुटुम्ब, रत्न तथा बन्धन-विषयक विवाद भी उठते रहेंगे। यहाँ से सूर्य अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अतः

जातक की आयु दीर्घ होगी तथा उसे गुदा अथवा आकस्मिक घन का लाभ भी होगा।

‘मेष’ लग्न कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित सूर्य का फलादेश

मेष लग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के बुद्धिबल एवं पराक्रम में वृद्धि होगी। सूर्य की सातवीं दृष्टि भाग्य-भवन पर होने से जातक भाग्यवान्, धर्मात्मा, दानी तथा तीर्थसेवी होगा। नवें भाव में सूर्य के मित्र तथा शुभग्रह गुरु की राशि होने के कारण जातक शुभ कार्य करने वाला तथा भगवद् भक्त होगा।

तृतीय भाव से भाई तथा वाणी का भी विचार किया जाता है, अतः यह जातक भाइयों का सुख प्राप्त करेगा तथा ओजस्वी वाणी वाला होगा।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश .


मेष लग्न : चतुर्थभाव : सूर्य



चौथे भाव में अपने मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक भूमि, गृह, वाहन आदि अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करेगा। वह विद्वान् तथा विद्या द्वारा सुख प्राप्त करने वाला भी होगा। यहाँ से सूर्य सातवीं दृष्टि से अपने शत्रु शनि की राशि वाले दशम भाव को देखता है अतः जातक की अपने पिता से अनबन रहेगी तथा राजकीय मामलों में विफलताएँ आयेंगी। परन्तु सूर्य के प्रभाव से कुछ-कुछ सम्मान अवश्य बना रहेगा।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मेष लग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाव में स्वक्षेत्री सूर्य के प्रभाव से जातक बड़ा विद्वान्, बुद्धिमान्, यशस्वी तथा सन्तान-सुख से परिपूर्ण रहेगा। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि अपने शत्रु शनि की राशि वाले ग्यारहवें भाव पर पड़ती है, अतः आय के साधनों में रुकावटें आती रहेंगी तथा आर्थिक लाभ के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा।

इस ग्रह स्थिति का जातक कटुभाषी तथा अहंकारी होता है, जिसके कारण लोग परोक्ष में उसकी निन्दा भी करते हैं।


‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

छठे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर निरन्तर विजय प्राप्त करता रहेगा। पंचमभाव का स्वामी षष्ठभाव में होने के कारण विद्याध्ययन में कुछ कठिनाइयाँ तो आयेंगी, परन्तु जातक परम विद्वान् तथा बुद्धिमान भी होगा। सूर्य की सप्तदृष्टि व्ययस्थान में पड़ने के कारण जातक शहरी संबंधों से लाभ एवं सफलता पाने वाला, विदेशों में सम्मानित तथा अधिक खर्च करने वाला भी होगा। इसे सन्तानपक्ष से कुछ चिन्ताएँ अवश्य बनी रहेंगी। शत्रुपक्ष कठिनाइयाँ खड़ी करता रहेगा, परन्तु वह हारेगा भी।



‘मेष’ लग्न कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मेष लग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने स्वराज्य एवं स्त्री के विषय में निरन्तर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सप्तम उच्चदृष्टि से मित्र मंगल की राशि वाले लग्नभाव को देखने के कारण जातक सबे कद का तेजस्वी तथा स्वाभिमानी होगा। वह युक्ति एवं बुद्धिबल से अपना काम निकालने में प्रवीण होगा। सूर्य के पंचमेश होने के कारण जातक का विद्या तथा सन्तान का पक्ष भी कमजोर रहेगा तथा जीवन-यापन के

क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती रहेंगी।

‘मेष’ लग्न कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश


मेष लग्न : अष्टमभाव : सूर्य



आठवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व एवं गुप्त धन सम्बन्धी लाभ तो होगा परन्तु आठवाँ घर मृत्यु-भवन होने से विद्या एवं संतान पक्ष में कमजोरी रहेगी। दैनिक जीवन में भी कठिनाइयाँ आती रहेंगी। सातवीं दृष्टि से शत्रु के द्वितीय भाव को देखने के कारण जातक को धन एवं कुटुम्ब विषयक असन्तोष भी निरन्तर बना रहेगा। कुल मिलकर जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मेष लग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि एवं ज्ञान का स्वामी होगा। वह धर्म, धर्मज्ञ शास्त्रों का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, यशस्वी, भाग्यवान, दयालु, दानी तथा तीर्थसेवी भी होगा। भाग्योन्नतिके क्षेत्र में निरन्तर, सफलताएँ मिलती रहेंगी।

सातवीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि वाले तृतीय भाव को देखने के कारण जातक के पराक्रम, भाई-बहन, साहस तथा योग्यताओं में वृद्धि होगी। सूर्य की यह स्थिति बहुत श्रेष्ठ है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मेष लग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता, व्यवसाय, राज्य नौकरी तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ कमियों शिकार होना पड़ता है, परन्तु वह विदेशी भाषा एवं का राजभाषा का श्रेष्ठ जानकार होता है।

सातवीं दृष्टि से अपने मित्र चन्द्रमा की राशि के चौथे भाव को देखने से माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने बुद्धिबल से राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्रों में सफलताएँ प्राप्त करता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मेष लग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में अपने शत्रु शनि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अर्थ-लाभ के लिए विशेष परिश्रम तो करना पड़ता है, परन्तु लाभ भी अत्यधिक होता है। ग्यारहवें भाव में पापग्रह शक्तिशाली माना जाता है।

सातवीं दृष्टि से स्वरशि वाले पंचभाव से देखने के कारण जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान का भी विशेष लाभ होता है। ऐसा जातक अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कटुभाषी भी होता है तथा उसी से लाभ भी उठाता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मेष लग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ सम्बन्ध होता है, परन्तु व्यय की अधिकता भी बनी रहती है। उसे अपना खर्च चलाने के लिए बुद्धिबल का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। सन्तान एवं विद्या पक्ष की हानि तथा चिन्ता के योग भी उपस्थित होते हैं।

सातवीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि वाले षष्ठभाव को देखने के कारण जातक को शत्रुपक्ष पर विजय प्राप्त होनी है, परन्तु वह मानसिक चिंताओं का शिकार भी बना रहता है।

‘मेष’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मेष लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र




पहले भाव में अपने मित्र मंगल की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक मानसिक तथा पारिवारिक सुख-शांति प्राप्त करता है।

सातवीं दृष्टि से शुक की राशि वाले सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक का दाम्पत्य-जीवन सुखी तथा तारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मेष लग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र




दूसरे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक बड़ा धनी तथा ऐश्वर्यशाली होता है। उसे कौटुम्बिक सुख भी यथेष्ट मिलता है, परन्तु माता के पक्ष में स्थित वृष्टि का अनुभव भी होता है।

सातवीं नीच दृष्टि से मित्र मंगल की राशि वाले आठवें भाव को देखने के कारण जातक की आयु, स्वास्थ्य तथा पुरातत्त्व विषयक वृष्टियों का सामना करना पड़ता है। उसका दैनिक जीवन भी कुछ अशांतिपूर्ण बना रहता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मेष लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र




तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा उसे भाई-बहिनों का सुख मिलता है। चौथे घर का स्वामी होने के कारण चन्द्रमा जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख भी देता है।

सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु की राशि से नवें भाव को देखने के कारण जातक धर्मात्मा, उदार, दानी, विद्वान्, भाग्यवान तथा यशस्वी भी होता है। कुल मिला कर इस ग्रह स्थिति वाला जातक जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएँ प्राप्त करता रहता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मेष लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र




चौथे भाव में स्वराशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन, सम्पत्ति आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा मनोरंजन के साधन निरंतर उपलब्ध होते रहते हैं।

सातवीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले दशम भाव को देखने के कारण जातक का अपने पिता से वैमनस्य रहता है तथा राज्य एवं सम्मान के क्षेत्र में कमी बनी रहती है। कुल मिला कर—ऐसा जातक सब प्रकार से संपन्न होते हुए भी यशस्वी सम्मानित नहीं हो पाता।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

पाँचवें भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक बड़ा विद्वान्, बुद्धिमान एवं सन्ततिवान् होता है।

मेष लग्न : पंचमभाव : चन्द्र




सातवीं दृष्टि से अपने शत्रु शनि की राशि वाले ग्यारहवें भाव को देखने के कारण उसे भाय के साधनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परन्तु उन्हें वह अपने धैर्य एवं शान्त स्वभाव से सहन कर लेता है। कुल मिला कर ऐसी ग्रह स्थिति का व्यक्ति धीर, गंभीर, शान्त, योग्य, विद्वान्, सन्तोषी, माता से सुखी, भू-सम्पत्ति का स्वामी, परन्तु व्यवसाय एवं लाभ के क्षेत्र में कठिनाइयाँ उठाने वाला होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

छठे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक शत्रुपक्ष में शांति का अनुभव करता है तथा विपत्तियों पर अपने धैर्य एवं विनम्रता के बल पर विजय प्राप्त करता है। उसके घरेलू वातावरण में भी अशांति एवं कमियाँ बनी रहती हैं।

मेष लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र




सातवीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु की राशि वाले बारहवें भाव को देखने के कारण जातक शुभ कार्यों में व्यय करता है तथा बाहरी स्थानों में लाभ एवं सुख भी प्राप्त करता है। कुल मिला कर ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक विनम्र, धैर्यवान्, शुभकर्म करने वाला तथा घरेलू जीवन में तृप्तियों का शिकार बना रहने वाला होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सातवें भाव में अपने सामान्य मित्र शुक की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक स्त्री-सुख एवं भोग-विलास को प्राप्त करने वाला, सुन्दर, एवं भूमि तथा सम्पत्ति का सुख पाने वाला होता है।


मेष लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र



सातवीं दृष्टि से अपने मित्र मंगल की राशि वाले पहले भाव को देखने के कारण जातक शारीरिक, सौन्दर्य, सम्मान, मनोरंजन, सुख आदि को प्राप्त करता है। कुल मिला कर ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक सुन्दर, विलासी, यशस्वी तथा व्यावसायिक एवं सुख के क्षेत्र में सफलता पाने वाला होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मेष लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में अपने मित्र मंगल की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा अचल सम्पत्ति के पक्ष में हानि उठानी पड़ती है। उसे पुरातत्त्व तथा आयु संबंधी संकट भी उठाने पड़ते हैं तथा घरेलू-सुखशान्ति में भी कमी रहती है।

सातवीं उच्चदृष्टि से शुक्र की राशि वाले द्वितीय भाव को देखने के कारण जातक को धन प्राप्ति के योग निरन्तर मिलते रहते हैं तथा वह धन एवं सुख को अर्जित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील भी बना

रहता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मेष लग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक धर्म-कर्म, दान, पुण्य, तीर्थ-यात्रा आदि की ओर अधिक आकर्षित रहता है। उसे माता, भूमि तथा सम्पत्ति का सुख भी प्राप्त होता है।

सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने मित्र बुध की राशि वाले तृतीयभाव को देखता है। अतः जातक के भाई-बहिनों का सुख प्राप्त होगा तथा पगक्रम में भी वृद्धि बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस ग्रह-स्थिति का

जातक सौभाग्यशाली, धन-सम्पत्तिवान, भाई-बहिनों से युक्त तथा धार्मिक आचार-विचारों वाला होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

‘मेष’ लग्न : दशमभाव : चन्द्र




दसवें भाव में अपने शत्रु शनि की, राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता से वैमनस्य रहता है, परन्तु उसे राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है और वह अपने परिश्रम एवं अध्यवसाय द्वारा व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त करता है।

सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपनी राशि वाले चतुर्थ भाव को देखता है, अतः उसे माता, भूमि, भवन, सम्पत्ति आदि का अच्छा सुख मिलना है। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा अपना मकान बनवाता तथा सुख प्राप्त करता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मेष लग्न : एकादशभाव : चन्द्र




ग्यारहवें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक अपने मनोबल के प्रभाव से अपनी आय के साधनों को बढ़ाता तथा सुखी जीवन बिताता है। सामान्यतः उसे आप के साधनों में कुछ कठिनाइयाँ आती रहती है।

सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने मित्र की राशि वाले पंचम भाव को देखता है, अतः जातक विद्वान् बुद्धिमान् तथा मन्तविवान् होता है। कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति विद्या बुद्धि के द्वारा अपनी उन्नति करता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मेष लग्न : द्वादशभाव : चन्द्र




बारहवें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि में स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक शुभ कार्यों तथा शान-शौकत में खर्च करने वाला तथा बाहरी स्थानों से सम्बन्ध रखने वाला होता है।

सातवीं दृष्टि से चन्द्रमा अपने मित्र बुध की राशि वाले षष्ठभाव को देखता है, अतः जातक शत्रुपक्ष पर शान्ति से विजय पायेगा तथा अपनी बुद्धिमत्ता से हर प्रकार के झगड़ों को निपटाने में सफल हुआ करेगा। कुल मिला कर ऐसी ग्रहस्थिति का व्यक्ति सुखी तथा सन्तुष्ट जीवन बिनाने वाला एवं शत्रुपक्ष पर अपनी शालीनता से विजय पाने वाला होता है।

‘मेष’ लग्न में ‘मंगल’

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मेष लग्न : प्रथमभाव : मंगल




पहलेभाव में स्वराशि स्थित मंगल के प्रभाव से जातक पुष्ट शरीर वाला आत्म-बली तथा साहसी होता है। आठवें भाव का स्वामी होने तथा उसे पूर्ण दृष्टि के कारण मंगल जातक को कभी-कभी रोगों का शिकार भी बना देता है परन्तु आयु लम्बी देता है।

सातवीं दृष्टि से शुक की राशि वाले सप्तम भवन को भी देखता है। अतः जातक को अपनी पत्नी तथा व्यवसाय के मामले में कुछ हानि भी उठानी पड़ती है।


‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

दूसरे भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि मेष लग्न: द्वितीयभाव: मंगल में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को धन-संचय में कमी तथा शरीर में कष्ट का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ दृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण जातक विद्या तथा संतान के पक्ष में कुछ कठिनाइयों का सामना करता है। सातवीं दृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण दीर्घायु एवं पुरातत्त्व का लाभ देता है। आठवीं दृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण भाग्योन्नति में भी रुकावटें डालता रहता है।



‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


तीसरे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक पराक्रमी तथा साहसी होता है, परन्तु मंगल के अष्टमेषो होने के कारण भाई-बहिन के सुख में कमी आ जाती है।



चौथी दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण जातक शत्रुजयी होता है और हिम्मत से काम लेकर उन पर अपना प्रभाव डालता है। सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु की राशि वाले नवमभाव को देखने के कारण भाग्योन्नति करता है तथा आठवीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले दशमभाव को देखने के कारण राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ भी उपस्थित करता रहता है।


‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

चौथे भाव में अपने मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को माता के सुख, भूमि, भवन तथा सुख के क्षेत्र में कमी रहती है। चौथी दृष्टि से शत्रु शुक्र की राशि वाले सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री के सुख में कमी रहती है। सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले दशमभाव को देखने के कारण पिता एवं राज्य द्वारा लाभ होता है। आठवीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले ग्यारहवें भाव को देखने के कारण लाभ प्राप्ति के लिए जातक को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है।




'मेष' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

पाँचवें भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं। चौथी दृष्टि से स्वराशि के अष्टमभाव को देखने के कारण जातक की आयु तथा पुरातत्त्व का साथ देता है। सातवीं दृष्टि से सम-शनि की राशि के ग्यारहवें भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ के योग उपस्थित करता है तथा आठवीं दृष्टि से मित्र गुरु के बारहवें भाव को देखने के कारण खर्च अधिक कराता है तथा बाहरी स्थानों से आजीविका के सम्बन्ध बनाता है।




'मेष' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

छठे भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक शत्रुजयी, साहसी तथा निर्भय होता है। चौथी दृष्टि से शनि की राशि के दसवें भाव को देखने के कारण भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ देता है। सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु की राशि के बारहवें भाव को देखने के कारण खर्च अधिक तथा बाहरी स्थानों से लाभ कराता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि वाले प्रथमभाव को देखने के कारण जातक को शरीर से स्वस्थ, स्वामिभनी तथा प्रबल प्रभाव वाला बनाये रखता है।




'मेष' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

सातवें भाव में शुक्र की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं। चौथी उच्च दृष्टि से शनि की राशि के दशमभाव को देखने के कारण पिता एवं राज्य द्वारा उन्नति के साधन तथा यश देता है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले प्रथमभाव को देखने से जातक के शरीर को स्वस्थ तथा प्रभावशाली बनाता है। आठवीं दृष्टि से शुक्र की राशि वाले द्वितीयभाव को देखने के कारण जातक को धन तथा कुटुम्ब वृद्धि के लिए अधिक परिश्रम करने पर भी न्यून मफलता देता है।



‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मेष लग्न : अष्टमभाव : मंगल




आठवें भाव में स्वराशि स्थित मंगल के प्रभाव से जातक दीर्घायु तथा पुरातत्त्व का लाभ प्राप्त करता है, परन्तु लग्न का स्वामी भी होने के कारण शारीरिक सौन्दर्य में कमी देता है। चतुर्थ दृष्टि से शनि की राशि वाले एकादश भाव को देखने के कारण आय के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता देता है। सातवीं दृष्टि से शत्रु शुक्र की राशि वाले द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के बारे में चिन्ता बनी

रहती है। आठवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव के देखने के कारण जातक के पराक्रम को बढ़ाता है, परन्तु अष्टमेश होने के कारण भाई-बहिन के सुख में कमी भी लाता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मेष लग्न : नवमभाव : मंगल




नवें भाव में मित्र राशिस्थ मंगल के प्रभाव से जातक के भाग्य की उन्नति होती है, परन्तु मंगल के अष्टमेश होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं। चौथी मित्र-दृष्टि से बारहवें भाव को देखने से खर्च की अधिकता तथा बाहरी स्थानों से सम्बन्ध रहता है। सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु मंगल के अष्टमेश भी होने के कारण भाई-बहिन के सुख में कमी आती है। आठवीं नीच दृष्टि से चतुर्थ

भाव को देखने के कारण माता, भूमि, भवन आदि के सुख में कमी बनी रहती है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ में स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


मेष लग्न : दशमभाव : मंगल



दसवें भाव में शनि की राशि पर स्थित उच्च मंगल के प्रभाव से जातक अपने पिता से शत्रुता रखता है, परन्तु व्यवसाय एवं राज्य के क्षेत्र में उन्नति करता है। चौथी दृष्टि से स्वक्षेत्री प्रथम-भाव को देखने के कारण शारीरिक प्रभाव में उन्नति देता है। सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी आती है। आठवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

‘मेष’ लग्न : एकादशभाव : मंगल




ग्यारहवें भाव में शनि की राशिस्थ मंगल के प्रभाव से जातक की आय में वृद्धि होती रहती है, परन्तु अष्टमेश दोष होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। चौथी दृष्टि से शत्रु की राशि वाले द्वितीयभाव में देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब सम्बन्धी असन्तोष रहता है। सातवीं दृष्टि से मित्रराशि के पंचमभाव को देखने से मन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में कमी बनी रहती है। आठवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुपक्ष पर

प्रभाव बढ़ता है तथा जातक बड़ा साहसी होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मेष लग्न : द्वादशभाव : मंगल




बारहवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक बाहरी स्थानों में भ्रमण करने वाला तथा अत्यधिक खर्च करने वाला होता है। उसके शारीरिक सांद्य में भी कमी रहती है।

चौथी मित्र दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण जातक पराक्रमी होता है, परन्तु मंगल के अष्टमेश होने के कारण भाई-बहिनों के सुख में कमी आ जाती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण जातक शत्रु पक्ष में प्रबल रहता है। आठवीं दृष्टि से शुक की राशि वाले सप्तम भाव को देखने से स्त्री-सुख में कमी आती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं।

‘मेष’ लग्न में ‘बुध’

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेष लग्न : प्रथमभाव : बुध




पहले भाव में मित्र राशिस्थ बुध के प्रभाव से जातक पुरुषार्थी होता है, परन्तु बुध के षष्ठेश दोष के कारण रोग-पीड़ित भी रहता है। इसी कारण भाई-बहिनों के सुख में भी कुछ कमी आ जाती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सातवें भाव को देखने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र में तो परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त होती है, परन्तु स्त्री-सुख में कुछ कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिल पाती है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेष लग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में मित्त राशिस्थ बुध के प्रभाव से जातक के धन एवं पुरुषार्थ में वृद्धि तो होती है, परन्तु बुध के अष्टमेश होने के कारण धनप्राप्ति के क्षेत्र में कठिनाइयों तथा हानि का सामना भी करना पड़ता है। बुध के तृतीयेश होने के कारण भाई-बहिन के सुख में भी कमी आ जाती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा उसे पुरातत्त्व सम्बन्धी लाभ भी होते हैं।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेषलग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में स्वराशिस्थ बुध के प्रभाव से जातक अत्यन्त पराक्रमी तथा हिम्मती होता है, परन्तु फलश होने के कारण जहाँ शत्रुओं पर विजय दिलाता है, वहाँ भाई-बहिन के सुख में कमी भी ले आता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण जातक अपने ही पराक्रम से भाग्य की वृद्धि करता है तथा कुछ कमी के साथ धर्म-पालन की ओर भी प्रेरित करता रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक विवेकी, परिश्रमी तथा पराक्रमी होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेषलग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को मातङ्ग, भूमि, भवन तथा सुख के पक्ष में कुछ कमियाँ बनी रहती हैं।

सातवीं मित्तदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण जातक को पिता एवं राज्य पक्ष द्वारा सम्मान तथा सफलतायें मिलती हैं। ऐसी ग्रह स्थिति का जातक यशस्वी होता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में कुछ परेशानियों के बाद ही सफलता प्राप्त करता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेषलग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्रराशिस्थ बुध के प्रभाव से जातक अपने विशेष परिश्रम द्वारा विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि बुध में स्थानाधिपति दोष है।

सातवीं मित्रदृष्टि से ग्यारहवें भाव को देखने के कारण जातक अपने बुद्धि-विवेक द्वारा भाग्य तथा आय की वृद्धि करता है। बुध के षष्ठश होने के कारण जातक को शत्रुपक्ष में भी सफलता मिलती रहती है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेष लग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में स्वक्षेत्री तथा उच्च के बुध के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव रखने वाला तथा अपने पुरुषार्थ द्वारा बड़े-बड़े काम कर दिखाने वाला होता है।

बुध के पराक्रमेश के साथ षष्ठेश भी होने के कारण भाई-बहिनों से कुछ विरोध रहता है तथा अपने पराक्रम के बारे में भी कुछ आन्तरिक कमी का अनुभव करता रहता है।

सातवीं नीच दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण जातक को खर्च तथा बाहरी सम्बन्धों में कुछ हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेषलग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा व्यवसाय में सफलता पाता है, परन्तु षष्ठेश होने के कारण स्त्री-पक्ष में कठिनाइयाँ आती रहती हैं।

सातवीं दृष्टि से मित्र मंगल की राशि वाले प्रथमभाव को देखने के कारण जातक को मामान्य शारीरिक कष्ट तथा रोगों का शिकार भी बनाना है। भाई-बहिन के द्वारा जातक को सहयोग मिलना रहता है तथा विवेक-बुद्धि भी प्रबल रहती है।

‘मेघ’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेषलग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में मित्र मंगल की राशि में स्थित तृतीयेश एवं षष्ठेश बुध के प्रभाव से जातक को पराक्रम, आयु तथा पुरातत्त्व के सम्बन्ध में कठिनाइयाँ आती हैं तथा शत्रुपक्ष से हानि पहुँचने की संभावना भी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से बुध द्वितीयभाव से देखता है, अतः जातक को धन उपाजित करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति के जातक का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है।

‘मेघ’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेषलग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित षष्ठेश बुध के कारण जातक को भाग्य-पक्ष में कठिनाइयों का अनुभव होता है, परन्तु शत्रुपक्ष के सम्बन्ध से भाग्यवृद्धि में सफलता भी मिलती है।

सातवीं दृष्टि से बुध स्वराशि में तृतीयभाव को देखता है, अतः जातक का पराक्रम बढ़ा रहता है और उसे स्व-विवेक तथा भाई-बहिनों द्वारा लाभ प्राप्त होता रहता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक कुछ परेशानियों के साथ ही उन्नति कर पाता है।

‘मेघ’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मेषलग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम तथा पुरुषार्थ द्वारा अत्यधिक उन्नति करता है, परन्तु बुध के षष्ठेश होने के कारण पिता से कुछ वैमनस्य भी रहता है। राज्यपक्ष में सम्मान तथा शत्रुपक्ष में सफलता प्राप्त होती है।

सातवीं शत्रु दृष्टि से बुध चन्द्रमा की राशि के चौथे भाव को देखता है, अतः माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमी ला देता है।

'मेष' लग्न की कुण्डली में 'एकादशभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

मेष लग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में मित्र राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम एवं बुद्धि-विवेक द्वारा आय के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है। उसे भाई-बहिन का लाभ भी मिलता है, परन्तु पण्डेश होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि में पंचमभाव को देखने के कारण विद्या के क्षेत्र में सफलता देता है तथा कुछ कठिनाइयों के साथ सन्तान पक्ष में भी सुख दिलाता है।

'मेष' लग्न की कुण्डली के 'द्वादशभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

मेष लग्न : द्वादशभाव : बुध




बारहवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित षष्ठेश बुध के प्रभाव से जातक को खर्च तथा बाहरी सम्बन्धों के विषय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं भाई-बहिन के सुख में भी न्यूनता आती है।

सातवीं उच्चदृष्टि से बुध अपनी राशि वाले पठ-भाव को देखता है अतः जातक स्व-विवेक द्वारा शत्रुपक्ष पर सफलता पाने में समर्थ होता है तथा गुप्त युक्तियों एवं धैर्य से काम लेने वाला भी होता है।

'मेष' लग्न में 'गुरु'

'मेष' लग्न की कुण्डली के 'प्रथमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश


मेष लग्न : प्रथमभाव : गुरु



पहले भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक अत्यधिक धन, उन्नति एवं बाह्य-स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से गुरु पंचमभाव को देखता है तथा जातक शत्रु विद्वान्, बुद्धिमान तथा सन्ततिवान् होता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं। नवीं दृष्टि से स्वराशि वाले नवमभाव को देखने के कारण जातक के भाग्य एवं धर्म में वृद्धि होती है।

‘मेष’ की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


मेष लग्न : द्वितीयभाव : गुरु



पिता एवं राज्य के पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं ।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


मेष लग्न : तृतीयभाव : गुरु



की आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं ।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मेष लग्न : चतुर्थभाव : गुरु



रहती है । ऐसा जातक धनी, सम्पत्तिवान, दीर्घायु तथा खर्चीला होता है ।


दूसरे भाव में शत्रु शुक की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक बाह्य-स्थानों के सम्पर्क से धन एवं भाग्य की वृद्धि करता है, परन्तु कभी-कभी हानि भी उठानी पड़ती है । पाँचवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखता है, अतः शत्रुपक्ष में बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त होती है । सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक को पुरातत्त्व एवं आयु का लाभ होता है । नवीं दृष्टि से शनि की राशि वाले दशमभाव को देखने के कारण

तीसरे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को पराक्रम तथा भाई-बहिनों का सुख मिलता है । पाँचवीं शत्रु दृष्टि-से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं । सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है । नवीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले ग्यारहवें भाव को देखने के कारण जातक

चौथे भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन आदि का पर्याप्त सुख मिलता है । पाँचवीं मित्र दृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है । सातवीं नीच दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एवं राज्य सुख में कमी रहती है । नवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वादशभाव को देखने के कारण बाहरी स्थानों से अच्छा सम्बन्ध रहता है, परन्तु व्यय की अधिकता

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मेष लग्न : पंचमभाव : गुरु




पाँचवें भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक विद्वान्, बुद्धिमान तथा मन्तविवान होता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि वाले नवें भाव को देखता है अतः जातक के भाग्य की वृद्धि होती रहती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण जातक की आमदनी के क्षेत्र में कभी-कभी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। नवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से जातक का शरीर सुन्दर तथा स्वस्थ बना रहता है। ऐसी ग्रह स्थिति

का जातक विद्वान्, बुद्धिमान, धर्मात्मा तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


मेष लग्न : षष्ठभाव : गुरु



छठे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को शत्रुपक्ष में सफलता मिलती है तथा कुछ रुकावटों के साथ भाग्योन्नति भी होती है। पाँचवीं नीचदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एवं राज्य-सम्बन्ध में कमी आती है। सातवीं दृष्टि से द्वादश-भाव को स्वराशि में देखने के कारण व्यय की अधिकता रहती है तथा बाहरी संबंधों में सफलता मिलती है। नवीं शत्रुदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण कुटुम्ब से मतभेद रहता है तथा धन-प्राप्ति में कठिनाइयाँ आती हैं।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


मेष लग्न : सप्तमभाव : गुरु



सातवें भाव में शत्रु शुक की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक की स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से एकादशभाव को देखने के कारण आमदनी के मार्ग में रुकावटें आती हैं। सातवीं मित्रदृष्टि से लग्न को देखने के कारण जातक का शरीर सुन्दर तथा व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। नवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण भाई-बहिन तथा पराक्रम का पक्ष अच्छा बना रहता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मेष लग्न : एकादशभाव : गुरु




ग्यारहवें भाव में शत्रु जनि की राशि पर स्थित भाग्येश गुरु के प्रभाव में जातक के भाग्य की उन्नति में कुछ कमी बनी रहती है। पांचवीं मित्तदृष्टि से गुरु तृतीयभाव को देखता है, परन्तु व्ययेश होने के कारण भाई तथा पराक्रम के क्षेत्र में भी दृष्टिपूर्ण सफलता देता है। सातवीं मित्तदृष्टि में पंचमभाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि एवं संतान पक्ष का सहयोग मिलना है। नवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के

क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों के साथ ही सफलता मिलती है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मेष लग्न : द्वादशभाव : गुरु




बारहवें भाव में स्वराशि स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी-स्थानों से लाभ भी होता है। पांचवीं मित्तदृष्टि से गुरु चतुर्थ-भाव को देखता है, अतः जातक को माना, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। सातवीं मित्तदृष्टि से षष्ठभाव को देखता है, अतः शत्रुपक्ष में जातक अपनी समझदारी से सफलता प्राप्त करता है। नवीं मित्तदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक के आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति का जातक हरक्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ ही सफलता पाता है।

‘मेष’ लग्न में ‘शुक्र’

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक सुन्दर शरीर वाला, सम्मानित, बलिष्ठ तथा चतुर होता है।

सातवीं दृष्टि से शुक्र स्वराशि वाले सप्तम भाव को देखता है, अतः जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं परन्तु शुक्र के घनेश होने के कारण व्यवसाय तथा कुटुम्ब के पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में स्वराशि स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक धनी, कुटुम्बवान तथा सौभाग्यशाली होता है, परन्तु शुक्र के बन्धनेश के साथ सप्तमेश भी होने के कारण स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ भी आती हैं।

सातवीं शत्रुदृष्टि से शुक्र अष्टमभाव को देखता है, अतः जातक को स्वयोग्यता के कारण ही आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ मिलता है। संक्षेप में, ऐसा जातक धनी तथा ऐश्वर्यशाली होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम, चातुर्य, साहस एवं भाई-बहिनों की वृद्धि होती है, परन्तु सप्तमेश होने के कारण स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं।

सातवीं समदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण जातक भाग्यवान तथा धर्मात्मा भी होता है। संक्षेप में, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धार्मिक, पराक्रमी, धनी तथा सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है, परन्तु शुक्र के द्वितीयेश तथा केन्द्रस्थ होने के कारण धन एवं कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता रहता है। इसी प्रकार स्त्री तथा व्यवसाय के सुख में भी कुछ न्यूनता बनी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण जातक को राज्य तथा पिता के क्षेत्र में सफलता मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी उन्नति होती है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में शत्रु सूर्य की राशि में त्रिकोणस्थ शुक्र के प्रभाव से जातक को सन्तान एवं विद्या के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र दृष्टि से एकादशभाव को देखने के कारण जातक की आमदनी अच्छी बनी रहती है। संक्षेप में इस ग्रह स्थिति का जातक विद्वान्, मन्तविवान्, सुखी, धनवान तथा भाग्यशाली होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में मित्र बुध की राशि पर नीचस्थ शुक्र के प्रभाव से जातक शत्रु क्षेत्र में गुप्त-चानुर्य में काम लेता है तथा कठिनाइयों का शिकार बनता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण जातक के खर्च में अधिकता बनी रहती है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में सफलता मिलती है। ऐसी ग्रह स्थिति से जातक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं तथा सफलता पाने के लिए बुद्धि-बल का अधिक प्रयोग करना पड़ता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में केन्द्रस्थ स्वक्षेत्री शुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में विशेष सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं दृष्टि से लग्न को देखने के कारण जातक सुन्दर, कार्यकुशल, शारीरिक दृष्टि से पुष्ट तथा प्रतिष्ठित भी होता है। संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक सुखी, प्रतिष्ठित, होशियार तथा स्त्री, धन कुटुम्ब आदि के सुख से भरा-पूरा रहता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित द्वितीयेश तथा सप्तमेश शत्रु के प्रभाव से जातक को धन, कुटुम्ब, स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परन्तु आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति का लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने के कारण जातक कठिन परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुम्ब की वृद्धि करता है तथा अपने चातुर्य द्वारा प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर त्रिकोणस्थ शुक्र के प्रभाव से जातक भाग्यवान तथा चतुर होता है, साथ ही उसे स्त्री तथा कुटुम्ब का अच्छा सुख भी मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का अच्छा सुख भी मिलता है।

संक्षेप में, ऐसी ग्रह-स्थिति वाला जातक सुखी, धनी, भाग्यवान, धर्मात्मा, पराक्रमी तथा भाई-बहिनों के सुख से युक्त होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता एवं राज्य क्षेत्र से सुख प्राप्त होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से केन्द्रस्थ शुक्र द्वारा चतुर्थ-भाव को देखने से जातक को माता, भूमि एवं भवन का सुख भी प्राप्त होता है।

संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक धनी, सुखी, राज्य द्वारा सम्मानित, माता, पिता तथा स्त्री के सुख को पाने वाला, यशस्वी तथा परम चतुर होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ में स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न: एकादशभाव: शुक्र




ग्यारहवें भाव में मित्त शनि की राशि पर स्थित शष्ठमेश तथा द्वितीयेश शुक्र के प्रभाव से जातक अपने चातुर्य द्वारा खूब लाभ कमाता है तथा धनी होता है। उसे स्त्री एवं व्यवसाय द्वारा भी सुख एवं लाभ की प्राप्ति होती है।

सातवीं शत्रु दृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में बड़ी चतुराई के साथ सफलता मिलती है।

संक्षेप में, ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक धनी, सुखी, चतुर तथा स्वार्थी होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ में स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मेष लग्न: द्वादशभाव: शुक्र



बारहवें भाव में अपने सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर स्थित उच्च के शुक्र के प्रभाव से जातक बाहरी सम्बन्धों द्वारा बड़ी चतुराई से धन तथा यश प्राप्त करता है तथा बहुत खर्चीला भी होता है।


सातवीं नीच दृष्टि से मित्त राशि के पष्ठ-भाव को देखने के कारण जातक शत्रु पक्ष में छल-छिद्र एवं भेद युक्ति से काम निकालता है तथा शत्रुओं द्वारा कुछ हानि भी उठाता है। संक्षेप में

ऐसी ग्रह स्थिति का जातक संघर्ष-पूर्ण सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला होता है।

‘मेष’ लग्न में ‘शनि’

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मेष लग्न: प्रथमभाव: शनि




पहले भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा मान-प्रतिष्ठा में कमी रहती है तथा राज्य के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तीसरी मित्तदृष्टि तृतीयभाव पर पड़ने से पराक्रम तथा भाई-बहिनों की वृद्धि होती है, सातवीं मित्तदृष्टि सप्तमभाव पर पड़ने से स्त्री यथा व्यवसाय पक्ष में सफलता देता है तथा दसवीं दृष्टि से स्वराशि

वाले दशमभाव को देखने के कारण राज्य तथा मित्त के क्षेत्र में प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


मेष लग्न : द्वितीयभाव : शनि



दूसरे भाव में मित्त शुक्र की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक धनी तथा कुटुम्बवान होता है। तीसरी शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी आती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होने पर भी जातक को अशान्तियों का सामना करना पड़ता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि वाले एकादश-भाव को देखने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक धनी तथा ऐश्वर्यवान होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


‘मेष’ लग्न : तृतीयभाव : शनि



तीसरे भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित दशमेश तथा एकादशेश शनि के प्रभाव से जातक का पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है। साथ ही पिता, राज्य द्वारा सहयोग मिलता है। तीसरी शत्रु दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या तथा सन्तान पक्ष में कमी रहती है। सातवीं शत्रु दृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं तथा दसवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थान के सम्बन्ध भी असन्तोषजनक रहते हैं।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


मेष लग्न : चतुर्थभाव : शनि



चौथेभाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को माता तथा भूमि-भवन के साधनों में कुछ कमी रहती है, परन्तु सुख में वृद्धि होती है। तीसरी मित्तदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रुपक्ष से लाभ होता है तथा शत्रुओं पर प्रभाव बना रहता है। सातवीं दृष्टि स्वराशि वाले दशमभाव में पड़ने से पिता राज्य व्यवसाय एवं सामान के क्षेत्र में वृद्धि होती रहती है। दसवीं नीचदृष्टि से लग्न को देखने के कारण जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा वह चिन्ताओं का भी कुछ शिकार बना रहता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शनि का फलादेश


मेष लग्न: पंचमभाव: शनि



त्रिकोणस्थ शनि के प्रभाव से जातक को विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है, परन्तु सन्तान पक्ष से मतभेद रहता है। तीसरी उच्चदृष्टि से मित्रराशि के सप्तभाव को देखने के कारण व्यवसाय एवं स्त्री पक्ष में सफलता मिलती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है तथा राज्य एवं पिता से भी लाभ होता है। दसवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब का भी खूब लाभ होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


मेष लग्न: षष्ठभाव: शनि



दशमेश तथा एकादशेश शनि के प्रभाव से जातक को पिता के साथ वैमनस्य रहता है तथा राज्य पक्ष में कठिनाई से सफलता मिलती है। परन्तु आमदनी अच्छी रहती है तथा शत्रुओं पर विजय भी मिलती है। तीसरी शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कठिनाइयों में सफलता मिलती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च अधिक होता है तथा बाहरी संबंधों से असन्तोष रहता है। दसवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है। ऐसा जातक बड़ा हिम्मती तथा प्रभावी होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


मेष लग्न: सप्तमभाव: शनि



सातवें भाव में मित्र शुक की राशि पर स्थित दशमेश तथा एकादशेश शनि के प्रभाव से जातक को व्यवसाय एवं स्त्री-पक्ष में विशेष सफलता मिलती है। पिता तथा राज्य से बहुत लाभ होता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण भाग्योन्मत्ति में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं नीचदृष्टि से शत्रु मंगल की राशि वाले प्रथमभाव को देखने से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के क्षेत्र में कुछ असन्तोष रहता है तथा धरम सुखों में भी कमी आती है।

‘मेघ’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मेघलग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित एकादशेश शनि के प्रभाव से जातक को पुरातत्व एवं आयु का तो लाभ होता है, परन्तु आमदनी के क्षेत्र में कमी रहती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि वाले दशम भाव को देखने के कारण राज्य तथा पिता-पक्ष से अल्प लाभ होता है। सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से कठिन परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुम्ब के क्षेत्र में सफलता मिलती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को

देखने के कारण विद्या तथा सन्तान पक्ष में ढुटि रहती है। ऐसा जातक जबान का तेज तथा क्रोधी भी होता है।

‘मेघ’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मेघलग्न : नवमभाव : शनि




नवें भाव में शत्रु गुरु का राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक के भाग्य की आरम्भ में कम तथा बाद में विशेष उन्नति होती है। धर्म का पालन भी कम ही होता है। पिता तथा राज्य द्वारा लाभ मिलता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि वाले ग्यारहवें भाव को देखने के कारण आमदनी अच्छी रहती है तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि के साथ भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है तथा दसवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने

के कारण शत्रु-पक्ष में प्रभाव स्थापित होता है। संक्षेप, ऐसी ग्रह स्थिति का जातक शत्रुजयी, यशस्वी तथा धनी होता है।

‘मेघ’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित शनि का फलादेश

मेघलग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में स्वराशिस्थ शनि के प्रभाव से जातक पिता तथा राज्य द्वारा विशेष शान्ति तथा लाभ प्राप्त करता है। तीसरी शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी-स्थानों के संबंध असंतोषजनक रहते हैं। सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कमी रहती है तथा दसवीं उच्चदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलती है। संक्षेप में ऐसा जातक ऐश्वर्यवान्, विलासी तथा सुखी

जीवन बिताने वाला होता है।

‘शनि’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


मेषलग्न : एकादशभाव : शनि



ग्यारहवें भाव में स्वरशि स्थित दशमेश शनि के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती है। उसे पिता तथा राज्य द्वारा भी यथेष्ट लाभ मिलता है। तीसरी नीचदृष्टि से शत्रु की राशि वाले प्रथमभाव को देखने से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या तथा संतान पक्ष में भी कृति बनी रहती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु की वृद्धि तो होती है, परन्तु पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है एवं दैनिक जीवन में कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं।

‘शनि’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मेषलग्न : द्वादशभाव : शनि




बारहवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक का खर्च अत्यधिक होता है तथा बाहरी स्थानों, पिता एवं राज्य के पक्ष से भी हानि उठानी पड़ती है। तीसरी मित्तदृष्टि से द्वितीयभाव से देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। सातवीं मित्तदृष्टि से छठे भाव को देखने से शत्रुपक्ष में प्रभाव स्थापित होता है तथा दसवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण भाग्योन्नति में भी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं तथा विशेष परिश्रम द्वारा

थोड़ी ही सफलता मिल पाती है।

‘शनि’ लग्न में ‘राहु’

‘शनि’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मेष लग्न : प्रथमभाव : राहु



पहले भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। हृदय में विभिन्न प्रकार की चिन्तायें भी बनी रहती हैं। ऐसा जातक झूठ, फरेब तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने वाला तथा बड़ा हिम्मती होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मेषलग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक धन सम्बन्धी चिन्ताओं तथा अनेक प्रकार के संकटों से ग्रस्त बना रहता है। कौटुम्बिक क्लेश भी भोगने पड़ते हैं। परन्तु बारम्बार हानि उठाकर भी जातक अन्त में अपने युक्तिबल से सभी क्षतिपूर्ति करने में समर्थ हो जाता है तथा समाज में धनी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित भी होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मेषलग्न : तृतीयभाव : राहु



तीसरे भाव में उच्चस्थ राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है तथा उसे भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक बड़ा हिम्मती, साहसी, युक्तिबल में प्रवीण तथा अपनी भीतरी कमजोरी को प्रकट न करने वाला होता है और अपने इन्हीं गुणों के कारण सफलता भी प्राप्त करता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मेषलग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में शत्रुराशिस्थ राहु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी का शिकार होना पड़ता है। घरेलू शान्ति भी नहीं रहती। वह मानसिक-अशान्तियों का शिकार बना रहता है तथा गुप्त-युक्तियों का आश्रय लेकर भी अधिक सफल नहीं होता।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मेषलग्न : पंचमभाव : राहु



पाँचवें भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को विद्या के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों के बाद भी थोड़ी ही सफलता मिल पाती है। उसे सन्तान पक्ष से भी कष्ट होता है। परन्तु अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर वह सामान्य सफलताएँ प्राप्त करता रहता है। ऐसा जातक कम पढ़ा-लिखा तथा परेशानियों में फँसा रहने वाला होता है।

'मेष' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठमभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश


मेघलग्न : षष्ठमभाव : राहु



छठेभाव में मित्र बुध की राशि पर १. यत राहु के प्रभाव से जातक अपने शत्रु-पक्ष में हिम्मत, बहुदुरी तथा गुप्त युक्तियों से काम लेकर प्रभाव स्थापित करता है तथा कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति बारम्बार मुसीबतों का शिकार बनता रहता है, परन्तु अपने साहस एवं धैर्य के बल पर उन सब पर विजय भी पाता रहता है।

'मेष' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश


मेघलग्न : सप्तमभाव : राहु



सातवेंभाव में अपने मित्र शुक की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में चिन्ता एवं कष्टों का शिकार होता है, परन्तु अपनी गुप्त-युक्तियों के बल पर उन कठिनाइयों का निराकरण करता है। व्यक्ति के पारिवारिक-जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं तथा जैसे-जैसे ही निर्वाह हो पाता है।

'मेष' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश


मेघलग्न : अष्टमभाव : राहु



आठवेंभाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक बार मृत्यु-तुल्य कष्टों का शिकार होना पड़ता है। एक के बाद दूसरी मुसीबतें घेरे रहती हैं तथा पुरानतन्व विषयक हानि भी उठानी पड़ती है। वह गुप्त-युक्तियों का आश्रय लेता है, फिर भी उसकी चिन्ताओं एवं परेशानियों का अन्त नहीं हो पाता।

'मेष' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'राहु' का फलादेश


मेघलग्न : नवमभाव : राहु



नवेंभाव में शत्रु शुक की राशि पर स्थित नीच के राहु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहती हैं। धर्म पावन में भी श्रद्धा नहीं रहती। उसे वाग्धार अपयश, कष्ट, निराशा एवं असम्मान का सामना करना पड़ता है तथा अशुभक दुःख उठाते रहने के बावजूद भी बहुत कम सफलताये मिल पाती हैं।

‘मेष’ लग्न की कुंडली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मेषलग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में मित्त शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य के पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा नौकरी, व्यवसाय एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी बहुत संकट आते हैं। ऐसे जातक की भाग्योन्नति में बहुत कम सफलता मिलती है तथा अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं।

‘मेष’ लग्न की कुंडली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मेषलग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में मित्त शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी बहुत अच्छी रहती है, परन्तु उसके लिए उसे कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है। कभी-कभी लाभ के स्थान पर हानि के योग भी उपस्थित होते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक मितव्ययी, परिश्रमी, धनी तथा स्वार्थी होता है।

‘मेष’ लग्न की कुंडली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मेषलग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को खर्च की आवश्यकता के कारण बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं तथा बाहरी स्थानों के संबंध से भी कष्ट मिलता है। वीच-बीच में कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना तथा ठाठ-बाट से रहना—ये दोनों वानें भा साथ-साथ चलती हैं, परन्तु ऋण एवं व्यय के बोझ में मुक्ति नहीं मिल पाती।

‘मेष’ लग्न में ‘केतु’

‘मेष’ लग्न की कुंडली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फल


मेषलग्न : प्रथमभाव : केतु



पहले भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक शारीरिक-कष्ट, मानसिक-चिन्तायें तथा अन्य प्रकार की परेशानियों का शिकार बना रहता है। उसके शरीर में कहीं चोट भी लगती है तथा सौन्दर्य में भी कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने वाला होता है, परन्तु फिर भी अनेक कृतियों का शिकार बना रहता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेष लग्न : द्वितीयभाव : केतु



केतु के प्रभाव से जातक शारीरिक-कष्ट, चिन्ता, धन, की कमी, कौटुम्बिक परेशानी एवं झगड़ों का शिकार बना रहता है, परन्तु अपने मुक्ति-बल से आर्थिक स्थित में थोड़ा-बहुत सुधार कर लेता है। भोतर से चिन्तित, निर्धन तथा दुःखी रहने पर भी वह अपनी असलियत को प्रकट नहीं होने देता, फलतः लोग उसे धनवान ही समझते रहते हैं।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेष लग्न : तृतीयभाव : केतु



तीसरे भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित नीच के केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिन के पक्ष में कमजोरी आती है तथा वह भीरु स्वभाव का होता है। गुप्त-युक्तियों के आश्रम से स्वार्थ साधन करना ही उसका उद्देश्य होता है, परन्तु अत्यधिक परिश्रम करने पर भी उसे सफलता बहुत कम ही मिल पाती है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेष लग्न : चतुर्थभाव : केतु



चौथे भाव में शतु चन्द्रमा की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में बहुत कमी रहती है तथा कुटुम्ब के विषय में भी अशान्ति बनी रहती है। चन्द्रमा की राशि पर केतु के होने कारण जातक का मनोबल बना रहता है, अतः उमी के बल पर वह अपने संकट का समय निकालता है। ऐसा जातक अपना देश छोड़ कर विदेश में भी जा सकता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेष लग्न : पंचमभाव : केतु



पाँचवें भाव में शतु सूर्य की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को विद्याध्ययन में कठिनाइयाँ आती हैं। स्मरणशक्ति निर्बल होने के कारण वह अधिक विद्या प्राप्त नहीं कर पाता तथा मन्तानपक्ष से भी दुःखी रहता है। इस ग्रह स्थिति का जातक स्वभाव से उग्र तथा कठोर वचन बोलने वाला होता है। अत्यन्त परिश्रम करने पर भी उसे कम सफलता ही मिलती है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेष लग्न : षष्ठभाव : केतु



छठे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक शत्रुपक्ष पर विजयी बना रहता है। वह बड़ा हिम्मती, बहादुर तथा विवेकी होता है, परन्तु मन के भीतर कुछ कमजोरी भी छिपी रहती है। उसे ननसाल के पक्ष से कुछ हानि उठानी पड़ती है। संक्षेप में ऐसा व्यक्ति विवेकी, हिम्मती तथा शत्रुजयी होता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेष लग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा स्त्री-पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा पारिवारिक-गुत्थियों को सुलझाने में अनेक युक्तियों से काम लेना पड़ता है। अपनी गुप्त-युक्तियों द्वारा उसे व्यवसाय तथा स्त्री-पक्ष में कुछ कमियों के साथ सफलता मिलती रहती है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेष लग्न : अष्टमभाव : केतु



आठवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में कई बार मृत्यु-नुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है तथा पुरातत्त्व की हानि भी उठानी पड़ती है। गुप्त-युक्तियों का आश्रय लेकर जातक अपनी कठिनाइयों पर कुछ विजय भी पाता है, परन्तु कष्टों का अन्त नहीं होता। उसके शरीर में भी कोई-न-कोई रोग बना ही रहता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेघ लग्न : नवम भाव : केतु



नवें भाव में शुभ ग्रह गुरु की राशि में स्थित उच्च के प्रभाव से जातक भाग्यवान, धर्मात्मा तथा धनी होता है, परन्तु उसके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी आते रहते हैं तथा उसे अनेक प्रकार के संकटों एवं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कुल मिला कर ऐसा जातक संघर्षपूर्ण सुखी एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेघ लग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों से संघर्ष करना पड़ता है। उसे अपने व्यवसाय में अनेक बार परिवर्तन करने की आवश्यकता भी पड़ती है, परन्तु अपनी गुप्त-युक्तियों एवं कठिन परिश्रम के बल पर वह मान-प्रतिष्ठा तथा सफलताएँ प्राप्त करता है।

‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मेघ लग्न : एकादशभाव : केतु



ग्यारहवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक की आमदनी बहुत अच्छी रहती है। वह अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर अधिक मुनाफा कमाता है। परन्तु उसे अपनी आय के साधनों में अनेक बार परिवर्तन करने के साथ ही कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता भी पड़ती है।


‘मेष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

मेघ लग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में अपने शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थान के सम्बन्धों में कष्ट प्राप्त होता है तथा स्वर्च सम्बन्धी परेशानियाँ भी अधिक उठानी पड़ती हैं। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी आते रहते हैं। शुक के शुभ ग्रह होने के कारण कभी-कभी अल्प लाभ भी होता है तथा अच्छे कामों में ही व्यय होता है।

‘वृष’ लग्न



[‘वृष’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘वृष’ लग्न का फलादेश

‘वृष’ लग्न में जन्म लेने वाले जातक के शरीर का रंग गोरा अथवा गेहूँआ होता है। वह पुष्ट शरीर, लम्बे दाँत वाला, रजोगुणी, गुणवान, यशस्वी, बुद्धिमान, परम धैर्यवान, शूरवीर, साहसी, मधुरभाषी, यशस्वी, ईश्वरभक्त, ऐश्वर्यशाली, उदार, श्रेष्ठ संगति में बैठने वाला, कुंचित केशों वाला, दीर्घजीवी, शौकीन-मिजाज तथा स्त्रियों जैसे नाजूक-मिजाज वाला भी होता है। वह प्रकृति से अत्यन्त शान्त होता है, परन्तु अवसर पड़ने पर युद्ध अथवा संघर्ष में अपना प्रबल पराक्रम भी प्रकट कर दिखाता है।

‘वृष’ लग्न वाला जातक अपने परिवारीजनों से अनाहृत, शस्त्राघात पाने वाला, धन-क्षय-युक्त, मित्र-वियोगी, कलह-युक्त, चिन्ताओं से पीड़ित, मानसिक-रोगी, तथा मन-ही-मन दुःखी रहने वाला भी होता है।

कुछ विद्वानों के मतानुसार ‘वृष’ लग्न वाला जातक अपनी आयु के ३६वें वर्ष के बाद अनेक प्रकार के कष्टों को भी भोगता है।

‘वृष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी-फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डलियों में संख्या २२५ में ३३२ के बीच देखना चाहिए।

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें। इसे आगे लिये अनुसार समझ लेना चाहिए।

‘वृष’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१—‘वृष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २२५ से २३६ के बीच देखना चाहिए।

२—‘वृष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या २२५
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या २२६
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या २२७
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या २२८
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या २२९
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या २३०
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या २३१
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या २३२
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या २३३
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या २३४
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या २३५
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या २३६

‘वृष’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१—‘वृष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २३७ से २४८ के बीच देखना चाहिए।

२—‘वृष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन ‘चन्द्रमा’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या २३७
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या २३८
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या २३९
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या २४०
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या २४१
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या २४२

- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या २४३
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २४४
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या २४५
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या २४६
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या २४७
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या २४८

‘वृष’ लग्न में ‘मंगल’ का फलादेश

१—‘वृष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का स्थायी-फलादेश का उदाहरण-कुण्डली २४९ से २६० के बीच देखना चाहिए ।

२—‘वृष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘मंगल’—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या २४९
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या २५०
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २५१
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या २५२
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या २५३
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २५४
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या २५५
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २५६
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या २५७
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या २५८
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या २५९
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या २६०

‘वृष’ लग्न में ‘बुध’ का फलादेश

१—‘वृष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २६१ से २७२ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘वृष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘बुध’—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या २६१

- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या २६२
 (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २६३
 (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या २६४
 (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या २६५
 (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २६६
 (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या २६७
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २६८
 (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या २६९
 (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या २७०
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या २७१
 (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या २७२

'वृष' लग्न में 'गुरु' का फलादेश

१—'वृष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुरु' का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २७३ से २८४ के बीच देखना चाहिए ।

२—'वृष' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुरु' का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'गुरु'—

- (क) 'मेघ' राशि पर हो तो संख्या २७३
 (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या २७४
 (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या २७५
 (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या २७६
 (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या २७७
 (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या २७८
 (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या २७९
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या २८०
 (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या २८१
 (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या २८२
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या २८३
 (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या २८४

'वृष' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१—'वृष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित

‘शुक्र’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २८५ से २९६ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘वृष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शुक्र’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘शुक्र’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या २८५
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या २८६
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या २८७
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या २८८
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या २८९
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या २९०
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या २९१
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या २९२
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या २९३
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या २९४
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या २९५
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या २९६

‘वृष’ लग्न में ‘शनि’ का फलादेश

१. ‘वृष’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शनि’ का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या २९७ से ३०८ के बीच देखना चाहिए ।

२. ‘वृष’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शनि’ का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए ।

जिस वर्ष में ‘शनि’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या २९७
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या २९८
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या २९९
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ३००
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ३०१
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ३०२
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ३०३
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ३०४

- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ३०५
 (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३०६
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ३०७
 (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३०८

'वृष' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१. 'वृष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित 'राहु' का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३०६ से ३२० के बीच देखना चाहिए।

२. 'वृष' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या ३०६
 (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ३१०
 (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३११
 (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ३१२
 (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ३१३
 (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ३१४
 (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३१५
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३१६
 (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ३१७
 (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३१८
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ३१९
 (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३२०

'वृष' लग्न में 'केतु' का फलादेश

१. 'वृष' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित 'केतु' का स्थायी-फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३२१ से ३३२ के बीच देखना चाहिए।

२. 'वृष' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित 'केतु' का अस्थायी-फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'केतु'


- (क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या ३२१

- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ३२२
 (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३२३
 (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ३२४
 (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ३२५
 (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ३२६
 (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३२७
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३२८
 (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ३२९
 (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३३०
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ३३१
 (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३३२

'वृष' लग्न में 'सूर्य'

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'प्रथमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

वृष लग्न : प्रथमभाव : सूर्य




पहले भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित चतुर्थेश सूर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का सामान्य सुख प्राप्त होता है तथा शारीरिक सौन्दर्य में भी कुछ कमी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सूर्य सप्तमभाव को देखता है अतः जातक को स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में सफलता एवं मनोनुकूलता प्राप्त होती है। ऐसी ग्रह स्थिति का जातक प्रभावशाली तथा तेज मिजाज वाला भी होता है।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

वृष लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित चतुर्थेश सूर्य के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है, परन्तु माता के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। साथ ही भूमि, भवन का सुख रहते हुए भी उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता।

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा उसे पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। यों, जातक का दैनिक जीवन सुखी रहता है।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

वृष लग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में मित्र 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित चतुर्थेश सूर्य के प्रभाव से जातक को भूमि, भवन एवं माता का सुख प्राप्त होता है। पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण जातक को भाग्योन्नति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा धर्म-पालन में भी लापरवाही बनी रहती है।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

वृष लग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में स्वराशिस्थ सूर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तथा परिवार का सुख यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होता है। जातक बड़े ठाठ-बाट से रहता है तथा दिखावा खूब करने पर भी उसके मन में कुछ अशान्ति बनी रहती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में असन्तोष रहता है तथा प्रतिष्ठा एवं सफलता पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

वृष लग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तथा घरेलू सुख प्राप्त होता है तथा विद्या एवं सन्तान का पक्ष भी श्रेष्ठ रहता है। ऐसा जातक दूरदर्शी, गंभीर तथा बुद्धिमान होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने के कारण जातक की आय के साधन भी अच्छे रहते हैं और उसे समय-समय पर विशेष लाभ के अवसर भी मिलते हैं।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृष लग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठे भाव में शत्रु शुक की राशि पर स्थित नीच के सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने शत्रुओं द्वारा कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, परन्तु वह उन पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है, परन्तु फिर भी माता, भूमि व भवन के सुख में कमी रहती है।

सातवीं उच्च दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण जातक के बाहरी स्थानों से अच्छे सम्बन्ध रहते हैं। यद्यपि खर्च अधिक रहता है, परन्तु सुख भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर भी रहना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृष लग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा स्त्री पक्ष में सफलताएँ मिलती हैं तथा भूमि, भवन एवं माता के सुख का भी लाभ होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा पारिवारिक सुख में कुछ कमी आती है तथा हृदय में भी थोड़ी अशान्ति बनी रहती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृष लग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है तथा माता, भूमि, भवन एवं पारिवारिक सुख में भी विघ्न उपस्थित होते रहते हैं, परन्तु पुरातत्त्व एवं आयु का विशेष लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण जातक को कुटुम्ब एवं धन का लाभ मिलता रहता है तथा वह धनी भी होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृष लग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें त्रिकोण भाव में गतु शनि को राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के घरेलू सुख तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है, परन्तु माता, भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में कुछ असन्तोष रहता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में वृद्धि होती है। ऐसा जातक अपने पराक्रम एवं बुद्धि बल के उपयोग द्वारा ही कुछ कमियों के साथ सफलता प्राप्त करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृष लग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें केन्द्र भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ अपूर्ण सफलता मिलती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से स्वराशि वाले चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन आदि के सुख का लाभ होता है तथा पारिवारिक सुख भी बढ़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृष लग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में मित्त गुरु की राशि पर स्थित उष्णग्रह सूर्य के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती रहती है तथा माता, कुटुम्ब, भूमि एवं भवन का सुख भी पर्याप्त मिलता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण जातक के विद्या एवं संतान पक्ष में भी वृद्धि होती है तथा उसका जीवन आनन्दपूर्ण व्यतीत होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृष लग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर उच्चस्थ सूर्य के प्रभाव से जातक का बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ सम्बन्ध रहता है, परन्तु खर्च अधिक होता है तथा माता, परिवार एवं भूमि-भवन के सुख में भी कुछ कमी रहती है।

सातवीं नीचदृष्टि से शत्रु राशि के षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रु-पक्ष पर बड़ी कठिनाइयों के बाद प्रभाव स्थापित हो पाता है। ऐसा जातक यदि परदेश में जाकर रहे तो उसे अधिक लाभ होता है।

‘वृष’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र




पहले भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चतुर्थेश उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव जातक का मनोबल बहुत बढ़ा रहता है। उसे अपने भाई-बहिनों का सुख यथेष्ट मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होकर सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है।

सातवीं नीचदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में असन्तोष बना रहता है तथा परिवार को चलाने में भी कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र




दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चतुर्थेश चन्द्रमा के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम द्वारा धनोपार्जन करता है तथा कुटुम्ब का सुख भी पाता है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख एवं पराक्रम में कुछ कमी बनी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है। ऐसी ग्रहस्थिति वाला जातक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र




तीसरे भाव में स्वराशिक्ष चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। वह अत्यन्त हिम्मती, उद्योगी तथा प्रसन्नचित्त वाला होता है, अतः सर्वत्र यश तथा प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है।

सातवीं शतदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण धर्म-पालन में विशेष रुचि नहीं होती तथा भाग्य वृद्धि के लिए अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र




चौथे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चतुर्थश चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के माता, भूमि, भवन तथा घरेलू सुख में वृद्धि होती है। माय ही भाई-बहिन का सुख भी मिलता है तथा पराक्रम बढ़ता है।

सातवीं शतदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण जातक को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में विशेष परिश्रम के बाद ही सफलता मिल पाती है। संक्षेप में, ऐसा जातक सुखी जीवन बिताता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : पंचमभाव : चन्द्र




पाँचवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा मंतान के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। छोटे भाई-बहिनों से प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बना रहता है।

सातवीं सामान्य-मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण जातक अपने बुद्धि-बल से आमदनी के साधनों को बढ़ता है तथा ऐश्वर्यशाली एवं धनी होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र




छठे भाव में अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक शत्रुपक्ष पर अपना प्रभाव बनाये रखता है तथा झगड़े मुकद्दमों में सफलता प्राप्त करता है। अत्यन्त हिम्मती होते हुए भी जातक को कुछ भीतरी चिंताएँ घेरे रहती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु व्यय (खर्च) अधिक बना रहता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

✓ वृष लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र




सातवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित नीच के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा स्त्री के पक्ष में हानि, चिन्ता एवं कठिनाइयों का शिकार बनना पड़ता है।

सातवीं उच्चदृष्टि से प्रथम भाव के देखने के कारण जातक सुन्दर शरीर वाला, प्रतिष्ठित तथा यशस्वी होता है, साथ ही उसका हृदय भी बलवान बना रहता है। कुल मिला कर ऐसे जातक का जीवन संघर्ष पूर्ण होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चतुर्थ चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु पराक्रम एवं भाई-बहिन के सुख में कमी आ जाती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण जातक के धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है; परन्तु इस लाभ के लिए उसे अत्यधिक परिश्रम भी करना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुंडली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवमभाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक धर्मात्मा तथा भाग्यशाली होता है, साथ ही उसे भाई-बहिनों का सहयोग भी मिलता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले चतुर्थभाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक हिम्मती, फुर्तीला तथा प्रसन्न स्वभाव वाला होता है।

‘वृष’ लग्न की कुंडली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : दशमभाव : चन्द्र




दशमभाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता के साथ थोड़ा मतभेद रहता है तथा राज्य के क्षेत्र में भी अत्यधिक परिश्रम द्वारा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। भाई-बहिन का सुख अच्छा मिलता है तथा पराक्रम में भी वृद्धि होती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण जातक को माना, भूमि, भवन तथा पारिवारिक-सुख भी यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होता है।

‘वृष’ लग्न की कुंडली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

वृष लग्न : एकादशभाव : चन्द्र




ग्याहरवें भाव में मित्त गुरु की राशि पर स्थित चतुर्थश चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है तथा भाई-बहिन के सुख एवं पराक्रम में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का भी अच्छा लाभ होता है। संक्षेप में ऐसा जानक बुद्धिमान, विद्वान, सन्ततिवान, धनी, मधुरभाषी तथा ऐश्वर्यशाली होता है।

'वृष' लग्न की कुंडली के 'द्वादशभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

वृष लग्न : द्वादशभाव : चन्द्र




बारहवेंभाव में अपने मित्त मंगल की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा खर्च भी अधिक रहता है। भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में भी कमी आ जाती है।

सातवीं सामान्य मित्तदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण जातक झगड़े-टंटे तथा शत्रुओं के क्षेत्र में बड़ी युक्तियों से काम लेकर सफलता प्राप्त करता है।

'वृष' लग्न में 'मंगल'

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'प्रथमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश


वृष लग्न : प्रथमभाव : मंगल



पहलेभाव में अपने मित्त शुक्र की राशि पर स्थित सप्तमेश एवं व्ययेश मंगल के प्रभाव से जातक को रक्त-विकार, घातुक्षीणता, दुर्बलता आदि की शिकायत रहती है, परन्तु शारीरिक-शक्ति का भी लाभ होता है। बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध रहते हैं। चौथी मित्तदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। सातवीं दृष्टि से स्वक्षेत्रीय सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख प्राप्त होता है। आठवीं मित्तदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व संबंधी परेशानियाँ उपस्थित होती रहती हैं।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

वृष लग्न : द्वितीयभाव : मंगल




दूसरेभाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के विषय में चिन्तायें बनी रहती हैं, परन्तु बाहरी संबंधों से लाभ होता है। चौथी मित्तदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि एवं संतान का पक्ष भी कमजोर रहता है। सातवीं मित्तदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण आयु एवं पुरातत्त्व के क्षेत्र में भी हानि तथा चिन्तायें उपस्थित होती रहती हैं। आठवीं उच्चदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण जातक के धर्म तथा भाग्य

की वृद्धि होती रहती है एवं जातक भाग्यशाली माना जाता है।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश


वृष लग्न : तृतीयभाव : मंगल



तिसरेभाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन तथा पराक्रम के पक्ष में हानि उठानी पड़ती है। स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में भी ऐसा ही होता है। चौथी शत्रुदृष्टि से पृष्ठभाव को देखने के कारण जातक के शत्रु नष्ट होते हैं। सातवीं उच्चदृष्टि से नवमभाव के देखने के कारण धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है। आठवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण जातक को पिता एवं राज्य-पक्ष में हानि एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी रुकावटें आती हैं।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश


वृष लग्न : चतुर्थभाव : मंगल



चौथे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित व्ययेश मंगल के प्रभाव से जातक को भूमि, भवन एवं माता के सुख की हानि होती है तथा घरेलू सुख भी कम मिलता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि के सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलती है। बाहरी स्थानों से सफलता मिलती है तथा खर्च अधिक रहता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता एवं राज्य पक्ष में हानि उठानी पड़ती है। आठवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण आय के साधनों में वृद्धि होती है तथा बाहरी संबंधों द्वारा विलम्ब से लाभ होता है।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश


वृष लग्न : पंचमभाव : मंगल



पाँचवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित व्ययेश मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के पक्ष में चिन्ता एवं हानि उठानी पड़ती है तथा स्त्री एवं व्यवसाय पक्ष में भी चिंताएँ रहती हैं। चौथी मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की हानि के योग भी उपस्थित होते हैं। सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव देखने के कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वादश भाव को देखने के कारण खर्च अधिक होता है तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए अधिक परिश्रम तथा खर्च करना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृष लग्न : षष्ठभाव : मंगल




छठे भाव में शत्रु शुक की राशि में स्थित व्ययेश तथा सप्तमेश मंगल के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर प्रबल बना रहता है परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में हानियाँ उठाता है। चौथी उच्चदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण धर्म एवं भाग्य की वृद्धि करता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिकतर रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। आठवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक का शरीर कमजोर रहता है तथा रक्त-वीर्य आदि के विकारों का भी शिकार बनना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


वृष लग्न : सप्तमभाव : मंगल



सातवें भाव में स्वराशि स्थित व्ययेश मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में शक्ति प्राप्त होने पर भी कठिनाइयाँ आती हैं तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। चौथी शत्रुदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एवं राज्य के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक का शरीर दुर्बल रहता है। आठवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब के बारे में चिन्ताएँ तथा कठिनाइयाँ उपस्थित रहती हैं।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


वृष लग्न : अष्टमभाव : मंगल



आठवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सप्तमेश तथा मित्र के प्रभाव से जातक को स्त्री, व्यवसाय, आयु तथा पुरातत्त्व विषयक हानियाँ उठानी पड़ती हैं तथा परदेस में बसना पड़ता है। चौथी मित्रदृष्टि से एक दशभाव को देखने के कारण विदेश द्वारा धन का लाभ होता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब विषयक परेशानियाँ रहती हैं। आठवीं नीचदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में भी कमी आ जाती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


वृष लग्न : नवमभाव : मंगल



नवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से लाभ होता है तथा भाग्यबल से व्यावसायिक उन्नति भी होती है। धर्म में आस्था रहती है। चौथी दृष्टि में स्वराशि वाले द्वादशभाव को देखने से खर्च की अधिकता रहती है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। सातवीं नीचदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में कमी रहती है। आठवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि-भवन तथा घरेलू सुख में भी कमी आ जाती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


वृष लग्न : दशमभाव : मंगल



दसवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य पक्ष में परेशानियाँ आती हैं। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से व्यवसाय में लाभ होता है। स्त्री पर प्रभाव होने पर भी मनोमालिन्य बना रहता है। चौथी शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण शारीरिक कमजोरी तथा रक्त-विकार आदि रहते हैं। सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन तथा घरेलू सुख में भी कमी रहती है आठवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान से अनवन रहती है। विद्या का लाभ भी कम होता है, परन्तु सम्मान की वृद्धि होती रहती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


वृष लग्न : एकादशभाव : मंगल



ग्यारहवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती है। तथा स्त्री-पक्ष एवं बाहरी सम्बन्धों से भी लाभ होता है। चौथी शत्रुदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं शत्रु दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या तथा संतान का पक्ष भी दुर्बल रहता है। आठवीं समदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रुपक्ष में प्रभाव बना रहता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक बड़ा चतुर तथा स्वार्थी होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृष लग्न : द्वादशभाव : मंगल




बारहवें भाव में स्वराशि स्थित मंगल के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त होती है, मंगल के सप्तमेश होने के कारण स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती है। चौथी नीचदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण भाई-बहिन के सुख एवं पराक्रम में कमी रहती है। सातवीं दृष्टि में षष्ठभाव को देखने से शत्रुओं पर विजय मिलती है तथा आठवीं दृष्टि से स्वराशि वाले सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में हानि-लाभ के योग बनते बिगड़ते रहते हैं।

‘वृष’ लग्न में ‘बुध’

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृष लग्न : प्रथमभाव : बुध




पहले भाव में मित्त शुक्र की राशि पर स्थित द्वितीयेश तथा पंचमेश बुध के प्रभाव से जातक सुन्दर, प्रतिष्ठित यशस्वी तथा कुटुम्ब एवं धन की शक्ति पाने वाला होता है। विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का पक्ष भी अच्छा रहता है।

सातवीं समदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता एवं सहयोग की प्राप्ति होती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृष लग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में स्वराशि स्थित बुध के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब की उत्तम वृद्धि होती है, परन्तु सन्तान पक्ष में परेशानियाँ रहती हैं। विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं मित्तदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। ऐसी ग्रहस्थिति वाला जातक ऐश्वर्यशाली जीवन बिताता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृष लग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में चन्द्रमा की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है। वह अपने पराक्रम द्वारा धन उपाजित करता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण जातक की धर्म में रुचि बनी रहती है तथा भाग्य में भी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, बुद्धिमान, विद्वान्, साहसी, धनी, धर्मात्मा एवं सज्जन स्वभाव का होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृष लग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक माता, भूमि, भवन तथा परिवार का यथेष्ट सुख प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति गंभीर, विवेकी, विद्वान तथा बुद्धिमान भी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण जातक को पिता तथा राज्य से भी यथेष्ट लाभ होता है तथा व्यासायिक क्षेत्र में भी सफलता मिलती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृष लग्न : पंचमभाव : बुध




पांचवें भाव में स्वराशि स्थित उच्च के बुध के प्रभाव से जातक बहु सन्ततिवाला, बुद्धिमान तथा विद्वान् होता है तथा बुद्धिबल से धनोपाजन भी खूब करता है। कौटुम्बिक मुख उसे भरपूर मिलता है।

सातवीं नीचदृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण आमदनी के क्षेत्र में कुछ कमी का अनुभव होता है, परन्तु जातक अपनी विद्या एवं सन्तान पक्ष की सहायता से धन की वृद्धि करता है तथा सम्मान भी पाता है।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

वृष लग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक शत्रुपक्ष द्वारा अशान्ति का अनुभव करता है, परन्तु अपने बुद्धि-बल से उस पर कुछ सफलता भी पा लेता है। सन्तान तथा कुटुम्ब से मतभेद एवं परेशानी के योग भी उपस्थित होते हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च की अधिकता रहती है, परन्तु वाहरी स्थानों के सम्बन्ध से सम्मान तथा धन मिलता रहता है।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

वृष लग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को बुद्धिमान स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं। विद्या, कुटुम्ब तथा सन्तान पक्ष से सुख एवं धन प्राप्ति के योग भी उपस्थित होते रहते हैं।

सातवीं दृष्टि मित्र से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक को शारीरिक सौन्दर्य, यश, प्रतिष्ठा, बुद्धि, विवेक, धन एवं सफलताओं की प्राप्ति भी होती है।

'वृष' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

वृष लग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है तथा धन-संचय की शक्ति में वृद्धि होती है, परन्तु कुटुम्ब, विद्या एवं सन्तान पक्ष से परेशानियों का अनुभव होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वितीयभाव को देखने के कारण जातक कठिन परिश्रम द्वारा धनो-पार्जन करता है। ऐसे व्यक्ति का रहन-सहन ऐश्वर्यपूर्ण होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृष लग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में मित्त शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक बुद्धि-योग द्वारा अपने भाग्य एवं धन की वृद्धि करता है तथा धर्म, विद्या, सन्तान एवं कुटुम्ब विषयक सुखों को भी प्राप्त करता है।

सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण जातक को भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी विशेष वृद्धि होती है। ऐसा जातक सुखी, धनी तथा ऐश्वर्यशाली होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृष लग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में मित्त शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक पिता एवं राज्य पक्ष से विशेष लाभ तथा सम्मान प्राप्त करता है। अपने बुद्धि-बल द्वारा व्यवसाय से पर्याप्त आर्थिक लाभ भी कमाता है। सन्तान पक्ष से भी सुखी रहता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण जातक को माता, भूमि, भवन तथा परिवार का यथेष्ट सुख भी प्राप्त होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृष लग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में मित्त गुरु की राशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक को आय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं तथा धन-संचय में बाधा पड़ती है। कुटुम्ब, सन्तान एवं विद्या पक्ष से भी अल्प लाभ मिलता है तथा विन्ताओं के कारण मस्तिष्क परेशान बना रहता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले पंचमभाव को देखने के कारण जातक विद्वान् तथा बुद्धिमान होता है तथा उसका सन्तान पक्ष भी प्रबल बना रहता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृष लग्न : द्वादशभाव : बुध




बारहवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु खर्च अधिक बना रहता है। साथ ही विद्या, सन्तान, कुटुम्ब एवं धन के पक्ष से भी असन्तोष रहता है। सन्तान-पक्ष में हानि भी उठानी पड़ती है।

सातवीं मित्र दृष्टि में षष्ठभाव को देखने के कारण जातक अपने बुद्धि-बल द्वारा शत्रु-पक्ष पर सफलता प्राप्त करता रहता है।

‘वृष’ लग्न में ‘गुरु’

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृष लग्न : प्रथमभाव : गुरु




पहले भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को शारीरिक परिश्रम द्वारा लाभ होता है तथा आयु एवं पुरातत्त्व की उन्नति होती है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या-बुद्धि का लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष सामान्य रहता है। सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष से लुटिपूर्ण सफलताएँ मिलती हैं। नवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने से जातक के भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है।

ऐसा जातक परिश्रम द्वारा उन्नति करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृष लग्न : द्वितीयभाव : गुरु




दूसरे भाव में अपने ^{सात}मित्र बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को धन तथा कौटुम्बिक सुख प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं दृष्टि से स्वराशि के अष्टमभाव को देखने से आयु की वृद्धि तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठ-भाव को देखने से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है तथा नवीं समदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण राज्य पक्ष में सामान्य सफलता मिलती है, पिता से वैमनस्य रहता है तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है।

है तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


वृष लग्न : तृतीयभाव : गुरु



तीसरे भाव में मित्त चन्द्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में वृद्धि होती है। पाँचवीं मित्तदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ व्यवसाय तथा स्त्री-पक्ष में सफलता एवं उन्नति प्राप्त होती है। सातवीं नीचदृष्टि से शत्रु राशिस्थ नवमभाव को देखने के कारण धार्मिक विचारों तथा भाग्य में कुछ लुटि बनी रहती है तथा नवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादश भवन को देखने के कारण आमदनी अच्छी होती रहती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


वृष लग्न : चतुर्थभाव : गुरु



पहले भाव में मित्त सूर्य की राशि पर स्थित अष्टमेश गुरु के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी रहती है, परन्तु भूमि, भवन एवं सम्पत्ति लाभ होता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि के अष्टम भाव को देखने से आयु में वृद्धि तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं प्रतिष्ठा पक्ष में कुछ कमी आती है तथा नवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु आमदनी से खर्च अधिक बना रहता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


वृष लग्न : पंचमभाव : गुरु



पाँचवें भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का विशेष लाभ होता है, साथ ही आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। पंचम नीचदृष्टि से शत्रुराशि के नवमभाव को देखने के कारण धर्म एवं भाग्यपक्ष में कमी रहती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादश भाव को देखने से बुद्धि योग द्वारा अच्छी आमदनी होती है। नवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक को जीविकोपार्जन के लिए शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


वृष लग्न : षष्ठभाव : गुरु



छठे भाव में शत्रु शुक की राशि पर स्थित अष्ट-मेश गुरु के प्रभाव से जातक शत्रुपक्ष में अपनी बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त करता है परन्तु आयु तथा पुरातत्त्व के लाभ में कमी रहती है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण बाहरी सम्बन्धों से अच्छा लाभ होता है, परन्तु खर्च अधिक रहता है। नवीं मित्रदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण विशेष परिश्रम करके धन-संचय में सफलता मिलती है, परन्तु कौटुम्बिक सुख में कमी रहती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


वृष लग्न : सप्तमभाव : गुरु



सातवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित अष्टमेश तथा व्ययेश गुरु के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि वाले एकादशभाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर में दुर्बलता रहती है। नवीं उच्चदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसा जातक स्वार्थी, धनी तथा ऊपरी दृष्टि से सज्जन प्रतीत होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


वृष लग्न अष्टमभाव : गुरु



आठवें भाव में स्वराशि पर स्थित अष्टमेश गुरु के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु आय के साधनों में कुछ कठिनाइयों भी आती हैं। पाँचवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्च की अधिकता रहती है। सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से परिश्रम द्वारा कुटुम्ब तथा धन की वृद्धि होती है। नवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन एवं सुख के पक्ष में कुछ असन्तोष रहता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृष लग्न : नवमभाव : गुरु




के पक्ष में कमजोरी रहती है।

कुल मिलाकर इस ग्रह-स्थिति के कारण जातक की उन्नति, प्रतिष्ठा, प्रभाव तथा ऐश्वर्य में कमियाँ बनी रहती हैं।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


वृष लग्न : दशमभाव : गुरु



पक्ष से परेशानी रहती है,

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृष लग्न : एकादशभाव : गुरु



व्यवसाय द्वारा पर्याप्त लाभ होता है परन्तु स्त्री-पक्ष से कुछ कठिनाइयों के साथ सुख मिलता है। ऐसा जातक ऐश्वर्यशाली होता है।


नवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित अष्टमेश एवं व्ययेश गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म-पालन में कमजोरी रहती है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण शारीरिक सौंदर्य में कमी रहती है तथा प्रभाव-वृद्धि के लिए विशेष यत्न करना पड़ता है। सातवीं उच्चदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण सन्तान तथा विद्या

दसवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित अष्टमेश गुरु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है, लाभ-प्राप्ति के मार्ग में भी सफलता कम मिलती है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव के देखने के कारण धन की वृद्धि होती है तथा कुटुम्ब का सहयोग मिलता है। सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि एवं भवन आदि का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रु-पक्ष से परेशानी रहती है, परन्तु आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है।

ग्यारहवें भाव में स्वरशिस्थि अष्टमेश गुरु के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है, परन्तु परिश्रम अधिक करना पड़ता है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। पंचम उच्च दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख का लाभ होता है। सातवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष में कम लाभ होता है। नवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृषलग्न : द्वादशभाव : गुरु




बारहवें भाव में मित्त मंगल की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थान के सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्च की अधिकता रहती है। पाँचवीं मित्तदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ सुख के साधन प्राप्त होते हैं, परन्तु माता के सुख में कमी रहती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण शत्रु-पक्ष पर बुद्धिमानी द्वारा प्रभाव स्थापित होता है। नवीं दृष्टि से स्वराशि के अष्टमभाव, को देखने से आयुपक्ष में कुछ कमी रहती है, पुरातत्त्व की हानि होती है तथा आमदनी से खर्च अधिक बना रहता है।

‘वृष’ लग्न में ‘शुक्र’

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में स्वराशि में स्थित शुक्र के भाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं आत्मिक बल में वृद्धि होती है तथा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती रहती है। परन्तु कभी-कभी रोगों का शिकार भी बनना पड़ता है।

सातवीं सामान्य मित्तदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में बुद्धिमानी द्वारा सफलता मिलती है। कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति का जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुम्ब की वृद्धि करता है, परन्तु शारीरिक सुख में कुछ कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक को आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कुछ कमी बनी रहती है, परन्तु शत्रु-पक्ष से चातुर्य द्वारा लाभ मिलता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन का सुख कुछ वैमनस्य के साथ प्राप्त होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण जातक धर्मात्मा तथा भाग्यवान् होता है।

ऐसी ग्रह स्थिति का जातक पराक्रमी, चतुर तथा परिश्रमी होता है और इन्हीं गुणों के बल पर धन, यश, मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी आती है तथा भूमि, भवन के सुख के बारे में भी कुछ असन्तोष रहता है, परन्तु इन सब कमियों के बावजूद सुख के साधन प्राप्त होते रहते हैं। शत्रु-पक्ष पर शान्ति तथा चातुर्य द्वारा सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र दृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है तथा यश, मान, प्रतिष्ठा एवं उन्नति का लाभ होता रहता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में नीचराशिस्थ शुक्र के प्रभाव से जातक का विद्या तथा सन्तान-पक्ष कमजोर रहता है, परन्तु वह अपने बुद्धि-चातुर्य-द्वारा शत्रु-क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है।

सातवीं उरुषदृष्टि से एकादशभाव को देखने के कारण कठिन परिश्रम एवं दिमाग की सूझ-बूझ से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ऐसी ग्रहस्थिति वाला जातक, चिन्ता, असन्तोष, मस्तिष्क में परेशानी एवं शारीरिक मोन्दर्य में कमी प्राप्त करता है।

‘बृष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में स्वक्षेत्री शुक्र के प्रभाव से जातक शारीरिक शक्ति एवं चातुर्य के द्वारा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त करता है, परन्तु शुक्र के लग्नेश होकर षष्ठभाव में बैठने के कारण शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी भी रहती है। माता द्वारा लाभ एवं परतन्त्रता का योग भी बनता है।

सातवीं समदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा खर्च की अधिकता रहती है। ऐसी ग्रहस्थिति वाला जातक किसी-न-किसी झगड़े में फंसा ही रहता है, परन्तु बड़ा प्रतापी भी होता है।

‘बृष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से बँधनस्य तथा परेशानी के योग बनते हैं तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठोर शारीरिक परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले प्रथमभाव को देखने के कारण जातक सांसारिक कार्यों में परम दक्ष होता है, परन्तु शरीर रोगी भी बना रहता है।

‘बृष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा रोगादि का कष्ट बना रहता है। आयु की शक्ति प्राप्त होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ गुप्त चातुर्य के बल पर होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण जातक कठिन परिश्रम से धन की वृद्धि करता है। मामा के पक्ष में कमजोरी, शत्रु-पक्ष से कष्ट एवं उदर-विकारादि के योग भी बनते हैं।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में मित शनि की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक शारीरिक श्रम द्वारा भाग्योन्नति करता है तथा शत्रुपक्ष में सफलता पाता है। शरीर सुन्दर होता है, परन्तु रोगादि के योग उपस्थित होते रहते हैं।

सातवीं मितदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। शत्रु एवं झगड़े के क्षेत्र में विजय सिद्धि है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में मित शनि की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का पिता के साथ सामान्य वैमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों तथा परिश्रम के साथ सफलता मिलती है। शत्रुपक्ष पर प्रभाव बना रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी, सुखी तथा उन्नतिशील होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृषलग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में उच्च राशिस्थ शुक्र के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा आमदनी को बढ़ाता है। वह सुन्दर होने के साथ ही रोगी भी रहता है तथा शत्रुपक्ष से लाभ मिलता है।

सातवीं नीचदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण सन्तान पक्ष में कमी तथा विद्याध्ययन में लापरवाही रहती है। ऐसा व्यक्ति अनेक प्रयत्नों द्वारा अच्छा लाभ उठाता तथा उन्नति करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृष लग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बाहरवें भाव में सामान्य मित्र मंगल की राशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ उठाता है। वह शरीर से दुर्बल होने पर भी परिश्रमी होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रुपक्ष से कुछ हानि भी उठाता है। ऐसा व्यक्ति चतुर, रोगी तथा धन कमाने में कुशल परन्तु शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है।

‘वृष’ लग्न में ‘शनि’

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृष लग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक सुन्दर तथा भाग्यवान् होता है।

तीसरी शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण भाई-बहनों के सुख में कमी आती है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि वाले दशम भाव को देखने से पिता एवं राज्य द्वारा लाभ तथा सम्मान

की प्राप्ति होती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


वृष लग्न : द्वितीयभाव : शनि



दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के धन-कुटुम्ब की वृद्धि होती है, परन्तु सुख में कुछ कमी आती है। तीसरी शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता के सुख में कमी होती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु बढ़ती है। दसवीं शत्रु दृष्टि से एकादशभाव को देखने के कारण आमदनी के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। राज्य के क्षेत्र में भी प्रभाव एवं सम्मान की वृद्धि होती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


वृष लग्न : तृतीयभाव : शनि



तीसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक का भाई-बहिनों के साथ वैमनस्य रहता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है। तीसरी मित्त-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या तथा सन्तान के पक्ष में सफलता मिलती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि के नवमभाव को देखने से भाग्य की अच्छी वृद्धि होती है। दसवीं नीचदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च में कमी रहती है तथा बाहरी सम्बन्धों में भी लापरवाही बनी रहती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृष लग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित केतुस्थ शनि के प्रभाव से जातक का माता के साथ वैमनस्य रहता है तथा भूमि-भवन के सुख में भी कमी रहती है। तीसरी उच्चदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा माया से शक्ति मिलती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। दसवीं मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से सारौरिक प्रभाव एवं सम्मान में

वृद्धि होती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


वृष लग्न : पंचमभाव : शनि



पाँचवें भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में असंतोष रहता है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से व्याय के साधनों से असन्तोष रहता है। दसवीं मित्त-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक धनी, प्रतिष्ठित तथा भाग्यवान होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाब’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


वृष लग्न : षष्ठभाब : शनि



छठे भाव में मित्त शुक्र की राशि पर उच्चस्थ शनि के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में विशेष प्रभावी रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ पाता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण आयु एवं पुरातत्त्व के क्षेत्र में चिन्ता-मुक्त लाभ होता है। सातवीं नीचदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण बाहरी स्थानों से असन्तोषजनक सम्बन्ध रहता है तथा खर्च की भी परेशानी रहती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम की वृद्धि होती है, पर भाई-बहिनों से मेल-मिलाप नहीं रहता।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाब’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


✓ वृष लग्न : सप्तमभाब : शनि



सातवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता एवं उन्नति प्राप्त होती है, परन्तु कुटुम्ब के संचालन में कुछ कठिनाइयाँ बनती रहती हैं। पिता तथा राज्य से भी शक्ति प्राप्त होती है। तीसरी दृष्टि से नवमभाव को स्वराशि में देखने से भाग्यशक्ति बलवान होती है तथा धर्म में भी रुचि रहती है। सातवीं मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि व भवन के सुख में कुछ कमी का अनुभव होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाब’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


वृष लग्न : अष्टमभाब : शनि



आठवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ दीर्घायु प्राप्त होती है। तीसरी दृष्टि से भाग्य, स्वधमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं सम्मान के पक्ष में कुछ कमी रहती है। भाग्योन्नति के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। सातवीं मित्त-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण प्रयत्नपूर्वक धन का संचय होता है। दसवीं मित्त-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृष लग्न: नवमभाव: शनि




माता से भी लाभ होता है ।

नवें भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव से जातक घर्मात्मा तथा भाग्यवान होता है, साथ ही उसे पिता तथा राज्य से भी श्रेष्ठ लाभ होता है । तीसरी शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से कुछ गलत रास्तों से आमदनी में वृद्धि होती है । सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से मनमुटाव रहता है । दसवीं उच्च दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव स्थापित होता है तथा

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृष लग्न: दशमभाव: शनि




भाग्यशाली होता है, परन्तु दैनिक जीवन में चिन्ताएँ रहती हैं । ऐसा जातक बड़ा भाग्यवान् तथा सफल व्यवसायी होता है ।

दसवें भाव में स्वराशिस्य शनि के प्रभाव से जातक को पिता, व्यवसाय एवं राज्य द्वारा पर्याप्त लाभ होता है तथा प्रलिष्ठा मिलती है । तीसरी नीच दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च की परेशानी रहती है तथा बाहरी सम्बन्धों में कुछ त्रुटि रहती है । सातवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन तथा धरेलू सुख में कमी आती है । दसवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री-पक्ष

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृष लग्न: एकादशभाव: शनि




में सफलता मिलती है । दसवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के विषय में कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है ।

ग्यारहवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को अपनी आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलताएँ मिलती हैं तथा पिता एवं राज्य-पक्ष से भी असन्तोषपूर्ण लाभ होता है । यों, भाग्य की शक्ति प्रबल रहती है । तीसरी मित्र दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक प्रभाव तथा आयु की शक्ति प्राप्त होती है । सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है । दसवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृष लग्न : द्वादशभाव : शनि




बारहवें भाव में नीच राशिस्थ शनि के प्रभाव से जातक को खर्च एवं बाहरी सम्बन्धों में परेशानियों का अनुभव होता है। राज्य, पिता, व्यवसाय, भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में भी कमियाँ रहती हैं। तीसरी मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-कुटुम्ब का सामान्य लाभ होता है। सातवीं उच्च दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़े-मुकदमे आदि में लाभ होता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि के नवमभाव को देखने से भाग्य की थोड़ी-बहुत वृद्धि होती है, परन्तु सम्मान के क्षेत्र में कमी बनी रहती है।

‘वृष’ लग्न में ‘राहु’

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृष लग्न : प्रथमभाव : राहु



पहले भाग में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ हानि होती है, परन्तु उसे गुप्त चतुराई एवं मनोबल द्वारा स्वार्थ-साधन में सफलता मिलती है। ऐसा जातक बड़ा साहसी तथा हिम्मती होता है। वह अनेक युक्तियों से अपने प्रभाव तथा व्यक्तित्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त करता है। कभी-कभी उसे मूर्च्छा अथवा चोट का शिकार भी बनना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृष लग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में स्थित उच्च के राहु के प्रभाव से जातक अनेक युक्तियों तथा चातुर्य के बल पर अपने धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि करता है, परन्तु बीच-बीच में उसे कठिनाइयों तथा संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृष लग्न : तृतीयभाव : राहु



तीसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन तथा पराक्रम के क्षेत्र में कुछ कष्ट का अनुभव होता है, परन्तु वह अपनी भीतरी कमजोरियों तथा चिन्ताओं को बड़ी चतुराई से छिपाकर हौसला बनाये रखता है और प्रकट रूप में बड़ा हिम्मती होता है ।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृष लग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तथा सुख के क्षेत्र में कष्टों तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है । परदेश में जाकर रहना पड़ता है तथा अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं, अन्त में कठिन परिश्रम तथा गुप्त उपायों द्वारा सामान्य धन एवं सुख प्राप्त करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृष लग्न : पंचमभाव : राहु



पाँचवें भाव में मित बुध की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सन्तान का सुख मिलता है तथा मस्तिष्क-सम्बन्धी कुछ कमियों के साथ विद्या एवं बुद्धि की उन्नति होती है । ऐसा जातक अधिक बोलने वाला, गुप्त युक्तियों से काम लेने वाला तथा नशेबाज होता है ।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृष लग्न : षष्ठभाव : राहु



छठे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष का हिम्मत के साथ मुकाबला करता और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। परन्तु मामा के सुख में कुछ कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों तथा गुप्त विद्याओं में कुशल होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृष लग्न : सप्तमभाव : राहु



सातवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष द्वारा कष्ट प्राप्त होता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं। गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर वह थोड़ी-बहुत सफलता भी प्राप्त कर लेता है। उसे इन्द्रिय-विकारों का भी सामना करना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृष लग्न : अष्टमभाव : राहु



आठवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित नीच के राहु के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों तथा हानियों का सामना करना पड़ता है। परन्तु वह सौम्य तथा सज्जन बना रहता है। ऐसा जातक गुप्त चिन्ताओं से ग्रस्त हो, गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है तथा बाहरी सम्बन्धों से जीवन-निर्वाह करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृषलग्न : नवमभाव : राहु



नवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा धैर्य, गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम का आश्रय लेकर ही वह कुछ सफलताएँ प्राप्त करता है। उसके जीवन में सुख-दुःख तथा गरीबी-अमीरी का क्रम निरन्तर आता-जाता बना रहता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृषलग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अपने पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा सफलता पाने के लिए गुप्त युक्तियों, परिश्रम एवं धैर्य का आश्रय लेना पड़ता है। परन्तु ऊपरी दृष्टि से वह एक अमीर तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति जान पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृषलग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से कुछ रुकावटों के साथ जातक को आमदनी के क्षेत्र में सफलताएँ प्राप्त होती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के द्वारा लाभ कमाता है। संकटों में भी वह अपना धैर्य नहीं खोता, अतः अन्त में उसे सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी बहुत होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

वृषलग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को खर्च चलाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और चातुर्य तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है।

ऊपरी दिखावे में ऐसा व्यक्ति सम्पन्न तथा प्रभावशाली प्रतीत होता है। कठिन परिश्रम के द्वारा उसे सफलताएँ भी मिलती हैं।

‘वृष’ लग्न में ‘केतु’

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : प्रथमभाव : केतु



पहले भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा मन में कुछ चिन्ताएँ भी बनी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम एवं योग्यता के बलबूते पर अन्य लोगों को प्रभावित भी करता है। उसके शरीर पर किसी घाव अथवा चोट का चिह्न भी होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : द्वितीयभाव : केतु



दूसरे भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित नीच के केतु के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुम्ब के मामले में अनेक चिन्ताओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कठिन परिश्रम एवं गुप्त युक्तियों का सहारा लेकर धन तथा कुटुम्ब के क्षेत्र में यत्किञ्चित् सफलता ही प्राप्त कर पाता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : तृतीयभाव : केतु



तीसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमी आती है तथा भाई-बहिनों के सम्बन्ध से भी कष्ट एवं हानि का सामना करना पड़ता है। परन्तु ऐसा जातक अपनी आन्तरिक दुर्बलता को छिपाये रखकर गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम के सहारे अभावों को दूर करने में थोड़ी-बहुत सफलता भी पा लेता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : चतुर्थभाव : केतु



चौथे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तथा पारिवारिक सुख के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह गुप्त युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के सहारे जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति को स्वदेश त्याग कर परदेश में भी रहना पड़ता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : पंचमभाव : केतु



पाँचवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परन्तु अपने साहस एवं गुप्त युक्तियों के बल पर सामान्य सफलता भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, धैर्यवान् तथा अपने मन्तव्य को प्रकट न करने वाला होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : षष्ठभाव : केतु



छठे भाव में मित्र शुक की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक शत्रुपक्ष पर अपना विशेष प्रभाव स्थापित करने में समर्थ होता है तथा धैर्य, परिश्रम, गुप्त युक्ति, साहस आदि के बल पर समस्त विघ्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। वह बड़ा परिश्रमी, चतुर तथा धैर्यवान् होता है। मामा के पक्ष से कुछ हानि भी होती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को स्त्री के पक्ष में बहुत कष्ट तथा हानि का शिकार होना पड़ता है। वह मूलाशय के रोगों से पीड़ित होता है। व्यवसाय तथा घरेलू जीवन के क्षेत्र में भी उसे कभी-कभी बड़ी असफलताएँ मिलती हैं, परन्तु वह अपने श्रम द्वारा कुछ शक्ति भी प्राप्त करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : अष्टमभाव : केतु



आठवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी कोई विशेष लाभ होता है। वह जीवन-निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करता है तथा बड़ा साहसी, धैर्यवान् तथा गुप्त युक्तियों से सम्पन्न होता है। वह अपने जीवन को ऐश्वर्यशाली ढंग से व्यतीत करता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृषलग्न : नवमभाव : केतु




नवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम द्वारा अपने भाग्य की उन्नति करता है। धर्म में आस्था रखते हुए भी विशेष श्रद्धा नहीं दिखाता।

संक्षेप में, ऐसा जातक धर्म का दिखावा न करने वाला, साहसी, परिश्रमी तथा गुप्त शक्तियों द्वारा काम लेने वाला होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में अपने मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में कुछ हानि उठानी पड़ती है। वह बड़े परिश्रम के साथ सामान्य सफलता प्राप्त करता है। वह ऊपरी दिखावे में अमीर, सुखी तथा सम्मानित प्रतीत होता है, परन्तु भीतर से कमजारी बनी रहती है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृषलग्न : एकादशभाव : केतु



ग्याहरवें भाव में अपने शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपनी आमदनी के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में कभी अच्छा लाभ होता है तो कभी विशेष संकट भी सामने आते हैं। ऐसा व्यक्ति माहमी तथा परिश्रमी होता है।

‘वृष’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृषलग्न : द्वादश भाव : केतु



बारहवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपना खर्च चलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा बाहरी सम्बन्धों से भी परेशानियाँ आती रहती हैं।

ऐसा जातक बड़ा परिश्रमी, उद्योगी, धैर्यवान् तथा साहसी होता है।

‘वृष’ लग्न समाप्त

प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थों का निचोड़!!!

वृहद् मन्त्र महार्णव


- जो ग्रन्थ कुछ समय पूर्व तक कहीं ढूँढने पर भी नहीं मिलता था।
- जो मन्त्र, यन्त्र एवं तन्त्र का महासागर है।
- जिसमें सभी देवी-देवताओं के स्तोत्र, कवच, हृदय, न्यास, सूक्त आदि का साङ्गोपाङ्ग वर्णन है।
- जिसमें यक्षिणी, भूत, प्रेत, पिशाच, वैताल, कूष्माण्ड, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, भैरव आदि की सिद्धि के गुप्त प्रयोग हैं।
- जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण एवं शान्तिकरण सम्बन्धी सहस्रों शास्त्रीय प्रयोग भरे पड़े हैं।
- जिसमें सैंकड़ों सावर, फारसी तथा लोक-प्रचलित प्रभावशाली मन्त्र-प्रयोग संकलित हैं।

कलिकाल में प्रभावशाली, मन्त्र-साधकों का हृदय, परमार्थ-साधकों का मार्ग-दर्शन तथा तांत्रिकों का सर्वस्व,

- पत्राकार, बड़े साइज के 500 से अधिक खुले पृष्ठ
- सर्वांग सुन्दर, शुद्ध तथा नयनाभिराम मुद्रण
- न्यौछावर 171.00

डाक खर्च अलग

मिथुन लग्न



['मिथुन' लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

'मिथुन' लग्न का फलादेश

'मिथुन' लग्न में जन्म लेने वाले जातक का चेहरा गोल तथा शरीर का रंग गेहूँवाँ होता है। वह नृत्य-वाद्य आदि संगीत की कलाओं का प्रेमी, कवि, हास्य-प्रवीण शिल्पज्ञ, विनम्र, परोपकारी, तीर्थप्रेमी, गणितज्ञ, दूत-कर्म करने में कुशल, ऐश्वर्य-शाली, धनी, सुखी, चतुर, मधुरभाषी, दानी, सुशील, विषयी, स्त्रियों में आसक्त, बहुमित्रवान्, बहु सन्ततिवान्, अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करने वाला, सुन्दर केशों वाला, राजा के समीप रहने वाला तथा राजा द्वारा ही पीड़ा प्राप्त करने वाला होता है।

'मिथुन' लग्न वाला जातक अपनी प्रारंभिक अवस्था में सुखी, मध्यमावस्था में दुःखी तथा अन्तिमावस्था में पुनः सुखोपभोग करने वाला होता है। उसका भाग्योदय ३२ से ३५ वर्ष की आयु के बीच होता है। इस लग्न वाला जातक मध्यम आयु प्राप्त करता है।

‘मिथुन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डलियों में संख्या ३३४ से ४४१ के बीच देखना चाहिए।

गोचर कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।

‘मिथुन’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१. ‘मिथुन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३३४ से ३४५ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘मिथुन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश, निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ३३४
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ३३५
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ३३६
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ३३७
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ३३८
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ३३९
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ३४०
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ३४१
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ३४२
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ३४३
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ३४४
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ३४५

‘मिथुन’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१. ‘मिथुन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३४६ से ३५७ के बीच देखना चाहिए।

२. 'मिथुन' लग्न वालों को गोचरकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'चन्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन 'चन्द्रमा'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ३४६
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ३४७
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३४८
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ३४९
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ३५०
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ३५१
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३५२
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३५३
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ३५४
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३५५
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ३५६
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३५७

'मिथुन' लग्न में 'मंगल' का फलादेश

१. 'मिथुन' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित मंगल का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३५८ से ३६९ के बीच देखना चाहिए।

२. 'मिथुन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित मंगल का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'मंगल'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ३५८
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ३५९
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३६०
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ३६१
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ३६२
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ३६३
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३६४
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३६५
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ३६६
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३६७
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ३६८
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३६९

‘मिथुन’ लग्न में ‘बुध’ का फलादेश

१. ‘मिथुन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३७० से ३८१ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘मिथुन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘बुध’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ३७०
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ३७१
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ३७२
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ३७३
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ३७४
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ३७५
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ३७६
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ३७७
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ३७८
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ३७९
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ३८०
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ३८१

‘मिथुन’ लग्न में ‘गुरु’ का फलादेश

१. ‘मिथुन’ लग्न वाले को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३८२ से ३९३ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘मिथुन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘गुरु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ३८२
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ३८३
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ३८४
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ३८५
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ३८६
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ३८७

- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ३८८
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ३८९
- (झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ३९०
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ३९१
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ३९२
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ३९३

'मिथुन' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१. 'मिथुन' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ३९४ से ४०५ के बीच देखना चाहिए ।

२. 'मिथुन' लग्न वालों को गोचर कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'शुक्र'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ३९४
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ३९५
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ३९६
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ३९७
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ३९८
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ३९९
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ४००
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ४०१
- (झ) 'घनु' राशि पर हो तो संख्या ४०२
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ४०३
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ४०४
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ४०५

'मिथुन' लग्न में 'शनि' का फलादेश

१. 'मिथुन' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४०६ से ४१७ के बीच देखना चाहिए ।

२. 'मिथुन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि'

का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'शनि'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ४०६
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ४०७
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ४०८
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ४०९
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ४१०
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ४११
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ४१२
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ४१३
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ४१४
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ४१५
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ४१६
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ४१७

'मिथुन' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१. 'मिथुन' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४१८ से ४२९ के बीच देखना चाहिए।

२. 'मिथुन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ४१८
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ४१९
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ४२०
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ४२१
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ४२२
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ४२३
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ४२४
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ४२५
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ४२६
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ४२७
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ४२८
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ४२९

‘मिथुन’ लग्न में ‘केतु’ का फलादेश

१. ‘मिथुन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४३० से ४४१ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘मिथुन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—


जिस वर्ष में ‘केतु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ४३०
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ४३१
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ४३२
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ४३३
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ४३४
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ४३५
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ४३६
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ४३७
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ४३८
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ४३९
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ४४०
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ४४१

‘मिथुन’ लग्न में ‘सूर्य’

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : प्रथमभाव : सूर्य




पहले भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक परम तेजस्वी, साहसी, परिश्रमी तथा उद्योगी होता है। वह बड़े-बड़े काम करता है। शरीर पुष्ट होता है। उसे भाई-बहिनों का पर्याप्त सुख भी मिलता है।

यहाँ से सूर्य द्वारा सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण जातक को व्यवसाय एवं स्त्री-पक्ष में भी सफलता मिलती है तथा उसका गृहस्थ जीवन सुखी एवं स्नेहपूर्ण होता है।

ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक बड़ा हिम्मती, फुर्तीला, क्रोधी तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीय भाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




तथा हिम्मती होता है ।

दूसरे भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर सूर्य के प्रभाव से जातक अपने पराक्रम द्वारा धन तथा कुटुम्ब के सुख को बढ़ाता है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ न्यूनता रहती है ।

सातवीं शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव के देखने से जातक को पुरातत्त्व के लाभ में कमी रहती है तथा दैनिक जीवन में भी कुछ अशांति बनी रहती है । ऐसी ग्रहस्थिति का जातक धनी

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीय भाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : तृतीय भाव : सूर्य




तथा सुखी होता है ।

तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों की पूर्ण शक्ति मिलती है तथा वह अत्यन्त पराक्रमी भी होता है ।

सातवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण जातक के भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी आ जाती है । सामान्यतः ऐसी ग्रह-स्थिति वाला जातक बड़ा पराक्रमी, प्रभावशाली

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थ भाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : चतुर्थ भाव : सूर्य




व्यक्ति धनी, सुखी तथा प्रभावशाली होता है ।

चौथे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है । साथ ही माता, भूमि, भवन, संपत्ति एवं सुख का भी लाभ होता है ।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं । ऐसा

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाग में स्थित नीच के सूर्य के प्रभाव से जातक की विद्या-बुद्धि में कमी रहती है तथा सन्तान से कष्ट मिलता है। पराक्रम में भी कमजोरी रहती है।

सातवीं उच्चदृष्टि से मित्रराशिस्थ एकादश भाव को देखने के कारण जातक गुप्त युक्तियों तथा असत्य-भाषण आदि का आश्रय लेकर धन कमाता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। भाई-बहनों के साथ कुछ वैमनस्य रहता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण खर्च की अधिकता रहती है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भी कोई अधिक सुख नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति साहसी तथा कठिन परिश्रमी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री से सुख, शक्ति एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है तथा परिश्रम द्वारा व्यवसाय में भी अच्छा लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण जातक को शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव का लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति का गार्हस्थ-जीवन सुखमय होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व एवं आयु के क्षेत्र में कमी आती है तथा भाई-बहिन का सुख एवं पराक्रम भी न्यून रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण आर्थिक क्षेत्र में परिश्रम से लाभ होता है तथा कुटुम्ब का सामान्य सुख मिलता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम द्वारा भाग्य की उन्नति करता है तथा धर्म-पालन में उदासीन-सा रहता है। भाई-बहिनों से सम्बन्ध भी सन्तोष-जनक नहीं रहता।

सातवीं मित्रदृष्टि से स्वराशि वाले तृतीय भाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई के द्वारा थोड़ा सहयोग भी प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, उद्योगी तथा तेजस्वी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता की अच्छी शक्ति मिलती है तथा राज्य एवं व्यवसाय से भी लाभ तथा सम्मान प्राप्त होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भूमि, भवन, सुख एवं मातृ-पक्ष में सफलता मिलती है। ऐसा जातक सुखी एवं सन्तुष्ट रहता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न: एकादशभाव: सूर्य




ग्यारहवें भाव में उच्च राशिस्थ सूर्य के प्रभाव से जातक का पराक्रम बढ़ा रहता है और वह यथेष्ट लाभ प्राप्त करता है। भाई-बहिन के सुख में भी वृद्धि होती है।

सातवीं नीचदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण सन्तान-पक्ष में कुछ कमी आती है तथा विद्या-लाभ में भी रुकावटें पड़ती हैं। ऐसा व्यक्ति रुखे स्वभाव का तथा अत्यन्त परिश्रमी और साहसी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मिथुन लग्न: द्वादशभाव: सूर्य




बारहवें भाव में शत्रु शुक की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पष्ठभाव को देखने के कारण शत्रुपक्ष में प्रभाव स्थापित होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भीतरी कमजोरी को दबाकर, ऊपर से बड़ी हिम्मत दिखाता है तथा परिश्रमी होता है।

‘मिथुन’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मिथुन लग्न: प्रथमभाव: चन्द्र




पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक अपनी शारीरिक शक्ति तथा मनोबल से धनोपार्जन करता है तथा पर्याप्त कौटुम्बिक सुख भी भोगता है। ऐसा व्यक्ति सुन्दर, मुखी, धनी तथा यशस्वी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से मज्जमभाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में भी पर्याप्त सफलता एवं सुख की प्राप्ति होती है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

मिथुनलग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र




दूसरे भाव में स्वराशि में स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक को दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा पुरातत्त्व की भी हानि होती है। मानसिक रूप से चिन्तित रहते हुए भी ऐसा जातक सुखी तथा यशस्वी होता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

मिथुनलग्न : तृतीयभाव : चन्द्र




तीसरे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण भाग्योन्नति में रुकावटें आती हैं तथा धर्म का पक्ष भी कमजोर रहता है। ऐसा जातक धनी, प्रतिष्ठित तथा यशस्वी होता है। वह धर्म को विशेष महत्त्व नहीं देता।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

मिथुनलग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र




चौथे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी आती है परन्तु भूमि, भवन, सम्पत्ति एवं कुटुम्ब का सुख खूब मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता एवं राज्य के द्वारा भी सुख तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक धनी, सुखी, प्रभावशाली तथा व्यवसाय में सफलता पाने वाला होता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

मिथुन लग्न : पंचमभाव : चन्द्र




पाँचवें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष में कुछ रुकावटें आती हैं, परन्तु विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने के कारण आमदनी अच्छी रहती है। ऐसा जातक सुखी, धनी, चतुर तथा प्रतिष्ठित होता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

मिथुन लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र




छठे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम द्वारा धनोपार्जन करता है तथा शत्रु-पक्ष द्वारा भी चोट खा सकता है।

सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्पर्क से लाभ होता है।

ऐसा व्यक्ति धन कमाने के विषय में अपयशी होता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

मिथुन लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र




सातवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष में कुछ रुकावटों के साथ सफलता मिलती है तथा विवाह के बाद भाग्योन्नति होती है। व्यवसाय एवं भोगादि का पर्याप्त सुख भी तभी मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक का शरीर सुन्दर होता है और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मिथुनलग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व के पक्ष में परेशानी रहती है तथा धन एवं कुटुम्ब के सुख में भी बाधा आती है। दैनिक जीवन में भी परेशानियाँ रहती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वितीयभाव को देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब की उन्नति के साधन प्राप्त होते रहते हैं तथा उनकी प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम भी करना पड़ता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मिथुनलग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक धन की वृद्धि के लिए धर्म का पालन करता है तथा भाग्य-पक्ष में कुछ असन्तोष के साथ लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण जातक को भाई-बहिनों का सुख प्राप्त होता है तथा उसके पराक्रम में भी वृद्धि होती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मिथुन लग्न : दशमभाव : चन्द्र




दसवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य द्वारा सहयोग, सुख, धन एवं प्रतिष्ठा आदि का लाभ होता है तथा व्यवसाय की उन्नति होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण जातक को माता, भूमि, भवन एवं घरेलू-सुखों का भी लाभ होता है. परन्तु धन की उन्नति में कुछ अटकाव सा अनुभव होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मिथुन लग्न : एकादशभाव : चन्द्र




ग्यारहवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित चन्द्रमा से जातक को धन का पर्याप्त लाभ होता है तथा कौटुम्बिक सुख भी मिलता है।

सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में भी पर्याप्त सफलता मिलती है।

ऐसा व्यक्ति विद्वान्, बुद्धिमान्, सन्ततिवान् धनी, सुखी तथा यशस्वी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मिथुन लग्न : द्वादशभाव : चन्द्र




बारहवें भाव में उच्चस्थ चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता रहता है। कूटुम्ब की शक्ति में कुछ कमी आती है।

सातवीं नीचदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण जातक को शत्रुपक्ष में स्वयं झुक कर अपना काम निकालना पड़ता है तथा रोग, झगड़े आदि के कारण मन में थोड़ी-बहुत अशान्ति भी बनी रहती है।

‘मिथुन’ लग्न में ‘मंगल’

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मिथुनलग्न : प्रथमभाव : मंगल




पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक अपने शारीरिक श्रम द्वारा यथेष्ट धन कमाता है तथा शत्रुपक्ष में भी विजयी होता है चौथी मित्रदृष्टि से चतुर्थभावि को देखने के कारण माता तथा धरेलू सुख का असन्तोषपूर्ण लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री को रोग तथा परेशानियाँ रहती हैं, परिश्रम द्वारा व्यवसाय से लाभ होता है। आठवीं उच्चदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी तथा झगड़ालू होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मिथुनलग्न : द्वितीयभाव : मंगल




दूसरे भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब की हानि उठानी पड़ती है। शत्रुपक्ष भी नुकसान पहुँचाता है। जुए-सट्टे में भी हानि होती है। चौथी दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान पक्ष में कमी रहती है तथा विद्या-बुद्धि का लाभ भी गुप्त युक्तियों से होना है।

सातवीं उच्च दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म में रुचि नहीं होती तथा भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मिथुनलग्न : तृतीयभाव : मंगल




तीसरे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन का सुख कुछ परेशानी के साथ मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। चौथी दृष्टि से स्वराशि वाले षष्ठमभाव को देखने से शत्रुपक्ष पर विजय मिलती है तथा शत्रुओं से लाभ होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म का सामान्य लाभ होता है। आठवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण राज्य तथा पिता के पक्ष से यश, धन आदि का लाभ होता है तथा प्रभाव में वृद्धि होती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


मिथुनलग्न : चतुर्थभाव : मंगल



चौथे भाव में मित्र कुंभ की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता से सामान्य वैमनस्ययुक्त लाभ होता है तथा भूमि, भवन एवं घरेलू सुख भी कुछ कठिनाइयों के साथ ही मिलता है। चौथी मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सामान्य परेशानियाँ रहती हैं। सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एवं राज्य द्वारा यश एवं लाभ मिलता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादशभाव को देखने से जातक की आमदनी अच्छी रहती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


मिथुनलग्न : पंचमभाव : मंगल



पाँचवें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को मन्तान-पक्ष द्वारा कुछ वैमनस्य के साथ लाभ होता है तथा परिश्रम द्वारा विद्या-बुद्धि प्राप्त होती है। चौथी उच्चदृष्टि से आयु-वृद्धि तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले एकादशभाव को देखने से गुप्त युक्तियों एवं परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ होता है। आठवीं दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


मिथुनलग्न : षष्ठभाव : मंगल



छठे भाव में स्वराशि-स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को शत्रुपक्ष पर विशेष सफलता मिलती है और शत्रु, झगड़े-टंटे तथा मामा के द्वारा लाभ होता है। चौथी शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। आठवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक शारीरिक परिश्रम खूब करता है तथा उसी से धन भी कमाता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तम भाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


मिथुनलग्न : सप्तमभाव : मंगल



सातवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को व्यावसायिक तथा स्त्री-पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। चौथी मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ पिता तथा राज्यपक्ष से लाभ होता है। सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है, परन्तु रक्त-विकार आदि रोग भी हो सकते हैं। आठवीं नीचदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन-संचय में कमी रहती है तथा कुटुम्ब के कारण बलेश भी मिलता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश


मिथुनलग्न : अष्टमभाव : मंगल



आठवें भाव में शत्रु शनि की राशि में उच्चस्थ मंगल के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है तथा शत्रुपक्ष पर कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। चौथी दृष्टि से स्वराशि वाले एकादश भाव को देखने से परिश्रम द्वारा लाभ होता है। सातवीं नीचदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-संचय तथा कौटुम्बिक सुख में कुछ कमी रहती है। आठवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

मिथुनलग्न : नवमभाव : मंगल




नवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा धर्म-पालन में भी विशेष रुचि नहीं होती। शत्रुपक्ष में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। चौथी दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च की अधिकता तथा बाह्य स्थानों से लाभ होता है। सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। आठवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से

माता, भूमि, भवन तथा धरेलू सुख भी कुछ कठिनाइयों के बाद पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

मिथुनलग्न : दशमभाव : मंगल




दसवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम द्वारा राज्य तथा पिता के क्षेत्र में यश और लाभ कमाता है तथा शत्रुपक्ष पर अपना विशेष प्रभाव बनाये रखता है। चौथी मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। सातवीं दृष्टि द्वारा चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा धरेलू सुख में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। आठवीं मित्रदृष्टि से सन्तान-पक्ष द्वारा वैमनस्ययुक्त लाभ होता है

तथा विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसकी आमदनी बहुत अच्छी रहती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मिथुनलग्न : एकादशभाव : मंगल




ग्यारहवें भाव में स्वराशि-स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को धन का स्थायी लाभ होता है। चौथी नीचदृष्टि द्वारा द्वितीयभाव को देखने से धन का संचय नहीं होता तथा कौटुम्बिक मामलों में भी कष्ट होता है।

सातवीं दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष द्वारा वृद्धिपूर्ण लाभ होता है तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। आठवीं दृष्टि से स्वराशि वाले षष्ठभाव को देखने

के कारण शत्रु-पक्ष पर जातक का प्रभाव बना रहता है तथा उनसे लाभ भी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मिथुनलग्न : द्वादशभाव : मंगल



बारहवें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है तथा बहुरी सम्बन्धों से लाभ होता है। चौथी मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों के द्वारा भी कुछ परेशानियों के बाद लाभ होता है।


सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले षष्ठ-भाव को देखने के कारण शत्रु-पक्ष से कभी हानि

होती है और कभी लाभ होता है तथा माता का पक्ष कमजोर रहता है। आठवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री से कुछ परेशानी रहती है तथा जननेन्द्रिय सम्बन्धी कोई रोग भी हो सकता है।

‘मिथुन’ लग्न में ‘बुध’

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुनलग्न : प्रथमभाव : बुध




पहले भाव में स्वराशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माता, भूमि, भवन तथा धरेलू सुख भी पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध रहता है। सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से विशेष सुख मिलता है तथा व्यावसायिक क्षेत्र में भी सफलता मिलती है।

ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, शान्त, बुद्धिमान् तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने वाला होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का सुख तो प्राप्त होता है, परन्तु शारीरिक एवं माता के सुख में कमी रहती है। भूमि, भवन तथा सम्पत्ति का सुख अच्छा मिलता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में मित्त सूर्य की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। माता, भूमि एवं भवन का भी अच्छा सुख रहता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा भाग्य एवं धर्म की उन्नति करता है। ऐसा जातक स्वभावतः सज्जन, धैर्यवान् तथा यशस्वी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में स्वराशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तथा सम्पत्ति का पर्याप्त सुख मिलता है। शारीरिक सौन्दर्य एवं मनोविनोद के साधन भी अच्छे मिलते हैं।

सातवीं नीचदृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कमियाँ बनी रहती हैं तथा घरेलू सुखों में भी लापरवाही-सी रहती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि एवं सन्तान का श्रेष्ठ लाभ होता है और वह बड़ा गंभीर, चतुर तथा आत्मविश्वासी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण बुद्धि-बल से पर्याप्त लाभ होता रहता है। साथ ही माता, भूमि एवं भवन का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति शान्ति-प्रिय स्वभाव का होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपनी विवेक-शक्ति द्वारा शत्रु-पक्ष में सफलता प्राप्त करता है तथा परिश्रमी होता है। माता, भूमि, धरेल सुख तथा शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से सुख मिलता है। परन्तु झगड़े-झड़पों

के कारण कुछ कष्ट भी उठाना पड़ता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष, दैनिक जीवन एवं व्यवसाय में सफलता मिलती है। माता के पक्ष में कुछ कमी रहती है तथा भूमि, भवन का सुख अच्छा प्राप्त होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, चानुर्य, सुख एवं यश की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त स्वाभिमानी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है, पर माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य की भी हानि होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म-स्थान से हट कर परदेश में जाकर रहना पड़ता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण प्रयत्नपूर्वक धन एवं कुटुम्ब के सुख का लाभ होता है, परन्तु शारीरिक सुख में कमी रहती है तथा परेशानियाँ भी उठानी पड़ती हैं।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपने शारीरिक परिश्रम तथा विवेक द्वारा धर्म एवं भाग्य की उन्नति करता है। उसे माता, भूमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त होता है।

सातवीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का अच्छा सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, यशस्वी, सन्तुष्ट तथा विवेकी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में स्थित नीच के बुध के प्रभाव से जातक को अपनी उन्नति के लिए कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है। पिता का अल्प-सुख मिलता है तथा राज्य के क्षेत्र में भी अधिक सफलता नहीं मिलती।

सातवीं उच्चदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य और सुख के साधनों में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति कभी अपमानित और कभी सम्मानित होता रहता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मिथुन लग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक स्व-विवेक एवं शारीरिक परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ उठाता है। उसे माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है तथा सन्तान-पक्ष से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, सुन्दर, मधुर-भाषी, धनी तथा विवेकी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

बारहवें भाव में मित्र शुक्र का राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। माता,

मिथुन लग्न : द्वादशभाव : बुध



भूमि तथा मकान के सुख में भी कमी रहती है। जातक को अपनी जन्म-भूमि से दूर रहने पर लाभ एवं सुख मिलता है।


सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभावा को देखने के कारण शत्रु-पक्ष में विवेक एवं शांति द्वारा सफलता मिलती है। खर्च के कारण भीतरी चिन्ताएँ रहते हुए भी वह अपने ऊपरी प्रभाव को बनाये रखता है।

‘मिथुन’ लग्न में ‘गुरु’

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को सुख, शारीरिक सौन्दर्य, स्वाभिमान तथा मनोबल की प्राप्ति होती है। पिता तथा राज्य से भी लाभ होता है।


मिथुन लग्न : प्रथमभाव : गुरु



पाँचवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है, परन्तु सन्तान-पक्ष में कुछ कमी रहती है। सातवीं दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री का सुख अच्छा रहता है तथा नवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

दूसरे भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित उच्च के गुरु के प्रभाव से जातक के धन-कुटुम्ब की वृद्धि होती है।
मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : गुरु




पाँचवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव एवं विजय की प्राप्ति होती है।

सातवीं नीचदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के लाभ में कमी रहती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि वाले दशमभाव को देखने से पिता एवं राज्य के द्वारा सहयोग तथा सफलताएँ मिलती हैं तथा व्यवसाय द्वारा धन की पर्याप्त वृद्धि होती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

तीसरे भाव में सूर्य की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक के पराक्रम एवं भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है।
मिथुन लग्न : तृतीयभाव : गुरु




पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि के सप्तमभाव को देखने से श्रेष्ठ पत्नी द्वारा सुख प्राप्त होता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है।

सातवीं दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ असन्तोष रहता है तथा धन-प्राप्ति के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ता है, परन्तु नवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने के कारण आमदनी अच्छी रहती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

चौथे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन आदि का सुख पर्याप्त मिलता है।
मिथुन लग्न : चतुर्थभाव : गुरु




पाँचवीं नीचदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में अशांति तथा कुछ कमी रहती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले दशमभाव को देखने से पिता तथा राज्य-पक्ष से सहयोग, यश एवं लाभ प्राप्त होता है नवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ लाभ भी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

पाँचवें भाव में शत्रु शुक की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है परन्तु सन्तान-पक्ष में कुछ कमजोरी रहती है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण

मिथुन लग्न : पंचमभाव : गुरु




भाग्योन्नति कुछ कठिनाइयों के साथ होती है। सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है तथा नवीं मित्रदृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण जातक को श्रेष्ठ शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव एवं स्वाभिमान की प्राप्ति होती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

छठे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में त्रिजय प्राप्त होती है परन्तु स्त्री-पक्ष से कुछ मतभेद रहता है।

मिथुन लग्न : षष्ठभाव : गुरु




पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि वाले दशमभाव को देखने से राज्य द्वारा सम्मान तथा उन्नति के अवसर मिलते हैं, परन्तु पिता से कुछ मतभेद रहता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से जाभ होता है। नवीं उच्च दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से परिश्रम द्वारा धन की वृद्धि होती है तथा कुटुम्ब से भी सहयोग मिलता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सातवें भाव में स्वराशि-स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है। पिता

मिथुन लग्न : सप्तमभाव : गुरु




तथा राज्य के क्षेत्र से भी सहयोग तथा सम्मान मिलता है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी खूब रहती है। सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है। नवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा संपन्न होता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

आठवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। पिता, राज्य, व्यवसाय तथा स्त्री-पक्ष से भी कष्ट होता है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश-भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से कपटपूर्ण सन्बन्ध द्वारा काम चलता है। सातवीं उच्चदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से परिश्रम के द्वारा धन की कुछ वृद्धि होती है। नवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है।


मिथुन लग्न : अष्टमभाव : गुरु



'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

नवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा धर्म की उन्नति करता है। पिता, राज्य तथा स्त्री-पक्ष से असंतोष रहता है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभावकी प्राप्ति होती है। सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिनों का सुख बढ़ता है। नवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है, परन्तु सन्तान-पक्ष से असन्तोष रहता है।


मिथुन लग्न : नवमभाव : गुरु



'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

दसवें भाव में स्वरशि स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को राज्य एवं पिता से पूर्ण सहयोग, सुख तथा सम्मान मिलता है। व्यवसाय में भी सफलता मिलती है। पाँचवीं उच्चदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन का संचय भी अच्छा होता है। सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन तथा सम्पत्ति का सुख भी खूब मिलता है। नवीं मित्रदृष्टि से पठ-भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से सुखी रहता है।


मिथुन लग्न : दशमभाव : गुरु



‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

ग्यारहवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक

मिथुन लग्न : एकादशभाव : गुरु




को श्रेष्ठ लाभ होता है तथा पिता, व्यवसाय एवं राज्य से भी सहयोग मिलता है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिनो के सुख में वृद्धि होती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि में तो वृद्धि होती है परन्तु सन्तान-पक्ष कमजोर रहता है। नवीं दृष्टि से स्वराशि के सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष से पर्याप्त लाभ एवं सुख मिलता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

बारहवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का

मिथुन लग्न : द्वादशभाव : गुरु




खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से यश तथा लाभ मिलता है। स्त्री तथा पिता के सुख में कुछ कमी रहती है तथा व्यवसाय में भी हानि होती है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन तथा धरेलू सुख की प्राप्ति होती है। सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से शत्रुपक्ष में सफलता मिलती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के विषय में संकटों का सामना करना पड़ता है।

‘मिथुन’ लग्न में ‘शुक्र’

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक शरीर

मिथुन लग्न : प्रथमभाव : शुक्र




से दुर्बल परन्तु विद्या, बुद्धि एवं चातुर्य में प्रवीण होता है। वह खर्चीला तथा बाहरी स्थानों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री के साथ मतभेदपूर्ण आसक्ति बनी रहती है। दैनिक कार्यों तथा व्यवसाय में बड़ी युक्ति के साथ सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत विलासी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक बुद्धि एवं चातुर्य द्वारा धन तथा प्रतिष्ठा तो कमाता है, परन्तु धन का संचय नहीं हो पाता। बाहरी स्थानों से संबंध अच्छा रहता है, परन्तु सन्तान-सुख में कुछ कमी रहती है। विद्या का श्रेष्ठ लाभ होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है।

ऐसी ग्रहस्थिति का व्यक्ति ज्ञानदार-जीवन बिताने का आदी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मिथुनलग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी रहती है। विद्या तथा सन्तान-पक्ष में भी न्यूनता रहती है परन्तु बुद्धि-चातुर्य प्रबल होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से नवमभाव को देखने से जातक धर्म तथा भाग्य की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करता है। वह पुरुषार्थ द्वारा

अपना खर्च चलाने तथा चातुर्य द्वारा काम निकालने में कुशल होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मिथुनलग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में स्थित नीच के शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। सन्तान का सुख भी कम मिलता है। अन्य सुखों में भी व्यवधान आता है।

सातवीं उच्चदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता तथा राज्य के द्वारा सुख-सम्मान तथा सहयोग मिलता है और गुप्त चतुराई के बल पर मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

मिथुन लग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में स्वराशि-स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में कुछ वृष्टिपूर्ण मफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति चतुर होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ उठाता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से बुद्धि द्वारा लाभ अधिक होता है, परन्तु शुक्र के व्यय होने के कारण आमदनी से खर्च अधिक रहता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

मिथुन लग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में सामान्य मित्र मंगल की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में अपनी गुप्त चतुराई एवं खर्च करने की शक्ति से सफलता प्राप्त करता है। सन्तान-पक्ष तथा विद्याध्ययन के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वादश भाव को देखने से खर्च आमदनी से अधिक बना

रहता है। ऐसा व्यक्ति झगड़े-टंटे एवं मुकद्दमेबाजी में अधिक फँसा रहता है और उसी में उसकी शक्तियाँ व्यय होती रहती हैं।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

मिथुन लग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में सामान्य मित्र गुरु की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक की पत्नी बुद्धिमान् तथा चतुर होती है। परन्तु उसे स्त्री-पक्ष से कष्ट तथा चिन्ताएँ भी प्राप्त होती रहती हैं। दैनिक खर्च चलाने के लिए उसे बुद्धिमानी तथा बड़ी चतुराई से काम लेना पड़ता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर दुर्बल होता है, परन्तु सम्मान की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को विद्या, बुद्धि, सन्तान तथा बाहरी सम्बन्धों के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मिथुन लग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति प्राप्त होती है। वह कूट-नीतिज्ञ तथा परिश्रमी होता है। उसे सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण जातक को धन-वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं, तथा शुक्र के व्ययेश होने के कारण खर्च अधिक बना रहता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मिथुन लग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की कुछ कठिनाइयों के साथ उन्नति होती है। विद्या तथा सन्तान का सुख भी प्राप्त होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के साथ वैमनस्य रहता है तथा पराक्रम में भी कुछ कमी आती है। ऐसा व्यक्ति भाग्य को पुरुषार्थ से बड़ा मानने वाला होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मिथुन लग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में सामान्य मित्र गुरु की राशि पर स्थित व्ययेश उच्च के शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी हानि उठानी पड़ती है, परन्तु वाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। पिता, राज्य, विद्या तथा सन्तान की शक्ति भी प्राप्त होती है।

चौथी नीचदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी आती है। ऐसा व्यक्ति अपने अहंकारी स्वभाव के

कारण बार-बार हानि उठाता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मिथुन लग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में सामान्य मित्र मंगल की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है परन्तु खर्च भी खूब होता रहना है। मस्तिष्क में चिन्ताएँ भी बनी रहती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के पंचमभाव को देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या-बुद्धि में प्रवीणता प्राप्त होती है तथा सन्तान-पक्ष में भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में चिन्ताएँ बनी रहती हैं।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मिथुन लग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बारहवें भाव में स्वराशि-स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है। विद्या तथा सन्तान के पक्ष में कुछ परेशानियाँ रहती हैं।

सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण जातक शत्रु-पक्ष में चतुराई से प्रभाव स्थापित करके अपना काम निकालता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर होता है। साथ ही, उसके मस्तिष्क में चिन्ताएँ भी बनी रहती हैं।

‘मिथुन’ लग्न में ‘शनि’

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मिथुन लग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी आती है, परन्तु आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है।

तीसरी शत्रुदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन से वैमनस्य रहता है तथा पराक्रम में कमी आती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में असन्तोष रहता है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से

वैमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : शनि




दूसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को धन-संचय की शक्ति एवं कौटुम्बिक सुख में हानि होती है। तीसरी मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कष्टों के साथ प्राप्त होता है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि के अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। दसवीं नीचदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आयु के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में भाग्यवान् समझा

जाता है और वह सज्जन रोने के साथ ही स्वार्थी भी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मिथुन लग्न : तृतीयभाव : शनि




तीसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कुछ कमी आती है तथा भाई-बहिन से वैमनस्य रहता है। साथ ही आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती है। तीसरी उच्चदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति होती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले नवमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की वृद्धि होती है तथा धर्म का पालन भी होता है। दसवीं दृष्टि से द्वादशभाव को

देखने के कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु खर्च अधिक बना रहता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मिथुन लग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को कुछ कमी के साथ माता का सुख प्राप्त होता है तथा भूमि-भवन के सुख में भी कुछ कमी रहती है। आयु एवं पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ होता है तथा धर्म का पालन भी होता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर कड़ाई के साथ प्रभाव स्थापित होता है तथा शत्रुओं एवं झगड़ों से लाभ मिलता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एवं राज्य-क्षेत्र से असन्तोष तथा

वैमनस्य रहता है। दसवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है तथा लोग उसे भाग्यवान् भी समझते हैं।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित शनि का फलादेश

मिथुन लग्न: पंचमभाव: शनि




६९०

शनि के प्रभाव से जातक को विद्या-वृद्धि तथा मन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। भाग्य-वृद्धि भी होनी है। तीसरी शतदृष्टि से सप्तमभाव को देखने में स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। सातवीं नीचदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कमी आती है। दसवीं शतदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से कठिनाइयों के साथ धन-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं तथा कुटुम्ब में भी कम सुख प्राप्त होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मिथुन लग्न: षष्ठभाव: शनि




६९१

छठे भाव में शतृ मंगल की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को शत्रु तथा झगड़ों के क्षेत्र में सफलता एवं विजय मिलती है। नीचरी दृष्टि से स्वराशि वाले अष्टमभाव को देखने में आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में लाभ होता है तथा ठाठ-बाट में बहुत खर्च होता है। दसवीं शतृ-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने में पराक्रम में कमी आती है तथा भाई-बहिन के सुख में बाधा पड़ती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा परिश्रमी भी होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मिथुन लग्न: सप्तमभाव: शनि




६९२

सातवें भाव में शतृ गुरु की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख-दुःख तथा हानि-लाभ दोनों की प्राप्ति होती रहती है। जननेन्द्रिय में कष्ट होता है। परन्तु आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि के नवमभाव को देखने में भाग्य की वृद्धि होती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक प्रभाव में कुछ न्यूनता के साथ वृद्धि होती है। दसवीं मित्र-दृष्टि में चतुर्थभाव को देखने में माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कठिनाइयों के साथ मिलता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम द्वारा कठिनाइयों पर विजय पाकर तरक्की करता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश


मिथुन लग्न : अष्टमभाव : शनि



आठवें भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। भाग्य तथा सम्मान के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। धर्म का पालन भी ठीक से नहीं होता। तीसरी शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता एवं राज्य के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय में कमी रहती है। दसवीं उच्च दृष्टि से पंचमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा जातक अपनी वाणी की शक्ति द्वारा भाग्योन्नति करता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मिथुन लग्न : नवमभाव : शनि




नवें भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव से जातक कुछ कमियों के साथ भाग्यवान बना रहता है। उसे आयु तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है। धर्म-पालन में रुचि रहती है तथा यश भी मिलता है। तीसरी नीच-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी में कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं शत्रुदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में कमी आती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुपक्ष से होने वाली परेशानियों पर

विजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति बड़े ठाठ का जीवन व्यतीत करता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मिथुन लग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को पिता के सुख में कमी रहती है, परन्तु राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। तीसरी मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से श्रेष्ठ लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख मिलता है। दसवीं दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष

में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। ऐसा जातक संघर्षपूर्ण जीवन बिताता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मिथुन लग्न : एकादशभाव : शनि




४१६

ग्यारहवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक की आमदनी के मार्ग में परेशानियाँ अपती हैं। भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में भी त्रुटियाँ रहती हैं। वह धन-प्राप्ति के लिए अनुचित मार्ग भी अपनाता है। तीसरी मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर को कुछ कष्ट भी रहता है तथा जातक भाग्यशाली भी बनता है। सातवीं उच्च दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति होती है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि वाले अष्टमभाव को देखने के कारण आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। नीच का शनि जातक के जीवन को अनेक संकटों तथा छतरों में डालता रहता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित शनि का फलादेश

मिथुन लग्न : द्वादशभाव : शनि



४१७


बारहवें भाव में अपने मित्त शुक्र की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन एवं कुटुम्ब-सुख के पक्ष में कमी बनी रहती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुपक्ष पर कठिनाइयों के बाद विजय मिलती है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि के नवम भाव में देखने से भाग्य की वृद्धि होती है तथा जातक धर्म का पालन भी करता है। ऐसा व्यक्ति यश-अपयश

तथा सुख-दुःख दोनों ही प्राप्त करता है, परन्तु भाग्यशाली समझा जाता है।

‘मिथुन’ लग्न में ‘राहु’

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मिथुन लग्न : प्रथमभाव : राहु




४१८

पहले भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित उच्च के राहु के प्रभाव से जातक प्रभावशाली, लम्बे शरीर वाला, विवेकी, स्वार्थी, गुप्त-युक्तियों का ज्ञाता तथा बड़ी हिम्मत वाला होता है। वह कष्टसाध्य कर्मों तथा गुप्त युक्तियों के आश्रय से अपनी उन्नति करता है तथा धन एवं सम्मान पाता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को धन-सम्पत्ति तथा कौटुम्बिक सुख की बड़ी हानि उठानी पड़ती है। गुप्त युक्तियों तथा कठिन परिश्रम का आश्रय लेने पर भी धन-प्राप्ति के क्षेत्र में सामान्य सफलताएँ ही मिलती हैं। उसे बहुत समय बाद धन का अल्प सुख मिलता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : तृतीयभाव : राहु



तीसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी आती है। वह अपनी उन्नति के लिए बहुत हिम्मत तथा परिश्रम से लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धैर्यवान्, हिम्मती तथा गुप्त युक्तियों से सम्पन्न होता है। परन्तु कभी-कभी उसे बड़े संकटों का सामना भी करना पड़ता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन एवं घरेलू सुख में कमी तथा असन्तोष की प्राप्ति होती है। वह गुप्त युक्तियों के बल पर सुख-प्राप्ति का प्रयत्न करता है, परन्तु उसकी इच्छी भली-भाँति पूर्ण नहीं हो पाती।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मिथुन लग्न : पंचमभाव : राहु




पाँचवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अनेक कठिनाइयों के बाद विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है, परन्तु सन्तान-पक्ष में कष्ट ही बना रहता है।

ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों का ज्ञाता, बुद्धिमान, असत्यवादी, प्रभावोत्पादक तथा अनेक प्रकार की चिन्ताओं से ग्रस्त होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : षष्ठभाव : राहु



छठे भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक शत्रु पर अपना विशेष प्रभाव बनाये रखता है तथा उन पर विजय पाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं होने देता तथा बड़ा साहसी, धैर्यवान, चतुर, पराक्रमी तथा गुप्त युक्तियों का जानकार होता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मिथुन लग्न : सप्तमभाव : राहु




सातवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की स्त्री को बहुत कष्ट प्राप्त होता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी बड़ी कठिनाइयाँ आती रहती हैं।

ऐसे व्यक्ति की मूत्रेन्द्रिय में भी कोई विकार होता है। वह गुप्त युक्तियों तथा असत्य-भाषण आदि के अनुचित तरीकों से भी अपना स्वार्थ-साधन करने से नहीं चूकता

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मिथुन लग्न : अष्टमभाव : राहु




आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व एवं आयु के विषय में अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। उसके पेट के निम्न भाग में कोई विकार भी होता है।

ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर सफलता पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा अपनी कठिनाइयों के विषय में किसी को पता नहीं चलने देता।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : नवमभाव : राहु



नवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। वह अपने परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर भाग्य की वृद्धि तो करता है, परन्तु पूर्ण सुख-सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। उसका धर्म-पालन भी ढोंग-जैसा ही होता है। कहीं बहुत बाद में उसे थोड़ी-सी सफलता मिल पाती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा अत्यन्त कठिन परिश्रम के बाद ही थोड़ी-बहुत सफलता मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति पर बार-बार संकट आते रहते हैं, अन्त में थोड़ी-सी सफलता भी मिलती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर आमदनी की वृद्धि करता है तथा कठिन परिश्रम द्वारा पर्याप्त धन भी उपाजित करता है। कभी-कभी उसे घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है परन्तु अन्त में विशेष सफलता भी मिलती है। ऐसा व्यक्ति थोड़े लाभ से सन्तुष्ट रहकर भी विशेष लाभ के लिए नित नई योजनाएँ बनाता रहता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मिथुन लग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है और इसी कारण उसे कभी-कभी बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उसे बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है।

गुप्त युक्तियों, परिश्रम तथा चातुर्य के बल पर वह अपना खर्च चलाता है तथा बाहरी लोगों की दृष्टि में वह प्रभावशाली बना रहता है।

‘मिथुन’ लग्न में ‘केतु’

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : प्रथमभाव : केतु



पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक में शारीरिक सौंदर्य में कमी रहती है। वह गुप्त चिंताओं, रोग, चोट आदि का शिकार बनता रहता है। गुप्त युक्तियों तथा शारीरिक परिश्रम के बल पर वह अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। विवेकी होने पर भी उसमें स्वाभिमान कम होता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


मिथुन लग्न : द्वितीयभाव : केतु



दूसरे भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक धन तथा कुटुम्ब के बारे में चिन्ता-ग्रस्त बना रहता है। धन-संचय न हो पाने से कभी-कभी अत्यधिक कष्ट पाता है तथा कौटुम्बिक कारणों से मानसिक क्लेश का शिकार भी होता है। वह धैर्य, साहस एवं गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर ही अपनी कठिनाइयों पर थोड़ी-बहुत विजय प्राप्त कर पाता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


मिथुन लग्न : तृतीय भाव : केतु



तीसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में तो अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी आ जाती है। वह अपने पराक्रम-विषयक कारणों से ही परेशानी उठाता है। ऐसा जातक बड़ा दम्भी, हिम्मती, हठी, बहादुर तथा साहसी होता है।

'मिथुन' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


मिथुन लग्न : चतुर्थभाव : केतु



चौथे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक घरेलू सुखों को पाने के लिए बड़ी चतुराई का आश्रय लेकर सफल होता है। भूमि तथा भवन का सुख भी कुछ कमी के साथ मिलता है। अपने गुप्त साहस एवं धैर्य के बल पर अन्त में उसे सुख-प्राप्ति में सफलता भी मिलती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

मिथुन लग्न : पंचमभाव : केतु




पाँचवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव में जातक को विद्याध्ययन में कठिनाइयाँ आती हैं तथा सन्तान-पक्ष में भी कठिनाइयों के साथ ही सामान्य सफलता मिलती है।

ऐसा व्यक्ति अपने गुप्त धैर्य की शक्ति, चातुर्य तथा हिम्मत के बल पर ही विद्या के तथा अन्य क्षेत्रों में सफलताएँ प्राप्त करता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

मिथुन लग्न : षष्ठभाव : केतु




छठे भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक अपनी गुप्त युक्तियों द्वारा शत्रुओं का दमन करने में समर्थ होता है तथा मुकदमे आदि में सफलताएँ प्राप्त करता है।

ऐसा व्यक्ति अपनी आन्तरिक कमजोरी को छिपाने में कुशल होता है तथा बड़ी हिम्मत से काम लेकर लोगों को आश्चर्य में डाल देता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त होती है। उसके जीवन में इन्द्रिय-भोगों की अधिकता रहती है। ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर अत्यधिक उन्नति भी कर लेता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : अष्टमभाव : केतु



आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व की हानि होती है तथा आयु के सम्बन्ध में भी अनेक बार संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी हिम्मत तथा बहादुरी के बल पर संकट के समय भी धैर्य को नहीं खोता। उसे पेट की कोई बीमारी भी हो सकती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : नवमभाव : केतु



नवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में कुछ बाधाएँ आती हैं, परन्तु परिश्रम द्वारा थोड़ी-बहुत सफलता भी मिलती है। ऐसा व्यक्ति धर्म का पूर्ण पालन नहीं कर पाता। वह अपनी गुप्त युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के बल पर सभी क्षेत्रों में न्यूनाधिक सफलताएँ प्राप्त करता रहता है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में अपने शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान-प्रतिष्ठा की भी कभी-कभी बड़ी हानि उठानी पड़ती है। गुप्त युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के बाद ही उसे सामान्य सफलता मिल पाती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मिथुन लग्न : एकादशभाव : केतु



ग्यारहवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा कभी-कभी घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है। अपने धैर्य, साहस तथा परिश्रम से ही उसे अन्त में कठिनाइयों पर विजय तथा आमदनी के क्षेत्र में थोड़ी-बहुत सफलता मिलती है।

‘मिथुन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

मिथुन लग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, जिसके कारण उसे कभी-कभी भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भी उसे कुछ परेशानी बनी रहती है। परन्तु ऐसा जातक अपनी हिम्मत, गुप्त युक्ति, परिश्रम तथा चतुराई के बल पर येन-केन-प्रकारेण अपना खर्च चलाता रहता है।

‘मिथुन’ लग्न समाप्त

जो ग्रन्थ अब तक अप्राप्त था और जिसे पाने के लिए विद्वान, ज्योतिषी, तान्त्रिक, साधक, सिद्ध-स्थाने वर्षों से प्रयत्नशील थे, तैयार है।


वृहद् यन्त्र महान्व

सीमित संख्या में छप रहा है। यन्त्र-साधक एवं जिज्ञासुजन अपनी प्रति आज ही सुरक्षित करा लें।

- खुले पत्राकार बड़े साइज के 250 से अधिक पृष्ठ,
- नयनाभिराम शुद्ध मुद्रण, सैकड़ों यन्त्रों के चित्र
- दक्षिणा 171/-

नोट-171/- पेशगी आने पर ही आर्डर बुक किया जायेगा।

‘कर्क’ लग्न



[‘कर्क’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘कर्क’ लग्न का फलादेश

‘कर्क’ लग्न में उत्पन्न जातक का शरीर गौर-वर्ण तथा शक्तिशाली होता है। वह पित्त प्रकृति वाला, बुद्धिमान्, धर्मात्मा, उदार, विनम्र, धनी, जलक्रीड़ा-प्रेमी, पवित्र, क्षमाशील तथा मिष्टान्न-भोजी होता है; परन्तु इसके साथ ही वह व्यसनी, अत्यन्त ढीठ, कुटिल-स्वभाव, मित्त-द्रोही तथा कभी-कभी विपरीत-बुद्धि का परिचय देने वाला भी होता है।

इस लग्न वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं से पीड़ित रहता है। उसके कन्या-सन्तानें अधिक होती हैं तथा उसे अपना जन्म-स्थान छोड़कर परदेश में निवास करना पड़ता है।

इस लग्न वाले जातक का भ्राम्योदय १६-१७ वर्ष की आयु में ही हो जाता है।

‘कर्क’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ४४३ से ५५० के बीच देखना चाहिए।

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।



‘कर्क’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१—‘कर्क’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४४३ से ४५४ के बीच देखना चाहिए।

२—‘कर्क’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में सूर्य—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ४४३
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ४४४
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ४४५
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ४४६
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ४४७
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ४४८
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ४४९
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ४५०
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ४५१
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ४५२
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ४५३
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ४५४

‘कर्क’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१—‘कर्क’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४५५ से ४६६ के बीच देखना चाहिए।

२—‘कर्क’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित

‘चन्द्रमा’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन ‘चन्द्रमा’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ४५५
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ४५६
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ४५७
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ४५८
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ४५९
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ४६०
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ४६१
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ४६२
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ४६३
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ४६४
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ४६५
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ४६६

‘कर्क’ लग्न में ‘मंगल’ का फलादेश

१—‘कर्क’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मङ्गल’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४६७ से ४७८ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘कर्क’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मङ्गल’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘मङ्गल’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६७
- (ख) ‘वृष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६८
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६९
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७०
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७१
- (च) ‘कन्या’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७२
- (छ) ‘तुला’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७३
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७४
- (झ) ‘धनु’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७५
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७६
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७७
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७८

‘कर्क’ लग्न में ‘बुध’ का फलादेश

१—‘कर्क’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४७९ से ४९० के बीच देखना चाहिए।

२—‘कर्क’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘बुध’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४७९
- (ख) ‘वृष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८०
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८१
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८२
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८३
- (च) ‘कन्या’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८४
- (छ) ‘तुला’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८५
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८६
- (झ) ‘धनु’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८७
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८८
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४८९
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९०

‘कर्क’ लग्न में ‘गुरु’ का फलादेश

१—‘कर्क’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ४९१ से ५०२ के बीच देखना चाहिए।

२—‘कर्क’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘गुरु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९१
- (ख) ‘वृष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९२
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९३
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९४
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९५
- (च) ‘कन्या’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ४९६

- (छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६७
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६८
- (झ) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ४६९
- (ञ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५००
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०१
- (ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०२

'कर्क' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१—'कर्क' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५०३ से ५१४ के बीच देखना चाहिए।

२—'कर्क' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'शुक्र'—

- (क) 'शेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०३
- (ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०४
- (ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०५
- (घ) 'कर्क' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०६
- (ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०७
- (च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०८
- (छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५०९
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१०
- (झ) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५११
- (ञ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१२
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१३
- (ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१४

'कर्क' लग्न में 'शनि' का फलादेश

१—'कर्क' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५१५ से ५२६ के बीच देखना चाहिए।

२—'कर्क' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि'

का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'शनि'—

- (क) 'भेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१५
- (ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१६
- (ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१७
- (घ) 'कर्क' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१८
- (ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५१९
- (च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२०
- (छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२१
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२२
- (झ) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२३
- (ञ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२४
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२५
- (ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२६

'कर्क' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१—'कर्क' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५२७ से ५३८ के बीच देखना चाहिए।

२—'कर्क' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'भेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२७
- (ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२८
- (ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५२९
- (घ) 'कर्क' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३०
- (ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३१
- (च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३२
- (छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३३
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३४
- (झ) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३५
- (ञ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३६
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३७
- (ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३८

‘कर्क’ लग्न में ‘केतु’ का फलादेश

१—‘कर्क’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५३६ से ५५० के बीच देखना चाहिए।

२—‘कर्क’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘केतु’—


- (क) ‘मेष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५३६
- (ख) ‘वृष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४०
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४१
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४२
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४३
- (च) ‘कन्या’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४४
- (छ) ‘तुला’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४५
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४६
- (झ) ‘धनु’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४७
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४८
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५४९
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ५५०



‘कर्क’ लग्न में ‘सूर्य’

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : प्रथमभाव : सूर्य




प्रथमभाव में मित्त चन्द्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य, तेज तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। उसे धन तथा कुटुम्ब की शक्ति भी प्राप्त होती है।

सातवीं शतदृष्टि से सप्तमभाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के धन, कुटुम्ब, यश तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

सातवीं शतदृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक की आयु में कमी आती है तथा पुरातत्त्व एवं दैनिक चर्या में भी सामान्य कठिनाइयों का शिकार होना पड़ता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश


कर्क लग्न : तृतीयभाव : सूर्य



तीसरे भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख कुछ त्रुटियों के साथ प्राप्त होता है। पराक्रम के द्वारा धन-वृद्धि भी होती है। सातवीं मित्तदृष्टि से नवमभाव को देखने से जातक पराक्रम द्वारा भाग्य की वृद्धि तथा धर्म का पालन करता है। उसका प्रभाव एवं सम्मान भी बढ़ता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में शतु शुक्र की राशिस्थ नीच के सूर्य के प्रभाव से जातक के माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी कम मिलता है।

सातवीं उच्च दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, यश तथा धन की प्राप्ति होती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के सन्तान-सुख में बाधा आती है, परन्तु एक सन्तान अत्यन्त प्रभावशालिनी होती है। विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है तथा धन की वृद्धि भी होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है। ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता तथा उग्र स्वभाव का होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव रखता है, परन्तु धन तथा कुटुम्ब के सुख में कमी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के आगे धन की चिन्ता नहीं करता तथा झगड़े एवं परिश्रम के कामों से प्रभाव की वृद्धि करता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कष्ट होता है। स्त्री से वैमनस्य रहता है तथा व्यवसाय में भी परेशानियाँ आती रहती हैं। भूतेश्चन्द्रिय में विकार तथा पारिवारिक कठिनाइयाँ भी रहती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से जातक को प्रतिष्ठा मिलती है तथा

शारीरिक प्रभाव भी बना रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की आयु पर कभी-कभी संकट आते रहते हैं तथा पुरातत्त्व के लाभ में भी कमी आती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के द्वितीयभाव के देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख में कुछ कमी रहती है तथा पेट में भी कोई रोग हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का रहन-सहन धनवानों जैसा होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का भाग्य प्रबल होता है। वह धर्म का पालन भी करता है तथा मान-प्रतिष्ठा भी पाता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, सुखी, स्वार्थी तथा परमार्थी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, प्रतिष्ठा तथा लाभ की प्राप्ति होती है।

सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन के साथ ही घरेलू सुख में भी कुछ कमियाँ बनी रहती हैं।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को धन का विशेष लाभ होता है, परन्तु कौटुम्बिक सुख में कमी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या-बुद्धि में प्रवीणता तथा सन्तान-पक्ष से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली जीवन बिताता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से धन का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु खर्च की अधिकता रहती है। वह रईसी ढंग का जीवन बिताता है। धन तथा कौटुम्बिक सुख में कमी बनी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।

‘कर्क’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कर्क लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र




पहले भाव में स्वराशि में स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को सौन्दर्य, स्वास्थ्य, अधिक शक्ति, यश एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का विचारक तथा गुणी होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री-पक्ष में असन्तोषपूर्ण सुख प्राप्त होता है, परन्तु व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र




दूसरे भाव में मित्त सूर्य की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों के साथ धन तथा कौटुम्बिक सुख पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है ।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु के विषय में परेशानियाँ आती हैं तथा पुरातत्त्व का लाभ कम होता है । ऐसा व्यक्ति शान-शोकत का जीवन बिताने वाला, प्रतिष्ठित या भाग्यशाली होता है ।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कर्क लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र




तीसरे भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम एवं भाई-बहिन के सुख में अत्यन्त वृद्धि होती है ।

सातवीं मित्त दृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की भी पर्याप्त उन्नति होती है । ऐसा व्यक्ति धार्मिक, दानी, उदार, ईश्वर-भक्त, धनी, उत्साही, पराक्रमी तथा पुरुषार्थी होता है ।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कर्क लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र




चौथे भाव में सामान्य-मित्त शुक्र की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि भवन आदि का पर्याप्त सुख उपलब्ध होता है । उसका शरीर सुन्दर तथा मन कोमल होता है ।

सातवीं मित्त दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता, सहयोग एवं यश की प्राप्ति होती है । ऐसा जातक हर प्रकार से सम्पन्न एवं सुखी रहता है ।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कर्क लग्न : पंचमभाव : चन्द्र




पाँचवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित नीच के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में कठिनाई से सफलता मिलती है। मन तथा शरीर भी दुर्बल रहता है।

सातवीं उच्च दृष्टि से एकादशभाव को देखने से गुप्त मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के बल पर आमदनी अच्छी बनी रहती है, परन्तु कुछ अशान्ति का अनुभव भी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कर्क लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र




छठे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में दुर्बलता रहती है और वित्त बचकर काम निकालना पड़ता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण बाह्य स्थानों के सम्बन्ध से यश, सम्मान तथा धन प्राप्त होता है एवं खर्च की अधिकता रहती है। ऐसा व्यक्ति गौरवशाली तथा आत्मबली होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कर्क लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र




सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष में कुछ असन्तोष के बाद सफलता मिलती है तथा व्यवसाय पक्ष में भी कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा व्यक्ति भोगादि में अधिक रुचि रखता है।

सातवीं दृष्टि से स्वरशि के प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, मनोबल तथा आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धनी, विलासी, सुखी तथा सुन्दर होता है।

कर्क लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

कर्क लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा पुरातत्त्व का लाभ असन्तोषजनक रहता है, परन्तु आयु की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण जातक अपने शारीरिक श्रम द्वारा धन-जन की वृद्धि करने में समर्थ होता है।

'कर्क' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

कर्क लग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को मन तथा शरीर की अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण वह अपने भाग्य की खूब उन्नति करता है तथा धर्म का पालन भी करता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धर्मात्मा,

सतोगुणी, ईश्वर-भक्त, यशस्वी तथा सज्जन होता है।

'कर्क' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

कर्क लग्न : दशमभाव : चन्द्र




दसवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय पक्ष से प्रभाव, यश तथा लाभ प्राप्त होता है और वह किसी उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सुन्दर तथा शक्तिशाली होता है।

सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण जातक को भूमि, भवन आदि का सुख भी मिलता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कर्कलग्न : एकादशभाव : चन्द्र




ग्यारहवें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों एवं सौन्दर्य में वृद्धि होती है तथा आमदनी अच्छी रहती है।

सातवीं नीचदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करता पाया जाता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वादशभाव : चन्द्र




बारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को बाहरी सम्पर्क से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में अपने शान्त स्वभाव के द्वारा प्रभाव-स्थापित करता है, परन्तु मन में कुछ अशान्ति भी बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति का शरीर दुबला-पतला होता है।

‘कर्क’ लग्न में मंगल

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कर्क लग्न : प्रथमभाव : मंगल



पहले भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा पिता, राज्य, सन्तान एवं विद्या का पक्ष भी दुर्बल रहता है।


चौथी मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन का सुख मिलता है। सातवीं उच्च दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री-पक्ष में असन्तोष-पूर्ण वृद्धि होती है तथा व्यवसाय में कठिनाइयों के

साथ सफलता मिलती है।

आठवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से पुरातत्त्व तथा दैनिक जीवन में कमी रहती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वितीयभाव : मंगल




दूसरे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का सुख मिलता है। राज्य तथा पिता से भी लाभ होता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने से विद्या तथा सन्तान की शक्ति मिलने पर भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता रहता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कमी आती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने के कारण भाग्य, यश तथा धर्म की वृद्धि होती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कर्क लग्न : तृतीयभाव : मंगल




तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहन के सुख में वृद्धि होती है। विद्या तथा सन्तान का लाभ भी होता है। सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से जातक बुद्धि-बल से भाग्यशाली होता है तथा यश एवं धर्म का लाभ करता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय

के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। चौथी मित्र-दृष्टि से षष्ठमभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा विजय मिलती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कर्क लग्न : चतुर्थभाव : मंगल




चौथे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है। विद्या-बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। उच्च दृष्टि से सप्तम-भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय का अच्छा लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के दशमभाव को देखने से राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सहयोग तथा यश का लाभ होता है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से धन की भी पर्याप्त आमदनी बनी रहती है।

'कर्क' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

कर्क लग्न : पंचमभाव : मंगल




पाँचवें भाव में स्वराशिस्थ मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का यथेष्ट लाभ होता है। चौथी शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से कुछ असन्तोष के साथ पुरातत्त्व एवं आयु का लाभ होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से लाभ-प्राप्ति के लिए दिमागी परिश्रम अधिक करना पड़ता है तथा आठवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से

यश-धन की प्राप्ति होती रहती है।

'कर्क' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

कर्क लग्न : षष्ठभाव : मंगल




छठे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष में विजय मिलती है तथा विद्या-बुद्धि एवं सन्तान का भी श्रेष्ठ लाभ होता है। चौथी मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। आठवीं नीच-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सुख, सौन्दर्य, स्वास्थ्य तथा शान्ति में कुछ कमी बनी रहती है।

'कर्क' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

कर्क लग्न : सप्तमभाव : मंगल




सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक को अनेक सुन्दर स्त्रियों का लाभ होता है परन्तु उनसे कुछ मतभेद भी रहता है। व्यवसाय में विशेष सफलता मिलती है तथा विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का पक्ष भी अच्छा रहता है।

चौथी दृष्टि से स्वराशि में दशमभाव को देखने से पिता तथा राज्य से सुख, लाभ एवं सम्मान मिलता है। सातवीं नीच दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य में कमी रहती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय खूब होता है तथा वाणी भी प्रभावशालिनी होती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कर्क लग्न : अष्टमभाव : मंगल




आठवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ मिलता है, परन्तु विद्या, बुद्धि, सन्तान, पिता तथा राज्य पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है।

चौथी शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से परिश्रम द्वारा लाभ होता है। सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कौटुम्बिक सुख में वृद्धि होती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव

को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कर्क लग्न : नवमभाव : मंगल




नवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति होती है तथा विद्या, बुद्धि, सन्तान, पिता, राज्य एवं व्यवसाय पक्ष का सुख भी मिलता है।

चौथी मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कर्क लग्न : दशमभाव : मंगल




दसवें भाव में स्थित स्वक्षेत्री मंगल के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता एवं व्यवसाय पक्ष से सुख, यश तथा धन का लाभ होता है। चौथी नीच-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी रहती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ असन्तोषजनक रहता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि के पंचमभाव को देखने से सन्तान, विद्या एवं बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है तथा कोई उच्च पद भी प्राप्त होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कर्क लग्न : एकादशभाव : मंगल




ग्यारहवें भाव में अपने सामान्य मित्त शुक्र की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को कठिन परिश्रम द्वारा पर्याप्त धन लाभ होता है तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। चौथी मित्तदृष्टि से द्वितीय-भाव को देखने से भी धन तथा कुटुम्ब के सुख का लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के पंचमभाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि तथा सन्तान का लाभ होता है। आठवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा शत्रुजयी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

बारहवें भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। पिता, राज्य, सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कमी का अनुभव होता है।

कर्क लग्न : द्वादशभाव : मंगल




चौथी मित्तदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्त दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में विजय मिलती है। आठवीं उच्च-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। परन्तु बुद्धिभ्रम तथा मस्तिष्क में परेशानी की स्थिति भी बनी रहती है।

‘कर्क’ लग्न में ‘बुध’

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथम भाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : प्रथम भाव : बुध




पहले भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल रहता है तथा भाई-बहिन के सुख में कमी आती है, परन्तु पराक्रम एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। बाहरी संबंधों से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से सामान्य वृद्धियों के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वितीयभाव बुध




दूसरे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित व्ययेश बुध के प्रभाव से जातक को धन-संचय के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी रहती है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु का पूर्ण सुख मिलता है, परन्तु पुरातत्त्व का लाभ अपूर्ण रहता है। दैनिक जीवन सुखी तथा प्रभावशाली रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में स्वराशि-स्थित बुध के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी आती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य कमजोर रहता है तथा धर्म में भी विशेष रुचि नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को अपयश भी उठाना पड़ता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ दृष्टिपूर्ण सफलता मिलती है, परन्तु भाई-बहिन का सुख प्राप्त होता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ एवं सुख मिलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलताएँ मिलती हैं।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को विद्या तथा सन्तान के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तथा हिम्मती होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से बुद्धि-बल द्वारा लाभ होता है तथा बाहरी सम्बन्धों से सुख प्राप्त होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में तन्मत्ता एवं शांति के आश्रय से सफलता प्राप्त करता है। भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से सामान्य सम्बन्ध बना रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को स्त्री का सुख मिलता है तथा व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण जातक के शरीर में शक्ति तथा दुर्बलता का सामंजस्य रहता है। ऐसा व्यक्ति अधिक खर्चीला होता है तथा बाहरी सम्बन्धों एवं परिश्रम के बल पर उन्नति भी करता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का कुछ कमियों के साथ लाभ होता है। भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी आती है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से खर्च चलता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन का लाभ होता है, परन्तु बुध के व्ययेश होने के कारण खर्च अधिक बना रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में मित्त गुरु की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को धर्म तथा भाग्योन्नति के क्षेत्र में कुछ वृष्टिपूर्ण सफलता मिलती है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से सामान्य लाभ होता है। खर्च अधिक रहता है।

सातवीं उच्च दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पुरुषार्थ की वृद्धि होती है, परन्तु भाग्योन्नति में बाधाएँ भी आती रहती हैं।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में मित्त मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में वृष्टिपूर्ण सफलताएँ मिलती हैं, परन्तु भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि एवं भवन आदि का सामान्य लाभ होता है तथा परिश्रम द्वारा खर्च चलता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में मित्त शुक्र की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भी लाभ होता है, परन्तु खर्च अधिक बना रहता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण लाभ होता है, परन्तु जातक अपनी बुद्धि, विवेक-शक्ति तथा वाणी के बल पर लाभ कमाता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वादशभाव : बुध




बारहवें भाव में स्वराशिस्थ बुध के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी रहती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शान्त स्वभाव, पुरुषार्थ एवं व्यय की शक्ति से शत्रुपक्ष में सामान्य सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति धन खर्च करने के बल पर ही अनेक कठिनाइयों पर नियन्त्रण स्थापित कर पाता है।

‘कर्क’ लग्न में ‘गुरु’

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथम भाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : प्रथमभाव : गुरु




पहले भाव में मित्त चन्द्रमा की राशि पर स्थित उच्च के गुरु के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है। पाँचवीं मित्त-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि का पूर्ण सुख मिलता है।

सातवीं नीच दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री पक्ष तथा दैनिक खर्च में कठिनाइयाँ बनी रहती हैं। नवीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को देखने से भाग्य की शक्ति प्रबल रहती है तथा धर्म का लाभ भी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वितीयभाव : गुरु




दूसरे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि के षष्ठभाव को देखने से धन की शक्ति द्वारा शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। नवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य, पिता

तथा व्यवसाय के क्षेत्र में यश, धन, सहयोग तथा सफलता का लाभ होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : तृतीयभाव : गुरु




तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का सुख मिलता है। पाँचवीं नीच दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में हानि तथा क्लेश का शिकार बनना पड़ता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है। नवीं

शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता रहता है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा, धनी, हिम्मती तथा शत्रुजयी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : चतुर्थभाव : गुरु




चौथे भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के क्षेत्र में दृष्टिपूर्ण लाभ होता है। शत्रु पक्ष में शान्ति से सफलता मिलती है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कुछ असन्तोष रहता है।

सातवीं मित्र दृष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण बाहरी संबंधों से लाभ होता है, परन्तु खर्च अधिक रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : पंचमभाव : गुरु




पाँचवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को देखने से बुद्धि तथा सन्तान के सहयोग से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रु दृष्टि से एकादशभाव को देखने से लाभ के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। नवीं मित्र दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, आत्मबल तथा यश की वृद्धि होती है। गुरु के षष्ठेश होने के कारण जातक को प्रत्येक क्षेत्र में कुछ परेशानियों के बाद ही सफलता मिलती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : षष्ठभाव : गुरु




छठे भाव में स्वराशि स्थित गुरु के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव स्थापित करता है तथा यशस्वी होता है। परन्तु भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ४९३०

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। नवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन तथा कुटुम्ब का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा यशस्वी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : सप्तमभाव : गुरु




सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित नीच के गुरु के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं तथा शत्रु पक्ष से व्यवसाय को हानि पहुँचती है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से परिश्रम द्वारा लाभ होता है।

सातवीं उच्च दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। नवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिन का सुख भी मिलता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : अष्टमभाव : गुरु




आठवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का त्रुटिपूर्ण लाभ होता है, परन्तु शत्रु पक्ष से अशान्ति मिलती है तथा भाग्य पक्ष दुर्बल रहता है। पाँचवीं मित्त-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से लाभ भी होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमी रहती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : नवमभाव : गुरु




नवें भाव में स्वराशि-स्थित गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। पाँचवीं उच्च दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। नवीं मित्त-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि एवं सन्तान के पक्ष में भी विशेष सफलता मिलती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : दशमभाव : गुरु




दसवें भाव में मित्त मंगल की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सफलता, सुख तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। पाँचवीं मित्त-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-कुटुम्ब की वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से कुछ असन्तोष के साथ माता, भूमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम तथा झगड़ों के द्वारा उन्नति करता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : एकादशभाव : गुरु




ग्यारहवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा लाभ कमाता है तथा उसे शत्रु पक्ष से भी लाभ होता है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों का सुख सामान्य कमी के साथ मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवीं नीच दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में असन्तोष एवं हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति धनी अवश्य होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वादशभाव : गुरु




बारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी रहती है। पाँचवीं शत्रु दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख बड़े परिश्रम द्वारा मिलता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठ भाव को देखने से शत्रु पक्ष में सफलता मिलती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है।

‘कर्क’ लग्न में ‘शुक्र’

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कर्क लग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, सुख तथा चातुर्य का लाभ होता है। माता तथा भूमि का सुख भी मिलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता है तथा भोगादि में खूब रुचि बनी रहती है। ऐसा जातक सुखी, धनी, विलासी तथा ऐश्वर्यशाली होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को धन-कुटुम्ब का सामान्य असन्तोष के साथ सुख प्राप्त होता है तथा भूमि एवं भवन का सुख भी मिलता है। माता के सुख में कुछ कमी रहती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। ऐसा जातक धनी तथा सुखी जीवन बिताता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कर्क लग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी रहती है। माता के सुख में भी कमी का अनुभव होता है।

सातवीं उच्च दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य की श्रेष्ठ वृद्धि होती है तथा धर्म का पालन भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भीतरी कमजोरियों को छिपाकर प्रकट में हिम्मती बना रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कर्क लग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में स्वराशि-स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है। आयु में वृद्धि होने से वह धनी भी बनता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता, सुख, यश एवं धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर, प्रतिष्ठित तथा धनी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कर्क लग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में सामान्य मित्त मंगल की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान का अश्रेष्ठ लाभ होता है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को देखने से आमदनी भी अच्छी रहती है तथा धन का लाभ खूब होता है।

ऐसे व्यक्ति को माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कर्क लग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में विजय मिलती है, परन्तु माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमी तथा अशान्ति भी रहती है। लाभ के मार्ग में भी परतन्त्रता का योग बनता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण बाहरी सम्बन्धों से सुख तथा लाभ मिलता है तथा खर्च अधिक रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कर्क लग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में मित्त शनि की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री, व्यवसाय तथा दैनिक आय के क्षेत्र में सफलता मिलती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, चातुर्य एवं सुख की प्राप्ति भी होती है।

कर्क' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कर्क लग्न : अष्टमभाव : शुक्र




अठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है तथा परदेश में रहकर उन्नति करता है। घरेलू सुख में कुछ कमी भी रहती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन-संचय नहीं हो पाता तथा कौटुम्बिक सुख में भी कमी रहती है।

कर्क' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कर्क लग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित उच्च शुक्र के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य की विशेष वृद्धि होती है। माता, भूमि तथा भवन का उत्तम सुख भी मिलता है।

सातवीं दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-वहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी, धनी सुखी तथा सौभाग्यशाली होता है।

कर्क लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कर्क लग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में सामान्य मित्र मंगल की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सफलताएँ मिलती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख भी प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होता है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, गंभीर, चतुर, बुद्धिमान, श्रृंगार-प्रिय, प्रेमी तथा ऐश्वर्यशाली होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

‘कर्क’ लग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में स्वक्षेत्री शुक्र के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है तथा माता, भूमि, भवन आदि का सुख भी मिलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में भी पूर्ण सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति योग्य, चतुर, धनी, सुखी तथा श्रेष्ठवाणी बोलनेवाला होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से सुख एवं लाभ उठाता है तथा उसका खर्च अधिक रहता है। माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी आती है तथा मातृभूमि से अलग भी रहना पड़ता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु पक्ष में चातुर्य एवं खर्च से काम निकालने में सफलता मिलती है।

‘कर्क’ लग्न में ‘शनि’

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी आती है तथा शरीर में रोग भी रहता है। तीसरी मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन का त्रुटिपूर्ण सुख मिलता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वक्षेत्र में सप्तमभाव को देखने से व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता मिलती है तथा स्त्री का सुख होने पर भी उससे कुछ परेशानी रहती है। दसवीं नीच-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता तथा राज्य के क्षेत्र में सफलता एवं सम्मान का सामान्य लाभ होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वितीयभाव : शनि




दूसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के क्षेत्र में हानि पहुँचती है। तीसरी उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख मिलता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु-वृद्धि तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। दसवीं मित्त-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से

परिश्रम द्वारा धन का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अमीरी ढंग का जीवन तो बिताता है, परन्तु धन तथा पारिवारिक सुख में कमी ही बनी रहती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : तृतीयभाव : शनि




तीसरे भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों द्वारा परेशानी भी मिलती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान से कष्ट मिलता है तथा विद्या-बुद्धि की कमी रहती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य में रुकावटें आती हैं तथा धर्म में असुख रहती

है। बारहवीं मित्त-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है, परन्तु खर्च अधिक रहता है। ऐसा व्यक्ति कुछ क्रोधी स्वभाव का होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में मित्त शुक्र की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से माता के सुख में कुछ कमी आती है, परन्तु भूमि, भवन का यथेष्ट सुख मिलता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से षष्ठमभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में प्रभाव रहता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। दसवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने

से शरीर में आलस्य तथा रोग रहता है तथा घरेलू सुख में भी कुछ कमी आती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : पंचमभाव : शनि




पाँचवें भाव में शत्रु मंगल की राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से बुद्धिमती स्त्री मिलती है, परन्तु उसके कारण कुछ कष्ट भी होता है। व्यवसाय में भी बुद्धि-योग से सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय में कमी रहती है तथा कुटुम्ब द्वारा भी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : षष्ठभाव : शनि




छठे भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में प्रभाव बनाये रखता है परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलती है। तीसरी दृष्टि में स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। दसवीं मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन से वैमनस्य रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : सप्तमभाव : शनि




सातवें भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है तथा भोगादि के सुख भी खूब मिलते हैं। तीसरी शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है। दसवीं उच्च-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव से जातक की आयु बढ़ती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियाँ बनी रहती हैं। बाहरी स्थान के संबंध से शक्ति भी मिलती है।

तीसरी नीच-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानी रहती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय तथा कुटुम्ब-सुख में कमी आती है। दसवीं

शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में भी कठिनाइयों का अनुभव होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : नवमभाव : शनि




नवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को धर्म-पालन तथा भाग्योन्नति के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है। तीसरी मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी बढ़ती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी

रहती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के बाद शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती रहती हैं। पुरातत्त्व तथा आयु की हानि भी होती है। तीसरी मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है।

सातवीं उच्चदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन आदि का सुख मिलता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से

स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादश भाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : एकादशभाव : शनि




ग्यारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है। स्त्री तथा व्यवसाय पक्ष में भी लाभ होता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में कुछ कष्ट

रहता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु बढ़ती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। ऐसा जातक कम पढ़ा-लिखा होने पर भी अपने चातुर्य एवं परिश्रम द्वारा सुखी जीवन व्यतीत करता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वादशभाव : शनि




बारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। स्त्री, व्यवसाय, आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में हानि होती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से द्वितीय-भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के पक्ष में भी घोर चिन्ताएँ बनी रहती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रु उत्पात करते रहते हैं, परन्तु उन पर प्रभाव भी बना रहता है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म-पालन में कमी रहती है तथा भाग्य की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। परन्तु इन सब कठिनाइयों के बावजूद जातक शानदार जीवन व्यतीत करता है।

‘कर्क’ लग्न में ‘राहु’

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कर्क लग्न : प्रथमभाव : राहु



पहले भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा हृदय चिन्तित बना रहता है। कभी-कभी मृत्युतुल्य कष्टों का सामना भी करना पड़ता है, परन्तु वह गुप्त युक्तियों के बल पर अपने सम्मान को बचाये रखता है तथा उन्नति के लिए कठिन परिश्रम भी करता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कर्क लग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुम्ब के सुख की हानि होती है। वह गुप्त युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के बल पर धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है और कभी-कभी आकस्मिक धन-लाभ भी प्राप्त करता है। उसे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सदैव चिंतित बने रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा परिश्रमी तथा हिम्मती होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कर्क लग्न : तृतीयभाव : राहु




तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है तथा कुछ कठिनाइयों के साथ भाई-बहिन का सुख भी मिलता है।

ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कठिन परिश्रम, गुप्त युक्तियों तथा पुरुषार्थ का सहारा लेता है। भीतरी रूप से कमजोर होने पर भी ऊपर से बड़ा हिम्मती दिखाई देता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कर्क लग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में मित्र शुक की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कुछ कमी प्राप्त होती है तथा भूमि और भवन का सुख भी अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। उसे देश छोड़ कर परदेश में भी रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कभी-कभी असफलताओं का भी विशेष शिकार बनता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कर्क लग्न : पंचमभाव : राहु



पाँचवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को विद्याध्ययन में कठिनाई आती है तथा सन्तान-पक्ष से कष्ट होता है। बहुत समय बीत जाने पर ही सन्तान का सुख मिलता है। कम पढ़-लिखा होने पर भी ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से बड़े-बड़े बुद्धिमानों को भी प्रभावित करता है। वह स्वभाव से जिद्दी तथा कानून का जानकार भी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कर्क लग्न : षष्ठभाव : राहु




छठे भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के लिए शत्रु-पक्ष द्वारा कठिनाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं, परन्तु वह भेद-नीति के आश्रय से उनका दमन करने में सफल हो जाता है।

ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों का ज्ञाता, चतुर, स्वार्थी तथा पाप-पुण्य की चिन्ता न करने वाला होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कर्क लग्न : सप्तमभाव : राहु



सातवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियों तथा कठिनाइयों का शिकार होना पड़ता है। उसकी इन्द्रिय में विकार होता है। घरेलू मामलों में उसे कभी-कभी घोर कष्ट उठाना पड़ता है, परन्तु अन्त में सफलता भी प्राप्त कर लेता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कर्क लग्न : अष्टमभाव : राहु



आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आयु के बारे में कभी-कभी चिन्ताजनक स्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है तथा पुरातत्त्व की हानि भी होती है। वह उदर-विकार से ग्रस्त रहता है। जीवन-निर्वाह के लिए उसे अनेक गुप्त युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कर्क लग्न : नवमभाव : राहु




नवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं तथा धर्म का भी यथावत् पालन नहीं हो पाता।

उसे कभी-कभी बड़े संकटों का सामना भी करना पड़ता है, परन्तु गुप्त युक्तियों तथा परिश्रम के बल पर कुछ सफलता भी प्राप्त करता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कर्क लग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को पित्त, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। अनेक कष्टों को भोगने तथा अनेक बार निराश होने के बाद वह अपने परिश्रम, धैर्य तथा बहादुरी से थोड़ी बहुत उन्नति करता तथा प्रतिष्ठा को बचाता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कर्क लग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को बड़ी चतुराई के साथ यथेष्ट धन का लाभ होता है, परन्तु कभी-कभी सामान्य कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ती हैं तथा संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आकस्मिक रूप से भी धन-लाभ होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के संबंध से गुप्त युक्तियों के बल पर लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है। वह परदेश में विशेष सम्मान एवं ब्याप्ति प्राप्त करता है।

ऐसा व्यक्ति अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं करता तथा बड़ी चतुराई तथा बुद्धिमानी से उन्नति एवं सफलता प्राप्त करता है।

‘कर्क’ लग्न में ‘केतु’

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कर्क लग्न : प्रथमभाव : केतु



पहले भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के शरीर पर किसी गहरी चोट अथवा घाव का निशान बनता है। शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कमी आती है। चेचक की बीमारी हो सकती है तथा कभी-कभी मृत्युतुल्य कष्ट भी भोगना पड़ता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के द्वितीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कर्क लग्न : द्वितीयभाव : केतु



दूसरे भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के धन की अत्यधिक हानि होती है तथा उसी के कारण बड़े संकटों का सामना भी करना पड़ता है। कुटुम्ब से क्लेश मिलता है। ऐसा व्यक्ति ऋण लेकर अपना काम चलाता है तथा परिश्रम एवं गुप्त युक्तियों द्वारा अपने प्रभाव की रक्षा करता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के तृतीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कर्क लग्न : तृतीयभाव : केतु




तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है। वह गुप्त युक्तियों, विवेक तथा कठिन परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करता है।

ऐसा व्यक्ति उद्वृण्ड स्वभाव तथा उग्र प्रकृति का होता है। भाई-बहिनों के सुख में भी कमी रहती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के चतुर्थभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कर्क लग्न : चतुर्थभाव : केतु



चौथे भाव में मित्र शुक की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी रहती है तथा परदेश में जाकर रहना पड़ता है। बार-बार स्थान का परिवर्तन भी करना पड़ता है। कभी-कभी घोर संकट भी आ जाते हैं। अन्त में, उसे सामान्य सुख का लाभ भी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कर्क लग्न : पंचमभाव : केतु



पाँचवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा विद्याध्ययन में भी कठिनाइयाँ आती हैं। परन्तु ऐसा व्यक्ति चतुर, चालाक तथा वातूनी होने के कारण अपनी अयोग्यता को छिपाकर दूसरों पर प्रभाव डालने में सफल हो जाता है। वह सन्तोषी तथा शीलयुक्त भी नहीं होता।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कर्क लग्न : षष्ठभाव : केतु



छठे भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष में बड़ी सफलताएँ मिलती हैं। वह कठिन स्थितियों में भी अपने धैर्य तथा साहस को नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ शरीर का, साहसी तथा परिश्रमी होता है, परन्तु उसमें दया, शील, सौजन्य आदि सद्गुण नहीं होते।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कर्क लग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों तथा हानियों का सामना करना पड़ता है। भूतन्त्रिय में विकार होता है। विषयेच्छा अधिक रहती है। वह भोगी, जिद्दी, हठी तथा कठिन परिश्रमी होता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कर्क लग्न : अष्टमभाव : केतु



आठवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को आयु-पक्ष में अनेक बार मृत्यु-तुल्य कष्ट होते हैं तथा पुरातत्त्व की हानि भी होती है। पेट विकार-ग्रस्त रहता है। धन का संकट तथा गुप्त चिन्ताएँ रहती हैं। ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप से अपनी उन्नति तथा सुख के लिए निरन्तर प्रयत्नशील बना रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कर्क लग्न : नवमभाव : केतु




नवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपनी भाग्योन्नति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा कभी-कभी बड़े संकटों तथा विफलताओं का शिकार भी होना पड़ता है।

वह गुप्त रूप से अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, परन्तु भाग्योन्नति बड़ी धीमी गति से ही होती है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कर्क लग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। यश तथा प्रतिष्ठा को धक्का भी लगता है परन्तु वह अपनी गुप्त युक्ति एवं परिश्रम द्वारा पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कर्क लग्न : एकादशभाव : केतु




ग्यारहवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक आर्थिक लाभ पाने के लिए कठोर परिश्रम करता है तथा परिश्रम, चतुराई एवं गुप्त युक्तियों के बल पर आय में वृद्धि भी करता है।

ऐसे व्यक्ति को बारम्बार संकटों का सामना करना पड़ता है, परन्तु वह कभी हिम्मत नहीं हारता तथा परिश्रम से जी नहीं चुराता।

‘कर्क’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कर्क लग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को खर्च के बारे में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्धों से भी कष्ट ही मिलता है।

ऐसा जातक गुप्त युक्तियों से काम लेनेवाला, परिश्रमी तथा भीतर-ही-भीतर दुःखी रहने वाला होता है।

‘कर्क’ लग्न समाप्त

प्रामाणिक, शास्त्रीय तथा लोक-प्रचलित तन्त्रों का अभूतपूर्व,
विशाल तथा अद्भुत प्राचीन हस्तलिखित महाग्रन्थ

बृहद् तन्त्र महार्णव

सीमित संख्या में छप रहा है। अपनी प्रति सुरक्षित करने के लिए आज ही लिखें, अन्यथा वाद में पछताना पड़ेगा।

- बड़े खुले पत्राकार 250 से अधिक पृष्ठ,
- सैकड़ों चित्रों से युक्त,
- भेंट 91/- (इक्यानवे) २० पोस्टेज पृथक्।

नोट—91/- इक्यानवे रुपये पेशगी आने पर ही आर्डर बुक किया जायेगा।

वहाँ आलसी भी पाया जाता है, परन्तु समय पड़ने पर वह अपना कमाल प्रदर्शित कर दिखाता है।

‘सिंह’ लग्न वालों के अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण कुण्डली संख्या ५५२ से ६५६ के बीच देखना चाहिए।

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।



‘सिंह’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१. ‘सिंह’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५५२ से ५६३ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘सिंह’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ५५२
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ५५३
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ५५४
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ५५५
- (च) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ५५६
- (ङ) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ५५७
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ५५८
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ५५९
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ५६०
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ५६१
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ५६२
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ५६३

‘सिंह’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१. ‘सिंह’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५६४ से ५७५ के बीच देखना चाहिए।

२. 'सिंह' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'चन्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन 'चन्द्रमा'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ५६४
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ५६५
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ५६६
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ५६७
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ५६८
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ५६९
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ५७०
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ५७१
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ५७२
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ५७३
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ५७४
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ५७५

'सिंह' लग्न में 'मंगल' का फलादेश

१. 'सिंह' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५७६ से ५८७ के बीच देखना चाहिए।

२. 'सिंह' लग्नवालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'मंगल'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ५७६
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ५७७
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ५७८
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ५७९
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ५८०
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ५८१
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ५८२
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ५८३
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ५८४
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ५८५
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ५८६
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ५८७

‘सिंह’ लग्न में ‘बुध’ का फलादेश

१. ‘सिंह’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ५८८ से ५९९ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘सिंह’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘बुध’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ५८८
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ५८९
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ५९०
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ५९१
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ५९२
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ५९३
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ५९४
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ५९५
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ५९६
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ५९७
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ५९८
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ५९९

‘सिंह’ लग्न में ‘गुरु’ का फलादेश

१. ‘सिंह’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६०० से ६११ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘सिंह’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘गुरु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ६००
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ६०१
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ६०२
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ६०३

- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६०४
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६०५
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६०६
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६०७
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६०८
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६०९
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६१०
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६११

'सिंह' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१. 'सिंह' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६१२ से ६२३ के बीच देखना चाहिए।

'सिंह' लग्नवालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'शुक्र'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६१२
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६१३
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६१४
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६१५
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६१६
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६१७
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६१८
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६१९
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६२०
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६२१
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६२२
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६२३

'सिंह' लग्न में 'शनि' का फलादेश

१. 'सिंह' लग्नवालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६२४ से ६३५ के बीच देखना चाहिए।

२. 'सिंह' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'शनि'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६२४
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६२५
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६२६
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६२७
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६२८
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६२९
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६३०
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६३१
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६३२
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६३३
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६३४
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६३५

'सिंह' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१ 'सिंह' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६३६ से ६४७ के बीच देखना चाहिए।

२. 'सिंह' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६३६
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६३७
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६३८
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६३९
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६४०
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६४१
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६४२
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६४३
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६४४
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६४५
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६४६
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६४७

‘सिंह’ लग्न में ‘केतु’ का फलादेश

१. ‘सिंह’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६४८ से ६५६ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘सिंह’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—


जिस वर्ष में ‘केतु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ६४८
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ६४९
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ६५०
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ६५१
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ६५२
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ६५३
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ६५४
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ६५५
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ६५६
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ६५७
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ६५८
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ६५९

‘सिंह’ लग्न में ‘सूर्य’

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित सूर्य का फलादेश

सिंह लग्न : प्रथमभाव : सूर्य




पहले भाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक शारीरिक शक्ति, आत्मबल तथा सौन्दर्य का लाभ प्राप्त करता है। वह बड़ा हिम्मती तथा लम्बे कद का होता है।

सातवीं शतु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से जातक को स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा असन्तोष बना रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब के सुख में वृद्धि होती है, परन्तु उसी के कारण कुछ परतंत्रता का अनुभव भी होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है तथा जातक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में शत्रु शुक्र की तुला राशि पर स्थित नीच के सूर्य के प्रभाव से जातकों का भाई-बहिनों से वैमनस्य रहता है तथा पराक्रम में कुछ कमी आती है। फिर भी यह जातक बड़ा हिम्मती होता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से नवमभाव को देखने से जातक के भाग्य में वृद्धि होती है तथा वह धर्म में भी आस्था रखता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में मित्त मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन आदि का सुख प्राप्त होता है तथा शरीर सुखी रहता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने के कारण जातक का पिता से वैमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक प्रयत्न करने पर ही सफलता मिलती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। वह आत्मज्ञानी तथा उग्र मस्तिष्क वाला होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से बुद्धि-बल द्वारा पर्याप्त आमदनी होती है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी भी होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तथा कठिनाइयों से घबराता नहीं है। शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा रोग एवं परतंत्रता के योग भी बनते हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थान के संबंध से भी लाभ होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का स्त्री-पक्ष से वैमनस्य रहता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है।

सातवीं दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति एवं स्वाभिमान में वृद्धि होती है और वह अपने यश का विस्तार भी करना है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में मित्रगुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त होती है।

सातवीं दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से कठिन परिश्रम द्वारा धन एवं कौटुम्बिक सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से जातक की भाग्य-शक्ति प्रबल होती है तथा धर्म में भी अभिरुचि बनी रहती है।

सातवीं नीच दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से जातक को भाई-बंधुओं से असन्तोष रहता है तथा पराक्रम के बारे में ऐसा व्यक्ति लापरवाह रहता है। स्थूल शरीर वाला भाग्यवान तथा ईश्वर-भक्त होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में शत्रुशुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का पिता से वैमनस्य रहता है, परन्तु राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति एवं मान-प्रतिष्ठा का लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख भी मिलता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

सिंह लग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है तथा शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान का सुख भी यथेष्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में कुछ उग्रता रहती है और वह स्वार्थी भी होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित सूर्य का फलादेश

सिंह लग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल बना रहता है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा खर्च पर प्रभाव बना रहना है। जातक भ्रमण का शौकीन भी होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुपक्ष पर प्रभाव बना रहता है तथा अनेक कठिनाइयों के बावजूद शत्रुओं पर विजय पाता है।

‘सिंह’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सिंह लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र




पहले भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक शरीर से दुर्बल, भ्रमण-प्रिय तथा कुछ चिन्तित बना रहने वाला होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय से क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों तथा हानि का सामना पड़ता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र




दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को धन की अल्प हानि होती है। उसका रहन-सहन ठाठदार होता है। कुटुम्ब से भी कुछ असन्तोष रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ तथा सुख मिलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु-वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का भी कुछ कमी के साथ लाभ होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सिंह लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र




तीसरे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहती है। बाहरी स्थानों के सम्बन्धों से लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य एवं धर्म की उन्नति होती है तथा खर्च आराम से चलता रहता है। अन्य लोगों की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति धनी तथा सुखी समझा जाता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सिंह लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र




चौथे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन आदि का सुख कुछ कष्ट के साथ अल्प परिमाण में मिलता है तथा धरलू खर्चों से परेशानी बनी रहती है।

सातवीं उच्च दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, सुख तथा सफलता की प्राप्ति होती है।

'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

सिंह लग्न : पंचमभाव : चन्द्र




पाँचवें भाव में मित्त गुरु की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में बाधाएँ रहती हैं। खर्च की चिन्ता से मस्तिष्क परेशान भी रहता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से एकादशभाव को देखने से जातक बुद्धि-बल से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, परन्तु उसे कुछ असन्तोष भी बना रहता है।

'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

सिंह लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र




छठे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष द्वारा उत्पन्न झगड़ों तथा रोग आदि में खर्च अधिक करना पड़ता है, जिससे मन दुःखी बना रहता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादशभाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा आय कम रहते हुए भी अधिक खर्च होता है। वह खर्च के द्वारा ही शत्रु-पक्ष में सफलता भी पाता है।

'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

सिंह लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र




सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है तथा घरेलू खर्च चलाने में कठिनाई आती है। बाहरी स्थानों के सम्पर्क से लाभ होता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण शरीर दुर्बल बना रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सिंह लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व के क्षेत्र में हानि तथा चिन्ता के अवसर उपस्थित होते हैं। पेट में विकार रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन की भी कुछ हानि होती है तथा कौटुम्बिक सुख भी अल्प परिमाण में प्राप्त होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सिंह लग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक के भाग्य की वृद्धि होती है, परन्तु धर्म-पालन में कमी रहती है।

सातवीं सम-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने के कारण पराक्रम तथा भाई-बहिनों के सुख में भी कुछ कमी बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक दुर्बलता का शिकार भी होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सिंह लग्न : दशमभाव : चन्द्र




दसवें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक पैतृक सम्पत्ति का अधिक व्यय करता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलताएँ प्राप्त करता है।

सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी आती है तथा खर्च की अधिकता से मन अशान्त बना रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सिंह लग्न : एकादशभाव : चन्द्र




ग्यारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है, परन्तु खर्च भी अधिक बना रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में भी कुछ कमी रहती है। बाहरी तौर पर ऐसा जातक धनी समझा जाता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वादशभाव : चन्द्र




बारहवें भाव में स्वराशि में स्थित व्ययेश चन्द्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से यश, सुख तथा लाभ की प्राप्ति होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण जातक अपने मनोबल तथा खर्च के बल पर शत्रु-पक्ष पर विजय पाता तथा प्रभाव स्थापित करता है, परन्तु झगड़े-मुकद्दमे आदि में खर्च बहुत होता है।

‘सिंह’ लग्न में ‘मंगल’

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


सिंह लग्न : प्रथमभाव : मंगल



पहले भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। वह भाग्यवान्, धर्मात्मा तथा ईश्वर-भक्त भी होता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि के चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन का सुख मिलता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियाँ आती हैं। आठवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ प्राप्त होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


सिंह लग्न : द्वितीयभाव : मंगल



दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का सुख मिलता है। परन्तु माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमी रहती है। चौथी मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में सफलता मिलती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि के नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की भी वृद्धि होती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

सिंह लग्न : तृतीयभाव : मंगल




तीसरे भाव से शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। चौथी उच्चदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुपक्ष पर विजय प्राप्त होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की उन्नति होती है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सहयोग, सफलता एवं सुख की प्राप्ति होती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


सिंह लग्न : चतुर्थभाव : मंगल



चौथे भाव में स्वराशि स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को भूमि, भवन एवं माता का सुख प्राप्त होता है। चौथी शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता तथा लाभ के क्षेत्र में सहयोग एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी की खूब वृद्धि होती रहती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

सिंह लग्न : पंचमभाव : मंगल




पांचवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान का लाभ होता है। चौथी मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव से देखने से आमदनी खूब रहती है। आठवीं नीच-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च की परेशानी रहती है तथा

बाहरी स्थानों के सम्बन्ध भी निबल रहते हैं।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

सिंह लग्न : षष्ठभाव : मंगल




छठे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित उच्च मंगल के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है तथा भाग्य की शक्ति से सुख प्राप्त होता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च की परेशानी रहती है तथा बाहरी सम्बन्ध कम-जोर रहते हैं। आठवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक प्रभाव, सौन्दर्य एवं सुख की वृद्धि होती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

सिंह लग्न : सप्तमभाव : मंगल




सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। चौथी शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से कुछ मतभेद रहता है परन्तु पिता, राज्य तथा व्यवसाय द्वारा लाभ एवं सफलता की प्राप्ति भी होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं सौभाग्य का लाभ होता है।

आठवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

सिंह लग्न : अष्टमभाव : मंगल




आठवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति का लाभ होता है। परन्तु भाग्य तथा धर्म के पक्ष में कमी रहती है। चौथी मित्र-दृष्टि से एकादश-भाव को देखने से आमदनी खूब होती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयाभाव को देखने से कौटुम्बिक सुख तथा धन का लाभ भी होता है।

आठवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिन के सुख में वृद्धि होती है। आठवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से जातक सुखी जीवन बिताता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

सिंह लग्न : नवमभाव : मंगल




नवें भाव में स्वराशि-स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। चौथी नीच दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च की अधिकता से कष्ट प्राप्त होता है तथा बाहरी सम्बन्धों से भी परेशानी होती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन का सुख असन्तोषजनक रहता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

सिंह लग्न : दशमभाव : मंगल




दसवें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति, सफलता एवं सम्मान के योग प्राप्त होते हैं। चौथी मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक प्रभाव तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा मकान आदि का सुख मिलता है। आठवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान एवं विद्या-वृद्धि के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

सिंह लग्न : एकादशभाव : मंगल




ग्यारहवें भाव में मित्त बुध की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक की आय में वृद्धि होती है तथा माता, भूमि, भवन आदि का सुख भी मिलता है। चौथी मित्त-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। आठवीं उच्चदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु तथा रोगों पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा

प्रभावशाली, धनी तथा शत्रुजयी होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वादशभाव : मंगल




बारहवें भाव में मित्त चन्द्रमा की राशि पर स्थित नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को खर्च के बारे में कठिनाई उठानी पड़ती है तथा बाहरी सम्बन्धों से कष्ट मिलता है। माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी हानि पहुँचती है। चौथी शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

सातवीं उच्चदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख प्राप्त होता है।

‘सिंह’ लग्न में ‘बुध’

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

सिंह लग्न : प्रथमभाव : बुध




पहले भाव में मित्त सूर्य की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति विवेकी, दानी, भोगी तथा धनी होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से व्यवसाय तथा स्त्री के पक्ष में भी उन्नति, सफलता एवं सुख की प्राप्ति होती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में स्वराशि स्थित उच्च के बुध के प्रभाव से जातक के धन तथा कौटुम्बिक सुख की वृद्धि होती है। भाई-बहिनों का यथेष्ट सुख भी मिलता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के बारे में अनेक संकटों तथा चिन्ताओं का शिकार बनना पड़ता है। पेट की बीमारी रहती है तथा दैनिक जीवन भी असन्तोषजनक बना रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

सिंह लग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक का पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य की उन्नति होती है तथा धर्म का पालन भी होता है।

ऐसा व्यक्ति धनी, धर्मात्मा, पराक्रमी, यशस्वी तथा सुखी होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

सिंह लग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है तथा धन का संचय होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य, व्यवसाय तथा पिता के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा लाभ मिलता है।

'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

सिंह लग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है। साथ ही, धन की उन्नति भी होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादशभाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है। ऐसा जातक धनी, सुखी, विद्वान्, सज्जन तथा स्वार्थी होता है।

'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

सिंह लग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में नज़रता एवं धन की शक्ति से सफलता प्राप्त करता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव में देखने से खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ मिलता है। कौटुम्बिक सुख की प्राप्ति कम ही होती है।

'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

सिंह लग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से जातक के शारीरिक सौन्दर्य, आत्मिक बल, विवेक तथा यश की वृद्धि होती है।

सिंह लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'बुध' का कलादेश

सिंह लग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में मित्त मंगल की राशि पर स्थित नीच के बुध के प्रभाव से जातक को आयु-पक्ष में संकटों का सामना करना पड़ता है तथा पुरातत्त्व की हानि भी होती है।

सातवीं उच्च दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने से धन की कमी रहते हुए भी दैनिक खर्च की पूर्ति होती है तथा कौटुम्बिक सुख चिन्तनीय रहता है।

सिंह लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'बुध' का कलादेश

सिंह लग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में मित्त मंगल की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। वह धनी, सुखी, ईमानदार, उदार, सज्जन तथा ईश्वर-भक्त होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है। ऐसा जातक बड़ा यशस्वी होता है तथा निरन्तर उन्नति करता रहता है।

सिंह लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'बुध' का कलादेश

सिंह लग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में मित्त शुक्र की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य व्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएँ मिलती हैं तथा धन तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा मकान आदि का सुख भी मिलता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

सिंह लग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में स्वराशि-स्थित बुध के प्रभाव से जातक को यथेष्ट लाभ होता है तथा धन, यश एवं सुख की वृद्धि होती रहती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान एवं विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, यशस्वी, विद्वान् तथा सन्ततिवान् होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वादशभाव : बुध




बारहवें भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में धन तथा विवेक द्वारा सफलता प्राप्त होती है, परन्तु झगड़े-टंटों के कारण उसे हानि भी उठानी पड़ती है।

‘सिंह’ लग्न में ‘गुरु’

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : प्रथमभाव : गुरु




पहले भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ असन्तोष रहता है। नवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा

धर्म की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वितीयभाव : गुरु




दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को धन तथा कौटुम्बिक सुख की प्राप्ति होती है, परन्तु सन्तान के पक्ष से कुछ कष्ट मिलता है। पाँचवीं नीच-दृष्टि से षष्ठभावा को देखने से शत्रु-पक्ष तथा ननसाल में हानि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से मतभेद रहता है तथा व्यवसाय एवं राजकीय क्षेत्र में असन्तोष बना रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : तृतीयभाव : गुरु




तीसरे भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का भाई-बहिनों से मतभेद रहता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है। सन्तान का सुख कुछ कठिनाई से मिलता है तथा आयु का लाभ होता है।

पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से बुद्धि बल से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। नवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से लाभ खूब होता है। ऐसा जातक प्रत्येक क्षेत्र में साहसी होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : चतुर्थभाव : गुरु




चौथे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी आती है, परन्तु विद्या एवं सन्तान के पक्ष में लाभ होता है।

पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि के अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से वैमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय से पूर्ण लाभ नहीं होता।

नवीं उच्च दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ एवं सुख मिलता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : पंचमभाव : गुरु




पाँचवें भाव में स्वराशि-स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि एवं सन्तान के पक्ष में सफलता मिलती है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। साथ ही पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है। नवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने में शारीरिक सुख, मनोबल, यश, सुख

तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है, परन्तु गुरु के अष्टमेश होने के कारण सुख-दुःख दोनों का अनुभव होता रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : षष्ठभाव : गुरु




छठे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित नीच के गुरु के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष से चिन्ता रहती है। विद्या तथा सन्तान का पक्ष भी दुर्बल रहता है। पुरातत्त्व की हानि होती है तथा दैनिक जीवन के सुख में भी कमी आती है।

पाँचवीं दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती है। सातवीं उच्च दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से बाहरी

सम्बन्धों से श्रेष्ठ लाभ होता है तथा व्यय अधिक रहता है। नवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन एवं कुटुम्ब की सामान्य वृद्धि होती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : सप्तमभाव : गुरु




सातवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का स्त्री से वैमनस्य रहता है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियों का अनुभव होता है। विद्या तथा सन्तान के पक्ष में सामान्य सफलता मिलती है। आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ मिलता है।

पाँचवीं दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आर्थिक लाभ अच्छा रहता है। सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती

है। नवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम की कुछ वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनोसे वैमनस्य रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : अष्टमभाव : गुरु




आठवें भाव में स्वराशि-स्थित गुरु के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व में वृद्धि होती है, परन्तु सन्तान के पक्ष से कष्ट मिलता है तथा विद्या, बुद्धि में भी कुछ कमी रहती है।

पाँचवीं उच्च दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ मिलता है। सातवीं मित्र दृष्टि द्वितीयभाव को देखने से जातक धन-बुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा कुटुम्ब का सामान्य

सुख मिलता है। नवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमियों के साथ सफलता मिलती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : नवमभाव : गुरु




नवें भाव में शिष्ट मंगल की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है। पुरातत्त्व के क्षेत्र में सफलता मिलती है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने के कारण शारीरिक प्रभाव, सुख एवं अनोबल की प्राप्ति होती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों से असन्तोष रहता है, परन्तु पराक्रम बढ़ता है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव देखने

से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि का यथेष्ट लाभ होता है, परन्तु गुरु के अष्टमेश होने के कारण हर क्षेत्र में कुछ कमी का अनुभव भी अवश्य होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : दशमभाव : गुरु




दसवें भाव में शत्रु शुक की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को पिता-पक्ष में हानि तथा राज्य के पक्ष में सम्मान मिलता है। विद्या, बुद्धि, सन्तान तथा पुरातत्त्व की शक्ति का लाभ होता है।

पाँचवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख मिलता है। सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सामान्य सुख मिलता है। नवीं नीच-दृष्टि से षष्ठभाव से देखने से शत्रु-पक्ष से परेशानी होती

है तथा झगड़े-झड़पों के कारण चिताएँ घेरे रहती हैं।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : एकादशभाव : गुरु




ग्यारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक की आमदनी बढ़ती है। आयु तथा पुरातत्त्व की भी वृद्धि होती है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से मतभेद रहता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने से सन्तान, विद्या एवं बुद्धि का लाभ मिलता है। नवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियाँ आती रहती हैं।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वादशभाव : गुरु




बारहवें भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ मिलता है। विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में दृष्टिपूर्ण सफलता मिलती है।

पाँचवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन आदि का सुख प्राप्त होता है। सातवीं नीच-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष से परेशानी बनी रहती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु की विशेष शक्ति मिलती है तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है।

‘सिंह’ लग्न में ‘शुक्र’

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, शृंगार, यश तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है। भाई-बहिन एवं पिता से मतभेद रहते हुए भी सुख मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री के पक्ष में सफलता मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय में लाभ होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित नीच के शुक्र के प्रभाव से जातक को धन तथा कौटुम्बिक सुख अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। पिता, व्यवसाय, राज्य तथा पराक्रम के क्षेत्र में भी कमी बनी रहती है।

सातवीं उच्च दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य-शालियों जैसा जीवन व्यतीत करता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में स्वराशि-स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख मिलता है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय द्वारा भी लाभ प्राप्त होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा भाग्य तथा धर्म की वृद्धि करता है। वह बड़ा चतुर, योग्य तथा परिश्रमी भी होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का माता के साथ सामान्य मतभेद रहता है, परन्तु भूमि एवं भवन का लाभ प्राप्त होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ, सफलता तथा यश की प्राप्ति होती है। भाई-बहिन का सुख भी यथेष्ट मिलता है तथा रहन-सहन भी रईसों-जैसा होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। भाई-बहिन एवं पिता का सुख भी प्राप्त होता है। वह अपनी योग्यता एवं चातुर्य के बल पर सर्वत्र सम्मानित भी होता है।

सातवीं मितदृष्टि से एकादशभाव को देखने से परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ होता है तथा राज्य-पक्ष में भी सम्मान, सुख एवं लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिज्ञ, सुखी, धनी, यशस्वी तथा चतुर होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक बड़ा चतुर, प्रभावशाली तथा शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। पिता के साथ सामान्य मतभेद रहता है, परन्तु राज्य-पक्ष में उन्नति एवं सफलता मिलती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से सुख और लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों के बल पर सफलताएँ प्राप्त करता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है तथा भाई-बहिन एवं पिता का सुख भी मिलता है। वह कुशलतापूर्वक गृहस्थी का संचालन करता है तथा यश प्राप्त करता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से जातक की शारीरिक शक्ति, प्रभाव, मनोबल तथा हिम्मत वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बहादुर तथा हुकूमत करने वाला होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित उच्च के शुक्र के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरा-तत्त्व का लाभ होता है तथा भाई-बहिन एवं पिता के सुख में कुछ कृतिपूर्ण सफलता मिलती है। दैनिक जीवन में वह बड़ा प्रभावशाली रहता है। राज्य-पक्ष में भी सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं नीचदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण धन के संचय तथा कौटुम्बिक सुख में कुछ कमी बनी रहती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, सुख तथा सम्मान की प्राप्ति होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, परिश्रमी, यशस्वी, चतुर तथा हिम्मत वाला होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में स्वराशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक सफलताएँ मिलती हैं तथा यश, सुख एवं लाभ की प्राप्ति होती है। भाई-बहिनों का सुख भी पर्याप्त रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, मकान तथा भूमि का अच्छा सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति चतुर, प्रभावशाली, परिश्रमी तथा भाग्यवान् होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक की आमदनी में खूब वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन एवं पिता का श्रेष्ठ सुख भी मिलता है ।

सातवीं शतदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का भी विशेष लाभ होता है ।

ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा सबको प्रभावित करने वाला, सुखी, धनी तथा यशस्वी होता है ।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बारहवें भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थान के सम्बन्ध से लाभ होता है । पिता तथा भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी रहती है ।

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण जातक शत्रु-पक्ष में चातुर्य द्वारा प्रभावशाली बना रहता है तथा अपनी हिम्मत से सभी झगड़ों में विजय प्राप्त करता है ।

‘सिंह’ लग्न में ‘शनि’

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट, रोगादि होते हैं, परन्तु शत्रु-पक्ष पर कुछ प्रभाव बना रहता है । तीसरी उच्च-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम की वृद्धि होती है ।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के सप्तमभाव को देखने से कुछ कठिन(इयों) के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख प्राप्त होता है । दसवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय से लाभ, यश तथा सुख प्राप्त होता है ।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वितीयभाव : शनि




६२४

दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के क्षेत्र में हानि-लाभ दोनों की प्राप्ति होती है। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में बाधाएँ आती हैं। तीसरी शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी रहती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के विषय में असन्तोष रहता है। दसवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सुख-दुःखपूर्ण बना रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंहलग्न : तृतीयभाव : शनि




६२६

तीसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के प्रभाव तथा पराक्रम में बहुत वृद्धि होती है तथा भाई-बहनों का सुख भी मिलता है। शत्रु-पक्ष पर विजय मिलनी है तथा स्त्री-पक्ष पर विशेष प्रभाव बना रहता है। दैनिक आमदनी भी अच्छी रहती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं।

सातवीं नीचदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी आती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, जिसके कारण परेशानी भी रहती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंहलग्न : चतुर्थभाव : शनि



६२०


चौथे भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में दृष्टिपूर्ण सफलता मिलती है। स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी असन्तोष रहता है।

तीसरी दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परन्तु कुछ कठिनाइयों के साथ शत्रुओं पर विजय मिलती है। सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता,

राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता की प्राप्ति होती है। दसवीं दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर में रोग रहता है तथा सौन्दर्य में कुछ कमी आती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : पंचमभाव : शनि




पाँचवें भाव में शनि गृह की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के पक्ष में कुछ परेशानी रहती है। तीसरी दृष्टि से स्व-राशि में सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय से सुख मिलता है। स्त्री बुद्धिमती होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आय में वृद्धि होती है। दसवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन की वृद्धि होती है तथा सामान्य कौटुम्बिक सुख भी मिलता है। ऐसा जातक बड़ा विपयी होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : षष्ठभाव : शनि




छठे भाव में स्वराशिस्थ शनि के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर प्रभावी रहता है तथा ननसाल से भी शक्ति प्राप्त करता है। दैनिक खर्च के संचालन में तथा स्त्री-पक्ष से कुछ असन्तोष रहता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है, परन्तु आय के विषय में कुछ अशान्ति रहती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक होता है, जिससे परेशानी रहती है। दसवीं उच्चदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति हिम्मत से कठिनाइयों पर विजय पाता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : सप्तमभाव : शनि




सातवें भाव में स्वराशिस्थ शनि के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष तथा दैनिक व्यवसाय में कठिनाइयाँ बनी रहती हैं। शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है। तीसरी नीचदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की कुछ हानि होती है तथा यश में कमी आती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं मानसिक शक्ति का ह्रास होता है। दसवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी आ जाती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा स्त्री-पक्ष में अशान्ति, दैनिक व्यवसाय में कठिनाइयों तथा शत्रु-पक्ष में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

तीसरी भिन्नदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ तथा सहयोग मिलता है। सातवीं भिन्न-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-वृद्धि के लिए विशेष

प्रयत्न करना पड़ता है तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। दसवीं शत्रुदृष्टि से पंचम-भाव को देखने से विद्या-बुद्धि में कमी रहती है तथा सन्तान द्वारा कष्ट प्राप्त होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : नवमभाव : शनि




नवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में रुकावटें आती हैं। तीसरी भिन्नदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी यथेष्ट रहती है। सातवीं उच्च-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

दसवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा झगड़े-झंझट के मामलों में हानि-लाभ दोनों प्राप्त होते हैं।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में भिन्न शुक्र की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। शत्रु-पक्ष पर भी प्रभाव स्थापित होता है। तीसरी शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से बाहरी स्थानों से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता के साथ वैमनस्य रहता है तथा भूमि, भवन का सुख अल्प परिमाण में मिलता है। दसवीं दृष्टि से

स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय का सुख मिलता तो है, परन्तु कुछ परेशानियाँ भी आती रहती हैं।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : एकादशभाव : शनि



६३४


ग्याहरवें भाव में मित बुध की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती है। शत्रु-पक्ष से भी विशेष लाभ होता है। कुछ परेशानियों के साथ स्त्री का सुख मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलती है।

तीसरी शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा रोग का शिकार बनना पड़ता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान एवं विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में कमी रहती

है। दसवीं शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से पुरातत्त्व में कमी आती है तथा आयु के विषय में भी चिन्ताएँ बढ़ जाती हैं।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वादशभाव : शनि



६३५

बारहवें भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी संबंधों से कुछ लाभ होता है। शत्रुपक्ष से परेशानी भी मिलती है।


तीसरी मितदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-जन की वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है। दसवीं नीच-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं तथा धर्म की भी हानि होती है। ऐसा व्यक्ति स्त्री-पक्ष तथा व्यवसाय से कष्ट पाने वाला, अपयशी तथा रोगी होता है।

‘सिंह’ लग्न में ‘राहु’

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

सिंह लग्न : प्रथमभाव : राहु




६३६

पहले भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा मुख में कमी आती है तथा कभी-कभी घोर कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों तथा साहस के सहारे आगे बढ़ता है तथा भीतरी चिन्ताओं से चिन्तित भी बना रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


सिंह लग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के सुख में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। कभी-कभी उसे घोर आर्थिक कष्ट भी उठाना पड़ता है तथा ऋण-ग्रस्त भी होना पड़ता है तो कभी आकस्मिक धन का लाभ भी होता रहता है। ऐसा व्यक्ति चतुर तथा चालाक होता है तथा धन-वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

सिंह लग्न : तृतीयभाव : राहु




तीसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम की विशेष वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन की ओर से कुछ कष्ट प्राप्त होता है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, धैर्यवान् तथा परिश्रमी होता है। वह गुप्त युक्तियों द्वारा गंभीरतापूर्वक अपनी स्वार्थ-सिद्धि करता है तथा वृद्ध निश्चयी होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


सिंह लग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को मातृ पक्ष से कष्ट मिलता है तथा भूमि, भवन आदि के सुख में बाधा उत्पन्न होती है। उसे परदेश में जाकर रहना पड़ता है। परन्तु वह हिम्मत, गुप्त युक्ति एवं धीरज के साथ सुख के साधनों को जुटाता तथा संकटों का सामना करता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


सिंह लग्न : पंचमभाव : राहु



पाँचवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित नीच के राहु के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा विद्या की कमी रहती है। वह बुद्धि-बल से अपनी अयोग्यता को छिपाने का प्रयत्न करता है। परन्तु उसके वाणी में विनम्रता, शिष्टता एवं सत्य का अभाव रहता है। वह गुप्त युक्तियों से स्वार्थ-सिद्धि करता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


सिंह लग्न : षष्ठभाव : राहु



छठे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक युक्ति-बल से शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त करता है। कभी-कभी उसे शत्रुओं द्वारा अधिक परेशान भी किया जाता है। वह बड़ा हिम्मती, बहादुर, धैर्यवान् तथा साहसी होता है। झगड़े के समय वह अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता है। उसे अपनी ननसाल के पक्ष से हानि भी उठानी पड़ती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


सिंह लग्न : सप्तमभाव : राहु



सातवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी घोर परेशानियाँ आती रहती हैं, परन्तु वह बड़ी हिम्मत तथा धैर्य के साथ उनका मुकाबला करता है। कभी-कभी संकटों से बहुत घिर जाता है, किन्तु गुप्त युक्तियों द्वारा उन्हें पार कर जाता है।

‘सिंह’ लग्न की कृष्णली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


सिंह लग्न : अष्टमभाव : राहु



आठवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में अनेक बार मृत्यु-तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके पेट के निम्न भाग में विकार रहता है तथा उसे चिन्ताएँ एवं परेशानियाँ घेरे रहती हैं। उसे पुरातत्त्व की हानि भी उठानी पड़ती है।

‘सिंह’ लग्न की कृष्णली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

सिंह लग्न : नवमभाग : राहु




नवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में अनेक बार रुकावटें आती हैं तथा परेशानियाँ उठ खड़ी होती हैं। उसे धर्म-पालन में अरुचि रहती है।

ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों का सहारा लेता है तथा धैर्यवान्, हिम्मती एवं साहसी होने के कारण परेशानियों को हटाने में कुछ सफल भी हो जाता है।

‘सिंह’ लग्न की कृष्णली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


सिंह लग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में अपने मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को पिता के सुख में कमी रहती है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परन्तु गुप्त युक्तियों के बल पर वह अनेक कठिनाइयों को पार कर जाता है तथा कुछ उन्नति भी प्राप्त कर लेता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


सिंह लग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में मित्त बुध की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी में बहुत वृद्धि होती है तथा कभी-कभी आकस्मिक धन-लाभ भी होता है। वह अपने धैर्य, साहस, परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर लाभ को बढ़ाता रहता है, परन्तु कभी-कभी उसे हानि भी उठानी पड़ती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

सिंह लग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अपना खर्च चलाने के लिए हर समय चिन्तित रहना पड़ता है तथा कभी-कभी घोर कष्टों का सामना भी करना पड़ता है।

उसे बाहरी सम्बन्धों से भी हानि पहुँचती है। परन्तु गुप्त युक्तियों, परिश्रम तथा साहस के बल पर वह थोड़ी-बहुत सफलता भी प्राप्त कर लेता है।

‘सिंह’ लग्न में ‘केतु’ का फलादेश

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

सिंह लग्न : प्रथमभाव : केतु




पहले भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य में कमी आती है तथा कभी बाहरी चोट भी लगती है, जिसका शरीर पर स्थायी चिह्न बन जाता है।

ऐसा व्यक्ति भीतर से काफी चिन्तित रहता है तथा सुख पाने के लिए कठिन परिश्रम करता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


सिंह लग्न : द्वितीयभाव : केतु



दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को धन-संचय में कमी रहती है, जिसके कारण उसे अनेक कठिनाइयों तथा चिन्ताओं का सामना करना पड़ता है। वह धन-वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करता है तथा गुप्त युक्तियों के आश्रय से प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयत्न भी करता है। उसे पूर्ण कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त नहीं होता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

सिंह लग्न : तृतीयभाव : केतु




तीसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों से कष्ट प्राप्त होता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है।

ऐसा व्यक्ति निडर, साहसी, पराक्रमी, परिश्रमी, चतुर तथा शक्तिशाली होता है, साथ ही हठी तथा लापरवाह भी रहता है। वह प्रत्येक कार्य को अपने बाहुबल से ही पूरा करता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

सिंह लग्न : चतुर्थभाव : केतु




चौथे भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी आती है। घरेलू सुख में अशान्ति रहती है तथा भूमि-भवन का सुख भी नहीं मिलता। उसे परदेश में जाकर रहना पड़ता है।

ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रमी तथा गुप्त युक्तियों का प्रयोग करने वाला होता है, फिर भी प्रायः परेशान ही बना रहता है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


सिंह लग्न : पंचमभाव : केतु



पाँचवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित उच्च के केतु के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से शक्ति मिलती है, परन्तु कभी-कभी कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में परिश्रम करने पर भी अधिक सफलता नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान् भी समझता है, परन्तु उसकी वाणी में प्रभाव नहीं होता।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


सिंह लग्न : षष्ठभाव : केतु



छठे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। वह बड़ा हिम्मती तथा धैर्यवान् होता है। गुप्त युक्तियों तथा आन्तरिक साहस के बल पर वह निरन्तर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है तथा मुसीबतें आने पर भी घबराता नहीं है। उसे अपने ननसाल पक्ष से हानि भी उठानी पड़ती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


सिंह लग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को स्त्री-सुख तथा व्यवसाय-पक्ष में कमी का सामना करना होता है। वह अपने साहस, धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के बल पर गृहस्थी को चलाता है। कभी-कभी बड़ी मुसीबतों में भी फँसता है, परन्तु धैर्य तथा साहस को नहीं छोड़ता और अन्त में सफलता पाकर ही रहता है। उसकी मूर्तेन्द्रिय में विकार होने की संभावना भी रहती है।

‘सिंह’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


सिंह लग्न : अष्टमभाव : केतु



आठवें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक बार मृत्यु-सुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है तथा पुरातत्त्व की हानि भी उठानी पड़ती है। वह सदैव चिन्तित रहता है, फिर भी धैर्य और साहस को नहीं छोड़ता। घोर परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर वह कठिनाइयों पर विजय पाता है। उसके पेट के निम्न भाग में कुछ विकार भी रहता है।

'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

सिंह लग्न : नवमभाव : केतु




नवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में बाधाएँ आती हैं तथा धर्म के पक्ष में भी कमजोरी रहती है।

वह कठिन परिश्रम करने पर भी यशस्वी नहीं बन पाता तथा कभी-कभी घोर संकटों में पड़ जाता है। भाग्यहीन होने पर भी वह अपने परिश्रम, धैर्य, साहस तथा गुप्त युक्तियों के बल पर कुछ सफलता एवं शक्ति प्राप्त कर लेता है।

'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'केतु' का 'फलादेश

सिंह लग्न : दशमभाव : केतु




दसवें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को पिता से कुछ कष्ट मिलता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है।

वह अपने धैर्य, साहस, चातुर्य, बुद्धि-बल तथा परिश्रम द्वारा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है और तुरकी भी करता है।

'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


सिंह लग्न : एकादशभाव : केतु



ग्यारहवें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को धन की कमी का दुःख विशेष रूप से अनुभव होता है तथा वह अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए घोर परिश्रम तथा संघर्ष करता है। वह लाभ उठाने के लिए उचित-अनुचित का विचार भी नहीं करता तथा गुप्त युक्तियों एवं धैर्य के बल पर कठिनाइयों को पार कर लेता है।


'सिंह' लग्न की कुण्डली के 'द्वादशभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

सिंह लग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक अपने खर्च को बढ़ी कठिनाई से चला पाता है। उसे मानसिक चिन्ताएँ तथा परेशानियाँ घेरे रहती हैं। वह अनेक बार संकटों तथा हानियों का सामना करता है, परन्तु अपने गुप्त धैर्य, युक्तिबल, परिश्रम तथा साहस के बल पर उन कठिनाइयों पर विजय पाता हुआ अपने काम को जैसे-तैसे चलाता रहता है।

‘कन्या’ लग्न



[‘कन्या’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न ग्रहों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘कन्या लग्न’ का फलादेश

‘कन्या’ लग्न में जन्म लेने वाले जातक का शरीर सामान्य अथवा स्थूल और सुन्दर होता है। इसकी आँखें बड़ी-बड़ी होती हैं। यह कफ एवं पित्त प्रकृतिवाला, सत्यभाषी, प्रियवादी, गंभीर, नाञ्जुक-मिजाज, अपने मन की बात को छिपाने वाला, सदैव प्रसन्न रहने वाला, चतुर, काम-क्रीड़ा-कुशल, मायावी, भोगी, विचारशील, डरपीक, यात्रा-प्रेमी, गणितज्ञ, धर्म में रुचि रखने वाला तथा अनेक प्रकार के गुणों तथा कला-कौशलों से युक्त होता है।

इसे सुन्दर स्त्री प्राप्त होती है तथा कन्या-सन्तति अधिक होती है। यह भ्रातृ-द्रोही तथा स्त्री द्वारा पराजित भी होता है।

इस लग्न वाला जातक बाल्यावस्था में सुखी, मध्यमावस्था में सामान्य तथा अन्तिमावस्था में दुःख भोगने वाला होता है। इसका भाग्योदय २४ से ३६ वर्ष की आयु के बीच होता है। इसी अवधि में यह अपने धर्म तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करता है, परन्तु वह अन्त तक नहीं टिक पाता।

‘कन्या’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ६६१ से ७६८ के बीच देखना चाहिए।

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।

‘कन्या’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१—‘कन्या’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६६१ से ६७२ के बीच देखना चाहिए।

२—‘कन्या’ लग्न वालों को अपनी गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ६६१
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ६६२
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ६६३
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ६६४
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ६६५
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ६६६
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ६६७
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ६६८
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ६६९
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ६७०
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ६७१
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ६७२

‘कन्या’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१—‘कन्या’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६७३ से ६८४ के बीच देखना चाहिए।

२—'कन्या' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'चन्द्रमा' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन 'चन्द्रमा'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६७३
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६७४
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६७५
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६७६
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६७७
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६७८
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६७९
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६८०
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६८१
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६८२
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६८३
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६८४

'कन्या' लग्न में 'मंगल' का फलादेश

१—'कन्या' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६८५ से ६९६ के बीच देखना चाहिए ।

२—'कन्या' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'मंगल'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६८५
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६८६
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६८७
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६८८
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६८९
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६९०
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६९१
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६९२
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६९३
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६९४
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६९५
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६९६

‘कन्या’ लग्न में ‘बुध’ का फलादेश

१—‘कन्या’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६९७ से ७०८ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘कन्या’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘बुध’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ६९७
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ६९८
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ६९९
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ७००
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ७०१
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ७०२
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ७०३
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ७०४
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ७०५
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ७०६
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ७०७
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ७०८

‘कन्या’ लग्न में ‘गुरु’ का फलादेश

१—‘कन्या’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७०९ से ७२० के बीच देखना चाहिए ।

२—‘कन्या’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘गुरु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ७०९
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ७१०
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ७११

- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ७१२
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ७१३
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ७१४
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७१५
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७१६
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ७१७
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ७१८
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ७१९
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ७२०

'कन्या' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१—'कन्या' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुंडली संख्या ७२१ से ७३२ के बीच देखना चाहिए।

२—'कन्या' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुरु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'शुक्र'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ७२१
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ७२२
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ७२३
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ७२४
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ७२५
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ७२६
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७२७
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७२८
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ७२९
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ७३०
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ७३१
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ७३२

'कन्या' लग्न में 'शनि' का फलादेश

१—'कन्या' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७३३ से ७४४ के बीच देखना चाहिए।

२—‘कन्या’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शनि’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘शनि’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ७३३
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ७३४
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ७३५
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ७३६
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ७३७
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ७३८
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ७३९
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ७४०
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ७४१
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ७४२
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ७४३
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ७४४

‘कन्या’ लग्न में ‘राहु’ का फलादेश

१—‘कन्या’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में ‘राहु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७४५ से ७५६ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘कन्या’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘राहु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘राहु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ७४५
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ७४६
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ७४७
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ७४८
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ७४९
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ७५०
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ७५१
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ७५२
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ७५३
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ७५४
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ७५५
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ७५६

‘कन्या’ लग्न में ‘केतु’ का फलादेश

१—‘कन्या’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७५७ से ७६८ के बीच देखना चाहिए।

२—‘कन्या’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—


जिस वर्ष में ‘केतु’—

- (क) ‘भेष’ राशि पर हो तो संख्या ७५७
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ७५८
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ७५९
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ७६०
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ७६१
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ७६२
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ७६३
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ७६४
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ७६५
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ७६६
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ७६७
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ७६८

‘कन्या’ लग्न में ‘सूर्य’

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कन्या लग्न : प्रथमभाव : सूर्य




पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक दुर्बल शरीर वाला, खूब खर्च करने वाला तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। परन्तु कभी-कभी खर्च के कारण उसे परेशानी उठानी पड़ती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ हानि का सामना भी करना पड़ता है तथा असन्तोष भी बना रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित नीच के सूर्य के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब की हानि होती है। बाहरी स्थानों से आर्थिक लाभ कम होता है, तथा खर्च के कारण परेशानी भी होती है।

सातवीं दृष्टि से अष्टमभाव को देखने के कारण जातक को पुरातत्त्व तथा वायु का लाभ प्राप्त होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कन्या लग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ न्यूनता आती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा जीवन में सफलताएँ प्राप्त करता है तथा अत्यन्त हिम्मती और प्रभावशाली होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सामान्य ढंग से व्यतीत होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कन्या लग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। उसे बाहरी स्थानों से सुख तथा खर्च के लिए धन प्राप्त होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय-पक्ष से भी कुछ असन्तोष रहता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'पंचमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

कन्या लग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान में कमी रहती है तथा खर्च चलाने के लिए दिमाग में परेशानी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण सामान्य लाभ होता रहता है। ऐसा व्यक्ति चक्करदार बातें करने वाला तथा चंचल होता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'षष्ठभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

कन्या लग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक शत्रुओं से परेशान रहता है तथा अधिक खर्च करके ही उन पर प्रभाव स्थापित कर पाता है। वह परिश्रम द्वारा अपना खर्च चलाता है तथा बाहरी सम्बन्धों से सामान्य लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च अधिक बना रहता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

कन्या लग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में मित्र 'गुरु' की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है। बाहरी स्थानों से लाभ के अतिरिक्त हानि भी होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से जातक का शरीर दुर्बल होता है तथा वह स्वभाव से चंचल, क्रोधी एवं घन की ओर से चिन्तित बना रहने वाला होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कन्या लग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित उच्च ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक की आयु एवं पुरातत्त्व में कुछ कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती है। खर्च की अधिकता एवं बाहरी संबंधों से लाभ होता है।

सातवीं नीचदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन की हानि होती है एवं कौटुम्बिक सुख में कमी आती है। ऐसी गृह-स्थिति का जातक धन के विषय में बहुत चिन्तित बना रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कन्या लग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी रहती है। ऐसे लोग प्रायः नास्तिक होते हैं। उन्हें बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख में कमी रहती है तथा पराक्रम की भी अधिक वृद्धि नहीं होती।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कन्या लग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी कुछ कमी बनी रहती है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कन्या लग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को पर्याप्त आमदनी होते हुए भी खर्च चलाने की चिन्ता बनी रहती है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ, सुख तथा सम्मान मिलता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि का क्षेत्र भी कमजोर रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में स्वराशि-स्थित सूर्य के प्रभाव जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ एवं सम्मान भी मिलता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रुपक्ष एवं रोग आदि से काफी परेशानी होती है तथा खर्च भी अधिक होता है। फिर भी जातक अपना साहस बनाये रख कर शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित कर लेता है।

‘कन्या’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश


कन्या लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र



पहले भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, प्रसन्नता एवं मनोबल का लाभ होता है। वह परिश्रम द्वारा धन तथा यश कमाता है और प्रभावशाली बनता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से सुन्दरी स्त्री मिलती है तथा स्त्री-पक्ष एवं व्यवसाय से यथेष्ट लाभ होता है।


न्या' लग्न की कुण्डली में 'द्वितीयभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश
न्या लग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र



दूसरे भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के धन-कुटुम्ब में वृद्धि होती है तथा धन का संचय भी होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से पुरातत्त्व एवं आयु में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, सम्पन्न तथा यशस्वी जीवन बिताता है।


न्या' लग्न की कुण्डली में 'तृतीयभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश
न्या लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र



तीसरे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर नीच के 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में कमी आती है, धनोपाजन में कठिनाइयाँ आती हैं तथा चिन्ताएँ बनी रहती हैं।

सातवीं उच्च दृष्टि से नवमभाव को देखने से परिश्रम द्वारा भाग्योन्नति होती है तथा धर्म-पालन में भी रुचि बनी रहती है।


न्या' लग्न की कुण्डली में 'चतुर्थभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश
न्या लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र



चौथे भाव में मित्र 'गुरु' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन आदि का पर्याप्त सुख प्राप्त होता है और सदैव प्रसन्न बना रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी यश, सम्मान, सफलता, उन्नति एवं प्रभाव की वृद्धि होती है।

न्या' लग्न की कुण्डली में 'पंचमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश
न्या लग्न : पंचमभाव : चन्द्र




पाँचवें भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक की सन्तान तथा विद्या-बुद्धि पक्ष की वृद्धि होती है तथा उसी के द्वारा धन-लाभ भी होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वरशि के एकादशभाव को देखने से आमदनी में भी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन बिताता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कन्या लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र




छठे भाव में शत्रु ‘शानि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव में जातक को शत्रु पक्ष द्वारा मानसिक अशान्ति बनी रहती है, परन्तु वह अपनी विनम्रता द्वारा शत्रु-पक्ष पर सफलता पाता है और उससे लाभ भी उठाता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी मिलता रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कन्या लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र




सातवें भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को सुन्दर पत्नी मिलती है, भोगादि के श्रेष्ठ साधन प्राप्त होते हैं तथा व्यवसाय में भी सफलता मिलती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति एवं प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक सुन्दर, स्वस्थ, सुखी तथा सम्पन्न होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कन्या लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को दीर्घायु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है। आय के साधनों में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ होता है।

सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कन्या लग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवें भाव में सामान्य मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को धन का यथेष्ट लाभ होता है तथा आकस्मिक दैवी सहायताएँ भी मिलती रहती हैं।

सातवीं नीच-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी आती है तथा पराक्रम की भी अधिक वृद्धि नहीं हो पाती।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कन्या लग्न : दशमभाव : चन्द्र




दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता एवं व्यवसाय के पक्ष से पूर्ण लाभ तथा सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा यशस्वी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से भूमि, भवन तथा माता का सुख भी पर्याप्त मिलता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कन्या लग्न : एकादशभाव : चन्द्र




ग्यारहवें भाव में स्वराशि-स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक की आभंदनी अच्छी रहती है और वह अपने मनोबल द्वारा पर्याप्त धन कमाता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या में कमी रहती है तथा सन्तानों से वैमनस्य रहता है, परन्तु वह अशनी शत्रुराई द्वारा अन्य क्षेत्रों में उन्नति करता रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वादशभाव : चन्द्र




बारहवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से पर्याप्त लाभ भी होता है। खर्च के कारण कभी-कभी मन में चिन्ताएँ बनी रहती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में धन के खर्च एवं विनम्रता से सफलता मिलती है। बीमारी तथा अन्य झगड़ों में भी खर्च होता है।

‘कन्या’ लग्न में मंगल

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : प्रथमभाव : मंगल




पहले भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित अष्टमेश ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी आती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। चौथी मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमी आती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं। आठवीं दृष्टि से स्वराशि के

अष्टमभाव को देखने से आयु की वृद्धि तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वितीयभाव : मंगल




दूसरे भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी आती है। परन्तु धन का लाभ होता है। चौथी उच्च दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में प्रयत्न करने से लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। नवीं शत्रु-दृष्टि से देखने से धर्म-पालन तथा भाग्योन्नति में कुछ कमियाँ बनी रहती हैं।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : तृतीयभाव : मंगल




तीसरे भाव में स्वराशि-स्थित व्ययेश ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी आती है। आयु तथा पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ होता है।

चौथी शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव के देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से नवम-भाव को देखने से भाग्योन्नति तथा धर्म-पालन में कठिनाइयाँ आती हैं। आठवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने पर भी थोड़ी सफलता मिलती है तथा पिता का सुख भी कम ही रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : चतुर्थभाव : मंगल




चौथे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित अष्टमेश ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तथा भाई-बहिनों के सुख में कमी आती है, परन्तु पुरातत्त्व का लाभ होता है।

चौथी मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है।

आठवीं नीच-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से लाभ के मार्ग में रुकावटें आती हैं।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : पंचमभाव : मंगल




पाँचवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सन्तान-पक्ष की शक्ति तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आय के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं। आठवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा प्रभाव बढ़ता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : षष्ठभाव : मंगल




छठे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर विजय पाता है। वह परिश्रमी तथा पुरुषार्थी होता है, परन्तु भाई-बहिनों से कुछ विरोध रहता है। आयु तथा पुरातत्त्व का अच्छा लाभ होता है।

चौथी शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में कमजोरी रहती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक स्वास्थ्य में कमी तथा रक्त-विकार आदि रोग रहते हैं।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : सप्तमभाव : मंगल




सातवें भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कष्ट मिलता है तथा आयु एवं पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिनों के सुख में न्यूनाधिकता बनी रहती है।

चौथी मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथम-भाव को देखने से शरीर में कुछ परेशानियाँ रहती हैं। आठवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीय-भाव को देखने से धन-संचय तथा कौटुम्बिक सुख में भी कमी बनी रहती है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : अष्टमभाव : मंगल




आठवें भाव में स्वराशि में स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी आती है। चौथी नीच दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने में धन-संचय तथा कौटुम्बिक सुख में कुछ असंतोष रहता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि के तृतीयभाव को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में वृद्धि होती है तथा गुप्त हिम्मत बढ़ती है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : नवमभाव : मंगल



६८३

नवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित अष्टमेश ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म के पक्ष में कुछ कमी आती है तथा आयु एवं पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। चौथी मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है तथा खर्च अधिक रहता है।


सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले तृतीय भाव

को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा कुटुंब

कठिनाइयों के साथ भाई-बहिनों का सुख मिलता है। आठवीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से कुछ कमी के साथ माता, भूमि एवं भवन का सुख भी प्राप्त होता है। सामान्यतः जीवन शानदार बना रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : दशमभाव : मंगल



६८४

दसवें भाव में शत्रु ‘बुध’ की राशि पर स्थित

‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के

साथ पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता

मिलती है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता

है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी रहती है।

चौथी शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से


शरीर विकार-ग्रस्त रहता है, जब कि हिम्मत बढ़ी

रहती है। सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने

से माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। आठवीं उच्चदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सप्तान-पक्ष में कुछ कमी के साथ सफलता मिलती है तथा विद्या-बुद्धि की पर्याप्त वृद्धि होती है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : एकादशभाव : मंगल



६८५

ग्यारहवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि

पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को लाभके

क्षेत्र में कुछ कठिनाई आती है, परन्तु आयु एवं

पुरातत्त्व का लाभ होता है। चौथी शत्रुदृष्टि से

द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय तथा कीटुम्विक

सुख में कमी आती है। सातवीं उच्च दृष्टि से

पंचमभाव को देखने से विद्या एवं बुद्धि की उन्नति


होती है तथा सन्तान के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के

साथ सफलता मिलती है।

आठवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है। ऐसा जातक बड़ा हिम्मती, बहुत बोलने वाला तथा बहादुर होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वादशभाव : मंगल




बारहवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्बन्धों से कुछ शक्ति भी मिलती है। आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं। चौथी दृष्टि से स्वराशि वाले तृतीयभाव को देखने से पराक्रम एवं भाई-बहिन के सुख में सामान्य वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुपक्ष पर कुछ कठिनाइयों के बाद प्रभाव स्थापित हो पाता है। आठवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री पक्ष में कुछ कठिनाई रहती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम तथा कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है।

‘कन्या’ लग्न में ‘बुध’

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कन्या लग्न : प्रथमभाव : बुध




पहले भाव में स्वराशि-स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में वृद्धि होती है। राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा दैनिक आय के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक स्वाभिमानी होता है, इस कारण व्यवसाय में अधिक उन्नति नहीं कर पाता।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के धन तथा कौटुम्बिक सुख में वृद्धि होती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति प्राप्त होती है।

ऐसे व्यक्ति का रहन-महन ऐश्वर्यशाली होता है। वह धनी तथा सुखी भी रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कन्या लग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है। राज्य, व्यवसाय तथा पिता के पक्ष में भी सफलता मिलती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की उन्नति होती है।

ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, धर्मात्मा, यशस्वी तथा प्रभावशाली होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कन्या लग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। शारीरिक सौन्दर्य तथा सुख में भी वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादशभाव को देखने से राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सब प्रकार की सफलताएँ प्राप्त होती हैं।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कन्या लग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्त ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का पर्याप्त सुख मिलता है और उच्च पद की प्राप्ति होती है।

सातवीं शतृदृष्टि से एकादशभाव को देखने के कारण आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं।

ऐसा व्यक्ति सुन्दर, सुखी, धनी तथा स्वाभिमानि होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कन्या लग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में विवेक एवं युक्तियों के द्वारा सफलताएँ मिलती हैं। ननसाल-पक्ष से भी लाभ होता है। परन्तु शारीरिक सौन्दर्य तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ असन्तोष रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से अच्छा लाभ एवं सुख प्राप्त होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कन्या लग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक अपनी पत्नी के व्यक्तित्व के समक्ष स्वयं को कुछ हीन-सा अनुभव करता है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलताएँ प्राप्त होती हैं।

सातवीं उच्चदृष्टि से स्वराशि वाले प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव एवं मानसिक सुख-शान्ति में भी कुछ कमी रहती है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कन्या लग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। बाहरी सम्बन्धों से आजीविका चलती रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने के कारण गुप्त युक्तियों के आश्रय से धन की वृद्धि होती है तथा कुटुम्ब से प्रेम रहता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'नवमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

कन्या लग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म की उन्नति होती है तथा राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सज्जन, सुखी, यशस्वी तथा धनी होता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'दशमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

कन्या लग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में स्वश्रेणी 'बुध' के प्रभाव से जातक को राज्य, पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता, यश तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति सुन्दर, यशस्वी, स्वाभिमानी तथा सुखी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन आदि का सुख भी पर्याप्त उपलब्ध होता है। घरेलू जीवन सुख, शान्ति तथा ऐश्वर्य से पूर्ण रहता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'एकादशभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

कन्या लग्न : एकादश भाव : बुध




ग्यारहवें भाव में शत्रु 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ प्राप्त होती हैं। शारीरिक सौन्दर्य, मनोबल एवं सुख में भी वृद्धि होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में भी विशेष उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, विद्वान् तथा ऐश्वर्यशाली होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वादशभाव : बुध




बारहवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्पर्क से सम्मान तथा लाभ की प्राप्ति होती है। परन्तु पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में असन्तोष रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी, विवेकी तथा बुद्धिमान् होता है।

‘कन्या’ लग्न में ‘गुरु’

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश


कन्या लग्न : प्रथमभाव : गुरु



पहले भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माता, भूमि तथा भवत का सुख भी मिलता है। पाँचवीं नीचदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती रहती हैं। सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव को देखने से स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख मिलता है। नवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्योन्नति एवं धर्म के क्षेत्र में वाधाएँ आती रहती हैं। परन्तु ऐसा व्यक्ति सज्जन तथा धनी होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वितीयभाव : गुरु




दूसरे भाव में सामान्य शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को धन, कुटुम्ब का सुख मिलता है, परन्तु माता एवं स्त्री के सुख में कुछ बाधाएँ आती हैं जबकि व्यवसाय-पक्ष की उन्नति होती है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में प्रभाव स्थापित होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। नवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ, यश तथा सम्मान की प्राप्ति होती है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कन्या लग्न : तृतीयभाव : गुरु




तीसरे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में वृद्धि होती है और माता, भूमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त होता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में भी सफलताएँ मिलती हैं। स्त्री सुन्दर मिलती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ रुकावटों के साथ उन्नति होती है। नवीं उच्चदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है। ऐसा जातक धनी तथा सुखी रहता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कन्या लग्न : चतुर्थभाव : गुरु




चौथे भाव में स्वक्षेत्री 'गुरु' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख मिलता है। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं।

पाँचवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती रहती हैं। नवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में लाभ मिलता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कन्या लग्न : पंचमभाव : गुरु




पाँचवें भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर नीच के गुरु के प्रभाव से जातक को सन्तान पक्ष से कष्ट मिलता है तथा विद्या एवं बुद्धि में कमी रहती है। मातृ-पक्ष भी कमजोर रहता है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से नवम-भाव को देखने से भाग्य एवं धर्म की सामान्य वृद्धि होती है। सातवीं उच्च-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी में वृद्धि होती है तथा नवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक, शक्ति, सम्मान, प्रभाव एवं कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी

तथा सामान्य धनी होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कन्या लग्न : षष्ठभाव : गुरु




छठे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में नम्रता से काम निकालता है। माता, भूमि एवं भवन के सुख में भी कमी रहती है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ सफलताओं, सुख तथा यश की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से लाभ होता है। नवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से कुटुम्ब का सामान्य सुख मिलता है तथा धन-संचय के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कन्या लग्न : सप्तमभाव : गुरु




सातवें भाव में स्वक्षेत्री ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री एवं व्यवसाय-पक्ष में पर्याप्त लाभ मिलता है। माता, भूमि तथा मकान का यथेष्ट सुख भी प्राप्त होता है। पाँचवीं उच्चदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी में बहुत वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव की देखने से शारीरिक-सुख, मान एवं सौन्दर्य की प्राप्ति होती है। नवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख एवं पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति

सुखी, धनी तथा यशस्वी होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कन्या लग्न : अष्टमभाव : गुरु




आठवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के सुख में कुछ कमी आती है।

पाँचवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है तथा कौटुम्बिक सुख में भी कमी आती है। नवीं दृष्टि से

स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ परेशानियों के साथ मिलता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कन्या लग्न : नवमभाव : गुरु




नवें भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ कमी रहती है, परन्तु माता, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से सुख-सम्मान की वृद्धि होती है तथा भोगेच्छा प्रबल रहती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। नवीं नीच-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या तथा सन्तान के पक्ष में कुछ कमजोरी आती है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कन्या लग्न : दशमभाव : गुरु




दसवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय से लाभ होता है। स्त्री सुन्दर तथा प्रभावशाली मिलती है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन, कुटुम्ब का सामान्य लाभ हाता है।

सातवीं दृष्टि अपनी राशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है।

नवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने के कारण शत्रु-पक्ष में शान्ति-नीति से विजय मिलती है तथा उससे लाभ भी होता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'एकादशभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कन्या लग्न : एकादशभाव : गुरु




ग्यारहवें भाव में मित्र 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक की आमदनी बढ़ती है तथा माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख भी मिलता है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम एवं भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है।

सातवीं नीचदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से परेशानी रहती है तथा विद्या-बुद्धि में कमी आती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव को देखने से सुन्दर तथा योग्य पत्नी मिलती है। भोगादि का

श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है तथा व्यवसाय में भी उन्नति होती है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'द्वादशभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कन्या लग्न : द्वादशभाव : गुरु




बारहवें भाव में मित्र 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से लाभ भी मिलता है। स्त्री के सुख में कमी आती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सामान्य सुख मिलता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु पक्ष में नज़रता से काम निकालना पड़ता है। नवीं मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। ऐसा जातक सामान्यतः सुखी जीवन बिताता है।

'कन्या' लग्न में 'शुक्र'

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'प्रथमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कन्या लग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित नीच के 'शुक्र' के प्रभाव से जातक के धन तथा कौटुम्बिक सुख में कुछ कमी रहती है और वह अधर्म-पूर्वक भी धन कमाने का प्रयत्न करता है।

सातवीं उच्चदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री सुन्दर तथा भाग्यवान् मिलती है तथा व्यवसाय एवं भोगादि में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'द्वितीयभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कन्या लग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में स्वराशि स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है। वह भाग्यवान्, यशस्वी तथा धर्मात्मा भी होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति चतुर, धनी, सुखी तथा यशस्वी होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कन्या लग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन का अच्छा सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी वृद्धि होती है। कौटुम्बिक सुख को भी वह बढ़ाता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म में बहुत वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी, धनी, धर्मात्मा तथा भाग्यशाली होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कन्या लग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट लाभ होता है तथा धन एवं कुटुम्ब का सुख भी मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन भी करता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कन्या लग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से श्रेष्ठ लाभ होता है तथा विद्या-बुद्धि की वृद्धि के साथ धन, धर्म तथा भाग्य की वृद्धि भी होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से एकादशभाव को देखने से जातक अपनी बुद्धि एवं चातुर्य के बल पर आमदनी को बढ़ाता है तथा निरन्तर उन्नति करता रहता है।

'कन्या' लग्न की कुंडली में 'षष्ठभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कन्या लग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक के भाग्य, धन तथा कौटुम्बिक सुख में कुछ कमी आती है तथा धर्म में भी अरुचि रहती है, फिर भी वह अपनी चतुराई द्वारा भाग्य तथा धन की वृद्धि करता है तथा परिश्रम द्वारा शत्रु-पक्ष में सफलताएँ पाता है। उसे झगड़े-मुकद्दमों से भी लाभ होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से सुख एवं लाभ की प्राप्ति होती है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कन्या लग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में सामान्य शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित उच्च के 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति भोगी, धर्मात्मा, सुखी तथा भाग्यवान् होता है।

सातवीं नीचदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी आती है। ऐसा व्यक्ति धन-वृद्धि के लिए शारीरिक सुखों की चिन्ता नहीं करता।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कन्या लग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक का भाग्य कमजोर रहता है तथा धन-संचय में भी कठिनाइयाँ आती हैं। धर्म का समुचित पालन भी नहीं हो पाता। पर आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है।

सातवीं नीच दृष्टि से स्वराशि वाले द्वितीय भाव को देखने से जातक गुप्त चातुर्य एवं कठोर परिश्रम द्वारा धन-संचय करता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कन्या लग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक बड़ा भाग्यशाली तथा धर्मात्मा होता है। उसके धन, सम्मान तथा यश में भी वृद्धि होती है।

सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों की शक्ति तथा पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। साथ ही धन एवं कुटुम्ब का पूर्ण सुख भी मिलता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कन्या लग्न : दशमभाव




दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा ‘व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सुख, सम्मान तथा सफलताएँ प्राप्त होती हैं। वह अपने अच्छे कर्मों से धन एवं कुटुम्ब की वृद्धि करता है।

सातवीं सामान्य शत्रुदृष्टि [से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन आदि का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कन्या लग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है। वह धनी, कुटुम्बवाला, धर्मात्मा, भाग्यशाली तथा न्यायी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने के कारण विद्या-बुद्धि की उन्नति होती है तथा सन्तान-पक्ष से सुख मिलता है।

ऐसा व्यक्ति प्रभावयुक्त वाणी का प्रतीक, चतुर, निपुण, सुखी तथा यशस्वी होता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'द्वादशभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कन्या लग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बारहवें भाव में शत्रु 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, बाहरी सम्बन्धों से हानि होती है, धन-संचय नहीं हो पाता तथा भाग्योन्नति में व्यवधान पड़ता है ! कौटुम्बिक सुख में भी कमी रहती है ।

सातवीं मित्रदृष्टि से पष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष एवं झगड़े-मुकद्दमों में सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होती है ।

'कन्या लग्न में 'शनि'

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'प्रथमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

कन्या लग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक का शरीर रोगी रहता है । विद्या-बुद्धि तथा सन्तान का सुख प्राप्त होता है, परन्तु सन्तान से वैमनस्य रहता है । शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है । तीसरी शत्रुदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी रहती है । सातवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव का देखने से स्त्री से कुछ वैमनस्य रहता है तथा व्यवसाय के क्षत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ती

है । दसवीं मित्रदृष्टि में दशमभाव को देखने से पिता की ओर से सामान्य परेशानी रहती है तथा राज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलती है ।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'द्वितीयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

कन्या लग्न : द्वितीयभाव : शनि



दूसरे भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक विद्या-बुद्धि का सुख प्राप्त करता है तथा सन्तान से वैमनस्य रहता है ।


तीसरी शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से मता भूमि तथा भवन के सुख में कमी आती है ; सातवीं नीच दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की कुछ हानि होती है ।

दसवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता

मिलती है । ऐसा व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में संघर्षशील रहता है तथा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त करता है ।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'तृतीयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

कन्यालग्न : तृतीयभाव : शनि




तीसरे भाव में शत्रु मंगल' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों से परेशानी रहती है. पर. शत्रुपक्ष पर विजय मिलती है और पराक्रम की वृद्धि होती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि के पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि का लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष में सामान्य कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से परिश्रम द्वारा भाग्योन्नति होती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च में कठिनाई का अनुभव होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से असन्तोष रहता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'चतुर्थभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

कन्या लग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है तथा सन्तान के पक्ष से भी परेशानी रहती है. परन्तु विद्या-बुद्धि का लाभ होता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है तथा झगड़ों से सुख-दुःख दोनों ही मिलते हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है। दसवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से परिश्रम एवं प्रभाव की वृद्धि होती है, परन्तु शरीर कुछ अस्वस्थ बना रहता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'पंचमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

कन्या लग्न : पंचमभाव : शनि




पाँचवें भाव में स्वराशि-स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या-बुद्धि एवं सन्तान का लाभ होता है, परन्तु सन्तान से कुछ परेशानी भी होती है। शत्रु-पक्ष में उसे गुप्त युक्तियों से विजय मिलती है। तीसरी शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री-पक्ष से कुछ परेशानी रहती है तथा व्यवसाय में भी कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से परिश्रम द्वारा लाभ होता है। दसवीं उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-कुटुम्ब की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति संघर्षपूर्ण सुखी-सम्पन्न जीवन बिताता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कन्या लग्न : षष्ठभाव : शनि




छठे भाव में स्वराशि-स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अपने बुद्धि-बल से सफलता पाता है, परन्तु विद्या एवं सन्तान के पक्ष में सामान्य कठिनाइयाँ आती हैं। तीसरी नीच दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु पर अनेक बार संकट आते हैं तथा पुरातत्त्व की हानि होती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च की परेशानी रहती है, तथा बाहरी सम्बन्ध भी सुखद नहीं रहते। दसवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों द्वारा कष्ट मिलता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कन्यालग्न : सप्तमभाव : शनि




सातवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं तथा मुत्रेन्द्रिय में विकार भी होता है। सन्तान के पक्ष से भी परेशानी रहती है, परन्तु शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है। तीसरी मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से जातक बुद्धि-बल द्वारा भाग्योन्नति करता हुआ धर्म का पालन भी करता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव से देखने से शरीर में रोग रहता है, परन्तु प्रभाव की वृद्धि होती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी आती है। ऐसा जातक अपने जन्म-स्थान में परेशानी का अनुभव करता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कन्या लग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की आयु पर अनेक बार संकट आते हैं तथा पुरातत्त्व की हानि होती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि के दशमभाव को देखने से पिता तथा राज्य-पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, किन्तु व्यवसाय के क्षेत्र में बुद्धि-बल से सामान्य सफलता मिलती है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। दसवीं दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से कष्ट होता है। विद्या कम रहती है परन्तु चातुर्य अधिक होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कन्या लग्न : नवमभाव : शनि



नवें भाव में मित्त ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक बुद्धि-बल से भाग्योन्नति करता तथा स्वधर्म का सामान्य परिपालन करता है। संतान तथा विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है।


सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से कुछ वैमनस्य रहता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि के षष्ठ-

भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में विजय मिलती है तथा झगड़ों से लाभ होता है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर, नीतिज्ञ, प्रभावशाली तथा हिम्मती होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कन्या लग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को पिता-पक्ष से परेशानी रहती है, परन्तु राज्य-पक्ष से सम्मान एवं व्यवसाय-पक्ष से लाभ होता है। विद्या तथा सन्तान का भी सुख मिलता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च के मामले में असन्तोष रहता है तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध भी सुखदायी नहीं रहता।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता एवं भूमि के सुख में कुछ कमी रहती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री के सुख में कमी आती है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कन्या लग्न : एकादशभाव : शनि




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में खूब वृद्धि होती है तथा शत्रु-पक्ष से भी लाभ होता है। तीसरी मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर में रोग रहता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि की शक्ति प्राप्त होती है। दसवीं नीच-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से पुरातत्त्व की हानि होती है तथा आयु पर भी अनेक संकट आते हैं।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ में स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वादशभाव : शनि




वारहवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से परेशानी रहती है। तीसरी उच्च-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि विशेष प्रयत्न करने से होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है, परन्तु रोगादि से कुछ कष्ट होता है। दसवीं मित्त-दृष्टि से नवमभाव को देखने से बुद्धि-योग द्वारा भाग्य की उन्नति होती है तथा धर्म में रुचि भी रहती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान-शौकत में खूब खर्च करता है।

‘कन्या’ लग्न में ‘राहु’

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कन्या लग्न : प्रथमभाव : राहु



पहले भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक शारीरिक दृष्टि से शक्ति-शाली, दृढ़ मनोबल वाला तथा स्वाभिमानी होता है, परन्तु कभी-कभी उसे शारीरिक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। वह गहरी सूझ-बूझ वाला तथा कठोर परिश्रमी होता है। मानसिक रूप से चिन्तित रहते हुए भी बड़े धैर्य से काम लेकर उन्नति करता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कन्या लग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में मित्त ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक धन-कुटुम्ब की ओर से परेशान रहता है। वह गुप्त प्रयत्न तथा कठिन परिश्रम द्वारा कुछ धन-संचय भी करता है तथा प्रकट रूप में धनवान् भी समझा जाता है। कभी-कभी उसे आकस्मिक लाभ तथा हानि—दोनों ही होते हैं।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कन्यालग्न : तृतीयभाव : राहु




तीसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से परेशानी मिलती है।

ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों एवं हिम्मत के बल पर सफलता प्राप्त करता है तथा स्वार्थ-सिद्धि के लिए भले-बुरे का विचार नहीं करता।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कन्या लग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को माता का अच्छा सुख मिलता है, परन्तु भूमि, भवन एवं घरेलू सुख में कमी रहती है। घरेलू कारणों से कभी-कभी घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है। परदेश में रहने का योग भी उपस्थित होता है। जन्म-भूमि में उसे दुःख मिलता है, परन्तु बाहरी स्थान में सुख प्राप्त होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कन्या लग्न : पंचमभाव : राहु




पाँचवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा विद्या के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं।

ऐसा व्यक्ति विद्वान् न होने पर भी बातें करने में बड़ा चतुर होता है तथा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सत्यासत्य का विचार भी नहीं करता। कभी-कभी उसे चिन्ताएँ भी परेशान करती रहती हैं।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'षष्ठभाब' स्थित 'राहु' का फलादेश

कन्या लग्न : षष्ठभाब : राहु




७४०

छठे भाव में मित 'शनि' की राशि पर स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर प्रभावशाली रहता है तथा झगड़ों एवं संकटों के समय हिम्मत तथा धैर्य से काम लेकर, अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं होने देता।

वह कठिन संकटों के समय भी विचलित नहीं होता और उन पर अपनी गुप्त युक्तियों द्वारा नियन्त्रण पा लेता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'सप्तमभाब' स्थित 'राहु' का फलादेश

कन्या लग्न : सप्तमभाब : राहु




७४१

सातवें भाव में शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं। उसकी मूत्रेन्द्रिय में विकार भी हो सकता है।

ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के बल पर ही अपना काम चलाता रहता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाब' स्थित 'राहु' का फलादेश

कन्या लग्न : अष्टमभाब : राहु




७४२

आठवें भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक बार खतरों का सामना करना पड़ता है तथा मृत्यु-तुल्य कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। उसके पेट में भी विकार रहता है।

गुप्त युक्तियों, धैर्य तथा साहस के बल पर वह आगे बढ़ता है। उसे चिन्ताएँ तथा परेशानियाँ हमेशा घेरे रहती हैं।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'नवमभाब' स्थित 'राहु' का फलादेश

कन्या लग्न : नवमभाब : राहु




७४३

नवें भाव में मित 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक अपनी भाग्योन्नति के लिए कठोर परिश्रम करता है तथा धर्म का उचित मालन नहीं कर पाता।

कभी-कभी उसे भाग्य के विषय में घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी गुप्त युक्तियों, धैर्य तथा साहस के बल पर ही थोड़ी बहुत उन्नति कर पाता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कन्या लग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित उच्च ‘राहु’ के प्रभाव से जातक अपने पिता के साथ संघर्ष करता हुआ उन्नति करता है। राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी उसे गुप्त युक्ति एवं चातुर्य के बल पर ही सम्मान एवं सफलता की प्राप्ति होती है। कभी-कभी संकट भी आते हैं, परन्तु फिर स्थिति ठीक हो जाती है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कन्या लग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती है, परन्तु कठिनाइयों का सामना भी बहुत करना पड़ता है। उसे कभी बहुत लाभ तो कभी बहुत घाटा होता है। वह अपनी गुप्त युक्तियों, धैर्य, साहस तथा परिश्रम के सहारे लाभ उठाता है, परन्तु कभी-कभी धोखा भी खा जाता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को खर्च-सम्बन्धी कठिनाइयाँ बहुत रहती हैं तथा बाहरी सम्पर्कों से भी कष्ट होता है।

ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों, धैर्य, साहस तथा परिश्रम के सहारे अपना खर्च चलाता है। कभी-कभी उसे आकस्मिक धन-लाभ भी हो जाता है।

‘कन्या’ लग्न में ‘केतु’

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कन्या लग्न : प्रथमभाव : केतु



पहले भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट एवं चिन्ताओं का सामना करना पड़ता है। शरीर पर कोई गहरी चोट लगने अथवा रोग होने का योग भी बनता है। शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों वाला, हिम्मती, धैर्यवान् तथा अक्खड़ स्वभाव का होता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वितीयभाव : केतु




दूसरे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के धन तथा कौटुम्बिक सुख में कमी आती है। कभी-कभी आकस्मिक धन-हानि भी होती है तो कभी-कभी आकस्मिक रूप से धन-लाभ भी हो जाता है।

ऐसा व्यक्ति धन की वृद्धि के लिए अथक परिश्रम करता है, तथा हर समय परेशान बना रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कन्या लग्न : तृतीयभाव : केतु




तीसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से परेशानी मिलती है।

ऐसा व्यक्ति संकट के समय भी हिम्मत नहीं हारता तथा अपने ही बाहु-बल का भरोसा रखता है। वह कठिन परिश्रमी भी होता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'चतुर्थभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

कन्या लग्न : चतुर्थभाव : केतु




चौथे भाव में शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित उच्च के केतु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है। धरेलू जीवन ठाठदार होता है। इसके लिए उसे विशेष परिश्रम भी करना पड़ता है।

कभी-कभी धरेलू सुख में संकट भी आता है और कभी सुख में वृद्धि भी हो जाती है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'पंचमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

कन्या लग्न : पंचमभाव : केतु




पाँचवें भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से चिन्ता रहती है तथा विद्या-प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है।

ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या-बुद्धि में कमी को स्वयं अनुभव करता है, परन्तु फिर भी स्वयं को बड़ा समझदार तथा योग्य प्रदर्शित करता है। वह वातचीत में बड़ा तेज होता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'षष्ठभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

कन्या लग्न : षष्ठभाव : केतु




छठे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अपना विशेष प्रभाव रखता है। उसे ननसाल-पक्ष से परेशानी उठानी पड़ती है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा धैर्यवान्, गुप्त युक्तियों वाला, बहादुर, निर्भय तथा अक्खड़ स्वभाव का होता है और इन्हीं विशेषताओं के कारण अपना काम बना लेने में सफलता भी प्राप्त करता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


कन्यालग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु वह अपनी गुप्त युक्ति, धैर्य-तथा साहस के बल पर उनके निराकरण का प्रयत्न करता है। उसका गृहस्थ-जीवन बड़ी कठिनाइयों से सफल बनता है। उसकी सूत्रेन्द्रिय में विकार होने की संभावना भी रहती है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

कन्यालग्न : अष्टमभाव : केतु




आठवें भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक के जीवन में अनेक बार प्राणान्तक कष्ट उपस्थित होता है तथा पुरातत्त्व की हानि भी होती है। उसके पेट में भी विकार रहता है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा परिश्रमी, क्रोधी, धैर्यवान्, हिम्मत तथा तेजी से काम करने वाला होता है।

'कन्या' लग्न की कुण्डली में 'नवमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

कन्यालग्न : नवमभाव : केतु




नवें भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को धर्म-क्षेत्र में कमी रहती है तथा भाग्योन्नति में भी बड़े संकट आते हैं।

ऐसा व्यक्ति अपने चातुर्य, गुप्त युक्तियों, बुद्धि तथा साहस के बल पर संकटों से अपनी रक्षा करता है तथा कभी-कभी विशेष चिन्तनीय स्थितियों में होकर भी गुजरता है।

‘कन्या’ लग्न की कुंडली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कन्या लग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को पिता के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक प्रभाव स्थापित नहीं होता। उसे मान-हानि, धन-हानि आदि का शिकार बनना पड़ता है। वह झगड़े-झंझट तथा परेशानियों में अक्सर फंसा रहता है।

‘कन्या’ लग्न की कुंडली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कन्या लग्न : एकदशभाव : केतु



ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी के साधनों में वृद्धि होती है, परन्तु उसे मानसिक-परेशानियाँ भी बहुत रहती हैं। कभी-कभी उसे संकट एवं हानि का सामना करना पड़ता है तो कभी-कभी आकस्मिक लाभ भी होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धैर्यवान् तथा परिश्रमी होता है।


‘कन्या’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कन्या लग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को खर्च के कारण अनेक चिन्ताओं तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध भी कष्टकारक सिद्ध होते हैं। वह कभी-कभी संकटों का शिकार भी बनता है, परन्तु अपने धैर्य एवं गुप्त युक्तियों के बल पर जैसे-तैसे छुटकारा भी पा लेता है।

‘तुला’ लग्न



[‘तुला’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘तुला’ लग्न का फलादेश

‘तुला’ लग्न में जन्म लेने वाला जातक गौर वर्ण, शिथिल शरीर तथा मोटी नाक वाला होता है। वह कफ प्रकृति वाला एवं वीर्यविकारयुक्त भी होता है।

ऐसा व्यक्ति गुणी, धनी, यशस्वी, परोपकारी, प्रियवादी, सत्यवादी, सतीगुणी, तीर्थ-प्रेमी, निर्लोभ, व्यवसाय-कुशल, ज्योतिषी, भ्रमणशील तथा अपने कुल का भूषण होता है। वह राज्य द्वारा सम्मानित, देव-पूजन में चित्त लगानेवाला तथा पर-स्त्रियों से प्रेम रखने वाला भी होता है।

‘तुला’ लग्न में जन्म लेने वाले जातक को अपनी आरंभिक अवस्था में दुःख भोगना पड़ता है, मध्यमावस्था में वह सुख प्राप्त करता है तथा अन्तिमावस्था सामान्य स्थिति में बीतती है।

‘तुला’ लग्न के जातक का भाग्योदय ३१ अथवा ३२ वर्ष की आयु में होता है।

‘तुला’ लग्न वालों को अपनी जन्म-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ७७० से ८७७ के बीच देखना चाहिए।

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन् उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।

‘तुला’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१—‘तुला’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७७० से ७८१ के बीच देखना चाहिए।

२—‘तुला’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ७७०
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ७७१
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ७७२
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ७७३
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ७७४
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ७७५
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ७७६
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ७७७
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ७७८
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ७७९
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ७८०
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ७८१

‘तुला’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१—‘तुला’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ७८२ से ७९३ के बीच देखना चाहिए।

२—‘तुला’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन ‘चन्द्रमा’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ७८२
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ७८३
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ७८४
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ७८५
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ७८६
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ७८७

- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ७८८
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ७८९
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ७९०
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ७९१
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ७९२
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ७९३

'तुला' लग्न में 'मंगल' का फलादेश

१—'तुला' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल' का स्थायी फलादेश संख्या उदाहरण-कुण्डली ७९४ से ८०५ के बीच देखना चाहिए।

२—'तुला' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'मंगल'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ७९४
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ७९५
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ७९६
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ७९७
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ७९८
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ७९९
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ८००
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८०१
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८०२
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ८०३
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८०४
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ८०५

'तुला' लग्न में 'बुध' का फलादेश

१—'तुला' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुध' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८०६ से ८१७ के बीच देखना चाहिए।

२—'तुला' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मंगल'

का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'बुध'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ८०६
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ८०७
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ८०८
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ८०९
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ८१०
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८११
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ८१२
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८१३
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८१४
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ८१५
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८१६
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ८१७

'तुला' लग्न में 'गुरु' का फलादेश

१—'तुला' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुरु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८१८ से ८२९ के बीच देखना चाहिए ।

२—'तुला' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुरु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'गुरु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ८१८
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ८१९
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ८२०
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ८२१
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ८२२
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८२३
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ८२४
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८२५
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८२६
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ८२७
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८२८
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ८२९

थत

‘तुला’ लग्न में ‘शुक्र’ का फलादेश

१—‘तुला’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शुक्र’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८३० से ८४१ के बीच देखना चाहिए।

२—‘तुला’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शुक्र’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘शुक्र’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ८३०
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ८३१
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ८३२
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ८३३
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ८३४
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ८३५
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ८३६
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ८३७
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ८३८
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ८३९
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ८४०
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ८४१

‘तुला’ लग्न में ‘शनि’ का फलादेश

१. ‘तुला’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शनि’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८४२ से ८५३ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘तुला’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शनि’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए।

जिस वर्ष में ‘शनि’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ८४२
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ८४३
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ८४४
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ८४५
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ८४६
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ८४७

- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ८४८
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८४९
 (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८५०
 (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ८५१
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८५२
 (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ८५३

'तुला' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१. 'तुला' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८५४ से ८६५ के बीच देखना चाहिए।

२. 'तुला' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ८५४
 (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ८५५
 (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ८५६
 (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ८५७
 (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ८५८
 (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८५९
 (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ८६०
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८६१
 (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८६२
 (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ८६३
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८६४
 (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ८६५

'वृष' लग्न में 'केतु' का फलादेश

१. 'तुला' लग्न वालों को अपनी जन्म-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८६६ से ८७७ के बीच देखना चाहिए।

२. 'तुला' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'केतु'

का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण कुण्डलियों में देखना चाहिए—


जिस वर्ष में 'केतु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ८६६
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ८६७
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ८६८
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ८६९
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ८७०
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ८७१
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ८७२
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ८७३
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ८७४
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ८७५
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ८७६
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ८७७

‘तुला’ लग्न में ‘सूर्य’

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश


तुलालग्न : प्रथमभाव : सूर्य



शरीर-स्थान में अपने शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित नीच के शनि के प्रभाव से जातक को शरीर में सदा दुर्बलता तथा सौन्दर्य की कमी का अनुभव होता है। वह किसी को गुलामी करने में हानि समझता है। पराक्रम की भी कमी रहती है। सातवीं उच्च दृष्टि से मित्त मंगल की राशि में सप्तम भाव को देखने से स्त्री पक्ष से लाभ होता है। सुन्दर स्त्री मिलती है। भोग-शक्ति तथा व्यवसाय पक्ष की उन्नति होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

तुलालग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में मित्त 'मंगल' की राशि पर स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है और वह धनी तथा प्रभावशाली भी होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से पुरातत्त्व तथा आयु के पक्ष में कुछ कमी बनी रहती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

तुला लग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति अपने बाहु-बल का भरोसा अधिक रखता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म में वृद्धि होती है तथा आमदनी अच्छी बनी रहती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

तुला लग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को भूमि, भवन तथा माता का अपूर्ण सुख रहता है तथा आय के पक्ष में भी कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सफलता, यश तथा सम्मान की प्राप्ति होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

तुला लग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से असंतोषपूर्ण लाभ होता है तथा विद्याध्ययन में भी बड़ी कठिनाइयों से सफलता मिलती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के एकादश भाव को देखने से बुद्धि-योग का तथा कठिन परिश्रम द्वारा श्रेष्ठ आमदनी का लाभ मिलता है, परन्तु दिमाग में कुछ परेशानियाँ भी रहती हैं।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'षष्ठभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

तुला लग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठे भाव में मित्त 'गुरु' की राशि पर स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है तथा शत्रुओं से लाभ भी होता है। आमदनी भी अच्छी रहती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा बहादुर तथा हिम्मती होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

तुला लग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में मित्त 'मंगल' की राशि पर स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक को सुन्दर पत्नी मिलती है तथा स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष से लाभ भी खूब होता है।

सातवीं नीचदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा चित्त भी चिन्ताग्रस्त बना रहता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

तुला लग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित एकादशेश 'सूर्य' के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम से धनोपाजन करता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातस्व-लाभ में कमी आती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से जातक धन-वृद्धि के लिए प्रयत्नशील बना रहता है तथा कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त करता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

तुला लग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती रहती है। उसे धन तथा सुख पर्याप्त मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में भी वृद्धि होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

तुला लग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता की प्राप्ति होती है। आमदनी में खूब वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी बनी रहती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

तुला लग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में बहुत वृद्धि होती रहती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान के पक्ष से कुछ असन्तोष रहता है तथा विद्याध्ययन में भी कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में तेजी पाई जाती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

तुला लग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से सुख, सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभावा को देखने से शत्रु-पक्ष से मित्रता स्थापित होती है, झगड़ों से लाभ होता है तथा प्रभाव की वृद्धि होती है।

‘तुला’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र




पहले भाव में सामान्य मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। उसे राजनीति के क्षेत्र में सम्मान मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से सुन्दर स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र




दूसरे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित नीच के 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के सुख में कमी का सामना करना पड़ता है। धन-संचय के लिए गुप्त युक्तियों का सहारा भी लेना पड़ता है।

सातवीं उच्चदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र




तीसरे भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से नवमभाव को देखने से जातक के धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र




चौथे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का वृष्टिपूर्ण लाभ होता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सहयोग सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : पंचमभाव : चन्द्र




पाँचवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है। राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी में पर्याप्त वृद्धि होती है तथा जातक धनी होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र




छठे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को अपनी चतुराई, मनोबल तथा शान्त स्वभाव के कारण शत्रु-पक्ष पर सफलता मिलती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ भी होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र




सातवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को व्यवसाय-पक्ष में अत्यधिक सफलता मिलती है तथा स्त्री द्वारा उन्नति एवं प्रभाव की वृद्धि होती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय-पक्ष से भी यश तथा लाभ मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, प्रभाव तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में सामान्य मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। दैनिक जीवन आनन्दमय रहता है, परन्तु पिता-पक्ष से हानि, राज्य-पक्ष से सामान्य सम्मान तथा व्यवसाय-पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ की प्राप्ति होती है।

सातवीं नीचदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख भी कमजोर रहता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय-पक्ष से भी यश, सहयोग तथा सम्मान का लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुला लग्न : दशमभाव : चन्द्र




दसवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में शक्ति, सहयोग, सम्मान, यश तथा धन का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी तथा समाज में प्रतिष्ठित होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुलालग्न : एकादशभाव : चन्द्र




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि में स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को लाभ के अवसर निरन्तर मिलते रहते हैं। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के पक्ष में भी सफलता, सम्मान तथा यश आदि की यथेष्ट प्राप्ति होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान के पक्ष से सामान्य असंतोष रहता है, परन्तु विद्या-बुद्धि का यथेष्ट लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति होशियार, चालाक तथा स्वार्थी होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

तुलालग्नः द्वादशभावः चन्द्र




बारहवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ एवं उन्नति भी होती है। पिता, व्यवसाय तथा राज्य-पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है। प्रतिष्ठा-मान में भी कमी रहती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में शक्ति एवं चातुर्य द्वारा सफलता प्राप्त होती है।

‘तुला’ लग्न में मंगल

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

तुलालग्नः प्रथमभावः मंगल




पहले भाव में सामान्य मित्त 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को शारीरिक सुख तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है।

चौथी उच्च दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का विशेष सुख मिलता है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से स्त्री का सुख मिलता है तथा व्यवसाय में उन्नति होती है। आठवीं सामान्य मित्तदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है, परन्तु उदर-विकार रहता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित मंगल का फलादेश

तुलालग्नः द्वितीयभावः मंगल




दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है। चौथी शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि का लाभ कुछ कठिनाइयों के साथ होता है।

सातवीं सामान्य मित्त-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति प्राप्त होती है। आठवीं मित्तदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'तृतीयभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

तुलालग्न : तृतीयभाव : मंगल




क्षेत्र में कुछ रुकावटें आती हैं।

तीसरे भाव में मित्र 'गुरु' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से भाई-बहिन का सुख मिलता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है। धन-लाभ भी खूब होता है तथा स्त्री-पक्ष में भी सफलता मिलती है। चौथी मित्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवम भाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की उन्नति होती है। आठवीं नीचदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'चतुर्थभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

तुलालग्न : चतुर्थभाव : मंगल




खूब अच्छी बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति धनी तथा सुखी होता है।

चौथे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का विशेष सुख मिलता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय से भी सुख मिलता है।

सातवीं नीचदृष्टि से मित्रराशि में दशमभाव को देखने से पिता के सुख में कमी आती है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र की उन्नति में रुकावटें आती हैं। आठवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'पंचमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

तुलालग्न : पंचमभाव : मंगल




से आमदनी खूब होती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

पांचवें भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। कुटुम्ब तथा स्त्री से कुछ वैमनस्य रहता है। बुद्धि-बल से व्यवसाय में सफलता मिलती है। चौथी शत्रु-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा कुछ कठिनाइयों के साथ पुरातत्त्व का लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'षष्ठभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

तुला लग्न : षष्ठभाव : मंगल




छठे भाव में मित्र 'गुरु' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर बड़ा प्रभाव रखता है। धन-संचय में कमी रहती है तथा स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। चौथी मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है। ऐसे व्यक्ति को झगड़े-मुकद्दमे आदि से लाभ होता रहता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

तुला लग्न : सप्तमभाव : मंगल




सातवें भाव में स्वराशि-स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कुछ बंधन-सा रहता है, परन्तु भोग की यथेष्ट प्राप्ति होती है। दैनिक व्यवसाय भी अच्छा रहता है। चौथी नीच-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य तथा स्थायी व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शरीर में गर्मी अथवा रक्त-विकार रहता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का अच्छा सुख प्राप्त होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

तुला लग्न : अष्टमभाव : मंगल




आठवें भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष तथा दैनिक व्यवसाय से कुछ कष्ट होता है। बाहरी स्थानों के व्यवसाय से तथा पुरातत्त्व से लाभ होता है। चौथी मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख परिश्रम द्वारा प्राप्त होता है। आठवीं मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों का सामान्य सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी वृद्धि होती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'नवमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

तुला लग्न : नवमभाव : मंगल




नवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति खूब होती है तथा धर्म का पालन भी होता है। स्त्री भाग्यशालिनी मिलती है, फलतः विवाहोपरान्त विशेष लाभ होता है। चौथी मित्त-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी वृद्धि होती है। आठवीं उच्च-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'दशमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

तुला लग्न : दशमभाव : मंगल




दसवें भाव में मित्त 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं तथा स्त्री एवं कुटुम्ब के सुख में भी कमी रहती है।

चौथी मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर दुर्बल रहता है, परन्तु सम्मान की प्राप्ति होती है। सातवीं उच्च दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से वैमनस्य रहता है तथा विद्या-बुद्धि में कुछ कमी बनी रहती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'एकादशभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

तुला लग्न : एकादशभाव : मंगल




ग्यारहवें भाव में मित्त 'सूर्य' की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से धन का पर्याप्त लाभ होता है। स्त्री-पक्ष से भी सुख तथा लाभ की प्राप्ति होती है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख भी पर्याप्त मिलता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान से असन्तोष तथा विद्या-बुद्धि में कमी रहती है। आठवीं मित्त-दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से स्त्री-पक्ष में भी कुछ कमी रहती है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से व्यवसाय में लाभ होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

तुला लग्न : द्वादशभाव : मंगल




बारहवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। धन, कुटुम्ब, स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में हानि एवं असन्तोष के अवसर उपस्थित होते हैं। चौथी मित्र-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ-भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में सफलता प्राप्त होती है।

आठवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से व्यवसाय में लाभ होता है तथा स्त्री-पक्ष में कुछ कमी रहती है।

‘तुला’ लग्न में ‘बुध’

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

तुला लग्न : प्रथमभाव : बुध




पहले भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल होता है तथा वह बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ उठाता और खूब खर्च करता है। भाग्य में कमी होते हुए भी भाग्यवान् समझा जाता है तथा धर्म का पालन भी करता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

तुला लग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के सुख में कुछ कमी रहती है। धन खूब खर्च करता है तथा स्वार्थ के लिए ही धर्म का पालन भी करता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का यथेष्ट लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः धनी माना जाता है।

तुला' लग्न की कुण्डली में 'तृतीयभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

तुला लग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में मित्र 'गुरु' की राशि पर स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ होता है तथा भाग्योन्नति में सामान्य रुकावटें आती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को देखने से भाग्य की वृद्धि होती है तथा धर्म का पालन भी होता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी धर्मात्मा तथा यशस्वी होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'चतुर्थभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

तुला लग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है। बाहरी संबंधों से यथेष्ट लाभ होता है। वह खर्च भी खूब करता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सहयोग, प्रतिष्ठा, यश, मान तथा लाभ की प्राप्ति होती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'पंचमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

तुला लग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से शक्ति मिलती है तथा विद्या-बुद्धि का लाभ कुछ कमी के साथ होता है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भाग्य की वृद्धि होती है। खर्च भी खूब रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी यथेष्ट रहती है। ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला, प्रतिष्ठित तथा भाग्यशाली होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'षष्ठभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

तुला लग्न : षष्ठभाव : बुध




८११

छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित नीच के 'बुध' के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं तथा खर्च भी कठिनाई से चलता है। धर्म एवं भाग्य के क्षेत्र में भी कमजोरी रहती है परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादशभाव को देखने से खर्च की अधिकता बनी रहती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'सप्तमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

तुला लग्न : सप्तमभाव : बुध




८१२

सातवें भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित व्ययेश 'बुध' के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। गृहस्थी का खर्च अच्छी तरह चलता है तथा धर्म का पालन भी होता है। बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सुख तथा मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान् समझा जाता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

तुला लग्न : अष्टमभाव : बुध




८१३

आठवें भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'बुध' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति प्राप्त होती है परन्तु भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमजोरी रहती है। बाहरी संबंधों से कठिनाइयों के साथ लाभ होता है तथा खर्च चलाने में भी परेशानियाँ आती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से कठिनाइयों के साथ धन की वृद्धि होती है, परन्तु यश कम ही मिलता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

तुला लग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। खर्च अधिक रहता है तथा वाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा कुछ कठिनाइयों के साथ पराक्रम में भी वृद्धि होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

तुला लग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। धर्म का पालन भी कम ही होता है। भाग्योन्नति भी कम होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का पर्याप्त सुख मिलता है जिसके कारण वह धनी समझा जाता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

तुला लग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक की आमदनी यथेष्ट रहती है। वह धर्मात्मा तथा भाग्यवान् होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा वाणी के बल पर विशेष उन्नति करता है। परन्तु बुध के व्ययेश होने के कारण हर क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'द्वादशभाव' स्थित 'बुध' का फलादेश

तुला लग्न : द्वादशभाव : बुध




वारहवें भाव में स्वराशि-स्थित उच्च के 'बुध' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ तथा सुख की प्राप्ति होती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में कुछ परेशानियाँ आती हैं तथा कुछ अनुचित उपायों के सहारे शत्रु-पक्ष में काम निकालना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति धनी तथा सुखी होता है।

'तुला' लग्न में 'गुरु'

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'प्रथमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश


तुला लग्न : प्रथमभाव : गुरु



पहले भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक के शारीरिक प्रभाव, पुरुषार्थ तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी आती है। शत्रु-पक्ष में हिम्मत के बल पर प्रभाव स्थापित होता है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से बंमनस्य रहता है, परन्तु विद्या-बुद्धि का लाभ होता है। सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता है। नवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुला लग्न : द्वितीयभाव : गुरु




दूसरे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक के पुरुषार्थ द्वारा धन की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख में कमी रहती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से जातक अपने धन के बल से शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त करता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने में आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है।

नवीं उच्च तथा मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में यश, सुख सम्मान तथा अन्य लाभ प्राप्त होते हैं।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुला लग्न : तृतीयभाव : गुरु




तीसरे भाव में स्वराशि-स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख में सामान्य कमी आती है। शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है। नवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, धर्मात्मा तथा भाग्यशाली होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुला लग्न : चतुर्थभाव : गुरु




चौथे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित नीच के 'गुरु' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है तथा शत्रु-पक्ष में भी परेशानी उठानी पड़ती है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का कुछ लाभ होता है।

सातवीं मित्र तथा उच्च-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है। नवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के

सम्बन्ध से लाभ होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुला लग्न : पंचमभाव : गुरु




पाँचवें भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है तथा शत्रु-पक्ष में प्रभाव बढ़ता है। भाई-बहिनों से कुछ मतभेद भी रहता है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से पुरुषार्थ द्वारा भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी खूब होती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक शक्ति, प्रभाव तथा बल की प्राप्ति होती है, परन्तु स्वास्थ्य में कुछ कमी बनी रहती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुला लग्न: षष्ठभाव: गुरु




छठे भाव में स्वराशिस्थ 'गुरु' के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में प्रभाव स्थापित करता है। भाई-बहनों से कुछ वैमनस्य रहता है तथा पुरुषार्थ में भी कुछ कमी रहती है। पाँचवीं उच्च-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, व्यवसाय एवं राज्य के क्षेत्र में यथेष्ट सम्मान तथा सफलता की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ होता है। नवीं मित्त-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन की वृद्धि होती है, परन्तु कुटुम्ब से कुछ मतभेद बना रहता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुला लग्न: सप्तमभाव: गुरु




सातवें भाव में मित्त 'मंगल' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक पुरुषार्थ द्वारा व्यवसाय की उन्नति करता है तथा स्त्री की शक्ति भी पाता है, परन्तु स्त्री से कुछ मतभेद रहता है। पाँचवीं मित्त-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से पुरुषार्थ द्वारा यथेष्ट धनोपार्जन होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर में कुछ परेशानियाँ रहती हैं, परन्तु प्रभाव की वृद्धि होती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि के तृतीयभाव को देखने के कारण भाई-बहिन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुला लग्न: अष्टमभाव: गुरु




आठवें भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक के पुरातत्त्व एवं आयु की वृद्धि होती है। परन्तु भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है। शत्रु-पक्ष में भी परेशानी रहती है। पाँचवीं मित्तदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होती है। नवीं नीचदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमी रहती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुला लग्न : नवमभाव : गुरु




नवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है तथा वह यशस्वी भी होता है। शत्रुपक्ष अथवा अन्य झगड़ों के कारण भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर में कुछ कमजोरी रहती है, परन्तु प्रभाव में वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

नवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से संतान से कुछ वैमनस्य रहता है, परन्तु विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुला लग्न : दशमभाव : गुरु




दसवें भाव में मित्र 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। भाई-बहिन का सुख भी मिलता है, परन्तु कुछ मतभेद भी रहता है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख मिलता है।

सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी आती है।

नवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में प्रभाव स्थापित होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

तुलालग्न : एकादशभाव : गुरु




ग्यारहवें भाव में मित्र 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा अपनी आय तथा ऐश्वर्य को बढ़ाता है। उसे शत्रु-पक्ष से भी लाभ होता है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को स्वराशि में देखने से भाई-बहिन का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या तथा संतान के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है। परन्तु बुद्धि अधिक होती है।

नवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

तुलालग्न : द्वादशभाव : गुरु




वारहवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। भाई-बहिन के सुख में कमी आती है, परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है। पाँचवीं नीचदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी कुछ कमी आती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से गुप्त युक्तियों द्वारा तथा कुछ दबकर शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है। नवीं शत्रुदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ पुरातत्त्व एवं आयु का लाभ होता है।

‘तुला’ लग्न में ‘शुक्र’

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

तुलालग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में स्वराशि-स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक के शारीरिक तथा आत्मिक बल एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। उसे आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी मिलता है, परन्तु शुक्र के अष्टमेश होने के कारण कभी-कभी शरीर में परेशानी का अनुभव भी होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री के सुख में कुछ कमी रहती है तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए भी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

तुलालग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को धन-संचय के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु उसे कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है। कभी-कभी उसे कठिनाइयाँ भी आती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अमीरी ढंग का जीवन बिताता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

तुलालग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में सामान्य शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक का भाई-बहिनों से कुछ बैमनस्य रहता है परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली जीवन बिताता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

तुलालग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को कुछ कमी के साथ माता, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान, लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

तुला लग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में मित्र 'शनि' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में मफलता मिलती है, परन्तु सन्तान के पक्ष में कुछ कमजोरी रहती है। आयु तथा पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से लाभ भी अच्छा रहता है। ऐसा जातक अपने बुद्धि-बल से उन्नति करता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

तुला लग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर विशेष प्रभाव रखता है तथा बड़ी-बड़ी कठिनाइयों पर भी विजय पा लेता है। उसे आयु तथा पुरातत्त्व का सामान्य लाभ भी होता है।

सातवीं नीचदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च तथा बाहरी सम्बन्धों के कारण कुछ परेशानी रहती है। ऐसा व्यक्ति ठाठ-बाट का जीवन बिताता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

तुलालग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को स्त्री के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के रहते हुए भी उनसे शक्ति प्राप्त होती है तथा शारीरिक परिश्रम द्वारा दैनिक व्यवसाय में भी सफलता मिलती है और आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशिस्थ प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, आत्म-बल एवं प्रभाव की प्राप्ति भी होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

तुला लग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कुछ कमी आती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से जातक को धन-मंचय के लिए चतुराई का सहारा लेना पड़ता है तथा कुटुम्बियों से उसका कुछ मतभेद बना रहता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

तुला लग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म की उन्नति कुछ कमी के साथ होती है। उसे आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति भी प्राप्त होती है। शारीरिक सौन्दर्य एवं शील भी मिलता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से सामान्य मतभेद बना रहता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

तुला लग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में शत्रु 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। सफलता का मूल कारण चातुर्य एवं शारीरिक श्रम होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख यथेष्ट प्राप्त होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

तुला लग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में शत्रु 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक शारीरिक श्रम तथा चातुर्य के द्वारा पर्याप्त लाभ कमाता है। उसे आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति भी मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है, परन्तु विद्या-बुद्धि तथा वाणी की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

तुलालग्न : द्वादशभाव : शुक्र




वारहर्वे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित नीच के ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को खर्च के बारे में कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं तथा वाहरी सम्बन्धों से भी कष्ट होता है। आयु, पुरातत्त्व तथा शारीरिक क्षेत्र में भी कुछ कमी रहती है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु पक्ष पर विशेष प्रभाव रहता है तथा झगड़े-झड़पों में हिम्मत तथा चतुराई से सफलता मिलती है।

‘तुला’ लग्न में ‘शनि’

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

तुलालग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में मित्र ‘शुक्र’ को राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक स्थूल शरीर का तथा प्रभाव शाली होता है। उसे माता, भूमि, भवन, सन्तान तथा विद्या का सुख भी उत्तम रहता है। तीसरी शत्रुदृष्टि से तीसरे भाव को देखने से भाई-बहिनों से कुछ वैमनस्य रहता है तथा पराक्रम भी कठिनाई से ही बढ़ पाता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री से कुछ मतभेद रहता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। दसवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता के सुख में कमी रहती है, परन्तु व्यवसाय तथा राज्य के क्षेत्र में सफलता मिलती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

तुलालग्न : द्वितीयभाव : शनि




दूसरे भाव में ‘शत्रु’ ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को धन-संचय में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा कुटुम्बियों से कुछ मतभेद रहता है। सन्तान के पक्ष में कमी तथा विद्या-बुद्धि के पक्ष में लाभ होता है।

तीसरी दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है। सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है।

दसवीं शत्रुदृष्टि से एकादशभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ आम-दानी अच्छी रहती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

तुलालग्न : तृतीयभाव : शनि




तीसरे भाव में शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से कुछ मतभेद रहता है। माता द्वारा भी शक्ति मिलती है।

तीसरी दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने से विद्या तथा सन्तान की यथेष्ट शक्ति प्राप्त होती है, परन्तु सन्तान से कुछ मतभेद भी रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है। दसवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

तुलालग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में स्वक्षेत्री शनि के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विशेष प्रभाव रहता है। सातवीं शत्रुदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता से मतभेद रहते हुए भी सुख मिलता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है।

दसवीं उच्च-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ऐमा व्यक्ति सुखी, यशस्वी, मानी तथा प्रभावशाली होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

तुलालग्न : पंचमभाव : शनि




पाँचवें भाव में स्वराशि-स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है। तीसरी नीचदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्रीसे मतभेद रहता है तथा दैनिक व्यवसाय में कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-संचय में भी कठिनाइयाँ आती हैं तथा कुटुम्ब से मतभेद बना रहता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

तुलालग्न : षष्ठमभाव : शनि




छठे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को बुद्धि-बल द्वारा शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है। माता, भूमि तथा भवन के सुख एवं विद्या तथा सन्तान के क्षेत्र में सफलता भी कुछ कठिनाइयों के बाद प्राप्त होती है। तीसरी मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों से कुछ वैमनस्य रहता है, परन्तु पुरुषार्थ की वृद्धि होती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

तुलालग्न : सप्तमभाव : शनि




सातवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित नीच के शनि के प्रभाव से जातक को स्त्री, गृहस्थी तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाई और अशान्ति का सामना करना पड़ता है। विद्या तथा सन्तान का पक्ष भी कमजोर रहता है। तीसरी मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है।

सातवीं उच्च दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से जातक के शरीर का कद लम्बा होता है तथा उसे शारीरिक सुख भी मिलता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कठिन परिश्रम द्वारा प्राप्त होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

तुलालग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का अच्छा लाभ होता है। माता, भूमि, भवन, सन्तान तथा विद्या के पक्ष में कमी आती है।

तीसरी शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय में कमी रहती है तथा कौटुम्बिक सुख में भी व्यवधान पड़ता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने विद्यासे एवं सन्तान का सामान्य लाभ होता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

तुला लग्न : नवमभाव : शनि




नवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक बुद्धि द्वारा भाग्योन्नति करता है तथा धर्म का पालन भी करता है। विद्या, सन्तान, भूमि, भवन एवं माता का सुख भी अच्छा मिलता है। तीसरी शतदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के मार्ग में रुकावटें आती हैं।

सातवीं शतदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों से मतभेद रहता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है। दसवीं शतदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से बुद्धि-बल द्वारा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

तुला लग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में शत्रु 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। वह स्वयं विद्वान् होता है, परन्तु सन्तान से मतभेद बना रहता है। तीसरी मित्रदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के चतुर्थभाव में देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख भी मिलता है। दसवीं नीच दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री के सुख में कुछ कमी रहती है तथा व्यवसाय में भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'एकादशभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

तुला लग्न : एकादशभाव : शनि




ग्यारहवें भाव में शत्रु 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की आमदनी कुछ कठिनाइयों के साथ खूब होती है। माता, भूमि तथा भवन आदि का भी यथेष्ट सुख मिलता है। तीसरी उच्च तथा मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष में सफलता प्राप्त होती है। दसवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति मनमौजी, लापरवाह तथा स्वार्थी स्वभाव का होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

तुला लग्न : द्वादशभाव : शनि



बारहवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा उसे बाहरी संबंधों से लाभ होता है। माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है।


तीसरी शतदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन के संचय में कमी आती है तथा कुटुम्ब से मतभेद रहता है। सातवीं शतदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर सामान्य प्रभाव बना रहता है।

दसवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तथा वाणी कुछ भ्रम-युक्त भी बनी रहती है।

‘तुला’ लग्न में ‘राहु’

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


तुला लग्न : प्रथमभाव : राहु



पहले भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल होता है। वह परेशान भी रहता है। वह अपनी उन्नति के लिए गुप्त चातुर्य का आश्रय लेता है तथा कठिन परिश्रम करता है। कभी-कभी उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परन्तु अपनी सूझ-बूझ से उन पर विजय भी पा लेता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


तुला लग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को धन के संग्रह करने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। कभी आकस्मिक रूप से धन-प्राप्ति होती है तो कभी घोर, आर्थिक संकट भी आते हैं। वह गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर किसी प्रकार अपना काम चलाता है। उसे कुटुम्बियों द्वारा भी कष्ट प्राप्त होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


तुला लग्न : तृतीयभाव : राहु



तीसरे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमी आती है, परन्तु वह युक्तियों का आश्रय लेकर उसमें वृद्धि करता है तथा अनुचित मार्ग भी अपनाता है। उसे भाई-बहिनों से कष्ट मिलता है तथा जीवन में कभी-कभी अन्य प्रकार के घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है। चातुर्य, युक्ति और पुरुषार्थ के बल पर ही वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


तुला लग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी आती है, परन्तु गुप्त युक्तियों, साहस तथा दृढ़ता के बल पर वह संकटों का सामना करके उन पर विजय पा लेता है। उसका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण बना रहता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


तुला लग्न : पंचमभाव : राहु



पाँचवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा विद्याध्ययन में भी कठिनाइयाँ आती हैं। वह सदैव चिन्तित तथा परेशान बना रहता है। स्वार्थ-सिद्धि के लिए वह उचित-अनुचित का विचार नहीं करता तथा गुप्त युक्तियों से काम लेकर ऊपर से बड़ी दृढ़ता प्रदर्शित करता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

तुला लग्न : षष्ठभाव : राहु




छठे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में कठिनाइयाँ उठाकर भी विजय प्राप्त करता है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा बहादुर, हिम्मती तथा गुप्त युक्तियों का ज्ञाता होता है। अपना प्रभाव स्थापित करने में उसे सफलता मिल जाती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

तुला लग्न : सप्तमभाव : राहु




सातवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से संकटों का सामना करना पड़ता है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं।

व्यवसाय में भी कभी-कभी बड़े संकट आते हैं, परन्तु वह अपनी गुप्त युक्ति, धैर्य और साहस के बल पर उन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


तुला लग्न : अष्टमभाव : राहु



आठवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक की आयु पर बड़े-बड़े संकट आते हैं, परन्तु मृत्यु नहीं होती। पुरातत्त्व की हानि भी होती है। दैनिक जीवन में भी अनेक संघर्ष, चिन्ता ; ; परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


तुलालग्न : नवमभाव : राहु



नवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक गुप्त युक्तियों के बल पर अपने भाग्य की विशेष उन्नति करता है तथा धर्म का पालन भी करता है। उसकी भाग्योन्नति में कभी-कभी बाधाएँ आती हैं, परन्तु वह अपने चातुर्य, धैर्य एवं गुप्त युक्तियों के बल पर उन सब पर विजय पा लेता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


तुलालग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में शत्रु 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक को पिता के सुख में कमी रहती है। राज्य के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी संकट आते हैं। उन्नति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने के बाद ही उसे नफलता मिलती है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


तुलालग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में शत्रु 'सूर्य' की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं जिन पर वह गुप्त युक्तियों, चतुराई, धैर्य एवं हिम्मत के बल पर विजय पाता है तथा उन्नति करता है। कभी-कभी उसे विशेष संकटों का सामना भी करना पड़ता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

तुनालग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा कभी-कभी बड़े संकटों का शिकार भी बनना पड़ता है। उसे बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ लाभ भी मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा विवेकी, कूट-नीतिज्ञ, परिश्रमी, धैर्यवान् तथा हिम्मती होता है।

‘तुला’ लग्न में ‘केतु’

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


तुनालग्न : प्रथमभाव : केतु



पहले भाव में मित्त ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को कभी-कभी विशेष आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, परन्तु वह अपने गुप्त चातुर्य तथा साहस के बल पर उन पर विजय पाता है और भीतर से गुप्त कमजोरी रहते हुए भी ऊपर से बड़ा हिम्मती दिखाई देता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


तुनालग्न : द्वितीयभाव : केतु



दूसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को धन-प्राप्ति एवं धन-संचय के मार्ग में बड़े संकट आते हैं। वह गुप्त युक्तियों के बल पर ही धनोपार्जन करता है, परन्तु हमेशा चिन्तित तथा परेशान ही बना रहता है। उसे अपने कुटुम्बियों द्वारा भी कष्ट मिलता है। फिर भी वह बड़ा हिम्मती तथा धैर्य वाला होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

तुलालग्न : तृतीयभाव : केतु




तीसरे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का मुख भी खूब मिलता है। कभी-कभी भाई-बहिनों के कारण उसे कष्ट भी उठाना पड़ता है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती, परिश्रमी तथा धैर्यवान् होता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


तुलालग्न : चतुर्थभाव : केतु



चौथे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। घरेलू झगड़े भी बहुत रहते हैं, फिर भी वह अपने धैर्य, साहस तथा गुप्त युक्तियों के बल से कठिनाइयों पर विजय पाने का प्रयत्न करता है और कुछ सफलता भी पा लेता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

तुलालग्न : पंचमभाव : केतु




पाँचवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को संतान-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा विद्या-वृद्धि के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं।

ऐसा व्यक्ति अनेक कठिनाइयों के बाद विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में थोड़ी-बहुत सफलता प्राप्त है, फिर भी उसके संकट बने ही रहते हैं।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


तुला लग्न : षष्ठभाव : केतु



छठे भाव में शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक झगड़े-झंझट, रोग तथा शत्रुपक्ष में बड़ी हिम्मत, बहादुरी तथा धैर्य से काम लेकर सफलता प्राप्त करता है और कभी डरता या घबराता नहीं है। उसे अपने उद्देश्य में सफलता भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति का तनसाल-पक्ष प्रायः कमजोर रहता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


तुला लग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से विशेष कष्ट मिलता है तथा दैनिक आमदनी में भी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। वह स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में सफलता पाने के लिए धैर्य, हिम्मत, पराक्रम तथा गुप्त युक्तियों का सहारा लेता है और थोड़ी-बहुत सफलता भी प्राप्त करता है।

'तुला' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

तुला लग्न : अष्टमभाव : केतु




आठवें भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक की आयु पर अनेक बार संकट आते हैं तथा उसे पुरातत्त्व की भी हानि उठानी पड़ती है। पेट में कुछ विकार भी रहता है।

ऐसा व्यक्ति सदैव चिन्तातुर रहता है तथा अपने साहस, धैर्य एवं गुप्त युक्तियों के बल पर कुछ सफलता भी प्राप्त कर लेता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

तुला लग्न : नवमभाव : केतु




नवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में अनेक बाधाएँ आती हैं तथा कभी-कभी घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है।

ईश्वर तथा धर्म के विषय में भी उनकी श्रद्धा कम होती है। वह धर्म के विरुद्ध चलने में भी नहीं चूकता तथा स्वार्थ-सिद्धि के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग कर अपयश भी पाता है।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

तुला लग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को अपने पिता द्वारा कष्ट प्राप्त होता है तथा राज्य-पक्ष से भी परेशानी होती है। व्यवसाय में उसे विघ्न-बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसे अपने जीवन में प्रायः अनेक उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं।

‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

तुला लग्न : एकादशभाव : केतु



ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परन्तु वह अपने धैर्य, परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर उन्हें दूर करके मफलता प्राप्त करता है। कभी-कभी उसे लाभ के वजाय बहुत घाटा भी उठाना पड़ता है। अनेक संकटों को पार करने के बाद ही उसे मफलता मिलती है।


‘तुला’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

तुला लग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से उसे लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपना खर्च चलाने के लिए विवेक-बुद्धि से काम नेता तथा कठिन परिश्रम करता है, फिर भी उसे कभी-कभी बड़ी कठिनाइयों का शिकार बनना पड़ता है तथा अन्त में सफलता भी प्राप्त हो जाती है।

‘वृश्चिक’ लग्न



[‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘वृश्चिक’ लग्न का फलादेश

‘वृश्चिक’ लग्न में जन्म लेने वाला जातक ठिगने तथा स्थूल शरीर का होता है। उसकी भ्रांखें गोल तथा छाती चौड़ी होती है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी, पाखण्डी, मिथ्यावादी, तमोगुणी, कपटी, कड़वे स्वभाव का, पर-निन्दक, दयाहीन, भिक्षा-वृत्ति करने वाला, भाइयों से द्वेष रखने वाला, शत्रु-नाशक तथा सेवा-कर्म करने वाला होता है। परन्तु इसके साथ ही वह शास्त्रज्ञ, विद्या के आधिक्य से युक्त, गुणी, शूरवीर, अत्यन्त विचारशील तथा ज्योतिषी भी होता है। दूसरों के मन की बात जान लेने में वह बड़ा निपुण होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न में जन्म लेने वाला जातक अपनी प्रारंभिक अवस्था में दुःखी रहता है तथा मध्यमावस्था में सुख भोगता है। २० से २४ वर्ष की आयु के बीच उसका भाग्योदय होता है।

वृश्चिक लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ८७६ से ९८६ के बीच देखना चाहिए।

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें—इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।



‘वृश्चिक’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१. ‘वृश्चिक’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८७६ से ८९० के बीच देखना चाहिए।

२. ‘वृश्चिक’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ८७६
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ८८०
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ८८१
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ८८२
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ८८३
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ८८४
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ८८५
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ८८६
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ८८७
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ८८८
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ८८९
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ८९०

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१. ‘वृश्चिक’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ८६१ से ९०२ के बीच देखना चाहिए।
२. ‘वृश्चिक’ लग्न वालों को गोचरकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन ‘चन्द्रमा’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ८६१
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ८६२
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ८६३
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ८६४
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ८६५
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ८६६
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ८६७
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ८६८
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ८६९
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ९००
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ९०१
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ९०२

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘मंगल’ का फलादेश

१. ‘वृश्चिक’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित मंगल का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ९०३ से ९१४ के बीच देखना चाहिए।
२. ‘वृश्चिक’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित मंगल का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘मंगल’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ९०३
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ९०४
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ९०५
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ९०६
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ९०७
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ९०८
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ९०९

- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६१०
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६११
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६१२
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६१३
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६१४

'वृश्चिक' लग्न में 'बुध' का फलादेश

१. 'वृश्चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुध' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६१५ से ६२६ के बीच देखना चाहिए।

२. 'वृश्चिक' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'बुध' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'बुध'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६१५
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६१६
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६१७
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६१८
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६१९
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६२०
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६२१
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६२२
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६२३
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६२४
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६२५
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६२६

'वृश्चिक' लग्न में 'गुरु' का फलादेश

१. 'वृश्चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुरु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६२७ से ६३८ के बीच देखना चाहिए।

२. 'वृश्चिक' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'गुरु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'गुरु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६२७
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६२८

- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६२६
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६३०
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६३१
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६३२
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६३३
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६३४
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६३५
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६३६
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६३७
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६३८

'वृश्चिक' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१. 'वृश्चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६३६ से ६५० के बीच देखना चाहिए ।

२. 'वृश्चिक' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'शुक्र'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या ६३६
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या ६४०
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या ६४१
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या ६४२
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या ६४३
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या ६४४
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ६४५
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ६४६
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ६४७
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ६४८
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ६४९
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ६५०

'वृश्चिक' लग्न में 'शनि' का फलादेश

१. 'वृश्चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६५१ से ६६२ के बीच देखना चाहिए ।

२. 'वृश्चिक' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'शनि'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १५१
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १५२
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १५३
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १५४
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १५५
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १५६
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १५७
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १५८
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १५९
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १६०
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १६१
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १६२

'वृश्चिक' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१. 'वृश्चिक' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १६३ से १७४ के बीच देखना चाहिए।

२. 'वृश्चिक' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १६३
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १६४
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १६५
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १६६
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १६७
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १६८
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १६९
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १७०
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १७१
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १७२
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १७३
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १७४

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘केतु’ का फलादेश

१. ‘वृश्चिक’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६७५ से ६८६ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘वृश्चिक’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—


जिन वर्ष में ‘केतु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ६७५
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ६७६
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ६७७
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ६७८
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ६७९
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ६८०
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ६८१
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ६८२
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ६८३
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ६८४
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ६८५
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ६८६

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘सूर्य’

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश


वृश्चिक लग्न : प्रथमभाव : सूर्य



शरीर-स्थान में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक सौन्दर्य से युक्त, हृष्ट-पुष्ट, आत्माभिमानी, क्रोधी, प्रभावशाली और दबंग होता है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय-पक्ष से जातक को सुख, सहयोग और सम्मान प्राप्त होता है। वह सुन्दर वस्त्रों तथा आभूषणों का शौकीन और यशस्वी होता है। सातवीं शतदृष्टि से शुक्र की राशि में मप्तमभाव को देखने से स्त्री से वैमनस्य रहता है तथा दैनिक व्यवसाय में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को पितृपक्ष से धन की प्राप्ति होती है तथा कौटुम्बिक सुख भी मित्ता है। राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता है, परन्तु पिता के सुख में कुछ कमी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का दैनिक जीवन सुखी तथा प्रभावपूर्ण बना रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी रहती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी मफलताएँ प्राप्त होती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवम भाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी तथा पुरुषार्थी होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक का अपनी माता के साथ मतभेद रहता है तथा भूमि-भवन के सुख में कुछ कमी आती है। चरेलू सुख में भी कुछ लुटियाँ बनी रहती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में दशम भाव को देखने से राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग सम्मान, लाभ तथा सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उन्नति करता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सम्मान, सहयोग एवं लाभ मिलता है। राजनैतिक क्षेत्र में उन्नति मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से लाभ के श्रेष्ठ साधन प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का जीवन बिताता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त करता है। राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है, परन्तु माता एवं पिता से कुछ मतभेद बना रहता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च के मामले में कठिनाइयाँ बनी रहती हैं तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध भी परेशानी देता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से संतोष एवं शक्ति की प्राप्ति होती है तथा दैनिक व्यवसाय में भी सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से जातक का शरीर सुन्दर तथा व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली, त्यागी तथा उन्नति-शील होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व में वृद्धि होती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, यश एवं लाभ की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से परिश्रम द्वारा धन की पर्याप्त वृद्धि होती है तथा कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त होता है। काहरी स्थानों से भी सम्बन्ध जुड़ता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य की उन्नति होती है एवं पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों मतभेद रहता है तथा पराक्रम में सामान्य वृद्धि होती है।

संक्षेप में, ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन बिताता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, सहयोग, लाभ एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उग्र कर्म भी करता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से जातक का अपनी माता के साथ वैमनस्य रहता है तथा भूमि एवं भवन के सुख में कमी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक को अपने पिता द्वारा श्रेष्ठ लाभ होता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सम्मान, धन, लाभ एवं सहयोग की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि में पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष से भी श्रेष्ठ लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी, तेज स्वभाव का, प्रतिष्ठित तथा यशस्वी होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित नीच के 'सूर्य' के प्रभाव से जातक बड़ी कठिनाई से खर्च चलाता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भी कष्ट होता है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं उच्च मित्त-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा शगड़े-मुकदमे आदि से भी लाभ मिलता है।

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र




पहले भाव में मित्त 'मंगल' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक का शरीर कुछ दुर्बल रहता है तथा यश भी कठिनाई से मिलता है।

सातवीं उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से मुन्दर तथा मनोनुकूल स्त्री प्राप्त होती है एवं दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती रहती हैं।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वितीयभाव : चंद्र




दूसरे भाव में मित्त 'गुरु' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को धन-संचय में सफलता मिलती है तथा कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त होता है। परन्तु वह धर्म का यथाविधि पालन नहीं करता।

सातवीं मित्त-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से पुरातत्त्व का लाभ होता है तथा आयु की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा भाग्यशाली होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : तृतीयभाव : चंद्र




तीसरे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी आती है। मानसिक शक्ति बहुत प्रबल होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा यशस्वी एवं भाग्यशाली बनता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : चतुर्थभाव : चंद्र




चौथे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को कुछ असन्तोष के साथ माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। वह धर्म का पालन करता है तथा मनोयोग के द्वारा भाग्य की उन्नति करता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में सुख, सम्मान, लाभ एवं सफलता की प्राप्ति होती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : पंचमभाव : चंद्र




पांचवें भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। वह सज्जन, विनम्र, मधुरभाषी, धर्मात्मा तथा अपने बुद्धि-बल से भाग्य की उन्नति करने वाला भी होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से भाग्य की वृद्धि होती है तथा लाभ भी खूब होता रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : षष्ठभाव : चंद्र




छठे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में अपनी शान्ति-नीति से सफलता मिलती है। यों, शत्रुओं के कारण मन में अशान्ति भी बनी रहती है।

नातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से भाग्य-बल पर खर्च चलता रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ एवं सफलताओं की प्राप्ति भी होती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : सप्तमभाव : चंद्र




सातवें भाव में सामान्य मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को सुन्दर तथा भाग्यशालिनी स्त्री मिलती है। उसका गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं। मनोबल बढ़ा रहने के कारण भाग्य तथा यश में भी वृद्धि होती है।

मातवीं नीच-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से जगैर में कुछ कमजोरी रहती है तथा भाग्य एवं धर्म के पक्ष में भी कुछ न्यूनता बनी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख का लाभ भी पर्याप्त निश्चयता है।

ऐसा व्यक्ति शान्त स्वभाव वाला, धनी, सुखी तथा यशस्वी होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवें भाव में स्वराशिस्थ 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य की अच्छी उन्नति होती है। वह यशस्वी तथा धनी होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों का सुख लुप्तपूर्ण रहता है, परन्तु पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है।

ऐसा व्यक्ति सुख तथा समृद्धि से युक्त जीवन बिताता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : दशमभाव : चन्द्र




दसवें भाव में मित्त 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक सफलताएँ मिलती हैं। वह धर्मात्मा तथा भाग्यशाली होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी रहती है। परन्तु जातक सुखी, यशस्वी, सन्तुष्ट तथा धनी जीवन बिताता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश


वृश्चिक लग्न : एकादशभाव : चन्द्र ग्यारहवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ लाभ होता रहता है। वह धर्मपरायण, भाग्यशाली, सुखी तथा यशस्वी होता है।



सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-बुद्धि एवं सन्तान का श्रेष्ठ लाभ होता है, वाणी में शक्ति रहती है तथा मनोबल बढ़ा-चढ़ा रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव : चन्द्र बारहवें भाव में सामान्य मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु उसकी पूर्ति के लिए किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से अत्यधिक लाभ होता है। स्वदेश में भाग्य कमजोर रहता है, परन्तु विदेश में तरक्की होती है।




सातवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में शक्ति से काम निकालता है तथा भाग्य-बल से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है।

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘मंगल’

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : प्रथमभाव : मंगल पहले भाव में स्वराशि में स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है तथा शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है।




चौथी शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी रहती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वितीयभाव : मंगल

दूसरे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित




‘मंगल’ के प्रभाव से जातक अपने शास्त्रीय श्रम द्वारा धनोपार्जन करता है तथा कुछ परेशानियों के साथ कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त करना है। शास्त्रीय सुख एवं स्वास्थ्य में कमी रहती है किन्तु शत्रु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। चौथी मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातन्त्र की वृद्धि होती है। आठवीं नीच-दृष्टि से नवम भाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की हानि होती है और यश की भी कमी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : तृतीयभाव : मंगल

तीसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर




स्थित उच्च के मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों से सामान्य वंशनम्य रहता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से नवम भाव को देखने से धर्म का यथाविधि पालन नहीं होता तथा भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ का अधिक भरोसा रखा जाता है। आठवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के रक्ष में सुख, सहयोग, लाभ तथा सम्मान की प्राप्ति होती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : चतुर्थभाव : मंगल

चौथे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर




स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी रहती है। चौथी सामान्य शत्रु-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्रीपक्ष से सामान्य मतभेद-युक्त सुख प्राप्त होता है तथा दैनिक व्यवसाय में सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सफलता, लाभ एवं यश की प्राप्ति होती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : पंचमभाव : मंगल




पाँचवें भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या-वृद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। शत्रु-पक्ष पर विजय पाने के लिए गहरी चालें चलनी पड़ती हैं। चौथी मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी खूब होनी है।

आठवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहने में परेशानी का अनुभव होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : षष्ठभाव : मंगल




छठे भाव में स्वराशि में स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है। चौथी नीच-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म में कमी रहती है। सम्मान में भी कमी आती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव से देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथमभाव को देखने में शरीर के प्रभाव तथा आत्म-बल में सामान्य वृद्धि होती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : सप्तमभाव : मंगल




सातवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कुछ परेशानी रहती है, जननेन्द्रिय में विकार होता है तथा दैनिक व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। चौथी मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय पक्ष में सुख-सम्मान तथा सफलता की प्राप्ति होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि के प्रथमभाव को देखने में शारीरिक शक्ति एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। आठवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सानान्तः सुखी रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : अष्टमभाव : मंगल




आठवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक मीन्द्रिय तथा सुख में कमी आती है। आयु तथा पुरातत्त्व के लाभ में भी कमी रहती है। पेट में विकार रहता है तथा शत्रु-पक्ष से परेशानी होती है। चौथी मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कौटुम्बिक सुख की वृद्धि विशेष प्रयत्न से होती है। आठवीं उच्च दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन की शक्ति प्राप्त होती है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : नवमभाव : मंगल




नवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित नीच के ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य में कुछ कमी रहती है। शत्रु-पक्ष के झंझट से भी भाग्योन्नति में बाधा पड़ती है। वैसे जातक धनी होता है। चौथी शत्रु-दृष्टि से द्वादश-भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है।

सातवीं उच्च दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिन के सुख में वृद्धि होती है। आठवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : दशमभाव : मंगल




दसवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, नफलता, सहयोग तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को देखने से शारीरिक शक्ति प्रबल रहती है। ऐसा व्यक्ति सशक्त तथा स्वाभिमानी होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमी रहती है। आठवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं गुणान के क्षेत्र में सफलता मिलती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : एकादशभाव : मंगल




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक शारीरिक परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ कमाता रहता है। परन्तु शत्रु-पक्ष से कुछ कष्ट होता है तथा शरीर रोगी भी हो जाया करता है। चौथी मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन एवं कुटुम्ब के सुख में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठम भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है तथा ननसाल पक्ष से लाभ होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : द्वादशभाव : मंगल




बारहवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से सुख-शान्ति मिलती है। चौथी उच्च-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठ-भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती रहती है।

साठवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री से कुछ वैमनस्य रहते हुए भी सुख मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में कुछ परेशानियों के साथ लाभ होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘बुध’

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : प्रथमभाव : मंगल




पहले भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक प्रभाव में वृद्धि होती है। उसे आयु एवं शक्ति का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री-पक्ष में कुछ कठिनाई के साथ सहयोग मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में भी परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है ।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है ।

ऐसी ग्रहस्थिति वाला व्यक्ति ज्ञान-शौकत का जावन विताता है ।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में मित्त ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भी प्राप्त होता है । साथ ही आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ भी होता है ।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से नवम भाव को देखने से जातक स्वविवेक-शक्ति द्वारा भाग्य एवं धर्म की उन्नति करता है ।

ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, धर्मात्मा तथा पराक्रमी होता है ।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में, मित्त-‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक की माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है तथा आयु एवं पुरातत्त्व की वृद्धि भी होती है ।

सातवीं मित्त-दृष्टि से दशमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सुख, सफलता, लाभ तथा यश की प्राप्ति होती है ।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित नीच के ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष में कष्ट का सामना करना पड़ता है, परन्तु स्वविवेक-शक्ति से लाभ भी होता है। आयु के क्षेत्र में कुछ परेशानी आती है। पुरातत्त्व का स्वल्प लाभ होता है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है तथा जीवन सुख से बीतता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक शत्रुपक्ष पर विजय पाता है। कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी बढ़ती है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ भी मिलता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में मित्त ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है तथा आयु एवं पुरातत्त्व का भी लाभ होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक बल एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है तथा दैनिक जीवन शान-शौकत से व्यतीत होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में स्वराशि स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से जातक स्वविवेक द्वारा धन का संचय करता है। उसे कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अमोरी ढंग का जीवन बिताता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है। साथ ही आशु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से कुछ कमियों के साथ ही भाई-बहिन का सुख मिलता है तथा पराक्रम की वृद्धि भी होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः सुखी तथा भाग्यशाली जीवन बिताता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ पिता का सुख एवं लाभ तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सम्मान और सफलता की प्राप्ति होती है। पुरातत्त्व एवं आयु का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि एवं भवन आदि का सुख भी प्राप्त होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में स्वराशि-स्थित उच्च के ‘बुध’ के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब रहती है। आयु तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है।

ऐसा व्यक्ति कुछ रूखे स्वभाव का भी होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव : बुध




बारहवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ भी होता है। आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति भी बढ़ती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में विवेक-बुद्धि एवं विनम्रता से काम निकालता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भ्रमणशील होता है तथा चित्त में कुछ अशान्ति भी बनी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘गुरु’

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : प्रथमभाव : गुरु




पहले भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को शारीरिक शक्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता मिलती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री से कुछ मतभेद रहता है तथा दैनिक व्यवसाय में पहले सामान्य कठिनाइयाँ आती हैं, किन्तु बाद में लाभ भी होता है। स्त्री से भी सुख मिलता है।

नवीं उच्चदृष्टि से नवम भाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी तथा भाग्यशाली होता है।

शुचक लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

शुचक लग्न : द्वितीयभाव : गुरु




दूसरे भाव में स्वराशि में स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का उत्तम सुख प्राप्त होता है। सन्तान-पक्ष में कुछ कमी रहती है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाब को देखने से शत्रु-पक्ष में बुद्धिमानी से सफलता मिलती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है। नवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से राज्य, पिता एवं व्यवसाय के द्वारा सुख, सम्मान तथा यश की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान तथा धनी होता है।

शुचक लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

शुचक लग्न : तृतीयभाव : गुरु




तीसरे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के सुख में बाधा आती है तथा पराक्रम में भी कमी रहती है। विद्या, धन तथा कुटुम्ब का सुख भी कम रहता है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री से कुछ वैमनस्य रहता है तथा व्यवसाय में कठिनाई से सफलता मिलती है।

सातवीं उच्च दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। अष्टमि मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी में खूब वृद्धि होती है। ऐसी कति सुखी तथा धनी होता है।

शुचक लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

शुचक लग्न : चतुर्थभाव : गुरु




चौथे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक का माता के साथ कुछ वैमनस्य रहता है तथा भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। विद्या तथा सन्तान-पक्ष में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ, व, सहयोग तथा सम्मान मिलता है। नवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से वै की अधिकता रहती है तथा बाहरी सम्बन्धों से सामान्य लाभ होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेशः

वृश्चिक लग्न : पंचमभाव : गुरु




पाँचवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक विद्या, बुद्धि एवं मन्तान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी उसे मिलता है। पाँचवीं मित्र तथा उच्चदृष्टि से नवमभाव को देखने से धर्म तथा भाग्य की विशेष उन्नति होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी खूब रहती है। नवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, शक्ति,

सम्मान, प्रतिष्ठा तथा यश की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ऐश्वर्यशाली होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेशः

वृश्चिक लग्न : षष्ठभाव : गुरु




छठे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में बुद्धि-बल से सफलता पाता है तथा धन एवं कुटुम्ब के कारण झगड़ों में फँसता है। विद्या तथा सन्तान पक्ष कमजोर रहता है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के द्वारा लाभ, सुख, सम्मान आदि की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है। कुटुम्ब से कुछ वैमनस्य भी रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेशः

वृश्चिक लग्न : सप्तमभाव : गुरु




सातवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को सामान्य मतभेदों के बावजूद स्त्री का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है तथा व्यवसाय में सफलता मिलती है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी खूब रहती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है। नवीं नीचदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से

भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी का अनुभव होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : अष्टमभाव : गुरु




आठवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरानस्व का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु विद्या, बुद्धि, सन्तान, धन एवं कुटुम्ब के सुख में कमी रहती है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कौटुम्बिक सुख की वृद्धि होती है। नवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कठिनाइयों के साथ मिलता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : नवमभाव : गुरु




नवें भाव में मित्त ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक के धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होती है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त होता है। पाँचवीं मित्तदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक प्रभाव एवं मान सम्मान की उपलब्धि होती है।

सातवीं नीचदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी रहती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने से सन्तान एवं विद्या-बुद्धि की विशेष उन्नति होती है तथा जातक यशस्वी बनता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : दशमभाव : गुरु




दसवें भाव में मित्त ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, लाभ, सफलता तथा यश की प्राप्ति होती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ असन्तोष के साथ प्राप्त होता है।

नवीं मित्तदृष्टि से षष्ठमभाव को देखने से शत्रु-यक्ष में बुद्धिमानी से सफलता एवं विजय प्राप्त होती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : एकादशभाव : गुरु



६३७


ग्यारहवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। पाँचवीं शत्रु तथा नीच दृष्टि से तृतीयभाव में देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान-पक्ष की विशेष उन्नति होती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से पत्नी के साथ कुछ वैमनस्य रहते हुए भी लाभ होता है

तथा दैनिक व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव : गुरु



६३८

बारहवें भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्बन्ध भी कमजोर रहते हैं। धन, कुटुम्ब, विद्या तथा सन्तान के क्षेत्र में भी कमी रहती है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी रहती है।


सातवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में चतुराई से सफलता प्राप्त होती है। नवीं मित्त दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की

अच्छी शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी ग्रह-स्थिति वाले जातक का चित्त प्रायः अशान्त ही बना रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘शुक्र’

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : प्रथमभाव : शुक्र




६३९

पहले भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक का शरीर कमजोर रहता है, परन्तु प्रभाव, चातुर्य एवं कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से स्त्री का सुख मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती रहती है, परन्तु शुक्र के व्ययेश होने के कारण इन क्षेत्रों में सामान्य कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में सामान्य शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक के धन तथा कौटुम्बिक सुख में कुछ परेशानी रहती है यद्यपि धन का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु में वृद्धि होती है, परन्तु पुरातत्त्व का लाभ कम रहता है। ऐसा व्यक्ति धनी तथा चतुर समझा जाता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के सुख तथा पुरुषार्थ में कमी प्राप्त होती है। खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ भी होता है। स्त्री-पक्ष में भी कुछ कमी रहती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्योन्नति में कुछ कमी रहती है तथा धर्म का पालन भी थोड़ा ही होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमी रहती है। स्त्री-पक्ष भी कमजोर रहता है। बाहरी सम्बन्धों से सुख प्राप्त होता है और खर्च आराम से चलता रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के बाद लाभ, सुख, यश एवं सफलता की प्राप्ति होती रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में सामान्य शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित उच्च के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में कुछ कमी के साथ सफलता मिलती है, परन्तु वह किसी कला का विशेषज्ञ भी अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री के प्रभाव में रहने वाला तथा वाक्-चतुर होता है। उसे बाहरी सम्बन्धों से शक्ति एवं लाभ भी प्राप्त होता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के मार्ग में भी कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त करता है। गृहस्थी के संचालन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादशभाव को देखने से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से अधिक परिश्रम द्वारा सामान्य लाभ प्राप्त होता है तथा खर्च की अधिकता बनी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को स्त्री एवं दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से अपना खर्च चलाने में सहायता भी मिलती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शरीर में दुर्बलता रहती है, फिर भी जातक यशस्वी, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला तथा कार्य-कुशल होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में संकटों तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में भी रहती है, परन्तु गुप्त चातुर्य एवं कठिन परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त होती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय तथा कौटुम्बिक सुख में भी कठिनाइयाँ आती हैं। बड़ी चतुराई से काम लेकर जातक किसी तरह अपनी इज्जत बचाता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति तथा धर्म-पालन के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। स्त्री-पक्ष से भी परेशानी रहती है। वह बड़ी चतुराई से काम निकालता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ उठाता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन एवं पराक्रम के क्षेत्र में भी असन्तोष-जनक स्थिति बनी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी कमी बनी रहती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख-सहयोग प्राप्त होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित नीच के ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में कमी आती है। स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय का क्षेत्र भी असन्तोषजनक रहता है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से चातुर्य द्वारा कुछ लाभ भी मिलता है।

सातवीं उच्च तथा शत्रु दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि की शक्ति प्राप्त होती है, परन्तु सन्तान-पक्ष में कुछ कमजोरी बनी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बारहवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ मिलता है। स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के पक्ष में भी कुछ परेशानियाँ रहती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पत्र में भी कुछ परेशानियों के बाद ही सफलता प्राप्त होती है।

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘शनि’

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक का स्वभाव शान्त तथा उग्र दोनों प्रकार का होता है। माता, भूमि तथा भवन का सामान्य सुख मिलता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में तृतीयभाव को देखने से पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का सुख प्राप्त होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से वैमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलती है।

'वृश्चिक' लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

वृश्चिकलग्न : द्वितीयभाव : शनि




दूसरे भाव में शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को धन, कुटुम्ब का सामान्य सुख मिलता है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी आती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। दसवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। ऐसा जातक सुखी तथा धनी जीवन बिताता है।

'वृश्चिक' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

वृश्चिकलग्न : तृतीयभाव : शनि




तीसरे भाव में स्वक्षेत्री 'शनि' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। माता, भूमि एवं भवन का सुख भी मिलता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है तथा मतभेदों के साथ धर्म का भी पालन होता है। दसवीं उच्च तथा मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अच्छी तरह चलता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

'वृश्चिक' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

वृश्चिकलग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में स्वराशि-स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में भी वृद्धि होती है। तीसरी नीच-दृष्टि से षष्ठमभाव को देखने से शत्रु-पक्ष द्वारा अशान्ति मिलती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से मतभेद रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी अधिक सफलता नहीं मिलती। दसवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी रहती है किन्तु जातक बहुत परिश्रमी होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : पंचमभाव : शनि




पाँचवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को सन्तान-सुख तो मिलता है, परन्तु सन्तान से मतभेद भी रहता है। विद्या-बुद्धि पर्याप्त रहती है। माता से वैमनस्य रहता है तथा भूमि-भवन का सामान्य सुख प्राप्त होता है। तीसरी मित्त-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सुख एवं सफलता की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से कुटुम्ब से वैमनस्य रहता है तथा अधिक प्रयत्न करने पर भी धन का विशेष संचय नहीं हो पाता।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : षष्ठभाव : शनि




छठे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में युक्ति से काम निकालता है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। तीसरी मित्त दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातन्त्र का लाभ होता है।

सातवीं उच्च दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबन्ध में लाभ होता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीयभाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा विरोध रहते हुए भी भाई-बहिनों का सुख मिलता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : सप्तमभाव : शनि




सातवें भाव में मित्त ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सुख एवं सफलता की प्राप्ति होती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है तथा श्रम अधिक करना पड़ता है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है। दैनिक जीवन प्रभावशाली तथा आमोदपूर्ण रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है, परन्तु माता के सुख में बहुत कमी आती है। भूमि, भवन तथा भाई-बहिनों का सुख भी कम ही मिलता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता से वैमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय में कमी तथा कुटुम्ब से वैमनस्य

रहता है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का पक्ष अपूर्ण रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : नवमभाव : शनि




नवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति कुछ रुकावटों के साथ होती है तथा धर्म का पालन भी कठिनाई सहित होता है। माता, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है। तीसरी मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी खूब रहती है तथा धन का अच्छा लाभ होता है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन

के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। दसवीं नीच तथा शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु पक्ष में परेशानी रहती है तथा ननसाल पक्ष कमजोर रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, सहयोग तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। भाई-बहिनों का सुख भी कम ही मिलता है परन्तु पराक्रम में वृद्धि होती है। तीसरी मित्र तथा उच्च दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता से कुछ मतभेद रहता है तथा भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। दसवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है तथा घरेलू जीवन सुखमय बना रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : एकादशभाव : शनि




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अच्छी वृद्धि होती है। भाई-बहिन, माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है तथा पराक्रम भी बढ़ता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या एवं सन्तान

का लाभ होता है। दसवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से जातक दीर्घायु होता है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : द्वादशभाव : शनि




वारहवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘शनि’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से सुख एवं लाभ की प्राप्ति भी होती है। भाई-बहिन, माता तथा भवन के सुख में भी कुछ कमी आ जाती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय तथा कौटुम्बिक सुख में कमी रहती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से षष्ठमभाव को देखने से शत्रुपक्ष से परेशानी रहती है। दसवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अधिक धनी न होते हुए भी अमीरी ढंग से जीवन बिताता है।

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘राहु’

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

वृश्चिकलग्न : प्रथमभाव : राहु




पहले भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के शरीर में किसी गुप्त कष्ट अथवा चिन्ता का निवास रहता है। कभी-कभी उसे मृत्यु-तुल्य शारीरिक कष्ट भी होता है।

वह उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करता है तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है। ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव का, स्वार्थी तथा असुन्दर होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वितीयभाव : राहु




दूसरे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को धन-प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा कुटुम्ब के विषय में चिन्ताएँ बनी रहती हैं।

अनेक गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर भी वह ऋणी ही बना रहता है। आर्थिक चिन्ताओं से छुटकारा नहीं पाता।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : तृतीयभाव : राहु




तीसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है। उसे भाई-बहिनों का सुख भी खूब मिलता है, परन्तु उनके बारे में चिन्ताएँ भी बनी रहती हैं।

ऐसा व्यक्ति चतुर, हिम्मत वाला, धैर्यवान्, असाधारण साहसी तथा कठिन परिश्रमी होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : चतुर्थभाव : राहु




चौथे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कुछ कमी-बनी रहती है।

कभी-कभी पारिवारिक संकटों का सामना भी करना पड़ता है, जिनके निराकरण के लिए उसे गुप्त युक्तियों, हिम्मत तथा धैर्य का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति होशियार तथा परिश्रमी भी होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : पंचमभाव : राहु




पाँचवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव में जातक को विद्याध्ययन तथा सन्तान से पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं, बाद में कुछ सफलता भी मिलती है।

ऐसा व्यक्ति चतुर, गुप्त युक्तियों में प्रवीण तथा हर समय चिन्तित रहने वाला होता है, परन्तु वह अपनी परेशानियों को किसी पर प्रकट नहीं करता।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : षष्ठभाव : राहु




छठे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव रखता है तथा उन पर विजयी होता है।

ऐसा व्यक्ति गुप्त चातुर्य, धैर्य, हिम्मत, कठिन परिश्रम तथा युक्तियों के बल पर हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय पाता रहता है तथा कभी भी हिम्मत नहीं हारता।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृश्चिक लग्न : सप्तमभाव : राहु



सातवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं। कभी-कभी स्त्री अथवा व्यवसाय के कारण घोर संकटों में भी फँस जाना पड़ता है, परन्तु वह अपनी हिम्मत, युक्ति, चतुराई एवं धैर्य के बल पर उन सब कठिनाइयों को पार कर जाता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृश्चिक लग्न : अष्टमभाव : राहु



आठवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व का लाभ होता है तथा आयु में वृद्धि होती है। उसका जीवन उमंग एवं उत्साह से भरा रहता है। वह बड़े ठाठ-बाट की जिंदगी बिताता है, परन्तु कभी-कभी उसे हानि भी उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा यशस्वी भी होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृश्चिक लग्न : नवमभाव : राहु



नवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में बहुत बाधाएँ आती हैं तथा धर्म के प्रति भी अश्रद्धा रहती है। वह मानसिक चिन्ताओं से ग्रस्त रहता है। कई बार निराश भी हो जाता है। अनेक प्रकार के कष्ट भोगने के बाद अन्त में उसे थोड़ी-बहुत सफलता मिलती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


वृश्चिक लग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को अपने पिता द्वारा परेशानी रहती है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। कभी-कभी वह अत्यधिक निराश भी हो जाता है। अन्त में धैर्य, साहस एवं चातुर्य के बल पर किसी प्रकार उन संकटों पर विजय पाकर थोड़ी-बहुत उन्नति कर लेता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : एकादशभाव : राहु




ग्यारहवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। वह अधिक मुनाफा कमाने के लिए उचित-अनुचित का विचार भी नहीं करता।

ऐसा व्यक्ति घोर स्वार्थी तथा चतुर होता है। कभी-कभी उसे आकस्मिक धन-लाभ होता है, तो कभी अचानक ही भारी घाटा भी चला जाता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में मित्त 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'राहु' के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, जिसके कारण उसे परेशानियाँ रहती हैं। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से उसे कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ भी होता है। कभी आकस्मिक धन-लाभ तो कभी आकस्मिक धन-हानि के अवसर भी उपस्थित होते हैं। अन्य प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं।

‘वृश्चिक’ लग्न में ‘केतु’

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : प्रथमभाव : केतु




पहले भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक के शरीर में कई बार चोट लगती है तथा शारीरिक सौन्दर्य में कमी आ जाती है।

ऐसा व्यक्ति स्वभाव का उग्र, दिमाग का कमजोर तथा कठिन शारीरिक श्रम करने वाला होता है। उसके शरीर पर चोट आदि का कोई स्थायी चिन्ह भी बनता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वितीयभाव : केतु




दूसरे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक धन-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। कभी-कभी आकस्मिक रूप से भी धन-लाभ हो जाता है। कौटुम्बिक सुख में कुछ कमी बनी रहती है।

ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए सदैव सतर्क बना रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : तृतीयभाव : केतु




तीसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है। भाई-बहिनों के संबंध से कष्ट का अनुभव होता है।

झगड़े-संझटों में उसे सफलता प्राप्त होती है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, परिश्रमी, धैर्यवान् तथा हिम्मती होता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : चतुर्थभाव : केतु




चौथे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को अपनी माता के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी रहती है। चित्त सदैव अशान्त रहता है।

कठिन परिश्रम के बाद उसे कुछ चैन मिलता है। स्थान बदल देने अर्थात् परदेश में रहने से कुछ सुख मिलता है। घर में उसे सदैव अशान्ति ही बनी रहती है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : पंचमभाव : केतु




पाँचवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को विद्याध्ययन में कठिनाइयाँ आती हैं तथा सन्तान-पक्ष से भी कष्ट मिलता है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, दृढ़-निश्चयी, गुप्त युक्तियों से काम लेने वाला, धैर्यवान् तथा निडर होता है। वह अपनी गुप्त चिन्ताओं को किसी पर प्रकट नहीं होने देता।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृश्चिक लग्न : षष्ठभाव : केतु



छठे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अपना विशेष प्रभाव रखता है। वह झगड़ों, कठिनाइयों आदि पर अपने साहस, गुप्त युक्ति, धैर्य, परिश्रम एवं बहादुरी के बल पर विजयपाता है। उसका ननसाल-पक्ष कमजोर रहता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : सप्तमभाव : केतु




सातवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से घोर कष्ट मिलता है। गृहस्थ जीवन में अनेक संकट उठ खड़े होते हैं, दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं।

ऐसा व्यक्ति अपनी गुप्त युक्तियों, धैर्य साहस आदि के बल पर संकटों का कुछ निवारण कर पाने में समर्थ हो जाता है।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : अष्टमभाव : केतु




आठवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित नीच के ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में अनेक बार मृत्यु-तुल्य कष्टों का सामना करना होता है। पुरातत्त्व की भी हानि होती है।

ऐसा व्यक्ति जीवन-निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करता है तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है परन्तु संकटों से मुक्ति नहीं मिल पाती।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : नवमभाव : केतु




नवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में बड़े संकट आते हैं तथा धर्म की हानि होती है।

ऐसा व्यक्ति हर समय चिन्ताओं से घिरा रहता है। कभी-कभी घोर संकटों का सामना भी करता है। गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम के बल पर भाग्य को बनाने की चेष्टा करते रहने पर भी सफलता नहीं मिल पाती।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


वृश्चिक लग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को अपने पिता द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। राज्य के क्षेत्र में मान-भंग होता है तथा व्यवसाय-क्षेत्र में घोर संकट आते रहते हैं। यद्यपि वह धैर्य, हिम्मत एवं गुप्त युक्तियों के आश्रय से अन्ततः थोड़ी-बहुत राहत भी प्राप्त कर लेता है, परन्तु उसका जीवन सुख से नहीं वीरता।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : एकादशभाव : केतु




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है। कभी-कभी आकस्मिक धन का लाभ होता है तो कभी-कभी संकट भी आते हैं।

ऐसा व्यक्ति चालाक, स्वार्थी, धूर्त तथा मतलबी होता है। उसे अपनी आमदनी से कभी सन्तोष नहीं होता।

‘वृश्चिक’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

वृश्चिक लग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ भी मिलता है।


वह गुप्त युक्ति, चातुर्य तथा परिश्रम के बल पर अपने खर्च को चलाता है, परन्तु कभी-कभी उसे घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी वह अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ता।

यूजी से मनपसन्द इण्डस्ट्रीज लगाकर लाखों में खेलिए !

लेटेस्ट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज (बी० के० अग्रवाल)

नाममात्र की यूजी से आठम्बस गुना लाभ कमाने वाले लगभग 250 से अधिक लघु-उद्योग अथवा घरेलू उद्योगों के हर पहलू यानी लागत, मशीनरी, कच्चा माल (राँ मैटीरियल), स्थान, कारीगर, मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, विदेशों को निर्यात, सरकार से उपलब्ध सहायता तथा मशीनरी मिलने के पत्ते आदि पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने वाली पुस्तक मंगाइए और कोई-सा धन्धा शुरू करके लखपति बन जाइए। मू० 36/- (छत्तीस रुपये)

‘धनु’ लग्न



[‘धनु’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘धनु’ लग्न का फलादेश

‘धनु’ लग्न में जन्म लेने वाला जातक पिंगलवर्ण, बड़े दाँतों वाला घोड़े-जैसी जाँघों वाला तथा सुन्दर स्वरूप वाला होता है। वह अत्यन्त कार्य-कुशल, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान्, सतोगुणी, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, सत्य-प्रतिज्ञ, पराक्रमी, तथा ऐश्वर्यवान् होता है।

ऐसा व्यक्ति यात्रा-प्रेमी, व्यवसायी, ब्राह्मण तथा देवताओं का भक्त, प्रेम के वश में रहने वाला, मित्रों के काम आने वाला, अनेक कलाओं का जानकार अथवा कवि तथा लेखक होता है। उसे छोड़े पालने का शौक भी होता है।

‘धनु’ लग्न में जन्म लेने वाला जातक बाल्यावस्था में अधिक सुख भोगता है, मध्यमावस्था में सामान्य जीवन व्यतीत करता है तथा अन्तिमावस्था में धन-धान्य पूर्ण होता है। २२ अथवा २३ वर्ष की आयु में उसे धन का विशेष लाभ होता है।

‘धनु’ लग्न वालों के अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या ६८८ से १०६५ के बीच देखना चाहिए।

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।



‘धनु’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१. ‘धनु’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६८८ से ६६६ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘धनु’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘भेष’ राशि पर हो तो संख्या ६८८
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ६८६
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ६६०
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ६६१
- (च) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ६६२
- (ङ) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ६६३
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ६६४
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ६६५
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ६६६
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ६६७
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ६६८
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ६६९

‘धनु’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१. ‘धनु’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १००० से १०११ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘धनु’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित

‘चन्द्रमा’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन ‘चन्द्रमा’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १०००
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १००१
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १००२
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १००३
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १००४
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १००५
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १००६
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १००७
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १००८
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १००९
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १०१०
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या-१०११

‘धनु’ लग्न में ‘मंगल’ का फलादेश

१. ‘धनु’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १०१२ से १०२३ के बीच देखना चाहिए ।

२. ‘धनु’ लग्नवालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘मंगल’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १०१२
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १०१३
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १०१४
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १०१५
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १०१६
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १०१७
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १०१८
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १०१९
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १०२०
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १०२१
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १०२२
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १०२३

‘धनु’ लग्न में ‘बुध’ का फलादेश

१. ‘धनु’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १०२४ से १०३५ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘धनु’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘बुध’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १०२४
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १०२५
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १०२६
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १०२७
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १०२८
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १०२९
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १०३०
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १०३१
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १०३२
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १०३३
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १०३४
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १०३५

‘धनु’ लग्न में ‘गुरु’ का फलादेश

१. ‘धनु’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १०३६ से १०४७ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘धनु’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘गुरु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १०३६
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १०३७
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १०३८
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १०३९
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १०४०

- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १०४१
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १०४२
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १०४३
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १०४४
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १०४५
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १०४६
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १०४७

'धनु' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१. 'धनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १०४८ से १०५६ के बीच देखना चाहिए।

'धनु' लग्नवालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'शुक्र'—

- (क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या १०४८
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १०४९
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १०५०
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १०५१
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १०५२
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १०५३
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १०५४
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १०५५
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १०५६
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १०५७
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १०५८
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १०५९

'धनु' लग्न में 'शनि' का फलादेश

१. 'धनु' लग्नवालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ६२४ से ६३५ के बीच देखना चाहिए।

२. 'धनु' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि'

का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'शनि'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १०६०
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १०६१
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १०६२
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १०६३
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १०६४
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १०६५
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १०६६
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १०६७
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १०६८
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १०६९
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १०७०
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १०७१

'धनु' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१. 'धनु' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १०७२ से १०८३ के बीच देखना चाहिए।

२. 'धनु' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १०७२
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १०७३
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १०७४
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १०७५
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १०७६
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १०७७
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १०७८
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १०७९
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १०८०
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १०८१
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १०८२
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १०८३

‘धनु’ लग्न में ‘केतु’ का फलादेश

१. ‘धनु’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १०८४ से १०९५ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘धनु’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—


जिस वर्ष में ‘केतु’—

- (क) ‘मेघ’ राशि पर हो तो संख्या १०८४
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १०८५
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १०८६
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १०८७
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १०८८
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १०८९
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १०९०
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १०९१
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १०९२
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १०९३
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १०९४
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १०९५

‘धनु’ लग्न में सूर्य

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश


धनु लग्न : प्रथमभाव : सूर्य



केन्द्र तथा शरीर-स्थान में अपने मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को उत्तम शक्तिशाली शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धार्मिक रुचि वाला तथा आस्तिक होता है। सातवीं दृष्टि से बुध की राशि में सप्तमभाव को देखने से जातक को सुन्दर स्त्री का सहयोग और गृहस्थ-सुख प्राप्त होता है। साथ ही दैनिक व्यवसाय में लाभ भी होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ धन-संग्रह में श्रेष्ठ सफलता मिलती है तथा कुछ मत-भेदों के साथ कुटुम्ब का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ-सिद्धि के लिए धर्म का पालन करता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति की भाग्योन्नति भी अच्छी होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

धनु लग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख कुछ असंतोष के साथ मिलता है तथा पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवमभाव को देखने से पुरुषार्थ द्वारा भाग्य की अत्यधिक वृद्धि होती है, साथ ही धर्म का भी पालन होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती तथा यशस्वी होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

धनु लग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को माता का सुख अधिक मिलता है तथा भूमि, भवन का सुख भी प्राप्त होता है। धर्म तथा भाग्य को उन्नति भी होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, सम्मान, लाभ तथा सफलता के अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

घनु लग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या एवं बुद्धि का यथेष्ट लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा विद्वान्, धर्मात्मा, ज्ञानी तथा बुद्धिमान् होता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमननी के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। वाणी में सुप्रखरता तथा शिष्टाचार एवं सज्जनता में कमी होने के कारण आर्थिक उन्नति अधिक नहीं होती।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

घनु लग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठे भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव रखता है तथा झगड़े के मामलों से लाभ उठाता है। धर्म-पालन में विशेष रुचि नहीं होती।

बारहवें भाव में मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ मिलता है, जिसके कारण खर्च चलता है तथा भाग्य की वृद्धि भी होती है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

घनु लग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से सुख मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में सफलताएँ मिलती रहती हैं। वह भाग्यशाली तथा ईश्वरभक्त भी होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से श्रेष्ठ शारीरिक सुख एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है।

ऐसे व्यक्ति की पत्नी कुछ तेज स्वभाव की होती है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

घनु लग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में मित्र ‘चंद्रमा’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण रहता है, परन्तु भाग्योन्नति में अनेक रुकावटें आती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन-संचय तथा कौटुम्बिक सुख के क्षेत्र में भी कुछ कमी रहती है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

घनु लग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है। वह बड़ा यशस्वी तथा प्रभावशाली होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम में कुछ कमी आती है तथा भाई-बहिनों के साथ कुछ मतभेद बना रहता है।

ऐसा व्यक्ति भाग्य पर आश्रित रहने वाला होता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

घनु लग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को पिता द्वारा अत्यधिक सह-योग मिलता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यवान् तथा धार्मिक विचारों का होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से जातक को माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख मिलता है और यश तथा प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

धनु लग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित नीच के सूर्य के प्रभाव से जातक की आमदनी में कुछ कठिनाइयों के साथ अच्छी वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र तथा उच्च दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में भी पर्याप्त सफलता मिलती है।

ऐसा व्यक्ति गुणी, विद्वान्, सज्जन, मधुरभाषी तथा सुखी होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ विलम्ब के साथ सफलता मिलती है और लाभ होता है। धर्म-पालन में रुचि अधिक नहीं होती, परन्तु धर्म तथा परोपकार में ही अधिक खर्च होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रुओं पर प्रभाव बना रहता है तथा शत्रु-पक्ष, झगड़े, मुकदमे आदि से लाभ एवं विजय की प्राप्ति भी होती है।

‘धनु’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : प्रथमभाव : चंद्र




पहले भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित अष्टमेश ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। शरीर सुन्दर तथा स्वस्थ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के बाद स्त्री का सुख मिलता है तथा दैनिक आमदनी में भी जातक को कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

धनुलग्न : द्वितीयभाव : चंद्र




दूसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक धन का संचय नहीं कर पाता तथा कौटुम्बिक सुख में भी कमी बनी रहती है, परन्तु रहन-सहन अमीरी ढंग का होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। मन में कुछ बेचैनी भी रहती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : तृतीयभाव : चंद्र




तीसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के सुख में कमी प्राप्त होती है तथा पराक्रम की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है। सामान्यतः जातक भाग्यशाली तथा संघर्ष-पूर्ण जीवन जीने वाला होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : चतुर्थभाव : चंद्र




चौथे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कुछ कमी रहती है। उसे मातृभूमि से दूर जाकर भी रहना पड़ता है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। दैनिक जीवन प्रभावशाली बना रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘चंद्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : पंचमभाव : चंद्र




पाँचवें भाव में ‘मंगल’ की राशि पर स्थित अष्ट-मेश ‘चंद्रमा’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में कुछ कमियों का सामना करना पड़ता है। आयु, तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है, किन्तु मस्तिष्क में चिन्ताएँ भी रहती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में भी बड़ी कठिनाइयों के बाद सामान्य सफलता मिलती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चंद्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : षष्ठभाव : चंद्र




छठे भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘चंद्रमा’ के प्रभाव से जातक का शत्रु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च की परेशानी रहती है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध भी अच्छे सिद्ध नहीं होते।

ऐसे व्यक्ति को शत्रु-पक्ष के कारण कुछ मानसिक परेशानियाँ भी रहती हैं।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चंद्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : सप्तमभाव : चंद्र




सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित अष्टमेश ‘चंद्रमा’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाइयाँ आती हैं। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है तथा दैनिक जीवन भी कुछ आनन्दमय बना रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में वृद्धि होती है, परन्तु स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। थोड़े परिश्रम से ही थक जाया करता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चंद्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : अष्टमभाव : चंद्र




आठवें भाव में स्वराशि में स्थित ‘चंद्रमा’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का यथेष्ट लाभ होता है। दैनिक जीवन बड़े ठाठ-बाट का रहता है।

सातवीं शतु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से धन के बारे में चिन्ताएँ बनी रहती हैं तथा कौटुम्बिक सुख में भी कमी रहती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : नवमभाव : चंद्र




नवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘चंद्रमा’ के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति में कुछ परेशानियाँ आती हैं तथा यश भी कम मिल पाता है। धर्म का यथाविधि पालन नहीं होता। आयु तथा पुरातत्त्व में वृद्धि होती है।

सातवीं शतु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों से मतभेद रहता है तथा पराक्रम में भी यथोचित वृद्धि नहीं हो पाती। जीवन सामान्य ढंग से व्यतीत होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : दशमभाव : चंद्र




दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘चंद्रमा’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है जिसके कारण जीवन ठाठ से बीतता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी एवं परेशानियों के साथ मिलता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : एकादशभाव : चंद्र




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘चंद्रमा’ के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों के साथ लाभ होता है। आयु तथा पुरातत्त्व की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है तथा दैनिक जीवन आनन्दपूर्ण बना रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है तथा मस्तिष्क में चिन्ताएँ घिरी रहती हैं।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वादशभाव : चंद्र




बारहवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित नीच के ‘चंद्रमा’ के प्रभाव से जातक को खर्च के बारे में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कष्ट मिलता है। आयु तथा पुरातत्त्व की भी हानि होती है। दैनिक-जीवन अशान्तिपूर्ण रहता है।

सातवीं उच्चदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा झगड़े-मुकदमों में सदैव विजय प्राप्त होती है।

‘धनु’ लग्न में ‘मंगल’

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

धनु लग्न : प्रथमभाव : मंगल




पहले भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति अच्छी रहती है तथा परिश्रमी भी होता है। विद्या, संतान तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है :

चौथी मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि, भवन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से कुछ कमी के साथ स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होत है। आठवीं नीचदृष्टि से अष्टम-

भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का क्षेत्र कमजोर रहता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वितीयभाव : मंगल




दूसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक धन का सामान्य संचय करता है तथा उसे कौटुम्बिक सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में पंचम भाव को देखने से विद्या तथा सन्तान की शक्ति प्राप्त होती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के क्षेत्र में कमी रहती है।

आठवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से बड़ी कठिनाइयों के साथ भाग्योन्नति में थोड़ी-बहुत सफलता मिलती है तथा धर्म का पालन भी कम ही हो पाता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

धनु लग्न : तृतीयभाव : मंगल




तीसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-वृहिन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। विद्या तथा सन्तान-पक्ष भी कमजोर रहता है। चौथी शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। आठवीं मित्र-

दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में न्यूनाधिक सफलता मिलती रहती है। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

धनु लग्न : चतुर्थभाव : मंगल




चौथे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से माता, भूमि तथा भवन के सुख की हानि होती है। सन्तान तथा विद्या का पक्ष भी कमजोर रहता है। चौथी मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों से काम चलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कमी के

साथ सफलता मिलती है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से बुद्धियोग से आमदनी बढ़ती है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

'धनु' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

धनु लग्न: पंचमभाव: मंगल




पाँचवें भाव में स्वराशि-स्थित व्ययेश 'मंगल' के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों के बाद विद्या एवं संतान के क्षेत्र में कुछ सफलता मिलती है। चौथी नीच-दृष्टि से मित्र राशि में अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व में कमी रहती है तथा उदर-विकार बना रहता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से बुद्धियोग द्वारा आमदनी के क्षेत्र में कुछ सफलता मिलती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से विशेष लाभ भी होता है।

'धनु' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

धनु लग्न: षष्ठभाव: मंगल




छठे भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है। परन्तु सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में कमी रहती है। चौथी मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से कुछ परेशानियों के साथ भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबन्धों में कठिनाइयाँ आती हैं। आठवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कमी तथा मस्तिष्क में परेशानी रहती है।

'धनु' लग्न की कुण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

धनु लग्न: सप्तमभाव: मंगल




सातवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा व्यवसाय में हानि होती है। बाहरी स्थानों से कुछ अच्छा संबंध रहता है, जिसके बल पर खर्च चलता रहता है। चौथी मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शरीर में कुछ कमजोरी रहती है। आठवीं उच्च-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का अच्छा सुख प्राप्त होता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


घनु लग्न : अष्टमभाव : मंगल



आठवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित नीच के ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व शक्ति में कमी आती है। पेट में विकार तथा मस्तिष्क में चिन्ताएँ रहती हैं। संतान पक्ष से कष्ट होता है तथा विद्या-पक्ष में कमजोरी रहती है। चौथी शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से कठिन परिश्रम द्वारा आमदनी में वृद्धि होती है। सातवीं उच्च-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से घन-कुटुम्ब का सामान्य सुख मिलता है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से विरोध रहता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश


घनु लग्न : नवमभाव : मंगल



नवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। विद्या तथा सन्तान के क्षेत्र में भी कुछ कमी के साथ सफलता मिलती है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबन्धों से खर्च चलता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

घनु लग्न : दशमभाव : मंगल




सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों से विरोध रहता है तथा पराक्रम में कमी आती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है।

दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को राज्य के क्षेत्र में बुद्धियोग से सफलता मिलती है तथा पिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र में हानि रहती है। चौथी मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी रहती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष फिर भी कमजोर रहता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादश भाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

घनुलग्न : एकादश भाव : मंगल




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि होती है। खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से कुछ कठिनाई के साथ लाभ होता है। चौथी उच्च दृष्टि से शत्रुराशि में द्वितीय भाव को देखने से घन-संचय के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पञ्चम भाव को देखने से विद्या एवं सन्तान पक्ष से लाभ होता है।

आठवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़ों में विजय एवं लाभ की प्राप्ति होती है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादश भाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

घनुलग्न : द्वादश भाव : मंगल



बारहवें भाव में स्वराशि में स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। सन्तान तथा विद्या-पक्ष में कमी रहती है। चौथी शत्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से भाई-बहनों से विरोध रहता है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है।


सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा झगड़ों से लाभ होता है। आठवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने

से स्त्री-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा व्यवसाय में कठिनाइयाँ आती रहती हैं।

‘घनु’ लग्न में ‘बुध’

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथम भाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

घनुलग्न : प्रथम भाव : बुध




पहले भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ शारीरिक तथा विवेकशक्ति प्राप्त होती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव को देखने से सुन्दर पत्नी मिलती है तथा ससुराल से यथेष्ट धन भी प्राप्त होता है। दैनिक आमदनी भी बहुत अच्छी रहती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का विशेष सुख मिलता है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय से भी लाभ होता है परन्तु स्त्री-सुख में कमी रहती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। दैनिक जीवन उल्लासपूर्ण एवं शानदार बना रहता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनु लग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का यथेष्ट सुख मिलता है। अपनी विवेक-बुद्धि से उसे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती रहती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनु लग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित नीच के ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी प्राप्त होती है। स्त्री तथा गृहस्थी के सुख में भी कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं उच्च दृष्टि से स्वराशि में दशम भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में शक्ति एवं सफलता प्राप्त होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनु लग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान का श्रेष्ठ लाभ होता है। स्त्री, गृहस्थी, पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी उन्नति होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब होती है। ऐसा व्यक्ति वार्तालाप करने में बड़ा चतुर, बुद्धिमान तथा यशस्वी भी होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनु लग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है, परन्तु पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है। नाना के पक्ष से लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा उसे बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनु लग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में ‘स्वराशि’ स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है तथा स्त्री-पक्ष से लाभ भी होता है। दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। राज्य एवं पिता से भी सहयोग तथा सम्मान मिलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनुलग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरा-तत्त्व की शक्ति प्राप्त होती है। परंतु पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कभी-कभी बड़े घाटे तथा कठिना-इयों का सामना करना होता है। सामान्य रहन-सहन शानदार रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनुलग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक अत्यधिक भाग्यवान् तथा धर्मार्त्ता होता है। पिता, राज्य, व्यवसाय तथा स्त्री-पक्ष में भी उसे अत्यन्त सफलता मिलती है। अपनी विवेक-बुद्धि से वह यशेष्ट धन तथा सम्मान अर्जित करता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम की भी अत्यधिक वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी जीवन बिताता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनुलग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में स्वराशि-स्थित उच्च के बुध के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक संफलताएँ मिलती हैं। उसे पर्याप्त यश, धन तथा सम्मान प्राप्त होता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता के सुख में कमी रहती है तथा भूमि, भवन के सुख में भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनुलग्न : एकादशभाव : बुध




१०३४

ग्यारहवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को आमदनी खूब होती है। पिता, राज्य, व्यवसाय तथा स्त्री-पक्ष में भी पर्याप्त सुख, यश, धन, लाभ तथा सम्मान प्राप्त होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का सुख भी यथेष्ट मिलता है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, विद्वान् तथा यशस्वी होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

धनुलग्न : द्वादशभाव : बुध



१०३५


बारहवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्धों से लाभ प्राप्त होता है। पिता, राज्य तथा स्त्री के सुख की हानि होती है। जन्म-स्थान में रहकर व्यवसाय करने से घाटा होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष एवं झगड़े-मुकद्दमे के मामलों में सफलता होती है।

‘धनु’ लग्न में ‘गुरु’

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनुलग्न : प्रथमभाव : गुरु




१०३६

पहले भाव में स्वराशि में स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय का सुख भी मिलता है। नवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है।

ऐसा व्यक्ति विद्वान्, गुणी, सुन्दर, धनी, धर्मात्मा, मधुरभाषी, सज्जन तथा आनन्दी होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनु लग्न: द्वितीयभाव : गुरु




२०३०

दूसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब-सुख की हानि होती है। शारीरिक सुख तथा सौन्दर्य में भी कमी आती है। माता, भूमि तथा भवन का पक्ष भी कमजोर रहता है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में प्रभाव स्थापित होता है तथा झगड़े के मामलों में बुद्धिमानी से सफलता मिलती है। सातवीं उच्च-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है।

नवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सम्मान, यश तथा सफलता की प्राप्ति होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनु लग्न : तृतीयभाव : गुरु




२०३८

तीसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को कुछ मतभेद के साथ भाई-बहिन का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में भी कमी आती है। भूमि, भवन तथा माता का सामान्य सुख मिलता है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री सुन्दर मिलती है तथा स्त्री से सुख और व्यवसाय में सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती रहती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनु लग्न : चतुर्थभाव : गुरु




२०३६

चौथे भाव में स्वराशि में स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव की प्राप्ति भी होती है। पाँचवीं उच्च तथा मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता से सुख, राज्य से सम्मान तथा व्यवसाय से लाभ होता है। नवीं मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अच्छी तरह चलता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनुलग्न : पंचमभाव : गुरु




पाँचवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान-पक्ष में सफलता मिलती है। पाँचवीं मित्रदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनु लग्न : षष्ठभाव : गुरु




छठे भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष तथा रोगादि से परेशानी होती है तथा बुद्धि-बल से उनका निराकरण होता है। शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में भी कमी आती है। माता का अल्प सुख होता है तथा भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त नहीं होता। पाँचवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ, सुख तथा सम्मान की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से सुख मिलता है। नवीं नीचदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब की ओर से परेशानी रहती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनु लग्न : सप्तमभाव : गुरु




सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से सुख एवं सौन्दर्य तथा व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है। श्रेष्ठ पाँचवीं शत्रुदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कुछ असंतोष रहता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं स्वाभिमान की प्राप्ति होती है। नवीं शत्रुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों से असन्तोष रहता है तथा पराक्रम में भी कुछ कमी आती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनुलग्न : अष्टमभाव : गुरु




आठवें भाव में मित्त ‘चन्द्रमा’ की राशि में स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व की श्रेष्ठ शक्ति का लाभ होता है। परन्तु शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है। पाँचवीं मित्तदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थान के संबंधों से लाभ मिलता है।

सातवीं नीच तथा शत्रुदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख में कमी आती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनुलग्न : नवमभाव : गुरु




नवें भाव में मित्त ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक के भाग्य की अत्यधिक वृद्धि होती है तथा धर्म का यथाविधि पालन होता है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं यश की प्राप्ति होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है। नवीं मित्तदृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान-पक्ष से सुख मिलता है तथा विद्या एवं बुद्धि की वृद्धि होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनुलग्न : दशमभाव : गुरु




दसवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, लाभ, सम्मान तथा सहयोग प्राप्त होता है। शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वाभिमान की प्राप्ति भी होती है। पाँचवीं नीच तथा शत्रुदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब पक्ष से असन्तोष रहता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। नवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में बड़ी होशियारी से प्रभाव स्थापित होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनु लग्न : एकादशभाव : गुरु




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक शारीरिक श्रम द्वारा अपनी आय को बढ़ाता है। उसे माता, भूमि एवं भवन का सुख भी प्राप्त होता है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहनों से असन्तोष रहता है तथा पराक्रम की वृद्धि भी नहीं हो पाती।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का लाभ होता है। नवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वादशभाव : गुरु




बारहवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से लाभ होता है। शरीर में कुछ कमजोरी भी रहती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वरशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में बुद्धिमानी से प्रभाव स्थापित होता है। नवीं उच्च तथा मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का दैनिक जीवन शान से बीतता है।

‘धनु’ लग्न में ‘शुक्र’

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनु लग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहता है, परन्तु परिश्रमी तथा चतुर होता है। शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है। यशस्वी भी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री से कुछ मतभेद-युक्त सुख मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में चतुराई द्वारा सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनुलग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को धन की अच्छी शक्ति मिलती है, परन्तु कुटुम्बियों से मतभेद रहता है। शत्रु-पक्ष से लाभ होता है तथा उस पर प्रभाव भी स्थापित होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है।

ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठित होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनुलग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा कुछ कमी के साथ भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है। धन का लाभ होता है तथा शत्रु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं तथा धर्म में भी विशेष रुचि नहीं रहती। सामान्यतः जीवन सुखी बना रहता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनु लग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित उच्च ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। आमदनी अच्छी रहती है तथा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता से हानि तथा राज्य के क्षेत्र में असफलता मिलती है। व्यवसाय की उन्नति के मार्ग में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनुलग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। वाणी की शक्ति, चातुर्य एवं कला का लाभ भी होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने से विद्या-बुद्धि द्वारा आमदनी की वृद्धि होती है तथा शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनुलग्न : षष्ठभाव : शुक्र




षष्ठ भाव में स्वराशि-स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर भारी प्रभाव रखता है तथा झगड़ों से लाभ उठाता है। परिश्रम द्वारा धन एवं आमदनी के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलती है। ननसाल-पक्ष से भी लाभ होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ कठिनाइयों के साथ अच्छा लाभ होता रहता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनुलग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कुछ मतभेद-युक्त लाभ मिलता है। व्यवसाय क्षेत्र में भी कठिनाइयों के साथ लाभ प्राप्त होता है। शत्रुपक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा भूतन्त्रिय में विकार की संभावना भी रहती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक शक्ति एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनुलग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है। आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से परिश्रम द्वारा लाभ मिलता है। शत्रुपक्ष से भी परेशानी होती है।

सातवीं मिलदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से कुटुम्ब का सहयोग प्राप्त होता है तथा धन-वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनुलग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जानक को भाग्योन्नति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है। तथा धर्म में भी कम श्रद्धा रहती है। अपनी चतुराई द्वारा शत्रु-पक्ष से लाभ भी उठाता है।

सातवीं मिल-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-ब्रह्मिण के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

ऐसा व्यक्ति भाग्यवान् समझा जाता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनुलग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित नीच के ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों का अनुभव होता है। भाग्योन्नति में शत्रुपक्ष के कारण रुकावटें आती हैं।

सातवीं उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है तथा घर के भीतर प्रभाव भी बना रहता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनु लग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में स्वराशि में स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती है तथा शत्रु पक्ष से विशेष लाभ मिलता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है, परन्तु बाद में बड़ा गुणी, चतुर तथा विद्वान् भी बनता है। सन्तान-पक्ष से तृटिपूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बारहवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से लाभ भी होता है। झगड़े तथा शत्रुओं के कारण कुछ परेशानी होती है, परन्तु अपनी चतुराई से लाभ भी उठाता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर पूर्ण प्रभाव स्थापित होता है। ऐसा व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन बिताता है।

‘धनु’ लग्न में ‘शनि’

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

धनु लग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक के शरीरिक सौन्दर्य में कमी आती है। परिश्रम से धन तथा कुटुम्ब का सुख मिलता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। दसवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राख

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वितीयभाव : शनि




दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख प्राप्त होता है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी रहती है। तीसरी शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का अल्प सुख मिलता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। दसवीं उच्चदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी खूब रहती है तथा कभी-कभी आकस्मिक धन-लाभ भी होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

धनु लग्न : तृतीयभाव : शनि




तीसरे भाव में स्वराशि-स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक के प. क्रम में विशेष वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। तीसरी नीचदृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान-पक्ष से कष्ट होता है तथा विद्या-बुद्धि में कमी रहती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा यश की उन्नति होती है परन्तु धर्म में श्रद्धा कम रहती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध भी लाभदायक सिद्ध नहीं होता।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

धनु लग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी रहती है तथा भूमि, भवन का सामान्य सुख प्राप्त होता है। भाई-बहिन तथा कुटुम्ब का सुख भी असन्तोषजनक रहता है। तीसरी मित्तदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़ों से लाभ भी होता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, गण्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र की उन्नति होती है।

दसवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

धनु लग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है। दैनिक सुख, धन-संचय तथा भाई-बहिन के सुख में कमी रहती है। तीसरी मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने से धन-कुटुम्ब का सामान्य सुख मिलता है। दसवीं नीच-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के पक्ष में कमी बनी रहती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

धनु लग्न : नवमभाव : शनि




नवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति एवं धर्म-पालन में बाधाएँ आती हैं। धन-कुटुम्ब का सामान्य-सुख मिलता है। तीसरी मित्र तथा उच्च-दृष्टि से एकदशभाव को देखने से आमदनी खूब रहती है तथा कभी-कभी आकस्मिक धन-लाभ भी होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। दसवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा झगड़े-झंझटों से लाभ होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

धनु लग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को पिता से सहयोग, राज्य से सम्मान तथा व्यवसाय से लाभ मिलता है। भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्ध भी असन्तोषजनक रहते हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी रहती है। दसवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से सुख तथा दैनिक व्यवसाय में सफलता की प्राप्ति होती है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

धनु लग्न : एकादशभाव : शनि




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में विशेष वृद्धि होती है। कभी-कभी आकस्मिक धन-लाभ भी होता है। कुटुम्ब तथा भाई-बहिनों के सुख एवं पराक्रम में भी वृद्धि होती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है।

सातवीं नीच तथा शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान से कष्ट मिलता है तथा विद्या-वृद्धि के क्षेत्र में कमी रहती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है परन्तु दैनिक जीवन में परेशानियों का अनुभव होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वादशभाव : शनि




बारहवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों का संबंध भी असन्तोषजनक रहता है। धन-कुटुम्ब तथा भाई-बहिन के सुख में भी कमी रहती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में तीसरे भाव को देखने से धन-कुटुम्ब का सामान्य सुख प्राप्त होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठभावा को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा गुप्त युक्तियों के सहारे लाभ भी मिलता है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं तथा धर्म का पालन भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता।

‘धनु’ लग्न में ‘राहु’

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


धनु लग्न : प्रथमभाव : राहु



पहले भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कमी आती है। कभी-कभी कठिन शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति देखने में सज्जन परन्तु भीतर से चालाक होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

धनु लग्न : द्वितीयभाव : राहु




दूसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब के सुख में कमी रहती है। कभी-कभी कौटुम्बिक कारणों से घोर संकटों का शिकार भी बनना पड़ता है।

उसे प्रायः ऋण लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। अपनी कठिनाइयों पर वह गुप्त युक्तियों द्वारा विंध्य पाने का प्रयत्न करता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

धनु लग्न : तृतीयभाव : राहु




तीसरे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक बड़ा हिम्मती तथा बहादुर होता है। भाई-बहिनों के साथ उसके सम्बन्ध सुखकर नहीं रहते।

उसे कभी-कभी घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है, परन्तु धैर्यवान् तथा साहसी होने के कारण उन्हें चुपचाप सहन कर लेता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


धनु लग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को माता के सुख में बड़ी कमी रहती है। भूमि तथा भवन का सुख भी नहीं मिलता। कभी-कभी घोर मुसीबतें भी उठानी पड़ती हैं। धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के बल पर वह संकटों का सामना करता रहता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


घनुलग्न : पंचमभाव : राहु



पाँचवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है तथा विद्याध्ययन में भी बड़ी कठिनाइयाँ तथा कमी रहती है। उसकी बोली में रूखापन रहता है। वह धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के बल पर काम तो चलाता है, परन्तु चिन्ताओं से घिरा रहता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

घनुलग्न : षष्ठभाव : राहु




छठे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव रखता है तथा चातुर्य एवं गुप्त युक्तियों के बल पर उन्हें परास्त करता रहता है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, वहादुर तथा धैर्यवान् होता है। वह मातृ-पक्ष को भी कुछ हानि पहुँचाता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


घनुलग्न : सप्तमभाव : राहु



सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित उच्च के राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष की विशेष शक्ति मिलती है। उसके एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं। दैनिक आमदनी की वृद्धि के लिए वह अनेक उपायों का आश्रय लेता है। वह धनी तथा सुखी जीवन बिताता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


धनुलग्न : अष्टमभाव : राहु



आठवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के जीवन पर कई बार संकट आते हैं तथा मृत्यु-तुल्य स्थितियाँ बन जाती हैं। पेट में विकार रहता है। पुरातत्त्व की हानि होती है। ऐसा व्यक्ति परेशानियों से घिरा रहता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


धनुलग्न : नवमभाव : राहु



नवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में घोर संकट आते हैं। धर्म में उमकी आस्था नहीं होती। ऐसा व्यक्ति प्रायः अनीश्वरवादी होते हुए भी भाग्योन्नति के लिए अधिकाधिक परिश्रम करता तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


धनुलग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को पिता द्वारा परेशानी, राज्य द्वारा संकट तथा व्यवसाय में हानि का शिकार बनना पड़ता है। वह अपनी हिम्मत तथा गुप्त युक्तियों के बल पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता रहता है, परन्तु अधिक सफलता नहीं मिल पाती।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


धनुलग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि होती है। कभी-कभी कठिनाइयाँ भी आती हैं, परन्तु वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता और हिम्मत से काम लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

धनु लग्न : तृतीयभाव : केतु




तीसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी तथा कष्ट का अनुभव होता है।

ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने वाला, साहसी तथा कठिन परिश्रमी होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


धनु लग्न : चतुर्थभाव : केतु



चौथे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को माता के सुख में बड़ी हानि उठानी पड़ती है तथा मातृभूमि का वियोग भी सहना पड़ता है। भूमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त नहीं होता। परन्तु ऐसा व्यक्ति बड़ा परिश्रमी, साहसी, धैर्यवान् तथा सन्तोषी होता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

धनु लग्न : पंचमभाव : केतु




पाँचवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष में बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है तथा विद्या-ध्ययन में भी बड़ी कठिनाइयों के बाद अल्प सफलता मिलती है।

ऐसा व्यक्ति धोर परिश्रमी, जिद्दी तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने वाला होता है। वह सदैव चिन्तित भी बना रहता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

घनु लग्न : षष्ठभाव : केतु




छठे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त करता है तथा झगड़े-मुकदमे आदि से भी वह लाभ उठाता है।

महान संकट उपस्थित होने पर भी वह कभी हिम्मत नहीं हारता तथा बहादुरी के साथ मुकाबला करता हुआ उस पर विजय प्राप्त करता है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

घनु लग्न : सप्तमभाव : केतु




सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित नीच के ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष में घोर हानि उठानी पड़ती है तथा दैनिक आमदनी के क्षेत्र में भी बड़ी कठिनाइयाँ आती रहती हैं।

वह धैर्य तथा साहस के साथ गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करता रहता है, परन्तु सफलता थोड़ी ही मिलती है।

‘घनु’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

घनु लग्न : अष्टमभाव : केतु




आठवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के जीवन पर बड़े-बड़े संकट आते हैं तथा उसे मृत्यु-शुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। पेट में विकार भी रहता है।

दैनिक जीवन में परेशानियाँ बनी रहती हैं। पुरातत्त्व की भी हानि होती है। घोर परिश्रम करने पर भी सुख नहीं मिल पाता।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


धनु लग्न : नवमभाव : केतु



नवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में अत्यधिक बाधाएँ आती हैं। उन्हें दूर करने के लिए वह अनेक गुप्त युक्तियों तथा परिश्रम का सहारा लेता है, परन्तु आंशिक सफलता ही मिल पाती है। धर्म तथा ईश्वर में उमकी आस्था कम होती है। सदैव चिन्ताओं तथा असफलताओं का शिकार बना रहता है।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


धनु लग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को कुछ कमियों के साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य लाभ, सफलता, सुख, यश, सहयोग तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। अत्यधिक परिश्रम तथा युक्ति-बल का आश्रय लेने पर भी विशेष उन्नति नहीं हो पाती।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


धनु लग्न : एकादशभाव : केतु



ग्यारहवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। कभी-कभी संकटों का शिकार भी बनना पड़ता है, परन्तु उन पर वह अपनी गुप्त युक्तियों तथा कठोर परिश्रम के बल पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर भी पूर्ण सन्तोष नहीं मिल पाता।

‘धनु’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


धनु लग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है जिससे उसे बड़ी परेशानी तथा संकट उठाने पड़ते हैं।

बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भी परेशानियाँ मिलती हैं। वह गुप्त युक्तियों, परिश्रम, धैर्य तथा हिम्मत के बल पर कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करता है, परन्तु अधिक सफल नहीं हो पाता।

‘मकर’ लग्न



[‘मकर’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘मकर’ लग्न का फलादेश

‘मकर’ लग्न में जन्म लेने वाले जातक का शरीर लम्बा होता है। वह बड़ी-बड़ी आँखों वाला, उग्र स्वभाव का, निरन्तर पुरुषार्थ करने वाला, लोभी, चतुर, वंचक, ठग, पाखण्डी, आलसी, मनमौजी, तमोगुणी तथा कफ-वायु से पीड़ित रहने वाला होता है।

ऐसा व्यक्ति भीरु, सन्तोषी, खर्चीला, लज्जा-रहित, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला, अधिक मन्तत्रिवान्, कवियों तथा स्त्रियों में आसक्त भी होता है।

‘मकर’ लग्न वाला जातक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में सुख भोगता है, मध्यमावस्था में दुःख पाना है तथा ३२ वर्ष की आयु के बाद अन्तिम समय तक सुखी बना रहता है।

ऐसे व्यक्ति की आयु पूर्ण होती है तथा उसका भाग्योदय प्रायः ३२-३३ वर्ष की अवस्था में होता है।

‘मकर’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित-विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डलियों में संख्या ३३४ से ४४१ के बीच देखना चाहिए।

गोचर कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।

‘मकर’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१—‘मकर’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १०६७ से ११०८ के बीच देखना चाहिए।

२—‘मकर’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या १०६७
- (ख) ‘वृष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या १०६८
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या १०६९
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११००
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०१
- (च) ‘कन्या’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०२
- (छ) ‘तुला’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०३
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०४
- (झ) ‘धनु’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०५
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०६
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०७
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०८

‘मकर’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१—‘मकर’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११०९ से ११२० के बीच देखना चाहिए।

२—‘मकर’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘शुक्र’

का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'चन्द्रमा'—

- (क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११०६
- (ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११०
- (ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११११
- (घ) 'कर्क' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११२
- (ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११३
- (च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११४
- (छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११५
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११६
- (झ) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११७
- (ञ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११८
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या १११९
- (ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२०

'मकर' लग्न में 'मंगल' का फलादेश

१—'मंगल' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मङ्गल' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११२१ से ११३२ के बीच देखना चाहिए।

२—'मंगल' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'मङ्गल' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'मङ्गल'—

- (क) 'मेष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२१
- (ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२२
- (ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२३
- (घ) 'कर्क' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२४
- (ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२५
- (च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२६
- (छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२७
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२८
- (झ) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११२९
- (ञ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११३०
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११३१
- (ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११३२

‘मकर’ लग्न में ‘कर्क’ का फलादेश

१—‘मकर’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११३३ से ११४४ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘मकर’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में बुध—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ११३३.
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ११३४
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ११३५
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ११३६
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ११३७
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ११३८
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या ११३९
- (ज) ‘दृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या ११४०
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या ११४१
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या ११४२
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या ११४३
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या ११४४

‘मकर’ लग्न में ‘गुरु’ का फलादेश

१—‘मकर’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११४५ से ११५६ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘कर्क’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘गुरु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या ११४५
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या ११४६
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या ११४७
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या ११४८
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या ११४९
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या ११५०

- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या ११५१
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या ११५२
 (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या ११५३
 (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या ११५४
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या ११५५
 (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या ११५६

'मकर' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१—'मकर' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११५७ से ११६८ के बीच देखना चाहिए।

२—'मकर' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'शुक्र'—

- (क) 'मेघ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५७
 (ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५८
 (ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११५९
 (घ) 'कर्क' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६०
 (ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६१
 (च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६२
 (छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६३
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६४
 (झ) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६५
 (ञ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६७
 (ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६८

'मकर' लग्न में 'शनि' का फलादेश

१—'मकर' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११६९ से ११८० के बीच देखना चाहिए।

२—'मकर' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'शनि'—

- (क) 'मेघ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६९

- (ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७०
 (ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७१
 (घ) 'कर्क' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७२
 (ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७३
 (च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७४
 (छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७५
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७६
 (झ) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७७
 (ञ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७८
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११७९
 (ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८०

'मकर' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१—'मकर' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११८१ से ११८२ के बीच देखना चाहिए।

२—'मकर' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'मेघ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८१
 (ख) 'वृष' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८२
 (ग) 'मिथुन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८३
 (घ) 'कर्क' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८४
 (ङ) 'सिंह' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८५
 (च) 'कन्या' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८६
 (छ) 'तुला' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८७
 (ज) 'वृश्चिक' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८८
 (झ) 'धनु' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११८९
 (ञ) 'मकर' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११९०
 (ट) 'कुम्भ' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११९१
 (ठ) 'मीन' राशि पर स्थित हो तो संख्या ११९२

‘मकर’ लग्न में ‘केतु’ का फलादेश

१—‘मकर’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या ११६३ से १२०४ के बीच देखना चाहिए।

२—‘मकर’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘केतु’—


- (क) ‘मेष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६३
- (ख) ‘वृष’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६४
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६५
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६६
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६७
- (च) ‘कन्या’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६८
- (छ) ‘तुला’ राशि पर स्थित हो तो संख्या ११६९
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर स्थित हो तो संख्या १२००
- (झ) ‘धनु’ राशि पर स्थित हो तो संख्या १२०१
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर स्थित हो तो संख्या १२०२
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर स्थित हो तो संख्या १२०३
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर स्थित हो तो संख्या १२०४



‘मकर’ लग्न में ‘सूर्य’

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकर लग्न : प्रथमभाव : सूर्य




पहले भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है तथा कभी-कभी विशेष शारीरिक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है, परन्तु आयु एवं पुरातत्त्व की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री के पक्ष में सामान्य कठिनाई रहती है तथा दैनिक व्यवसाय में भी कुछ परेशानियाँ आती रहती हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकर लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक धन का संचय नहीं कर पाता । तथा कुटुम्ब के सुख में भी संकट आते रहते हैं ।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टमभाव को देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है । ऐसा व्यक्ति अमीरी ढंग का जीवन बिताता तथा शान-शौकत में खर्च करता रहता है ।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकर लग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी आती है । आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति का लाभ होता है ।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्योन्नति में कुछ रुकावटें आती हैं तथा धर्म के पक्ष में भी कमी बनी रहती है ।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकर लग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है । आयु तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है । दैनिक जीवन अमीरी ढंग का रहता है ।

सातवीं नीच-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता के सुख में कमी आती है तथा राज्य एवं व्यवसाय की उन्नति में रुकावटें आती हैं ।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकरलग्नः पंचमभावः सूर्य




पाँचवें भाव में शत्रु ‘शुक’ की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कष्ट मिलता है तथा विद्याध्ययन में कठिनाई रहती है। बुद्धि भी कमजोर रहती है। ऐसा व्यक्ति चिन्तातुर तथा स्वभाव का क्रोधी होता है। उसे आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से लाभ-प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है तथा सफलता मिल पाती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकरलग्नः षष्ठभावः सूर्य




छठे भाव में मित्र ‘बुध’ को राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ भी होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में असन्तोष भी रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकरलग्नः सप्तमभावः सूर्य




सातवें भाव में मित्र चन्द्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा कभी-कभी बहुत हानि भी उठानी पड़ती है। आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है तथा कभी-कभी शिकार भी बनना पड़ता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकरलग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में स्वराशि में स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व की विशेष शक्ति प्राप्त होता है। वह बड़ा स्वाभिमानी, तेजस्वी, निडर तथा बहादुर होता है। उसका दैनिक जीवन भी बड़ा प्रभाव-पूर्ण रहता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन संचय में परेशानी रहती है तथा कौटुम्बिक सुख में बाधाएँ आती हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकरलग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति कुछ रुकावटों के साथ होती है। धर्म-पालन में भी थोड़ी त्रुटि रहती है तथा यश में भी कमी आती है। आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। जिससे जातक रईसी ढंग का जीवन व्यतीत करता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम की समुचित वृद्धि नहीं हो पाती।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकरलग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की तुला राशि पर स्थित नीच के ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को पिता पक्ष से घोर कष्ट उठाना पड़ता है। राज्य पक्ष से प्रतिष्ठा में कमी तथा व्यवसाय-पक्ष में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति की भी कुछ हानि होती है।

सातवीं मित्र तथा उच्च-दृष्टि से चतुर्दश भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सामान्य सुख प्राप्त होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकरलग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती है, परन्तु कभी-कभी कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति का विशेष लाभ होता है।

सातवीं शतु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से कष्ट रहता है तथा विद्याध्ययन के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मकरलग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को खर्च तथा बाहरी सम्बन्धों में कठिनाई उपस्थित होती है। पेट में विकार भी रहता है। आयु तथा पुरातत्त्व की भी कुछ हानि होती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शतु-पक्ष पर कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है तथा झगड़े-टंटे स्वयं ही दूर होते रहते हैं।

‘मकर’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मकरलग्न : प्रथमभाव : चन्द्र




पहले भाव में शतु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य में वृद्धि होती है। वह विनोदी, मानी, यशस्वी तथा कार्य-कुशल भी होता है

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से स्त्री सुन्दर, सुयोग्य तथा स्वाभिमानी मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी पूर्ण सफलता मिलती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मकर लग्न : द्वितीयभाव : चंद्र




दूसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है, परन्तु स्त्री के कारण कुछ परेशानी का अनुभव भी होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का रहन-सहन अमीरी ढंग का होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मकर लग्न : तृतीयभाव : चंद्र




तीसरे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का श्रेष्ठ सुख मिलता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है। स्त्री, व्यवसाय तथा कुटुम्ब का सुख भी अच्छा रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति धनी, यशस्वी, सुखी तथा सम्पन्न होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मकर लग्न : चतुर्थभाव : चंद्र




चौथे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। घरेलू वातावरण क्षानन्दमय रहता है। स्त्री सुन्दर मिलती है, व्यवसाय में भी सफलता मिलती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा स्थायी व्यवसाय के क्षेत्र में यश, प्रतिष्ठा, सहयोग, धन तथा अन्य लाभ प्राप्त होते रहते हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मकर लग्न: पंचमभाव : चंद्र




पाँचवें भाव में सामान्य मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष से भी सुख मिलता है।

सातवीं नीचदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के मार्ग में कुछ रुकावटें आती हैं। ऐसा व्यक्ति हँसमुख तथा हाजिरजवाब भी होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मकर लग्न: षष्ठभाव : चंद्र




छठे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में विनम्रता से काम निकालता है। स्त्री से विरोध तथा व्यवसाय में कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी मिलता रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मकर लग्न: सप्तमभाव : चंद्र




सातवें भाव में स्वराशि में स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री तथा उसके द्वारा यथेष्ट सुख की प्राप्ति होती है। व्यवसाय में भी पूर्ण सफलता मिलती है। धरेलू जीवन आनन्दमय बना रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक प्रभाव में कुछ असंतोषपूर्ण वृद्धि होती है। यश तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी असंतोष बना रहता है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

मकर लग्न : अष्टमभाव : चंद्र




आठवें भाव में मित्र 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का यथेष्ट लाभ होता है, परन्तु स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। गृहस्थी का सुख भी कम रहता है। मन में अशान्ति रहती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख कुछ कठिनाइयों के साथ प्राप्त होता है। वैसे दैनिक जीवन ठाठ-बाट का रहता है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

मकर लग्न : नवमभाव : चंद्र




नवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक के भाग्य की विशेष उन्नति होती है तथा धर्म में भी अत्यधिक रुचि बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति धनी, यशस्वी, न्यायी तथा धर्मात्मा होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'चन्द्रमा' का फलादेश

मकर लग्न : दशमभाव : चंद्र




दसवें भाव में सामान्य मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को पिता द्वारा सहयोग, राज्य से प्रतिष्ठा तथा व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होती है। मनोबल बड़ा रहता है। स्त्री सुन्दर तथा स्वाभिमानिनी मिलती है। घरेलू जीवन उल्लासपूर्ण रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख भी यथेष्ट मिलता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी तथा भाग्यशाली होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मकर लग्न : एकादशभाव : चंद्र




ग्यारहवें भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित नीच के ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में कुछ कमी रहती है। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी अल्प सुख मिलता है। गृहस्थी के कारण चिंताओं का शिकार बनना पड़ता है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा तथा सन्तान का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मकर लग्न : द्वादशभाव : चंद्र




बारहवें भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता रहता है। स्त्री-सुख में कमी रहती है तथा दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। इसी से मन चिंतित तथा अशान्त बना रहता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष एवं झगड़े के मामलों में जातक विनम्रता से काम निकालकर अपना प्रभाव भी स्थापित करता है।

‘मकर’ लग्न में ‘मंगल’

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मकर लग्न : प्रथमभाव : मंगल




पहले भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं शक्ति में वृद्धि होती है। चौथी दृष्टि से स्वरशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का अच्छा सुख प्राप्त होता है। रहन-सहन ठाठ-बाट का होता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में कठिनाइयाँ आती हैं। सातवीं मित्त-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी तथा चतुर होता है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

मकर लग्न : द्वितीयभाव : मंगल




११२२

दूसरे भाव में शत्रु 'शनि' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को धन-कुटुम्ब का पर्याप्त सुख सामान्य असंतोष के साथ प्राप्त होता है, परन्तु माता के सुख में कमी रहती है। भूमि एवं भवन का लाभ होता है। चौथी शत्रु-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष की उन्नति होती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति बढ़ती है।

आठवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ का अधिक ध्यान रखता है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

मकर लग्न : तृतीयभाव : मंगल




११२३

तीसरे भाव में मित्र 'गुरु' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है। माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। चौथी मित्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। ऐसा व्यक्ति बहादुर तथा हिम्मती भी होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। आठवीं सामान्य शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से कुछ कमियों के साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

मकर लग्न : चतुर्थभाव : मंगल




११२४

चौथे भाव में स्वराशि-स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का विशेष सुख प्राप्त होता है। चौथी नीच-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री के सुख में कमी रहती है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं सामान्य मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, सम्मान तथा सफलता की प्राप्ति होती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को देखने से आमदनी खूब रहती है तथा लाभ के साधन सरलता से मिलते रहते हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मकरलग्न : पंचमभाव : मंगल




पाँचवें भाव में सामान्य मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को विद्या-वृद्धि तथा सन्तान-सुख का लाभ होना है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है। चौथी मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ प्राप्त होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मकरलग्न : षष्ठभाव : मंगल




छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर विशेष प्रभाव रखता है तथा झगड़ों से लाभ उठाता है। माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी आती है तथा आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ आती रहती हैं। चौथी मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। आठवीं उच्च दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य स्वास्थ्य, एवं प्रभाव में वृद्धि होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मकरलग्न : सप्तमभाव : मंगल




सातवें भाव में मित्र 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित नीच के 'मंगल' के प्रभाव से जातक को स्वी-पक्ष तथा गृहस्थी के सुख में कमी रहती है। व्यवसाय माता, भूमि तथा भवन का सुख भी कमजोर रहता है। चौथी शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव एवं गौरव की वृद्धि होती है। आठवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से धन-संचय में कठिनाइयाँ आती हैं तथा कुटुम्ब का सामान्य सुख प्राप्त होता है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश


मकरलग्न : अष्टमभाव : मंगल



आठवें भाव में मित्त 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व की यथेष्ट शक्ति प्राप्त होती है, परन्तु माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ दुर्बल रहता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है। सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से कुछ कमियों के साथ धन-संचय में सफलता मिलती है तथा कुटुम्ब का सुख सामान्य रहता है। आठवीं मित्त-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

मकरलग्न : नवमभाव : मंगल




नवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। वह धनी, यशस्वी, धर्मात्मा तथा न्यायप्रिय होता है। चौथी मित्त-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति धनी, यशस्वी, सुखी, पराक्रमी तथा विनोदी होता है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'मंगल' का फलादेश

मकरलग्न : दशमभाव : मंगल




दसवें भाव में सामान्य शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। चौथी शत्रु-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं प्रभाव में वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है। आठवीं सामान्य मित्त-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से सुख मिलता है तथा विद्या एवं बुद्धि की वृद्धि होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मकरलग्न : एकादशभाव : मंगल




ग्यारहवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती होती है। माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख भी प्राप्त होता है। चौथी शतु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन और कुटुम्ब का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है।

सातवीं सामान्य मित्त-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि तथा सन्तान का श्रेष्ठ सुख मिलता है। आठवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शतु-

पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव रहता है तथा झगड़ों से लाभ होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मकरलग्न : द्वादशभाव : मंगल



बारहवें भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। चौथी मित्त-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।


सातवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शतु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। आठवीं नीच-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री के सुख में कुछ कमी आती

है तथा व्यवसाय-पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है।

‘मकर’ लग्न में ‘बुध’

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : प्रथमभाव : बुध




पहले भाव में मित्त ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक प्रभाव एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। वह शतु-पक्ष पर स्वविवेक से प्रभाव स्थापित करता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलती है, परन्तु व्यवसाय में कभी-कभी कठिनाइयाँ भी आती हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न: द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के धन तथा कौटुम्बिक सुख की वृद्धि होती है। मान, प्रतिष्ठा तथा धर्म में रुचि भी रहती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है। परन्तु कभी-कभी भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कभी का अनुभव होता है। भाग्योन्नति तथा धर्म-पालन में भी कठिनाइयाँ आती हैं। शत्रु पक्ष से भी कुछ परेशानी होती है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से स्वरशि में नवमभाव को देखने से स्वविवेक-बुद्धि द्वारा भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती रहती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है तथा भाग्य की भी उन्नति होती है। धरेलू सुख-शान्ति में कुछ विघ्न आते हैं।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है तथा शत्रु-पक्ष में विजय प्राप्त होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्त ‘शुक’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सन्तान, विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। वह स्वपरिश्रम से आमदनी तथा धर्म की उन्नति भी करता है। शत्रु-पक्ष में भी सफलता मिलती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से भाग्य की शक्ति में यथेष्ट वृद्धि होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में स्वराशि में स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। भाग्य तथा धर्म की उन्नति में कुछ कठिनाइयाँ तो आती हैं, परन्तु बाद में वे दूर भी हो जाती हैं।

सातवीं मित्त-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ तथा सुख भी मिलता रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक स्वविवेक द्वारा भाग्य की अत्यधिक उन्नति करता है तथा व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। स्त्री-पक्ष से अशान्ति मिलती है। व्यवसाय-पक्ष में कुछ कठिनाइयों साथ विशेष लाभ भी होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक प्रभाव तथा यश की वृद्धि होती है। कभी-कभी बीमारियाँ भी आ घरेती हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। भाग्योन्नति में बहुत बाधाएँ आती हैं तथा यश में भी कमी रहती है। शत्रु-पक्ष से भी अशान्ति मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ धन तथा कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है तथापि दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण बना रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में स्वराशि स्थित उच्च के ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है। शत्रु-पक्ष पर सफलता प्राप्त होती है तथा झगड़ों से लाभ होता है।

सातवीं नीचदृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण भाइयों से विरोध कहता है तथा भाई-बहिन के सुख में कमी आती है। पराक्रम भी शिथिल बना रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ, प्रतिष्ठा, सहयोग तथा यश की प्राप्ति होती है। शत्रु-पक्ष पर विजय तथा धनोपार्जन में सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है, परन्तु उन्नति के मार्ग में रुकावटें भी आती रहती हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है तथा शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है। विवेक तथा परिश्रम द्वारा भाग्य की विशेष उन्नति होती है। स्वार्थयुक्त धर्म का पालन भी होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान-पक्ष में कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलती है, परन्तु विद्या-बुद्धि की विशेष उन्नति होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मकरलग्न : द्वादशभाव : बुध




बारहवें भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु उसकी पूर्ति बिना किसी कठिनाई के होती रहती है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है। भाग्य-उन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं तथा यश की कमी रहती है।

सातवीं दृष्टि से स्वरशि में षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष से कुछ कठिनाई होती है, परन्तु भाग्य-बल से वह उन पर विजय भी पा लेता है।

‘मकर’ लग्न में ‘गुरु’

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मकरलग्न : प्रथमभाव : गुरु




पहले भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित नीच के ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल रहता है। भाई-बहिन के सुख में कमी आती है एवं पराक्रम भी अल्प रहता है। खर्च चलाने में कठिनाई होती है तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध भी असंतोषजनक रहता है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में दृष्टिपूर्ण सफलता मिलती है तथा सन्तान-पक्ष से सुख-दुःख दोनों ही मिलते हैं।

सातवीं उच्च-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवीं मित्त-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति में न्यूनाधिकता होती रहती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मकरलग्न : द्वितीयभाव : गुरु




दूसरे भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित व्ययेश गुरु के प्रभाव से जातक के धन-संग्रह में कमी आती है तथा कुटुम्ब से भी परेशानी रहती है। खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष में बुद्धिमानी से काम निकलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का कुछ लाभ मिलता है।

नवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलताएँ मिलती हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मकरलग्न : तृतीयभाव : गुरु




तीसरे भाव में स्वराशि-स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख मिलता है, परन्तु पुरुषार्थ में कमी आती है। खर्च ठीक से चलता है। बाहरी स्थानों से लाभ होता है। पाँचवीं उच्च तथा मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से सुन्दर स्त्री मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आते हैं।

नवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी श्रेष्ठ रहती है। ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन बिताता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मकरलग्न : चतुर्थभाव : गुरु




चौथे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन में सुख में तथा भाई-बहिन के सुख में भी कुछ कमी रहती है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कमी के साथ सफलता मिलती है।

नवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से वर-बँटे ही लाभ प्राप्त होता है।

'मकर' लग्न की कृण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

मकरलग्न : पंचमभाव : गुरु




पाँचवें भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से न्यूनधिक लाभ होता है तथा विद्या-बुद्धि के पक्ष में भी कुछ कमी रहती है। बुद्धि-बल से खर्च चलता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। भाई-बहिनों से सामान्य सुख मिलता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है।

पाँचवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य एवं धर्म की सामान्य वृद्धि होती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है। नवीं नीच-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है।

'मकर' लग्न की कृण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

मकरलग्न : षष्ठभाव : गुरु



छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से खर्च की शक्ति से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है। भाई-बहिनों से सामान्य विरोध रहता है तथा पराक्रम में कमी आती है।


पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

नवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि के लिए अत्यधिक परिश्रम करने पर भी कष्ट ही मिलता है।

'मकर' लग्न की कृण्डली के 'सप्तमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

मकरलग्न : सप्तमभाव : गुरु




सातवें भाव में मित्र 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित उच्च के 'गुरु' के प्रभाव से जातक को सुन्दर पत्नी मिलती है तथा स्त्री और व्यवसाय से सुख प्राप्त होता है। बाहरी सम्बन्धों से लाभ मिलता है तथा खर्च अधिक रहता है।

पाँचवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है। सातवीं नीच तथा शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कमी आती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मकरलग्न : अष्टमभाव : गुरु




आठवें भाव में मित्त ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व की कुछ हानि होती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ रहता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख में कुछ कमी रहती है। नवीं मित्त-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ दृष्टिपूर्ण सफलता प्राप्त होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मकरलग्न : नवमभाव : गुरु




नवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ में प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म के पक्ष में कमजोरी रहती है। बाहरी सम्बन्धों से कुछ लाभ होता है जिससे खर्च चलता रहता है। पाँचवीं नीच-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी रहती है। मन भी अशान्त रहता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से, भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में सामान्य वृद्धि होती है। नवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में स्व-विवेक-बुद्धि से सकलता मिलती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मकरलग्न : दशमभाव : गुरु




दसवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कमी रहती है। भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है, जिसके कारण खर्च अच्छी तरह चलता है। बाहरी स्थानों से लाभ होता रहता है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-संचय तथा कौटुम्बिक सुख में कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं मित्त-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता के सुख में कमी रहती है, परन्तु भूमि तथा भवन का सुख खर्च के बल पर मिलता है। नवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर बुद्धिमानी से प्रभाव स्थापित होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मकरलग्न : एकादशभाव : गुरु




ग्यारहवें भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है। बाहरी सम्बन्धों से भी लाभ होता है, अतः खर्च आराम से चलता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने में भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान-पक्ष में असन्तोष रहता है, परन्तु विद्या-बुद्धि की वृद्धि होती है। नवीं उच्च-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री का सुख मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मकरलग्न : द्वादशभाव : गुरु




बारहवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्धों से लाभ मिलता रहता है। भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में कमी रहती है। पाँचवीं मित्त-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सामान्य सुख मिलता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर युक्तिपूर्वक प्रभाव स्थापित होता है। नवीं मित्त-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ कुछ कमी के साथ होता है। परन्तु ऐसा व्यक्ति शानदार खर्च करता तथा समाज में प्रभावशाली बना रहता है।

‘मकर’ लग्न में ‘शुक्र’

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकरलग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में मित्त शनि की राशि-पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सन्तान से सुख मिलता है तथा विद्या-बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से पत्नी सुन्दर तथा योग्य मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होता रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकरलग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है। पिता, व्यवसाय तथा राज्य के क्षेत्रों से भी लाभ होता है, परन्तु सन्तान-पक्ष में कुछ कठिनाई रहती है।

सातवीं शतृ-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व में कुछ कमी आती है।

ऐसा व्यक्ति धनी और यशस्वी होता है परन्तु चिन्तित रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकरलग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में सामान्य मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है तथा भाई-बहिन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। विद्या एवं संतान का लाभ होता है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं नीच-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्योन्नति तथा धर्म-पालन में कुछ कमी रहती है तथा यश भी कम मिल पाता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकरलग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में सामान्य मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। बुद्धि बोग से आमदनी भी अच्छी रहती है।

सातवीं दृष्टि से स्वरशि में दशम भाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, सफलता, यश, लाभ तथा सम्मान की प्राप्ति होती है।

ऐसा व्यक्ति नीतिज्ञ, शीलवान, विचारशील तथा सुख-शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकर लग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को सन्तान तथा विद्या-बुद्धि का यथेष्ट लाभ होता है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्रों में भी सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति प्रातः हुकूमत-पसन्द तथा कायदे-कानून वाला होता है।

सातवीं शतृदृष्टि से नवम भाव को देखने से जातक की आमदनी यथेष्ट रहती है और वह निरन्तर उन्नति करता चला जाता।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकर लग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रखता है। पिता से कुछ मतभेद के साथ शक्ति प्राप्त होती है तथा राज्य से सम्मान मिलता है किन्तु सन्तान तथा विद्या-पक्ष दुर्बल रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से लाभ मिलता रहता है। ऐसा व्यक्ति दिमागी रूप से भी चिन्तित बना रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकर लग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को सुन्दर तथा सुयोग्य स्त्री मिलती है। पिता, राज्य, व्यवसाय, सन्तान तथा विद्या पक्ष से भी सुख मिलता है। घरेलू जीवन आनन्दपूर्ण रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है। राजकीय तथा सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी मिलती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकर लग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को पुरातत्त्व एवं आयु की शक्ति का लाभ होता है। पिता तथा सन्तान-पक्ष से कष्ट होता है एवं राज्य तथा विद्या का क्षेत्र तृट्पिपूर्ण रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर उन्नति करता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकर लग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित नीच के ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति तथा धर्म-पालन में बाधाएँ आती हैं। पिता, राज्य, व्यवसाय, सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में तृट्पिपूर्ण सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं उच्च तथा शत्रुदृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से तरक्की करता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकर लग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक सहयोग, सम्मान तथा लाभ की प्राप्ति होती है। सन्तान तथा विद्या-पक्ष भी प्रबल रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त होता है तथा धरलू जीवन उल्लासमय बना रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकर लग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती है तथा पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में स्थित पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि का भी श्रेष्ठ लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर तरक्की करता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मकर लग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बारहवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त होता रहता है। पिता पक्ष से हानि, सन्तान-पक्ष से कष्ट तथा विद्या-पक्ष में कमी रहती है। मानसिक चिन्ताएँ बनी रहती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में चतुराई से काम निकलता है। ऐसे व्यक्ति को उन्नति करने में कुछ विलम्ब लगता है।

‘मकर’ लग्न में ‘शनि’

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मकर लग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में स्वराशि-स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। वह स्वाभिमानी तथा यशस्वी भी होता है। तीसरी शत्रुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहनों से असन्तोष रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री से असन्तोष रहता है तथा व्यवसाय की वृद्धि के लिए प्रयत्न करता है। दसवीं उच्चदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता,

सहयोग, यश तथा सम्मान की प्राप्ति होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मकर लग्न : द्वितीयभाव : शनि




दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को धन-संचय एवं कौटुम्बिक सुख का यथेष्ट लाभ होता है। तीसरी नीच-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी रहती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की कुछ हानि होती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से एकादश भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी में वृद्धि होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मकर लग्न : तृतीयभाव : शनि




तीसरे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाई के साथ भाई-बहिन का सुख मिलता है तथा पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है। पुरुषार्थ के बल पर धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। तीसरी मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से कुछ कठिनाई के साथ लाभ मिलता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मकर लग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित नीच के ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। शारीरिक सौन्दर्य एवं धन-कुटुम्ब का सुख भी कम ही मिलता है। तीसरी मित्रदृष्टि के षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है तथा झगड़ों से लाभ होता है।

सातवीं उच्चदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथमभाव को देखने से

शरीर सुन्दर होता है तथा आत्मबल की अधिकता पाई जाती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मकर लग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है तथा धन-कुटुम्ब को हानि पहुँचती है। तीसरी उच्चदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने से धन-कुटुम्ब का अल्प सुख मिलता है। दसवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्मान-पक्ष की वृद्धि होती है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मकर लग्न : नवमभाव : शनि




नवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की पर्याप्त उन्नति होती है। शारीरिक प्रभाव, सम्मान तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। तीसरी शत्रुदृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं शत्रुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख में कमी आती है, परन्तु पराक्रम की वृद्धि होती है।

दसवीं मित्रदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से धन एवं शारीरिक शक्ति के बल से शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है तथा झगड़े के मामलों से लाभ होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मकर लग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक सुख, सहयोग, सम्मान एवं सफलता की प्राप्ति होती है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी यथेष्ट मिलता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से असन्तोष रहता है।

सातवीं नीचदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी आती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री-सुख में कुछ कमी तथा व्यवसाय-पक्ष में कुछ परेशानियाँ आती हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मकर लग्न : एकादशभाव : शनि




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, यश, प्रतिष्ठा, आत्मबल तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में भी यथेष्ट सफलता मिलती है। दसवीं शत्रुदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु के विषय में चिन्ता रहती है तथा पुरातत्त्व शक्ति का लाभ होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मकर लग्न : द्वादशभाव : शनि



बारहवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है। धन, कुटुम्ब तथा शारीरिक स्वास्थ्य के सुख में कमी आती है।


तीसरी दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने से धन-प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करना पड़ता है। सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा झगड़े के मामलों में विजय मिलती है।

दसवीं मित्रदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति धनी तथा भाग्यवान् होता है।

‘मकर’ लग्न में ‘राहु’

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मकर लग्न : प्रथमभाव : राहु




पहले भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है। कभी शरीर में चोट भी लगती है। कभी कोई विशेष रोग भी होता है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती, चतुर, सतर्क तथा युक्ति-बल से अपने प्रभाव की वृद्धि करने वाला होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मकर लग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक धन तथा कुटुम्ब के कारण चिन्तित रहता है तथा कष्ट भोगता है। कभी-कभी ऋण भी लेना पड़ता है। प्रकट रूप से वह धनी समझा जाता है, परन्तु यथार्थ में धन की कमी रहती है। बाद में गुप्त युक्तियों के बल पर वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ भी बना लेता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मकर लग्न : तृतीयभाव : राहु



तीसरे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों की ओर से कष्ट मिलता है, परन्तु पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है। भीतर से दुर्बलता अनुभव करने पर भी वह प्रकट रूप में बड़ा हिम्मती होता है तथा कठिनाइयों पर विजय पाता रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मकर लग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी रहती है। कभी मातृभूमि का त्याग भी करना पड़ता है। अन्त में वह गुप्त युक्तियों के बल पर सुख तथा प्रभाव की वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती तथा धैर्यवान् होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मकर लग्न : पंचमभाव : राहु




पाँचवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कष्ट होता है तथा विद्या ग्रहण करने में भी कठिनाई आती है। परन्तु उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है।

वह होशियार तथा गुप्त युक्तियों में प्रवीण होता है। अन्त में, सन्तान तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों में सफलता भी पा लेता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मकर लग्न : षष्ठभाव : राहु




छठे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अपना विशेष प्रभाव रखता है तथा झगड़ों के मामलों में सफलता प्राप्त करता है।

वह कूटनीतिज्ञ, विवेकी, तीव्र-बुद्धि तथा गुप्त युक्तियों का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः कभी बीमार नहीं होता।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मकर लग्न : सप्तमभाव : राहु



सातवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से महान् कष्ट होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। उसकी सूत्रेन्द्रिय में रोग भी होता है। वह अपनी गुप्त युक्तियों के बल से कठिनाइयों पर कुछ विजय भी पा लेता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मकर लग्न : अष्टमभाव : राहु



आठवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के जीवन पर बड़े संकट आते हैं तथा कभी-कभी मृत्यु-तुल्य कष्ट भी भोगना पड़ता है। पुरातत्त्व की हानि भी होती है। उदर अथवा गुदा-सम्बन्धी रोगों का शिकार बनना पड़ता है। वह अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर जैसे-तैसे जीवन-यापन करता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मकरलग्न : नवमभाव : राहु




नवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में निरन्तर बाधाएँ आती रहती हैं। कभी-कभी विशेष कठिनाइयों का शिकार भी बनता है। धर्म-पालन में भी कमी रहती है।

कठिन संघर्ष, परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर वह थोड़ी-बहुत उन्नति भी कर लेता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मकरलग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में विघ्नों वाधाओं का सामना करना पड़ता है। परन्तु वह अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर उन्हें दूर करता हुआ भाग्य को उन्नत बनाता है। यद्यपि उसे अनेक बार संकटों में घिर जाना पड़ता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मकरलग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम तथा गुप्त युक्ति-बल द्वारा विशेष लाभ प्राप्त करता है। कभी-कभी उसे बड़ी हानि भी उठानी पड़ती है तो कभी विशेष लाभ भी होता है। उसके जीवन में सुख-दुःख आते-जाते बने रहते हैं।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मकरलग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित नीच के ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को अपना खर्च चलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा वाहरी स्थानों के सम्बन्धों से भी कष्ट उठाने पड़ते हैं।

हिम्मती होने के कारण वह अपनी कठिनाइयों को प्रकट नहीं होने देता तथा उन्हें दूर करने को विशेष परिश्रम करता रहता है।

‘मकर’ लग्न में ‘केतु’

‘मकर’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

मकरलग्न : प्रथमभाव : केतु




पहले भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा कभी कोई बड़ी चोट लगने की संभावना भी रहती है।

ऐसा व्यक्ति उग्र तथा जिद्दी स्वभाव का होता है तथा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुप्त युक्तियों का आश्रय भी लेता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मकरलग्न : द्वितीयभाव : केतु



दूसरे भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के विषय में बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है, परन्तु वह हिम्मत तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर धन-सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है।

मकर' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

मकरलग्न : तृतीयभाव : केतु




११११

तीसरे भाव में शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों के पक्ष में परेशानी तथा संकटों का सामना करना पड़ता है, परन्तु पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है।

वह साहस, धैर्य, पुरुषार्थ तथा गुप्त युक्तियों के बल पर जीवन को प्रभावशाली बनाये रखने का प्रयत्न करता रहता है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

मकरलग्न : चतुर्थभाव : केतु




११११

चौथे भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी तथा माता के कारण ही कष्ट भी प्राप्त होता है। घरेलू जीवन कलहपूर्ण रहता है। मातृ-भूमि का त्याग भी करना पड़ता है। अन्त में, कठिन परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर उसे सुख के साधन प्राप्त करने में थोड़ी-बहुत सफलता मिल जाती है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'पंचमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

मकरलग्न : पंचमभाव : केतु




११११

पाँचवें भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को सन्तान तथा विद्या के क्षेत्र में कमी का शिकार होना पड़ता है। मस्तिष्क में गुप्त चिन्ताओं का निवास रहता है। परन्तु उसकी बुद्धि तीव्र होती है, अतः वह चतुराई से काम लेकर अपनी कठिनाइयों के निवारण का प्रयत्न करता है।

'मकर' लग्न की कुण्डली के 'षष्ठभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश

मकरलग्न : षष्ठभाव : केतु




११११

छठे भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को शत्रुओं के कारण कठिनाइयों में फँसना पड़ता है, परन्तु अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर वह उन पर विजय भी पा लेता है। झगड़े-झंझट के मामलों में उसे सफलता मिलती है। ननसाल-पक्ष को हानि पहुँचती है। घोर संकट आने पर भी वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मकरलग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। गृहस्थ-जीवन में परेशानियाँ आती हैं। अनेक प्रकार के व्यवसाय करने पर भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। अन्त, में वह अपनी गुप्त युक्तियों तथा कठोर परिश्रम के द्वारा उन पर यथोचित सफलता भी पा लेता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

मकरलग्न : अष्टमभाव : केतु




आठवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के जीवन पर अनेक बार संकट आते हैं और वह मृत्यु-तुल्य कष्ट पाता है। पेट में विकार रहता है।

अजीविका-उपार्जन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। भीतर से चिन्तित रहते हुए भी प्रकट में वह प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रायः उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मकरलग्न : नवमभाव : केतु



नवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु वह अपनी हिम्मत, परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के द्वारा उन पर विजय पाकर भाग्य की उन्नति तथा धर्म का पालन करता है। कभी-कभी उसे भाग्य-क्षेत्र में घोर संकटों का सामना करना पड़ता है, परन्तु अन्त में उनका निराकरण करने में सफल हो जाता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मकरलग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को पिता से कष्ट, राज्य से कठिनाइयाँ तथा व्यवसाय-क्षेत्र में संकटों का शिकार बनना पड़ता है, परन्तु अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर वह उन पर विजय पा लेता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण तथा परिवर्तनशील होता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मकरलग्न : एकादशभाव : केतु



ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। वह अपनी गुप्त युक्तियों, साहस एवं कठिन परिश्रम के बल पर आमदनी को निरन्तर बढ़ाता रहता है। आने वाली कठिनाइयों पर उसे विजय मिलती है। ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप में चिन्तित भी बना रहता है।

‘मकर’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मकरलग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अत्यधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से उसे लाभ मिलता है।

ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों का साहस के साथ सामना करता है तथा अन्त में उन पर विजय भी पा लेता है। वह बड़ा परिश्रमी, धैर्यवान्, गुप्त युक्तियों से काम लेने वाला तथा साहसी होता है।

‘कुम्भ’ लग्न



२२०५

[‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न ग्रहों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘कुम्भ’ लग्न का फलादेश

‘कुम्भ’ लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति लम्बे शरीर वाला, मोटी गरदन वाला, गंजे सिर वाला, तेजस्वी, वात-प्रकृति वाला तथा चंचल स्वभाव का होता है।

ऐसा व्यक्ति पानी अधिक पीता है। वह बातूनी, दम्भी, अहंकारी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, सुस्थिर तथा भ्रातृ-द्रोही होने के साथ ही श्रेष्ठ मनुष्यों से संयुक्त, सर्वप्रिय, सुन्दर पत्नी वाला तथा पर-स्त्रियों में आसक्त भी होता है।

‘कुम्भ’ लग्न का जातक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में दुःखी रहता है। मध्यमावस्था में सुखी रहता है तथा अन्तिम अवस्था में धन, भूमि, भवन, पुत्रादि के सुख का उपभोग करता है।

‘कुम्भ’ लग्न के जातक का भाग्योदय २४-२५ वर्ष की आयु में होता है।

‘कुम्भ’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या १२०६ से १३१३ के बीच देखना चाहिए ।

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए ।



‘कुम्भ’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१—‘कुम्भ’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२०६ से १२१७ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘कुम्भ’ लग्न वालों को अपनी गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १२०६
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १२०७
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १२०८
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १२०९
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १२१०
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १२११
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १२१२
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १२१३
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १२१४
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १२१५
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १२१६
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १२१७

‘कुम्भ’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१—‘कुम्भ’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित चन्द्रमा का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२१८ से १२२९ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘कन्या’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित

‘चन्द्रमा’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन ‘चन्द्रमा’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १२१८
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १२१६
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १२२०
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १२२१
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १२२२
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १२२३
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १२२४
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १२२५
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १२२६
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १२२७
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १२२८
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १२३६

‘कुम्भ’ लग्न में ‘मंगल’ का फलादेश

१—‘कुम्भ’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का अस्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२३० से १२४१ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘कुम्भ’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘मंगल’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १२३०
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १२३१
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १२३२
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १२३३
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १२३४
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १२३५
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १२३६
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १२३७
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १२३८
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १२३९
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १२४०
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १२४१

‘कुम्भ’ लग्न में ‘बुध’ का फलादेश

१—‘कुम्भ’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२४२ से १२५३ के बीच देखना चाहिए।

२—‘कुम्भ’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘बुध’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १२४२
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १२४३
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १२४४
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १२४५
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १२४६
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १२४७
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १२४८
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १२४९
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १२५०
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १२५१
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १२५२
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १२५३

‘कुम्भ’ लग्न में ‘गुरु’ का फलादेश

१—‘कुम्भ’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२५४ से १२६५ के बीच देखना चाहिए।

२—‘कुम्भ’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘गुरु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १२५४
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १२५५
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १२५६
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १२५७

- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १२५८
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२५९
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १२६०
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १२६१
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १२६२
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १२६३
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १२६४
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १२६५

'कुम्भ' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१—'कुम्भ' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२६६ से १२७७ के बीच देखना चाहिए ।

२—'कुम्भ' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'शुक्र' —

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १२६६
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १२६७
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १२६८
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १२६९
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १२७०
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२७१
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १२७२
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १२७३
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १२७४
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १२७५
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १२७६
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १२७७

'कुम्भ' लग्न में 'शनि' का फलादेश

१—'कुम्भ' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२७८ से १२८९ के बीच देखना चाहिए ।

२—'कुम्भ' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि'

का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'शनि'—

- (क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या १२७८
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १२७९
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १२८०
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १२८१
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १२८२
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२८३
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १२८४
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १२८५
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १२८६
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १२८७
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १२८८
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १२८९

'कुम्भ' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१—'कुम्भ' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १२९० से १३०१ के बीच देखना चाहिए ।

२—'कुम्भ' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'भेष' राशि पर हो तो संख्या १२९०
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १२९१
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १२९२
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १२९३
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १२९४
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १२९५
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १२९६
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १२९७
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १२९८
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १२९९
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १३००
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३०१

‘कुम्भ’ लगन में ‘केतु’ का फलादेश

१—‘कुम्भ’ लगन वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३०२ से १३१३ के बीच देखना चाहिए।

२—‘कुम्भ’ लगन वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘केतु’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १३०२
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १३०३
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १३०४
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १३०५
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १३०६
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १३०७
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १३०८
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १३०९
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १३१०
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १३११
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १३१२
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १३१३




‘कुम्भ’ लगन में ‘सूर्य’

‘कुम्भ’ लगन की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कुम्भलगन : प्रथमभाव : सूर्य


पहले भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी आती है, परन्तु प्रभाव एवं शक्ति की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव का तथा बहुत दौड़-धूप करने वाला है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में सप्तमभाव को देखने से स्त्री-पक्ष द्वारा विशेष सुख मिलता है तथा पुरुषार्थ द्वारा दैनिक आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता मिलती रहती है। गार्हस्थ्य जीवन आनन्दमय बना रहता है।



'कुम्भ' लग्न की कुण्डली के 'द्वितीयभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में मित्र 'गुरु' की राशि पर स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब-सुख की वृद्धि होती है, परन्तु स्त्री-पक्ष से किसी विशेष कमी का अनुभव होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है तथा दैनिक जीवन भी प्रभावशाली बना रहता है।

'कुम्भ' लग्न की कुण्डली के 'तृतीयभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

कुम्भ लग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित उच्च के 'सूर्य' के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का पर्याप्त सुख मिलता है तथा पराक्रम में भी अत्यधिक वृद्धि होती है। व्यवसाय द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है।

सातवीं नीच तथा शत्रुदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्योन्नति तथा धर्म-पालन में कमी आती है तथा सम्मान भी अधिक नहीं मिलता।

'कुम्भ' लग्न की कुण्डली के 'चतुर्थभाव' स्थित 'सूर्य' का फलादेश

कुम्भ लग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'सूर्य' के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कठिनाई के साथ मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी परेशानियाँ आती हैं।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय द्वारा सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होती है तथा प्रतिष्ठा भी बढ़ती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : पंचमभाव : सूर्य




पाँचवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। स्त्री तथा व्यवसाय से भी सुख मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादशभाव को देखने से बुद्धियोग द्वारा आमदनी अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी तथा प्रभावशाली होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठे भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर विजय पाता है तथा झगड़ों के मामलों से लाभ उठाता है। व्यवसाय में कुछ कठिनाई के साथ सफलता मिलती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में स्वराशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को स्त्री का पर्याप्त सुख मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। समुराल से लाभ होता है तथा गृहस्थ जीवन सुखमय बना रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी रहती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व-शक्ति में वृद्धि होती है। स्त्री-पक्ष से परेशानी तथा व्यवसाय में कठिनाइयाँ भी रहती हैं। बाहरी सम्बन्धों से कुछ लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से कठिन परिश्रम द्वारा धन का संचय होता है तथा कौटुम्बिक सुख भी प्राप्त होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश]

कुम्भ लग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित नीच के ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म में कुछ कमी आती है। स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में भी कठिनाइयाँ रहती हैं। वह स्वार्थ-सिद्धि के लिए उचित-अनुचित का विचार भी नहीं करता।

सातवीं मित्र तथा उच्च-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, पराक्रमी तथा धैर्यवान् होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : दशमभाव : सूर्य




दसवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय-पक्ष से लाभ होता है। स्त्री-पक्ष से भी श्रेष्ठ शक्ति मिलती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने माता, भूमि एवं भवन के सुख में कमी रहती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को व्यवसाय द्वारा अच्छी आमदनी होती है तथा स्त्री-पक्ष से विशेष लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के पक्ष में भी विशेष उन्नति होती है तथा सुख मिलता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को खर्च अधिक रहने के कारण कठिनाई उठानी पड़ती है। बाहरी संबंधों से लाभ तथा स्थानीय व्यवसाय से हानि की प्राप्ति होती है। स्त्री-सुख में भी बहुत कमी आती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़े के मामलों से लाभ होता है

‘कुम्भ’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : प्रथमभाव : चन्द्र




पहले भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक का शरीर अस्वस्थ तथा मन चिन्तित रहता है, परन्तु वह शत्रुओं पर प्रभाव डालने तथा झगड़ों में विजय पाने में सफल रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री से कुछ मतभेद रहता है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी चिन्ताएँ तथा कठिनाइयाँ बनी रहती हैं।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र




दूसरे भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक परिश्रमपूर्वक धन का संचय करता है तथा कौटुम्बिक सुख की वृद्धि भी होती है। शत्रु-पक्ष से परेशानी रहने पर भी झगड़े के मामलों से लाभ उठाता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के सम्बन्ध में कुछ परेशानी रहती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : तृतीयभाव : चन्द्र




तीसरे भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक के मनोबल तथा पराक्रम में वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से कुछ मतभेद भी रहता है।

सातवीं सामान्य मित्तदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्योन्नति तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के बाद वृद्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र




चौथे भाव में सामान्य मित्त ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित उच्च के चन्द्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़े के मामलों से लाभ भी उठाता है।

सातवीं मित्त तथा नीचदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : पंचमभाव : चन्द्र




पाँचवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है तथा शत्रु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी की वृद्धि होती है तथा गुप्त युक्तियों के बल पर लाभ उठाता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : षष्ठभाव : चन्द्र




छठे भाव में स्वराशि-स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव रखता है तथा झगड़े के मामलों में सफलता भी प्राप्त करता है, परन्तु मन में चिन्ताएँ भी रहती हैं।

सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च में कठिनाई रहती है तथा बाहरी सम्बन्धों से भी परेशानी मिलती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : सप्तमभाव : चन्द्र




सातवें भाव में मित्र 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'चन्द्रमा' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष में रोग आदि की परेशानी रहती है। व्यवसाय-क्षेत्र में कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलती है। शत्रु-पक्ष पर भी प्रभाव रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शरीर रोगों एवं चिन्ताओं का शिकार रहता है। फिर भी मनोबल में वृद्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भलग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व पक्ष में कठिनाई आती है। शत्रु-पक्ष पर भी बड़ी कठिनाइयों के बाद प्रभाव स्थापित होता है। हर समय चिन्ताएँ लगी रहती हैं। ननसाल-पक्ष कमजोर होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि के लिए जातक को विशेष परिश्रम करना पड़ता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भलग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवें भाव में सामान्य मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से भाग्य एवं धर्म की उन्नति में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा यश में भी कमी रहती है। शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़ों से लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु पराक्रम की विशेष वृद्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भलग्न : दशमभाव : चन्द्र




दसवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित नीच के ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। शत्रु-पक्ष से भी बहुत परेशानी रहती है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सामान्य जातक को सुख प्राप्त होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भलग्न : एकादशभाव : चन्द्र




ग्यारहवें भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक अपने मनोबल एवं शारीरिक परिश्रम द्वारा आमदनी को बढ़ाता है। शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रखता है तथा झगड़ों से लाभ उठाता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-बुद्धि का यथेष्ट लाभ होता है एवं परन्तु सन्तान-पक्ष से कुछ चिन्ता बनी रहती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

कुम्भलग्न : द्वादशभाव : चन्द्र




बारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को अपना खर्च चलाने में कठिनाई रहती है। बाहरी सम्बन्धों से भी परेशानी होती है। शत्रु-पक्ष से मानसिक चिन्ताएँ रहती हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विनम्र तरीके से प्रभाव स्थापित करता है तथा सफलता पाता है।

‘कुम्भ’ लग्न में ‘मंगल’

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भलग्न : प्रथमभाव : मंगल




पहले भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम की वृद्धि भी होती है। चौथी सामान्य मित्त-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है।

आठवीं मित्त-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष से सुख मिलता है। सातवीं मित्त-दृष्टि से अष्ट मभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भलग्न : द्वितीयभाव : मंगल




दूसरे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ धन तथा कुटुम्ब का सुख मिलता है। भाई-बहिन एवं पिता के सुख में भी कुछ कमी रहती है। चौथी मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-बुद्धि एवं सन्तान के पक्ष से सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। आठवीं सामान्य मित्रदृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य एवं धर्म की विशेष उन्नति होती है तथा यश का लाभ भी होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भलग्न : तृतीयभाव : मंगल




तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है। चौथी नीच-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष से कष्ट रहता है तथा ननसाल-पक्ष की हानि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भलग्न : चतुर्थभाव : मंगल




चौथे भाव में सामान्य मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को कुछ कमी के साथ माता, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है। चौथी मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होती है। आठवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : पंचमभाव : मंगल




पाँचवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान का श्रेष्ठ सुख मिलता है। भाई-बहिन तथा पिता से भी सुख प्राप्त होता है। राज्य तथा व्यवसाय-क्षेत्र से लाभ होता है। चौथी मित्तदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब रहती है। आठवीं उच्चदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी अच्छा मिलता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : षष्ठभाव : मंगल




छठे भाव में मित्त ‘चन्द्रना’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक कुछ कठिनाइयों के साथ शत्रु-पक्ष पर सफलता प्राप्त करता है। भाई-बहिन तथा पिता से कुछ मनमुटाव रहता है। राज्य-क्षेत्र में भी कम प्रभाव रहता है। चौथी शत्रुदृष्टि से नवम भाव को देखने से कठिन परिश्रम द्वारा भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है। आठवीं शत्रुदृष्टि के प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है, परन्तु प्रभाव में वृद्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : सप्तमभाव : मंगल




सातवें भाव में मित्त ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। भाई-बहिन की शक्ति भी प्राप्त होती है। चौथी दृष्टि से स्वरशि में दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय क द्वारा लाभ होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी रहती है, परन्तु प्रभाव एवं सम्मान की वृद्धि होती है। आठवीं मित्तदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : अष्टमभाव : मंगल




१२३७

आठवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति का लाभ होता है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में भी कमी आती है। चौथी मित्तदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख प्राप्त होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : नवमभाव : मंगल




१२३८

नवें भाव में सामान्य मित्त 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है और उसे पिता, राज्य तथा व्यवसाय से भी सुख प्राप्त होता है। चौथी उच्चदृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ मिलता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख मिलता है। आठवीं सामान्य मित्तदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : दशमभाव : मंगल




१२३९

दसवें भाव में स्वराशि-स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है। चौथी शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है, परन्तु मान-प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में वृद्धि होती है।

सातवीं सामान्य मित्तदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता के सुख में सामान्य कमी रहती है तथा भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। आठवीं मित्तदृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष की वृद्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : एकादशभाव : मंगल




२२४०

ग्यारहवें भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक की आमदनी बहुत अच्छी रहती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। धन खूब कमाता है, भाई-बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। चौथी मित्रदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन का संचय अच्छा होता है तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ होता है। आठवीं नीचदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष से परेशानी रहती है तथा ननसाल-पक्ष भी कमजोर रहता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वादशभाव : मंगल



२२४२


बारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से यथेष्ट लाभ होता है। राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है। वह परदेश में रहकर उन्नति करता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में तृतीयभाव को देखने से भाई-बहनों के सुख तथा पराक्रम की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र तथा नीचदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष में कमजोरी रहती है तथा ननसाल-पक्ष भी कमजोर रहता है। आठवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री से सुख मिलता है तथा व्यवसाय में भी सफलता मिलती है।

‘कुम्भ’ लग्न में ‘बुध’

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : प्रथमभाव : बुध




२२४२

पहले भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है, परन्तु आयु, पुरातत्त्व एवं सन्तान-पक्ष का लाभ होता है। प्रभाव तथा सम्मान में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ स्त्री-पक्ष से सुख तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित नीच के ‘बुध’ के प्रभाव से जातक धन-संचय नहीं कर पाता तथा कुटुम्ब से भी विरोध रहता है। विद्या तथा सन्तान-पक्ष कमजोर रहता है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव में देखने से आयु की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परन्तु पुरातत्त्व का लाभ अधूरा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने विवेक तथा विद्या-बुद्धि के बल से लाभ एवं सम्मान प्राप्त करता रहता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों से कष्ट मिलता है तथा सन्तान से परेशानी रहती है। पराक्रम, विद्या तथा बुद्धि का कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति को सफलता पाने के लिए हर-क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भलग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है तथा माता के सुख में कमी रहती है। सन्तान-पक्ष से सुख मिलता है तथा विद्या, आयु एवं पुरातत्त्व की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता के कारण कुछ परेशानी होती है, परन्तु राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भलग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सन्तान-पक्ष से सुख मिलता है तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ होता है। वह बुद्धिमान्, विवेकी तथा वाणी का धनी होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से विवेक-बुद्धि द्वारा आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलताएँ मिलती हैं।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कुम्भलग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष से अशान्ति मिलती है तथा विवेक-बुद्धि द्वारा झगड़े के मामलों में सफलता प्राप्त हो पाती है। विद्या, सन्तान, आयु तथा पुरातत्त्व के पक्ष भी कमजोर रहते हैं। परेशानियाँ भी उठानी पड़ती हैं।

सातवीं मित्त-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भलग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में मित्त ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को कुछ कठिनाइयों के बाद स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष में सफलता मिलती है। विद्या-बुद्धि, आयु तथा पुरातत्त्व शक्ति का भी लाभ होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से कुछ शारीरिक परेशानियाँ तो रहती हैं, परन्तु प्रभाव एवं सम्मान की वृद्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भलग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में स्वराशि-स्थित उच्च के 'बुध' के प्रभाव से जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का विशेष लाभ होता है। दैनिक जीवन प्रभावशाली रहता है। विवेक तथा वाणी की प्रचुर शक्ति मिलती है, परन्तु विद्या एवं सन्तान-पक्ष में कुछ कमी रहती है।

सातवीं नीचदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-संचय तथा कौटुम्बिक सुख में कठिनाइयाँ आती हैं।


‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भलग्न : नवमभाव : बुध



‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक की आमदनी खूब होती है। आयु तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है। दैनिक जीवन सुख एवं आनन्दपूर्ण रहता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचम भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वादशभाव : बुध




बारहवें भाव में मित्त ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से कुछ लाभ भी मिलता है। आयु तथा पुरातत्त्व शक्ति की हानि होती है। सन्तान तथा विद्या-पक्ष में भी कुछ कमी रहती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से षष्ठभावा को देखने से शत्रु-पक्ष में नम्रता से काम निकालता है तथा विवेक-बुद्धि से सफलता प्राप्त करता है।

‘कुम्भ’ लग्न में ‘गुरु’

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : प्रथमभाव : गुरु




पहले भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को शारीरिक शक्ति, सम्मान तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है।

पाँचवीं मित्तदृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। सातवीं मित्तदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय-पक्ष की उन्नति होती है। नवीं शत्रुदृष्टि से

नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति भी होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वितीयभाव : गुरु




दूसरे भाव में स्वराशि-स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है। पाँचवीं मित्त तथा उच्च-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है। जगड़े के मामलों से लाभ मिलता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। नवीं मित्तदृष्टि से दशम भाव को देखने से राज्य, पिता, व्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : तृतीयभाव : गुरु




तीसरे भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा धन एवं कौटुम्बिक सुख का पर्याप्त लाभ होता है। पाँचवीं मित्तदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री सुन्दर मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय में लाभ होता रहता है। ससुराल से भी लाभ होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से नवम भाव को देखने से कुछ रुकावटों के साथ भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने से आमदनी बहुत अच्छी रहती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : चतुर्थभाव : गुरु




चौथे भाव में सामान्य शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कमी रहती है, परन्तु माता से लाभ भी होता है। भूमि तथा भवन का अच्छा सुख मिलता है। धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है। पाँचवीं मित्तदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। नवीं नीचदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से उसका खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से भी परेशानी होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : पंचमभाव : गुरु




२२५६

पाँचवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का यथेष्ट लाभ होता है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी पर्याप्त मिलता है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से नवम भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादशभाव को देखने से धन की आमदनी अच्छी रहती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक प्रभाव में वृद्धि होती है तथा यश, मान एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : षष्ठभाव : गुरु




२२५६

छठे भाव में मित्त ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर बहुत प्रभाव रखता है तथा झगड़ों से लाभ उठाता है। ननसाल-पक्ष उन्नत होता है। कुटुम्ब से कुछ झंझट रहता है तथा धन-संचय में भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। पाँचवीं मित्तदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय से पर्याप्त लाभ होता है।

सातवीं नीचदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक होता है तथा बाहरी सम्बन्धों से परेशानी रहती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीयभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : सप्तमभाव : गुरु




२२५६

सातवें भाव में मित्त ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है तथा स्त्री-पक्ष से धन एवं सुख की प्राप्ति होती है। व्यवसाय से खूब लाभ होता है। धन तथा कुटुम्ब का सुख बना रहता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब रहती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक मीन्द्रय में कुछ कमी रहती है, परन्तु सम्मान एवं प्रभाव की वृद्धि होती है। नवीं मित्तदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिन के सुख में भी वृद्धि होती है।

'कुम्भ' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कुम्भ लग्न : अष्टमभाव : गुरु




आठवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। संचित धन की हानि तथा कौटुम्बिक सुख में कमी का योग भी बनता है। पाँचवीं नीच तथा शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव गुरु को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से परेशानी रहती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने से विशेष परिश्रम द्वारा धन की वृद्धि होती है तथा कुटुम्ब का सुख मिलता है। नवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता के सुख में कमी आती है तथा भूमि एवं भवन का भी सामान्य सुख ही मिलता है।

'कुम्भ' लग्न की कुण्डली में 'नवमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कुम्भ लग्न : नवमभाव : गुरु




नवें भाव में शत्रु 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक के भाग्य की विशेष वृद्धि होती है तथा धर्म का पालन भी होता है। कुटुम्ब तथा धन का सुख भी पर्याप्त मिलता है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक प्रभाव की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम की वृद्धि होती है। नवीं मित्रदृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि एवं सन्तान का श्रेष्ठ लाभ होता है।

'कुम्भ' लग्न की कुण्डली में 'दशमभाव' स्थित 'गुरु' का फलादेश

कुम्भ लग्न : दशमभाव : गुरु




दसवें भाव में मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 'गुरु' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में यथेष्ट सफलताएँ मिलती हैं। वह ठाठ का जीवन बिताता है तथा भाग्यशाली माना जाता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है। सातवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का यथेष्ट सुख मिलता है। नवीं उच्चदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर अत्यन्त प्रभाव रहता है तथा झगड़े के

मामलों से लाभ होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : एकादशभाव : गुरु




ग्यारहवें भाव में स्वराशि में स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि होती है। कभी-कभी आकस्मिक लाभ भी होता है। पाँचवीं मित्तदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान तथा विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। नवीं मित्तदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री का पूर्ण सुख तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में

पर्याप्त सफलता की उपलब्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वादशभाव : गुरु



बारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से परेशानी रहती है। संचित धन नष्ट हो जाता है। कुटुम्ब में भी अशान्ति रहती है। पाँचवीं शत्रुदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है।


सातवीं उच्चदृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है तथा झगड़ों से

लाभ होता है। नवीं मित्तदृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व शक्ति की वृद्धि होती है।

‘कुम्भ’ लग्न में ‘शुक्र’

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में मित्त ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को शारीरिक सुख, सौन्दर्य तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है। माता, भूमि, भवन का सुख मिलता है तथा भाग्य एवं धर्म का पक्ष भी प्रबल बना रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से तो सुख मिलता है परन्तु व्यवसाय-पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में सामान्य मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित उच्च के शुक्र के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का विशेष सुख मिलता है। माता, भूमि तथा भवन के सुख का भी अत्यधिक लाभ होता है। वह बड़ा धनी, यशस्वी तथा प्रतिष्ठित होता है।

सातवीं मित्त तथा नीचदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति में कुछ कमी आती है तथा दैनिक जीवन में भी कुछ चिन्ताएँ बनी रहती हैं।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में सामान्य मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को देखने से भाग्य की अत्यधिक उन्नति होती है तथा धर्म का भी यथाविधि पालन होता है।

ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, धनी, सुखी तथा धर्मात्मा होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में स्वराशि स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। भाग्य तथा धर्म की उन्नति भी होती रहती है।

सातवीं सामान्य मित्तदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति सुखी तथा भाग्यवान् होता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कुम्भलग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। उसे नाता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है तथा भाग्य की निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से चतुराई के बल पर लाभ खूब होता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कुम्भलग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर सफलता पाता है तथा झगड़ों से लाभ उठाता है। माता के सुख में कमी आती है। मातृभूमि से दूर भी रहना पड़ सकता है। भूमि, भवन, भाग्य तथा धर्म का पक्ष भी दुर्बल रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से उसे सफलता मिलती है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कुम्भलग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कुछ असंतोष युक्त सुख मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने पर सफलता मिलती है। माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख मिलता है। धर्म तथा भाग्य की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, सुख, सम्मान तथा प्रभाव की वृद्धि होती है।

'कुंभ' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कुम्भलग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित नीच के शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में अशान्ति रहती है। आयु तथा पुरातत्त्व के सुख नें कमी आती है। भूमि, भवन तथा माता के सुख में भी बड़ी कमजोरी रहती है।

सातवीं उच्च तथा सामान्य मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की परिश्रम द्वारा उन्नति होती है।

'कुंभ' लग्न की कुण्डली में 'नवमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कुम्भलग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में स्वराशि स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक के भाग्य की अत्यधिक वृद्धि होती है तथा धर्म का पालन भी यथाविधि होता है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी पर्याप्त मिलता है।

सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से परात्रम में वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भी श्रेष्ठ रहता है।

'कुंभ' लग्न की कुण्डली में 'दशमभाव' स्थित 'शुक्र' का फलादेश

कुम्भलग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में सामान्य मित्र 'मंगल' की राशि पर स्थित 'शुक्र' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं मिलती हैं। वह धर्मात्मा, यशस्वी तथा प्रतिष्ठित भी होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कुम्भलग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में सामान्य मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक की आम-दनी में यथेष्ट वृद्धि होती है। वह धनी, न्यायी, चतुर, धार्मिक तथा यशस्वी भी होता है एवं माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख भी मिलता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान-पक्ष से भी सुख मिलता है तथा विद्या-बुद्धि की अच्छी उन्नति होती है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

कुम्भलग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बारहवें भाव में मित्त ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से लाभ भी मिलता है। धर्म का पालन भी करता है। अल्पायु में ही माता-पिता का वियोग हो जाता है। यश में भी कमी रहती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से अपनी चतुराई के बल से शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है तथा झगड़ों से लाभ होता है।

‘कुम्भ’ लग्न में ‘शनि’

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में स्वराशि-स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। वह यशस्वी तथा ऐश्वर्यशाली जीवन बिताने वाला होता है। तीसरी नीच-दृष्टि से तृतीय भाव से देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से असन्तोष रहता है तथा दैनिक व्यवसाय में परेशानी रहती है।

दसवीं शत्रु-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ बनी रहती हैं।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश.

कुम्भलग्न : द्वितीयभाव : शनि




दूसरे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को धन-संचय के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु धन तथा कुटुम्ब के सुख में कमी आती है। खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों से प्रतिष्ठा मिलती है। शारीरिक सौन्दर्य में कमी रहती है। तीसरी मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है, पर घरेलू सुख में कुछ कमी रहती है।

सातवीं शिव-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से एकदश भाव को देखने से आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न : तृतीयभाव : शनि




तीसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमी आती है तथा भाई-बहिनों से कष्ट मिलता है। शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में भी कमी रहती है। तीसरी मित्र-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-वृद्धि एवं सन्तान के सुख में वृद्धि होती है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्च की परेशानी रहती है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ मिलता रहता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का अपूर्व सुख मिलता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से अपनी शारीरिक शक्ति एवं बाहरी सुरक्षा के कारण शत्रु-पक्ष से रक्षा प्राप्त होती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में परेशानी रहती है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न : पंचमभाव : शनि




पाँचवें भाव में मित्त 'बुध' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि एवं सन्तान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति चिन्ता-युक्त रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ भी उठाता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकदश भाव को देखने से आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं। दसवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से घन तथा कुटुम्ब के बारे में चिन्तित रहना पड़ता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न : षष्ठभाव : शनि




छठे भाव में शत्रु 'चन्द्रमा' की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक परिश्रम द्वारा अपने प्रभाव की वृद्धि करता है तथा शत्रुओं पर विजय पाता है। शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी रहती है। तीसरी मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व शक्ति की वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। दसवीं नीचदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न : सप्तमभाव : शनि




सातवें भाव में शत्रु 'सूर्य' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से परेशानी रहती है तथा व्यवसाय में कठिनाइयाँ आती हैं। खर्च अधिक रहता है। तीसरी उच्च तथा मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, यश, सम्मान तथा प्रभाव की वृद्धि होती है। दसवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है, परन्तु पुरातत्त्व की कुछ हानि होती है। शरीर तथा खर्च के विषय में कठिनाइयाँ आती हैं। बाहरी स्थानों से भी लाभ होता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता से वैमनस्य रहता है तथा राज्य एवं व्यवसाय-क्षेत्र की उन्नति में बाधाएँ आती हैं।

मातृवीं शत्रु-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख वृद्धि-पूर्ण रहता है। दसवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से सन्तान-पक्ष से सुख मिलता है तथा विद्या-बुद्धि का कुछ कमी के साथ लाभ होता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुंभलग्न : नवमभाव : शनि




नवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित उच्च के शनि के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की यथेष्ट उन्नति होती है। शरीर सुन्दर तथा स्वस्थ रहता है। बाहरी सम्बन्धों से लाभ मिलता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। कर्मा-कभी आकस्मिक लाभ होता है।

सातवीं नीच दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से असंतोष रहता है तथा दैनिक आमदनी में कठिनाइयाँ आती हैं।

‘कुम्भ’ लग्न की कुंडली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न: एकादशभाव: शनि




ग्यारवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। खर्च खूब रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ भी मिलता है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव तथा यश की वृद्धि होती है। सातवीं मित्र-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से विद्या-बुद्धि की पर्याप्त वृद्धि होती है तथा सन्तान-पक्ष का कुछ दृष्टिपूर्ण लाभ होता है।

दसवीं मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन से खर्च पूर्ण रहता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

कुम्भलग्न: द्वादशभाव: शनि




बारहवें भाव में स्वराशि स्थित शनि के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से विशेष लाभ होता है। यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। तीसरी शत्रु-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष से कुछ परेशानी रहती है, परन्तु बाद में उस पर प्रभाव स्थापित होता है। दसवीं मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से धर्म का पालन होता है तथा भाग्य की वृद्धि होती रहती है।

‘कुम्भ’ लग्न में ‘राहु’

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कुम्भलग्न: प्रथमभाव: राहु



पहले भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के शरीर में कहीं चोट लगती है तथा स्वस्थ्य एवं सौन्दर्य में कमी रहती है। वह गुप्त चिन्ताओं से ग्रस्त रहता है, परन्तु मस्तिष्क की शक्ति से प्रभाव भी स्थापित करता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कुम्भलग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब के सुख में कमी आती है। कभी-कभी घोर आर्थिक संकटों का शिकार भी बनना पड़ता है। बाद में वह अपनी गुप्त युक्तियों तथा परिश्रम के बल पर धन-संचय करता है तथा धनी एवं भाग्यवान समझा जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती होता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कुम्भलग्न : तृतीयभाव : राहु




तीसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से विरोध रहता है।

ऐसा व्यक्ति अपनी चतुराई तथा गुप्त युक्तियों के बल पर सफलता एवं सुख के साधन प्राप्त करता है और समाज में सम्मानपूर्ण स्थान बनाता है।

‘कुम्भ’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कुम्भलग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को माता-पक्ष से बहुत कष्ट होता है। घरेलू जीवन अशान्तिपूर्ण रहता है। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी आती है। परन्तु अनेक संघर्षों से जूझने के बाद वह पर्याप्त सफलता भी प्राप्त करता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कुम्भ लग्न : अष्टमभाव : राहु



आठवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के जीवन पर अनेक संकट आते हैं तथा पुरातत्त्व की हानि भी होती है। पेट के निम्न भाग में विकार रहता है, फिर भी वह लम्बी आयु पाता है तथा स्वविवेक एवं बुद्धि के बल पर जीवन को प्रभावशाली ढंग से व्यतीत करता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कुम्भ लग्न : नवमभाव : राहु



नवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में बाधाएँ आती हैं तथा धर्म का पालन भी यथोचित नहीं होता, परन्तु अन्त में अपने बुद्धि-चातुर्य के बल पर वह सभी कठिनाइयों पर विजय पाकर उन्नति करता है तथा अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं होने देता।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कुम्भ लग्न : दशमभाव : राहु



दसवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को पिता से कष्ट, राज्य में परेशानी तथा व्यवसाय में हानि का शिकार होना पड़ता है। परन्तु वह अपने परिश्रम तथा युक्ति-बल द्वारा कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अन्त में सफलता भी पा लेता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


कुम्भ लग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित नीच के ‘राहु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु वह अपने युक्ति-बल से उन पर थोड़ी-बहुत विजय पा लेता है और अपनी कठिनाइयों को किसी पर प्रकट भी नहीं होने देता ।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को खर्च के बारे में बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से उसे कुछ लाभ भी होता है। अपना खर्च चलाने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है ।

‘कुम्भ’ लग्न में ‘केतु’

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कुम्भ लग्न : प्रथमभाव : केतु



पहले भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के शरीर में कहीं चोट या घाव का निशान बनता है तथा शारीरिक सौन्दर्य में कमी आती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती, धैर्यवान्, गुण-युक्ति-सम्पन्न तथा परिश्रमी होता है और इन्हीं गुणों के आधार पर सम्मान भी प्राप्त करता है ।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कुम्भ लग्न : द्वितीयभाव : केतु



दूसरे भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब के सुख के विषय में कष्ट उठाना पड़ता है। कुटुम्ब में नित-नये उपद्रव होते रहते हैं। वह बड़े धैर्य, परिश्रम तथा न्याय-मार्ग से धन कमाने का प्रयत्न करता है और अन्त में कुछ सफलता भी पा लेता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : तृतीयभाव : केतु




तीसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख में कमी आती है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती, धैर्यवान्, परिश्रमी, उद्योगी तथा गुप्त युक्तियों वाला होता है तथा इन्हीं गुणों के बल पर अन्त में जीवन को उन्नत भी बनाता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कुम्भ लग्न : चतुर्थभाव : केतु



चौथे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को माता के सुख में हानि या कमी रहती है। मातृभूमि से वियोग भी होता है। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी आती है। परन्तु बाद में वह अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर इन कमियों को दूर करने में थोड़ी-बहुत सफलता पा लेता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : पंचमभाव : केतु




पाँचवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को सन्तान का सुख पाने के लिए कष्ट-साध्य प्रयत्नों तथा गुप्त युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी अल्प सुख ही प्राप्त होता है।

विद्याध्ययन के क्षेत्र में भी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। मस्तिष्क में अशान्ति रहती है तथा शील एवं विवेक भी कम होता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : षष्ठभाव : केतु




छठे भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को शत्रुओं द्वारा अशान्ति मिलती है, परन्तु वह उन पर अपना प्रभाव स्थापित करने तथा विजय पाने में भी सफल हो जाता है।

ऐसा व्यक्ति मन में भयभीत रहने पर भी प्रकट रूप में बड़ा हिम्मती तथा बहादुर होता है। वह धैर्यवान्, कठोर परिश्रमी तथा गुप्त युक्तियों का जानकार होता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


कुम्भ लग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से विशेष कष्ट मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में संकटों का सामना करना पड़ता है। उसकी जननेन्द्रिय में विकार भी होता है। अन्त में, वह अपने परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के बल पर सामान्य सफलताएँ भी पा लेता है।

'कुम्भ' लग्न की कुण्डली में 'अष्टमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


कुम्भ लग्न : अष्टमभाव : केतु



आठवें भाव में मित्र 'बुध' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि तो होती है, परन्तु कई बार उसे मृत्यु-तुल्य कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। पुरातत्त्व का सामान्य लाभ होता है तथा कई बार हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं। अन्त में वह अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर कठिनाइयों को दूर करने में सफल भी हो जाता है।

'कुम्भ' लग्न की कुण्डली में 'नवमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


कुम्भ लग्न : नवमभाव : केतु



दसवें भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति में बाधाएँ आती हैं, धर्म की भी विशेष उन्नति नहीं हो पाती। परन्तु वह अपनी गुप्त युक्तियों, धैर्य एवं परिश्रम के बल पर भाग्य की उन्नति करता है और लगातार असफलताएँ मिलने पर भी कभी निराश नहीं होता।

'कुम्भ' लग्न की कुण्डली में 'दशमभाव' स्थित 'केतु' का फलादेश


कुम्भ लग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 'केतु' के प्रभाव से जातक को अपने पिता से बहुत कष्ट मिलता है, राज्य से परेशानी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में हानि होती है, फिर भी वह अपने धैर्य, साहस तथा युक्ति-बल से असफलताओं पर विजय प्राप्त करके ही रहता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : एकादशभाव : केतु




ग्यारहवें भाव में सामान्य मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है तथा कभी-कभी आकस्मिक रूप से भी धन लाभ होता है। कभी कठिनाइयाँ आने पर भी वैयर्थ नहीं छोड़ता।

ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा न्याय-मार्ग से अत्यधिक धन कमाता और सुखी रहता है।

‘कुंभ’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

कुम्भ लग्न : द्वादशभाव : केतु



बारहवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, जिसके कारण परेशानी का अनुभव होता है, परन्तु वह अपनी गुप्त युक्तियों से उन पर विजय पाता है तथा निराशाओं में डूब जाने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारता। उसे बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता रहता है।


रूपया कमनि के 1001 विभिन्न चान्स

(1001 स्माल, काटेज एवं टिनी इन्डस्ट्रीज)

□ पृष्ठ 1200 □ ले०—वी०के० अग्रवाल, इन्डस्ट्रियल कन्सल्टेंट □ मू. 60/-

इस पुस्तक को बड़ी मेहनत के साथ लिखा गया है। इसमें 1001 स्कीम टिनी, काटेज तथा लघु उद्योगों पर दी गई हैं, प्रत्येक स्कीम में वह प्रारम्भिक विवरण है जो प्रत्येक उद्योगकर्ता, उद्यमी (Entrepreneur) या किसी अन्य व्यक्ति जो नया उद्योग लगाना चाहता है या चालू उद्योग में तबदीली करना है, के लिए आवश्यक है। यह प्रारम्भिक विवरण है—उत्पादक की मार्केट स्थिति, लागत, मुनाफा, मशीनें तथा कच्चा माल की स्थिति, बनाने की विधि आदि। इस पुस्तक में लगभग सभी क्षेत्रों को लिया गया है जैसे कार्बनिक व अकार्बनिक कॅमीकल्स, डाई एवं डाई इन्टरमीडियट, ड्रग एवं फार्मासिटिकल्स, फूड, रबर, प्लास्टिक तथा अन्य एलाइड (Allied), मिर्कैनिकल, इलैक्ट्रिकल, पेपर, सोप एवं डिटरजेंट, पेन्ट व वानिश, आयल एवं फैट्स, एग्री वेस्ट प्रोडक्ट्स इत्यादि।

‘मीन’ लग्न



[‘मीन’ लग्न की कुण्डलियों के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों के फलादेश का पृथक्-पृथक् वर्णन]

‘मीन’ लग्न का फलादेश

‘मीन’ लग्न में जन्म लेने वाला जातक सामान्य कद का, बड़ी आँखों वाला तथा बड़े मस्तिष्क वाला होता है। उसकी ठोड़ी में गड्ढा होता है।

ऐसा व्यक्ति मित प्रकृति वाला, सतो गुणी, प्रचण्ड, विनम्र, चतुर, चंचल, धूर्त, आलसी, रोगी, अल्पभोजी, श्रेष्ठ पण्डित, यशस्वी, सुरतिवान्, स्त्री-प्रिय, जल-श्रीड़ा करने में कुशल, बहु-सन्ततिवान् तथा श्रेष्ठ रत्नाभूषणों को धारण करने वाला होता है।

‘मीन’ लग्न वाले जातक की प्रारम्भिक अवस्था सामान्य ढंग से व्यतीत होती है, मध्यमावस्था में वह दुःखी रहता है तथा अन्तिम अवस्था में सुख भोगता है।

‘मीन’ लग्न वाले जातक का भाग्योदय २१-२२ वर्ष की आयु में होता है।

‘मीन’ लग्न वालों को अपनी जन्म-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों का स्थायी फलादेश आगे दी गई उदाहरण-कुण्डली संख्या १३१५ से १४२२ के बीच देखना चाहिए।

गोचर-कुण्डली के ग्रहों का फलादेश किन उदाहरण-कुण्डलियों में देखें, इसे आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।



‘मीन’ लग्न में ‘सूर्य’ का फलादेश

१—‘मीन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३१५ से १३२६ के बीच देखना चाहिए।

२—‘मीन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘सूर्य’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘सूर्य’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १३१५
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १३१६
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १३१७
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १३१८
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १३१९
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १३२०
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १३२१
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १३२२
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १३२३
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १३२४
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १३२५
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १३२६

‘मीन’ लग्न में ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

१—‘मीन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘चन्द्रमा’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३२७ से १३३८ के बीच देखना चाहिए।

२—‘मीन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित

‘चन्द्रमा’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस दिन ‘चन्द्रमा’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १३२७
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १३२८
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १३२९
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १३३०
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १३३१
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १३३२
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १३३३
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १३३४
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १३३५
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १३३६
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १३३७
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १३३८

‘मीन’ लग्न में ‘मंगल’ का फलादेश

१—‘मीन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का स्थायी फलादेश संख्या उदाहरण-कुण्डली १३३९ से १३५० के बीच देखना चाहिए ।

२—‘मीन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘मंगल’—

- (क) ‘मेष’ राशि पर हो तो संख्या १३३९
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १३४०
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १३४१
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १३४२
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १३४३
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १३४४
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १३४५
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १३४६
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १३४७
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १३४८
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १३४९
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १३५०

‘मीन’ लग्न में ‘बुध’ का फलादेश

१—‘मीन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘बुध’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३५१ से १३६२ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘मीन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘मंगल’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में ‘बुध’—

- (क) ‘मेघ’ राशि पर हो तो संख्या १३५१
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १३५२
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १३५३
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १३५४
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १३५५
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १३५६
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १३५७
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १३५८
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १३५९
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १३६०
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १३६१
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १३६२

‘मीन’ लग्न में ‘गुरु’ का फलादेश

१—‘मीन’ लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३६३ से १३७४ के बीच देखना चाहिए ।

२—‘मीन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘गुरु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘गुरु’—

- (क) ‘मेघ’ राशि पर हो तो संख्या १३६३
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १३६४
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १३६५
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १३६६
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १३६७

- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३६८
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १३६९
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १३७०
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १३७१
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १३७२
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १३७३
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३७४

'मीन' लग्न में 'शुक्र' का फलादेश

१—'मीन' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३७५ से १३८६ के बीच देखना चाहिए ।

२—'मीन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शुक्र' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस महीने में 'शुक्र'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १३७५
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १३७६
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १३७७
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १३७८
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १३७९
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३८०
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १३८१
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १३८२
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १३८३
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १३८४
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १३८५
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३८६

'मीन' लग्न में 'शनि' का फलादेश

१. 'मीन' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३८७ से १३९८ के बीच देखना चाहिए ।

२. 'मीन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'शनि'

का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए !

जिस वर्ष में 'शनि'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १३८७
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १३८८
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १३८९
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १३९०
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १३९१
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १३९२
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १३९३
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १३९४
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १३९५
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १३९६
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १३९७
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १३९८

'मीन' लग्न में 'राहु' का फलादेश

१. 'मीन' लग्न वालों को अपनी जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित 'राहु' का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १३९९ से १४१० के बीच देखना चाहिए ।

२. 'मीन' लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भागों में स्थित 'राहु' का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में 'राहु'—

- (क) 'मेष' राशि पर हो तो संख्या १४९९
- (ख) 'वृष' राशि पर हो तो संख्या १४००
- (ग) 'मिथुन' राशि पर हो तो संख्या १४०१
- (घ) 'कर्क' राशि पर हो तो संख्या १४०२
- (ङ) 'सिंह' राशि पर हो तो संख्या १४०३
- (च) 'कन्या' राशि पर हो तो संख्या १४०४
- (छ) 'तुला' राशि पर हो तो संख्या १४०५
- (ज) 'वृश्चिक' राशि पर हो तो संख्या १४०६
- (झ) 'धनु' राशि पर हो तो संख्या १४०७
- (ञ) 'मकर' राशि पर हो तो संख्या १४०८
- (ट) 'कुम्भ' राशि पर हो तो संख्या १४०९
- (ठ) 'मीन' राशि पर हो तो संख्या १४१०

‘मीन’ लग्न में ‘केतु’ का फलादेश

१. ‘मीन’ लग्न वालों को अपनी जन्म-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का स्थायी फलादेश उदाहरण-कुण्डली संख्या १४११ से १४१२ के बीच देखना चाहिए।

२. ‘मीन’ लग्न वालों को गोचर-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ‘केतु’ का अस्थायी फलादेश निम्नलिखित उदाहरण-कुण्डलियों में देखना चाहिए—

जिस वर्ष में ‘केतु’—


- (क) ‘मेघ’ राशि पर हो तो संख्या १४११
- (ख) ‘वृष’ राशि पर हो तो संख्या १४१२
- (ग) ‘मिथुन’ राशि पर हो तो संख्या १४१३
- (घ) ‘कर्क’ राशि पर हो तो संख्या १४१४
- (ङ) ‘सिंह’ राशि पर हो तो संख्या १४१५
- (च) ‘कन्या’ राशि पर हो तो संख्या १४१६
- (छ) ‘तुला’ राशि पर हो तो संख्या १४१७
- (ज) ‘वृश्चिक’ राशि पर हो तो संख्या १४१८
- (झ) ‘धनु’ राशि पर हो तो संख्या १४१९
- (ञ) ‘मकर’ राशि पर हो तो संख्या १४२०
- (ट) ‘कुम्भ’ राशि पर हो तो संख्या १४२१
- (ठ) ‘मीन’ राशि पर हो तो संख्या १४२२



‘मीन’ लग्न में ‘सूर्य’

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : प्रथमभाव : सूर्य




पहले भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि होती है, परन्तु रक्त-विकार तथा अन्य रोग होने की संभावना भी रहती है। शत्रु-पक्ष पर विजय पाने तथा अपना सम्मान बढ़ाने के लिए उसे विशेष दौड़धूप करनी पड़ती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से सप्तमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के बाद स्त्री का सुख मिलता है तथा दैनिक आमदनी के लिए भी अधिक परिश्रम करना पड़ता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वितीयभाव : सूर्य




दूसरे भाव में ‘मंगल’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के प्रभाव एवं धन में वृद्धि होती है तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है।

सातवीं नीच तथा शत्रु-दृष्टि से अष्टमभाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व के पक्ष में कुछ कमी आती है तथा दैनिक जीवन में भी परेशानियाँ रहती हैं।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : तृतीयभाव : सूर्य




तीसरे भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम की विशेष वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों से कुछ वैमनस्य रहता रहता है। शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से शारीरिक श्रम द्वारा भाग्य की उन्नति तो होती है, परन्तु धर्म की उन्नति नहीं हो पाती। जीवन सामान्य ढंग से बीतता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : चतुर्थभाव : सूर्य




चौथे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के सुख तथा प्रभाव में वृद्धि होती है, परन्तु माता, भूमि एवं भवन के सुख में कुछ कमी और परेशानियाँ भी रहती हैं।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, शत्रु एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, यश प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की वृद्धि होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : पंचमभाव : सूर्य




पांचवें भाव में मित्त ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष से कुछ कष्ट होता है, परन्तु कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या-बुद्धि एवं वाणी की शक्ति में वृद्धि होती है। मस्तिष्क में चिन्ता एवं क्रोध का निवास भी रहता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से लाभ के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु परिश्रम द्वारा सफलता भी मिलती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : षष्ठभाव : सूर्य




छठे भाव में स्वराशि-स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर विजय पाता है तथा अगड़े-अंजटों से लाभ उठाता है। उसे रोग आदि भी नहीं होते। वह बड़ा हिम्मती, धैर्यवान् पथा परिश्रमी होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने में खर्च की परेशानी रहती है तथा बाहरी सम्बन्धों से भी कुछ कष्ट होता है। खर्च की अधिकता में मन अशान्त रहता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : सप्तमभाव : सूर्य




सातवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक का स्त्री-पक्ष से कुछ वैमनस्य रहता है तथा दैनिक व्यवसाय में अधिक दौड़-धूप करने से ही सफलता मिलती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से प्रभाव तथा सम्मान की वृद्धि होती है. परन्तु शारीरिक परेशानियाँ भी रहती हैं।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : अष्टमभाव : सूर्य




आठवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित नीच के ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक की आयु पर घोर संकट आते हैं तथा पुरातत्त्व-शक्ति को भी हानि होती है। शत्रु-पक्ष से भी कष्ट मिलता है। ननसाल-पक्ष दुर्बल रहता है। पेट के निम्न भाग में विकार भी होता है।

सातवीं मित्र तथा उच्च-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कौटुम्बिक सुख की वृद्धि के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : नवमभाव : सूर्य




नवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म को वृद्धि होती है। शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है तथा प्रभाव बढ़ता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से भाई-बहिनों से कुछ विरोध रहता है तथा कुछ कठिनाइयों के साथ पराक्रम, प्रभाव तथा पुरुषार्थ की वृद्धि होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : नवमभाव : सूर्य




दसवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक का अपने पिता से कुछ वैमनस्य रहता है राज्य के क्षेत्र में प्रभाव तथा सम्मान की वृद्धि होती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : एकादशभाव : सूर्य




ग्यारहवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम द्वारा अपनी आमदनी को खूब बढ़ाता है। शत्रु-पक्ष पर भी विजय मिलती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से पंचमभाव को देखने से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या-बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘सूर्य’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वादशभाव : सूर्य




बारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘सूर्य’ के प्रभाव से जातक को खर्च चलाने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा बाहरी सम्बन्धों से भी परेशानी रहती है। शत्रु-पक्ष भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है।

सातवीं दृष्टि से स्त्रराशि में षष्ठभाव को देखने से खर्च के बल पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी तथा क्रोधी भी होता है।

‘मीन’ लग्न में ‘चन्द्रमा’

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : प्रथमभाव : चन्द्र




पहले भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य, सम्मान तथा यश की वृद्धि होती है। वह मधुरभाषी, सर्वप्रिय तथा प्रभावशाली होता है। उसे सन्तान तथा विद्या-बुद्धि का भी श्रेष्ठ लाभ होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से सुन्दर स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में बुद्धि-बल से अच्छा लाभ होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वितीयभाव : चन्द्र




दूसरे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब की श्रेष्ठ शक्ति मिलती है। सन्तान-पक्ष से कुछ परेशानी होती है, फिर भी सन्तान तथा विद्या-बुद्धि का अच्छा लाभ होता है।

सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है तथा दैनिक जीवन आनन्दमय बना रहता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : तृतीयभाव : चन्द्र




तीसरे भाव में सामान्य मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई-बहिनों के सुख में वृद्धि होती है तथा विद्या एवं सन्तान-पक्ष का भी पूर्ण सहयोग मिलता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति में रुकावटें आती हैं। ऐसा व्यक्ति असहिष्णु होता है, अतः उसे यश भी कम मिलता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : चतुर्थभाव : चन्द्र




चौथे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को मन्त्रा, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। विद्या तथा सन्तान पक्ष में भी उन्नति होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से दशम भाव को देखने से बुद्धि-बल से व्यवसाय में उन्नति होती है तथा राज्य-पक्ष से सम्मान तथा पिता के सहयोग प्राप्त होता है। उसकी अनेक प्रकार से उन्नति होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : पंचमभाव : चन्द्र




पाँचवें भाव में स्वराशि में स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से विद्या, बुद्धि एवं सन्तान का यथेष्ट लाभ होता है। वह वाक्पटु तथा मीठे स्वभाव का, गंभीर, दूरदर्शी तथा स्थिर विचारों का व्यक्ति होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से एकादशभाव को देखने से बुद्धि-बल द्वारा उसकी आमदनी की वृद्धि होती है, यद्यपि उसे कुछ असन्तोष भी रहता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : षष्ठभाव : चन्द्र




छठे भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष से अशान्ति रहती है, तथा बुद्धि-बल से उन पर प्रभाव स्थापित हो पाता है। सन्तान-पक्ष से कष्ट होता है तथा विद्याध्ययन में कठिनाइयाँ आती हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादशभाव को देखने से खर्च अधिक रहने के कारण कष्ट होता है तथा बाहरी स्थानों से भी असन्तोषजनक लाभ होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : सप्तमभाव : चन्द्र




सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को सुन्दर तथा बुद्धिमती स्त्री मिलती है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। सन्तान-पक्ष, घरेलू सुख तथा विद्या-बुद्धि की भी उन्नति होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, सम्मान एवं योग्यता की वृद्धि होती है।

‘मीन’ लग्न की कुंडली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : अष्टमभाव : चन्द्र




आठवें भाव में सामान्य मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। विद्या एवं सन्तान-पक्ष में कमी रहती है। मन तथा मस्तिष्क अशान्त रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव के देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन बिताता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : नवमभाव : चन्द्र




नवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित नीच के ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति तथा धर्म पालन में रुकावटें आती हैं। सन्तान तथा विद्या का पक्ष भी कमजोर रहता है। मन-मस्तिष्क में परेशानियाँ रहती हैं।

सातवीं उच्च-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में पर्याप्त वृद्धि होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : दशमभाव : चन्द्र




दसवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में वांछित सफलताएँ प्राप्त होती हैं। वह विद्वान्, नियमों का पालक, बुद्धिमान् तथा संतति-वान भी होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति धनी तथा भाग्यशाली होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : एकादशभाव : चन्द्र




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक अपने बुद्धि-बल द्वारा आमदनी में पर्याप्त वृद्धि करता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में पंचमभाव को देखने से सन्तान एवं विद्या-बुद्धि-पक्ष की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील बना रहता है। वह स्वार्थी तथा अपनी ही उन्नति की कामना करने वाला होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वादशभाव : चन्द्र




बारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘चन्द्रमा’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों से लाभ भी मिलता है। सन्तान-पक्ष से कष्ट तथा विद्या के क्षेत्र में कमी का सामना करना पड़ता है। मन-मस्तिष्क में परेशानी भी रहती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से बुद्धि-बल से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है।

‘मीन’ लग्न में मंगल

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : प्रथमभाव : मंगल




पहले भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक की शारीरिक शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। धन, कुटुम्ब तथा भाग्य की भी समृद्धि होती है। चौथी मित्र-दृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का पर्याप्त सुख मिलता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से व्यवसाय तथा घरेलू सुख की वृद्धि होती है तथा स्त्री का पक्ष उत्तम रहता है। आठवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वितीयभाव : मंगल




दूसरे भाव में स्वरशि-स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुम्ब की वृद्धि होती है। चौथी नीच-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या एवं सन्तान के क्षेत्र में कुछ कमी रहती है।

सातवीं सामान्य मित्त-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है।

आठवीं दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति का रहन-सहन ठाठ-बाट का होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीनलग्न : तृतीयभाव : मंगल




तीसरे भाव में सामान्य मित्त ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम की विशेष वृद्धि होती है तथा धन-कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। चौथी मित्त-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर भी प्रभाव स्थापित होता है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है।

आठवीं मित्त-दृष्टि से दशमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति धनी, यशस्वी, सुखी, धर्मात्मा तथा शत्रुजयी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘चन्द्रमा’ का फलादेश

मीनलग्न : चतुर्थभाव : मंगल




चौथे भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। चौथी मित्त-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री भाग्यशाली मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय एवं घरेलू-सुख की वृद्धि होती होती है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से नवमभाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। आठवीं शत्रु तथा उच्च-दृष्टि से एक-

दश भाव को देखने से घर बैठे ही लाभ होता रहता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ही धनी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘पंचमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीन लग्न : पंचमभाव : मंगल




पाँचवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित नीच के ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक का मन्तान तथा विद्या का पक्ष दुर्बल रहता है। धन तथा कुटुम्ब के सुख तथा भाग्य एवं धर्म के पक्ष में भी कमी रहती है। चौथी सामान्य मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में कुछ वृद्धि होती है।

सातवीं उच्चदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी में वृद्धि होती है। बारहवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से असंतोषपूर्ण लाभ होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीन लग्न : षष्ठभाव : मंगल




छठे भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर बहुत प्रभाव रखता है। धन की कुछ कमी रहते हुए भी ठाठ से खर्च चलाता है। कुटुम्ब से थोड़ा सुख मिलता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को देखने भाग्य की उन्नति तथा धर्म का पालन होता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्ध भी असंतोषजनक रहते हैं। आठवीं मित्रदृष्टि से प्रथम

भाव को देखने से शारीरिक शक्ति, प्रभाव एवं सम्मान की वृद्धि होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीन लग्न : सप्तमभाव : मंगल




सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक को भाग्यशालिनी स्त्री मिलती है तथा व्यवसाय में भी लाभ होता है। वह धर्मात्मा तथा भाग्यवान् भी रहता है। चौथी मित्रदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। आमदनी खूब बढ़ती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, यश, प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान

की वृद्धि होती है। आठवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का पर्याप्त सुख मिलता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीन लग्न : अष्टमभाव : मंगल




आठवें भाव में सामान्य मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है, किन्तु भाग्य, धर्म तथा यश में कमी आती है। चौथी शत्रु तथा उच्चदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी अच्छी रहती है तथा अधिक मुनाफा उठाने की प्रवृत्ति बनती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने से परिश्रम द्वारा धन का संचय होता है तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। आठवीं शत्रुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी रहती है, परन्तु पराक्रम बढ़ता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीन लग्न : नवमभाव : मंगल




नवें भाव में स्वराशि-स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। वह भाग्यशाली, धनी तथा यशस्वी होता है। चौथी शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च की कठिनाई रहती है तथा बाहरी संबंधों से भी असन्तोष रहता है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से कुछ कमी के साथ भाई-बहिनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है।

आठवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थभाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख पर्याप्त मिलता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीन लग्न : दशमभाव : मंगल




दसवें भाव में मित्र 'गुरु' की राशि पर स्थित 'मंगल' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी सफलताएँ मिलती हैं। धन तथा कुटुम्ब का सुख भी मिलता है। चौथी मित्रदृष्टि से प्रथमभाव को देखने से शारीरिक शक्ति, प्रभाव, यश, स्वाभिमान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख मिलता है। पाँचवीं नीचदृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-पक्ष में कुछ कमी रहती है तथा वाणी में रूखापन झलकता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीन लग्न : एकादशभाव : मंगल




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। वह बड़ा भाग्यशाली तथा धर्मात्मा भी होता है। चौथी दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होती है।

सातवीं नीच तथा मित्रदृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या तथा सन्तान के पक्ष में कुछ कमी रहती है। आठवीं मित्रदृष्टि से षष्ठभाव को देखने

से शत्रु-पक्ष पर विजय मिलती है तथा झगड़ों से लाभ होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘द्वादशभाव’ में स्थित ‘मंगल’ का फलादेश

मीन लग्न : द्वादशभाव : मंगल




बारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘मंगल’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से लाभ होता है। धन तथा कुटुम्ब के सुख में भी कमी रहती है। भाग्य तथा धर्म की उन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं। चौथी शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी रहती है, परन्तु पराक्रम में विशेष वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रुदृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। आठवीं मित्रदृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय से सुख एवं लाभ की प्राप्ति होती है।

‘मीन’ लग्न में ‘बुध’

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : प्रथमभाव : बुध




पहले भाव में मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी थोड़ा ही मिलता है।

सातवीं उच्च दृष्टि से स्वराशि में सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से सुख मिलता है तथा व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : द्वितीयभाव : बुध




दूसरे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है। माता तथा स्त्री के सुख में कुछ कमी रहती है, परन्तु भूमि एवं भवन का लाभ होता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व का लाभ होता है। दैनिक जीवन भी उल्लासपूर्ण बना रहता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : तृतीयभाव : बुध




तीसरे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का अच्छा सुख मिलता है। माता, भूमि, भवन, स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सुख-सफलता की प्राप्ति होती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति यश भी प्राप्त करता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : चतुर्थभाव : बुध




चौथे भाव में स्वराशि स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का विशेष सुख मिलता है। स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के पक्ष में भी सफलता मिलती है। घरेलू जीवन उल्लासपूर्ण रहता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा भाग्यशाली होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : पंचमभाव : बुध




पाँचवें भाव में मित्र ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा सन्तान के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। वह मीठी वाणी बोलने वाला तथा कार्य-कुशल होता है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है।

सातवीं मित्रदृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, विवेकी तथा यशस्वी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : षष्ठभाव : बुध




छठे भाव में मित्र ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष में शान्ति से काम निकालता है। माता तथा स्त्री से कुछ विरोध रहता है। भूमि तथा भवन का सुख भी कम ही मिलता है। व्यवसाय-क्षेत्र में बुद्धि-बल से सफलता मिलती है।

सातवीं मित्रदृष्टि से द्वादश भाव को देखने से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी संबंधों से लाभ होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : सप्तमभाव : बुध




सातवें भाव में स्वराशि स्थित उच्च के ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है, तथा दैनिक व्यवसाय में सफलता मिलती है घरेलू जीवन अच्छा रहता है। माता, भूमि तथा भवन का श्रेष्ठ सुख भी मिलता है।

सातवीं नीच तथा मित्रदृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है तथा गृहस्थी को चलाने में परिश्रम अधिक करना पड़ता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : अष्टमभाव : बुध




आठवें भाव में मित्त ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व शक्ति में वृद्धि होती है। दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण रहता है। स्त्री के सुख में अधिक तथा माता के सुख में सामान्य कमी रहती है।

सातवीं मित्तदृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः सुखी जीवन बिताता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : नवमभाव : बुध




नवें भाव में मित्त ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। माता, भूमि, भवन, स्त्री तथा व्यवसाय का भी श्रेष्ठ सुख मिलता है।

सातवीं मित्तदृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, प्रनी, पराक्रमी तथा यशस्वी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीन लग्न : दशमभाव : बुध




दसवें भाव में मित्त ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, प्रतिष्ठा तथा लाभ की प्राप्ति होती है। स्त्री-पक्ष से भी सुख मिलता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि, भवन तथा घरेलू सुख की भी यथेष्ट प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धनी, यशस्वी तथा सुखी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीनलग्न : एकादशभाव : बुध




ग्यारहवें भाव में मित्त ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। माता, भूमि, भवन, स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएँ मिलती हैं।

सातवीं मित्त-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-बुद्धि एवं सन्तान-पक्ष की विशेष उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान्, मधुर-भाषी, धनी, सुखी तथा यशस्वी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘बुध’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वादशभाव : बुध




बारहवें भाव में मित्त ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘बुध’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। माता, भूमि, भवन, घरेलू सुख, स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से षष्ठभाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान् तथा हिम्मत वाला होता है।

‘मीन’ लग्न में ‘गुरु’

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : प्रथमभाव : गुरु




पहले भाव में स्वराशि स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। उसे पिता, राज्य तथा व्यवसाय के पक्ष में भी सफलताएँ मिलती हैं। वह बड़ा धनी तथा व्यवसायी होता है। पाँचवीं उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-बुद्धि तथा सन्तान का यथेष्ट लाभ होता है।

सातवीं मित्त-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री सुन्दर मिलती है तथा दैनिक व्यवसाय की वृद्धि होती है। नवीं मित्त-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वितीयभाव : गुरु




दूसरे भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक के धन तथा कौटुम्बिक सुख की पर्याप्त वृद्धि होती है, परन्तु शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमी आती है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से धन की शक्ति से शत्रु-पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है तथा झगड़े के मामलों में धैर्य से काम लेकर सफलता पाता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि हांती है। नवीं दृष्टि से स्वराशि में दशम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में यथेष्ट सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी तथा यशस्वी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : तृतीयभाव : गुरु




तीसरे भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों का सुख कुछ मतभेद के साथ प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। पिता से भी सामान्य मतभेद रहता है, परन्तु राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होती है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री-पक्ष से सुख मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में सफलता मिलती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से नवमभाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है। नवीं नीच-दृष्टि से शत्रु राशि में एकादश भाव को देखने से आमदनी के मार्ग में रुकावटें आती हैं।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : चतुर्थभाव : गुरु




चौथे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, यश तथा धरेलू सुख की वृद्धि होती है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु एवं पुरातत्त्व की वृद्धि होती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में दशमभाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। नवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च के कारण परेशानी रहती है तथा बाहरी स्थानों से भी असन्तोषजनक सम्बन्ध रहते हैं।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : पंचमभाव : गुरु




पाँचवें भाव में मित्त ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को सन्तान, विद्या-बुद्धि तथा वाणी का श्रेष्ठ लाभ होता है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय-पक्ष में भी सफलताएँ मिलती हैं। पाँचवीं मित्त-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति होती है।

सातवीं नीच-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी के भाग में कठिनाइयाँ आती हैं। नवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथमभाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा तथा स्वास्थ्य की वृद्धि होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : षष्ठभाव : गुरु




छठे भाव में मित्त ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर प्रभावशाली रहता है, परन्तु शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएँ मिलती हैं। वह अपने शारीरिक परिश्रम के बल पर उन्नति करता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव से देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से असंतोष होता है। नवीं मित्त-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : सप्तमभाव : गुरु




सातवें भाव में मित्त ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक को सुन्दर स्त्री मिलती है तथा स्त्री एवं दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में सुख सफलता की प्राप्ति होती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्रों की उन्नति होती है। पाँचवीं नीच-तथा शत्रु-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी कम रहती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, यश, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की वृद्धि होती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है तथा कुछ असन्तोष के साथ भाई-बहिनों का सुख मिलता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : अष्टमभाव : गुरु




आठवें भाव में शत्रु ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व-शक्ति में वृद्धि होती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। शारीरिक मौन्दर्य तथा स्वास्थ्य में भी कमी रहती है। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन-कुटुम्ब की वृद्धि होती है। नवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख भी प्राप्त होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘नवमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : नवमभाव : गुरु




नवें भाव में मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होती है। राज्य, पिता एवं व्यवसाय-पक्ष से भी लाभ होता है। पाँचवीं दृष्टि से स्वराशि में प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, प्रभाव, यश तथा स्वाभिमान की वृद्धि होती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीयभाव को देखने से पराक्रम की वृद्धि होती है तथा भाई-बहिनों का सुख मिलता है। नवीं उच्च तथा मित्र-दृष्टि से पंचम भाव

को देखने से विद्या, बुद्धि तथा सन्तान-पक्ष से यथेष्ट सुख का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति वाणी का धनी तथा कलात्मक रुचि वाला होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘दशमभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : दशमभाव : गुरु




दसवें भाव में स्वराशि-स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय-के क्षेत्र में यथेष्ट सफलताओं तथा लाभ की प्राप्ति होती है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से द्वितीयभाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब के सुख की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। नवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव रहता है तथा झगड़ों में विजय मिलती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी पराक्रमी शून्नी, हकगत करने वाला तथा यशस्वी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘एकादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : एकादशभाव : गुरु




ग्यारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में बहुत कमी आती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी हानि होती है। भाग्योन्नति में रुकावटें आती हैं। पाँचवीं शत्रु-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम की अल्प वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिनों के सुख में कमी आती है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के सुख में उन्नति होती है।

नवीं मित्र-दृष्टि से सप्तमभाव को देखने से स्त्री सुन्दर मिलती है तथा उससे सुख-सहयोग मिलता है। दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘गुरु’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वादशभाव : गुरु



बारहवें भाव में शत्रु ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘गुरु’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से भी असन्तोष होता है। शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, पिता, राज्य तथा व्यवसाय के सुख तथा लाभ में भी कमी रहती है। पाँचवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होता है।


सातवीं मित्र-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु पक्ष में सफलता मिलती है। नवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टम-

भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है परन्तु दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण बना रहता है।

‘मीन’ लग्न में ‘शुक्र’

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : प्रथमभाव : शुक्र




पहले भाव में सामान्य मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। आयु भी लम्बी होती है। भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व शक्ति का लाभ होता है। दैनिक जीवन आनन्दमय बना रहता है।

सातवीं मित्र तथा नीच-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री के सुख में कमी आती है, गृहस्थ जीवन असन्तोषपूर्ण रहता है तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वितीयभाव : शुक्र




दूसरे भाव में सामान्य मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक पुरुषार्थ द्वारा धन-वृद्धि का प्रयत्न करता है, परंतु पूर्ण सफलता नहीं मिलती। कुटुम्ब के सुख में भी कुछ कमी रहती है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव को देखने से आयु की वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व-शक्ति का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी समझदारी से रईसी ढंग का जीवन बिताता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : तृतीयभाव : शुक्र




तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को भाई-बहिनों की शक्ति तो मिलती है, परन्तु उनसे कुछ परेशानी भी रहती है। पराक्रम की वृद्धि होती है। जातक को आयु तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति में कुछ रुकावटें आती हैं, परन्तु वह अपने परिश्रम के बल पर पर्याप्त सुखी तथा समृद्ध जीवन बिताता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली में ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : चतुर्थभाव : शुक्र




चौथे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है, परन्तु आयु एवं पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। पराक्रम बढ़ता है तथा भाई-बहिनों का सुख भी मिलता है।

सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से नवम भाव को देखने से पिता, राज्य एवं व्यवसाय के द्वारा सुख, सहयोग सम्मान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परन्तु लाभ में कुछ कमी रहती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : पंचमभाव : शुक्र




पाँचवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को विद्या-बुद्धि तथा सन्तान-पक्ष का यथेष्ट सुख मिलता है। भाई-बहिनों की शक्ति भी मिलती है। आयु तथा पराक्रम की वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से एकादश भाव को देखने से आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती रहती है। वह धन के बल पर अपना प्रत्येक कार्य पूरा करता रहता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : षष्ठभाव : शुक्र




छठे भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को शत्रु-पक्ष से कठिनाइयाँ मिलती हैं, परन्तु अपनी चतुराई द्वारा वह उन पर विजय पा लेता है। भाई-बहिनों से कष्ट होता है तथा पराक्रम, पुरातत्त्व एवं आयु में कमी आती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त होती रहती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : सप्तमभाव : शुक्र




सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित नीच के ‘शुक्र’ के प्रभाव से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियाँ आती हैं तथा भाई-बहिनों का सुख एवं पराक्रम भी कमजोर रहता है। आयु एवं पुरातत्त्व में भी कमी आती है।

सातवीं उच्च-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति, स्वाभिमान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : अष्टमभाव : शुक्र




आठवें भाव में स्वराशि-स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का लाभ होता है। दैनिक जीवन प्रभावपूर्ण रहता है। भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कुछ कमी आती है। ऐसा व्यक्ति लापरवाह किस्म का होता है।

सातवीं सामान्य मित्र-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन की वृद्धि होती है, परन्तु कुटुम्ब से परेशानी रहती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : नवमभाव : शुक्र




नवें भाव में सामान्य मित्र ‘मंगल’ की राशि पर स्थित अष्टमेश ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की वृद्धि में रुकावटें आती हैं, परन्तु जीवन आनन्दमय बना रहता है। आयु तथा पुरातत्त्व का श्रेष्ठ लाभ होता है।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है, परन्तु पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : दशमभाव : शुक्र




दसवें भाव में सामान्य मित्र ‘गुरु’ की राशि पर स्थित अष्टमेश ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक को पिता के सुख में कुछ कमी रहती है तथा राज्य एवं व्यवसाय पक्ष में भी वृद्धिपूर्ण सफलता मिलती है। आयु एवं पुरातत्त्व की शक्ति में वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी चतुराई के बल पर उन्नति करता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : एकादशभाव : शुक्र




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक कुछ कठिनाइयों के साथ अपनी आमदनी में अत्यधिक वृद्धि करता है। आयु, पुरातत्त्व शक्ति तथा पराक्रम की भी विशेष वृद्धि होती है। भाई-बहिनों के सुख में कुछ कमी रहती है। स्वार्थ-साधन में चतुर होता है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या-बुद्धि का तो लाभ होता है, परन्तु सन्तान पक्ष में प्रयत्नों से ही सफलता मिलती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शुक्र’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वादशभाव : शुक्र




बारहवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘शुक्र’ के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से उसे लाभ होता है। आयु तथा पुरातत्त्व की कुछ हानि होती है। भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में भी कमी आती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से चतुराई के बल पर शत्रु-पक्ष में सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति झगड़ों से बचे रहने का प्रयत्न करता है।

‘मीन’ लग्न में ‘शनि’

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मीनलग्न : प्रथमभाव : शनि




पहले भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित व्ययेश शनि के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है। तीसरी मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिनों के सुख तथा पराक्रम में न्यूनाधिकता बनी रहती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से सुख-दुःख तथा व्यवसाय में हानि-लाभ की प्राप्ति होती रहती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण पिता से वैमनस्य रहता है, राज्य से परेशानी होती है तथा व्यवसाय में संघर्षों का सामना करना पड़ता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वितीयभाव : शनि




दूसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित नीच के प्रभाव से जातक को धन-संचय में कठिनाई आती है तथा हानि भी होती है। कुटुम्ब का अल्प सुख मिलता है। बाहरी सम्बन्ध हानिकारक सिद्ध होते हैं। तीसरी मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि एवं भवन के सुख में न्यूनाधिकता बनी रहती है।

सातवीं उच्च तथा मित्र-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की यथेष्ट शक्ति प्राप्त होती है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने से आमदनी खूब रहती है, परन्तु धन का संचय नहीं हो पाता।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मीनलग्न : तृतीयभाव : शनि




तीसरे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से भाई-बहिनों द्वारा सुख-दुःख दोनों ही प्राप्त होते हैं तथा पराक्रम की वृद्धि होती है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान-पक्ष से कठिनाई रहती है तथा विद्या-बुद्धि की कमी रहती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति में कुछ कमी रहती है। दसवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है, परन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ भी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मीनलग्न : चतुर्थभाव : शनि




चौथे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन का सुख कुछ कमी के साथ मिलता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से शत्रु-पक्ष से परेशानी रहती है तथा शगड़े के मामलों में लाभ-हानि दोनों ही होते हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं। दसवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा बाहरी स्थानों से लाभ होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मीनलग्न : पंचमभाव : शनि




पाँचवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को सन्तानपक्ष से हानि-लाभ दोनों की प्रप्ति होती है तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ उन्नति होती है। बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। तीसरी मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से सुख-दुःख तथा व्यवसाय-पक्ष से हानि-लाभ दोनों होते हैं।

सातवीं दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने से बाहरी सम्बन्धों से आमदनी में वृद्धि होती रहती है। दसवीं नीच-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से धन-संचय की शक्ति में वृद्धि होती है, परन्तु कुटुम्ब से कलेश मिलता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मीनलग्न : षष्ठभाव : शनि




छठे भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर अधिक प्रभाव रखता है तथा झगड़े के मामलों में खर्च करके लाभ उठाता है। बीमारी में भी काफी खर्च होता है।

तीसरी उच्च-दृष्टि से मित्र राशि में अष्टम भाव को देखने से आयु तथा पुरातत्त्व की वृद्धि होती है। सातवीं दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। दसवीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कुछ कमी रहती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मीनलग्न : सप्तमभाव : शनि




सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय में सुख-दुःख तथा हानि-लाभ दोनों प्राप्त होते हैं। खर्च की परेशानी रहती है, परन्तु बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की उन्नति में उतार-चढ़ाव आते हैं।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शरीर में कुछ कमजोरी रहती है। दसवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता के सुख में हानि-लाभ दोनों के योग रहते हैं तथा भूमि-भवन के सुख में कमी आती है।

'मीन' लग्न की कुण्डली के 'अष्टमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

मीनलग्न : अष्टमभाव : शनि




आठवें भाव में मित्र 'शुक्र' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक की आयु तथा पुरातत्त्व में वृद्धि होती है तथा बाहरी स्थानों से विशेष लाभ होता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता से अमन्तोष तथा राज्य एवं व्यवसाय-पक्ष से सामान्य लाभ होता है।

सातवीं नीच-दृष्टि से शत्रु-राशि में द्वितीय भाव को देखने से धन का संचय नहीं हो पाता तथा कुटुम्ब से परेशानी रहती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से

पंचम भाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-बुद्धि के क्षेत्र में कमी रहती है और मस्तिष्क में चिन्ताओं का निवास रहता है।

'मीन' लग्न की कुण्डली के 'नवमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

मीनलग्न : नवमभाव : शनि




नववें भाव में शत्रु 'मंगल' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक के भाग्य उन्नति की कुछ कठिनाइयों के साथ बाहरी सम्बन्धों के कारण होती है। धर्म-पालन में भी कमी रहती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखने से आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई-बहिन के सुख तथा पराक्रम में कमी आती है। दसवीं शत्रु-पक्ष पर प्रभाव रहता है तथा झगड़े-टंटों से लाभ भी होता है।

'मीन' लग्न की कुण्डली के 'दशमभाव' स्थित 'शनि' का फलादेश

मीनलग्न : दशमभाव : शनि




दसवें भाव में शत्रु 'गुरु' की राशि पर स्थित 'शनि' के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में हानि और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परन्तु आमदनी अच्छी रहती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि में द्वादश भाव को देखने से खर्च खूब रहता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ होता है।

सातवीं मित्र-दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से कुछ कमी के साथ माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। दसवीं मित्र-दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री-पक्ष से कुछ परेशानी रहती है तथा व्यवसाय में हानि-लाभ दोनों रहते हैं।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मीनलग्न : एकादशभाव : शनि



१३६७


ग्यारहवें भाव में स्वराशि में स्थित ‘शनि’ के प्रभाव से जातक की आमदनी अच्छी रहती है तथा बाहरी स्थानों से पर्याप्त लाभ होता है। खर्च भी खूब रहता है। तीसरी शत्रु-दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौन्दर्य में कुछ कमी आती है तथा धन की प्राप्ति के लिए बहुत दौड़-धूप करनी पड़ती है।

सातवीं शत्रु-दृष्टि से पंचम भाव को देखने से सन्तान तथा विद्या-पक्ष में कुछ कमी आती है।

दसवीं शत्रु-दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्त्व का भी लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी तथा रूखी बोली बोलने वाला होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘शनि’ का फलादेश

मीनलग्न : द्वादशभाव : शनि



१३६८

बारहवें भाव में स्वराशि-स्थित शनि के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी सम्बन्धों से लाभ होता है। तीसरी नीच-दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन तथा कुटुम्ब की ओर से चिन्ता रहती है।


सातवीं शत्रु-दृष्टि से षष्ठ भाव को देखनेसे शत्रु-पक्ष पर कुछ कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलती है। दसवीं शत्रु-दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ आती हैं तथा

यश एवं धर्म की थोड़ी ही उन्नति हो पाती है।

‘मीन’ लग्न में ‘राहु’

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मीनलग्न : प्रथमभाव : राहु




१३६९

पहले भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में कमी आती है, परन्तु वह युक्ति-बल से अपने प्रभाव तथा सम्मान की वृद्धि करता है तथा सभी कठिनाइयों पर विजय भी पा लेता है। वह अपने परिश्रम से तरक्की प्राप्त करता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वितीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मीनलग्न : द्वितीयभाव : राहु



दूसरे भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुम्ब का सुख प्राप्त नहीं होता। वह गुप्त युक्तियों के बल पर अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा थोड़ी-बहुत सफलता भी पा लेता है, परन्तु कभी-कभी आर्थिक कष्ट उसे बहुत परेशान भी करते हैं।

‘मीन लग्न की कुण्डली के ‘तृतीयभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मीनलग्न : तृतीयभाव : राहु



तीसरे भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है, परन्तु भाई-बहिन के सुख में कमी तथा कष्ट का अनुभव होता है। वह बुद्धि एवं पुरुषार्थ द्वारा सफलता-प्राप्ति के प्रयत्न करता है तथा बहादुर और हिम्मती होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘चतुर्थभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मीनलग्न : चतुर्थभाव : राहु



चौथे भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को माता का विशेष सुख मिलता है तथा गुप्त युक्तियों एवं परिश्रम के बल पर भूमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त हो जाता है। कभी-कभी आकस्मिक रूप से भी सुख के साधन मिलते रहते हैं।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मीन लग्न : पंचमभाव : राहु




पाँचवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को विद्याध्ययन में कठिनाइयाँ आती हैं तथा सन्तान-पक्ष से भी उसे कष्ट का अनुभव होता है।

ऐसे व्यक्ति की वाणी में रूखापन होता है तथा मस्तिष्क में विन्ताएँ घिरी रहती हैं। वह स्वार्थ-सिद्धि के लिए उचित-अनुचित एवं सत्यासत्य का विचार भी नहीं रखता।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मीन लग्न : षष्ठभाव : राहु




छठे भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर भारी प्रभाव रखता है तथा युक्ति-बल से शत्रुओं को परास्त करता है। फिर भी, शत्रु-पक्ष उसे बार-बार परेशान करता रहता है।

ननसाल-पक्ष से भी कुछ हानि होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती, बहादुर, चतुर, धैर्यवान् तथा सावधान होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मीन लग्न : सप्तमभाव : राहु



सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री-पक्ष से कुछ कष्ट मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता, परन्तु वह अपने युक्ति-बल एवं चातुर्य से उन पर विजय प्राप्त करता रहता है। गृहस्थ-जीवन में बार-बार आने वाले संकटों को भी दूर करता रहता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मीन लग्न: अष्टमभाव: राहु




आठवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के जीवन पर अनेक बार कष्ट आते हैं, परन्तु आयु की वृद्धि में कमी नहीं आती।

पुरातत्त्व के विषय में भी कठिनाई के योग उपस्थित होते हैं। परन्तु वह अपनी चतुराई से उन सबका निराकरण करके लाभ उठाता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मीन लग्न: नवमभाव: राहु



नवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की उन्नति में बाधाएँ आती रहती हैं तथा यश की प्राप्ति भी नहीं होती। परन्तु वह कठिन परिश्रम, गुप्त युक्ति तथा हिम्मत के साथ भाग्योन्नति के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। कभी-कभी उसे आकस्मिक लाभ भी होता है और कभी-कभी अत्यधिक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। लम्बे संघर्ष के बाद ही भाग्योन्नति हो पाती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मीन लग्न: दशमभाव: राहु



दसवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित नीच के ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को पिता के पक्ष में महान् कष्ट, राज्य से परेशानी तथा व्यवसाय में बार-बार हानि का सामना करना पड़ता है। मान-प्रतिष्ठा में भी कमी रहती है। परन्तु वह अपने युक्ति-बल तथा परिश्रम से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है और कुछ सफलता भी पा लेता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश


मीन लग्न : एकादशभाव : राहु



ग्यारहवें भाव में स्थित ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में विशेष वृद्धि होती है। वह अधिक मुनाफा कमाता है। कई बार धनो-पार्जन के क्षेत्र में कठिनाइयाँ भी आती हैं, परन्तु वह हिम्मत नहीं हारता तथा परिश्रम एवं धैर्य के साथ उन पर सफलता प्राप्त करता है। कभी-कभी आकस्मिक लाभ के अवसर भी मिलते हैं।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘राहु’ का फलादेश

मीन लग्न : द्वादशभाव : राहु




बारहवें भाव में स्थित ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘राहु’ के प्रभाव से जातक को अपना खर्च चलाने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु वह अपनी हिम्मत, धैर्य, परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों के द्वारा उन सब पर विजय पाने का प्रयत्न करता है। उसे बाहरी स्थानों के संबंधों से भी कठिनाइयों का अनुभव होता है।

‘मीन’ लग्न में ‘केतु’

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘प्रथमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मीन लग्न : प्रथमभाव : केतु



पहले भाव में शतु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के शरीर में सांघातिक चोट लगती है तथा कभी मृत्यु-तुल्य कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य में भी कमी रहती है किन्तु वह गुप्त युक्तियों तथा कठिन परिश्रम के बल पर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘पंचमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मीन लग्न : पंचमभाव : केतु



पांचवें भाव में शत्रु ‘चन्द्रमा’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को सन्तान-पक्ष में बड़े कष्ट तथा कर्मी का सामना करना पड़ता है। मस्तिष्क में चिन्ताएँ घिरी रहती हैं। विद्याध्ययन में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, परन्तु वह अपनी गुप्त युक्तियों, धैर्य तथा परिश्रम के बल पर सब कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘षष्ठभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

मीन लग्न : षष्ठभाव : केतु




छठे भाव में शत्रु ‘सूर्य’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक शत्रु-पक्ष पर निरन्तर विजय प्राप्त करता है तथा झगड़ों के मामलों में सफलता-पाता है।

शत्रु-पक्ष से परेशानी होने पर भी वह अपने हीसले को बनाए रखता है तथा वहादुरी से काम लेकर उस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘सप्तमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मीन लग्न : सप्तमभाव : केतु



सातवें भाव में मित्र ‘बुध’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में क़ूछ अशान्ति एवं कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। कभी-कभी स्त्री-पक्ष से घोर कष्ट मिलता है तो कभी सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति साहसपूर्वक अपना उन्नति के लिए प्रयत्नशील बना रहता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘अष्टमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मीन लग्न : अष्टमभाव : केतु



आठवें भाव में मित्र ‘शुक्र’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की आयु पर अनेक बार मृत्यु-तुल्य संकट आते हैं, परन्तु जीवन की रक्षा भी होती रहती है। पुरातत्त्व की हानि के योग भी उपस्थित होते हैं, परन्तु वह अपनी गुप्त युक्तियों, चातुर्य तथा परिश्रम के बल पर लाभ उठा लेता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी तथा धैर्यवान् होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘नवमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मीन लग्न : नवमभाव : केतु



नवें भाव में शत्रु ‘मंगल’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म के पक्ष में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, परन्तु वह साहस, धैर्य, चातुर्य, गुप्त युक्ति तथा परिश्रम के बल पर उन पर विजय पाता है तथा उन्नति करता है। ऐसा व्यक्ति घोर संकटों के अवसर पर भी विचलित नहीं होता। अन्ततः उसके भाग्य तथा धर्म की कुछ उन्नति होती है, परन्तु यश में कमी बनी रहती है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘दशमभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश


मीन लग्न : दशमभाव : केतु



दसवें भाव में शत्रु ‘गुरु’ की राशि पर स्थित उच्च के ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को पिता से सुख, राज्य से सम्मान तथा व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए कठोर परिश्रम करता है तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘एकादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

मीन लग्न : एकादशभाव : केतु




ग्यारहवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। कभी-कभी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, परन्तु वह साहस एवं धैर्य के साथ उन पर विजय पा लेता है।

ऐसा व्यक्ति बड़ा बहादुर, धैर्यवान्, हिम्मती तथा स्वार्थी होता है।

‘मीन’ लग्न की कुण्डली के ‘द्वादशभाव’ स्थित ‘केतु’ का फलादेश

मीन लग्न : द्वादशभाव : केतु




बारहवें भाव में मित्र ‘शनि’ की राशि पर स्थित ‘केतु’ के प्रभाव से जातक को खर्च के कारण कष्टों का अनुभव होता है तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्धों से भी असन्तोष मिलता है। परन्तु वह अपनी गुप्त युक्तियों, धैर्य तथा परिश्रम के बल पर कठिनाइयों का साहस के साथ मुकाबला करता है तथा उन पर विजय पाकर उन्नति लाभ करता है।

शिवाम्बु, जीवन-जल, गोल्डन वाटर, आबेहयात, वाटर ऑफ लाइफ

स्वमूत्र-चिकित्सा विज्ञान (सचित्र)

- स्वदेश के अनेक नेतागण, जो नियमित रूप से स्वमूत्र-पान करते हैं, वृद्धावस्था में भी तरुण जैसी उनकी कार्य-क्षमता है। प्रस्तुत पुस्तक में मूत्रपान की विधि, मात्रा, किस रोग में किस समय का मूत्र लाभकारी है तथा पथ्यापथ्य का सचित्र विवरण दिया गया है।
- बिना किसी चिकित्सक की सहायता के और एक भी पैसा खर्च किये बगैर घर बैठे, भयंकर से भयंकर रोगों से छुटकारा दिलाने वाली इस नये युग की बहु-चर्चित चिकित्सा-प्रणाली को अपनाइये। □ सफेद मोटा कागज, □ पृष्ठ 152, □ चित्र 107 □ मूल्य 12/-

हस्तलिखित, असली, प्राचीन
भृगुसंहिता फलित-प्रकाश



3

तृतीय खण्ड

[ग्रहों की युति, स्त्री-जातक तथा विशिष्ट योग आदि
का वर्णन]

ग्रहों की युति

जन्मकुण्डली के किसी एक ही भाव में यदि एक से अधिक—दो, तीन, चार, पाँच, छै या सात—ग्रह बैठे हों तो उसे ग्रहों की युति कहा जाता है। विभिन्न भावों में अलग-अलग बैठे हुए ग्रह के सामान्य-फलादेश की अपेक्षा ग्रहों की युति के फलादेश में बहुत अन्तर आ जाता है, अतः ग्रहों की युति के फलादेश की अलग से जानकारी प्राप्त होना अत्यावश्यक है।

प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम 'ग्रहों की युति' के फलादेश का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे दी गई सभी उदाहरण-कुण्डलियाँ मेष-लग्न की हैं, जिनमें विभिन्न ग्रहों की युति को प्रदर्शित किया गया है, साथ ही उनके फलादेश का उल्लेख भी किया गया है। परन्तु विभिन्न व्यक्तियों की कुण्डलियाँ विभिन्न लग्नों की होती हैं तथा ग्रहों की युति भी विभिन्न भावों में पाई जाती है, अतः इन उदाहरण-कुण्डलियों को केवल आधार के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए तथा ग्रहों की युति के सही फलादेश का निर्णय करते समय उनकी उच्च-नीच, मित्र-शत्रु एवं स्वराश्रित स्थिति, उन पर पड़ने वाली अन्य ग्रहों की दृष्टि आदि सभी बातों पर विचार करने के बाद ही निष्कर्ष-स्वरूप उचित फलादेश का निर्णय करना चाहिए।

ग्रहों की युति के फलादेश में राहु-केतु को स्थान न देकर, केवल मुख्य सात ग्रहों की युति का ही उल्लेख किया गया है। राहु-केतु जिस भाव में मिल-ग्रह के रूप में बैठे होते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं और शत्रु-ग्रह के रूप में बैठे होते हैं तो उसके प्रभाव को घटाते हैं—यह सामान्य सिद्धान्त है। राहु-केतु स्वयं कभी एक साथ नहीं बैठते—ये छाया-ग्रह होने के कारण सदैव एक-दूसरे से सातवें स्थान पर ही रहते हैं।

विशेष-ज्ञातव्य

ग्रहों की युति के फलादेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए—

(१) यदि जन्म के समय तीन शुभ ग्रहों की युति हो तो जातक का जीवन सुखी रहता है, परन्तु यदि तीन पाप-ग्रहों की युति हो तो जातक जीवन-भर दुःखी तथा सर्वत्र निन्दित रहता है।

(२) पाँच अथवा छै ग्रहों की युति के फलस्वरूप जातक प्रायः दरिद्र तथा मूर्ख होता है।

(३) तीन ग्रहों की युति वाली कुण्डली में यदि चन्द्रमा किसी पाप-ग्रह के साथ हो तो जातक की माता की मृत्यु होने की आशंका रहती है। यदि सूर्य पाप ग्रह


के साथ हो तो पिता की मृत्यु की संभावना रहती है। चन्द्रमा शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो शुभ फल देता है, पाप ग्रह के साथ अशुभ फल देता है। शुभ ग्रह तथा पाप ग्रह—दोनों के साथ बैठा हो तो मिश्रित फल देता है। यही नियम सूर्य पर भी लागू होता है।

(४) जन्मकुण्डली के किसी भाव पर यदि दो-तीन अथवा अधिक ग्रहों की एक साथ दृष्टि पड़ रही हो तो उसका प्रभाव भी उन ग्रहों की युति जैसा ही समझना चाहिए।

अगले पृष्ठों पर विभिन्न ग्रहों की युति वाली उदाहरण-कुण्डलियों को अलग-अलग फलादेश के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। इनके आधार पर लग्न, भाव तथा अन्य सब बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त ही यथार्थ फलादेश का निर्णय करना चाहिए।


दो ग्रहों की युति का फलादेश

सूर्य और चन्द्र




(१) सूर्य और चन्द्रमा की युति हो तो जातक दुष्ट, कपटी, चतुर, अभिमानी, अविनयी, क्षुद्र-हृदय, कार्य-कुशल, पराक्रमी, विषयासक्त, स्त्री के वशीभूत तथा पत्थरों का व्यवसाय करने वाला होता है।

सूर्य और मंगल




(२) सूर्य और मंगल की युति हो तो जातक तेजस्वी, क्रोधी, मिथ्यावादी, मूर्ख, बलवान्, कलह-प्रिय तथा धर्म-कर्म एवं धन से रहित होता है। वह अपने बन्धु-बान्धवों से प्रेम रखता है।

सूर्य और बुध




(३) सूर्य और बुध की युति हो तो जातक यशस्वी, प्रियवादी, श्रेष्ठ बुद्धिमान्, विद्वान्, मंत्री, राजा का सेवक, वेदज्ञ, गीत-वाद्य में कुशल, कवि, सेवा-कर्म करने में पटु, स्थिर धनी, यशस्वी तथा राज्य द्वारा सम्मानित होता है।

सूर्य और गुरु




(४) सूर्य और गुरु की युति हो तो जातक शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, धनवान्, चतुर, परोपकारी, पौरोहित्य कर्म करने में कुशल, प्रसिद्ध, मित्रवान्, राज-मान्य तथा लोक-प्रसिद्ध होता है।

सूर्य और शुक



(५) सूर्य और शुक की युति हो तो जातक संगीत, वाद्य एवं शस्त्र-विद्या में कुशल, बुद्धिमान्, नाट्य-कार, श्रेष्ठ, कार्यक्षम, मित्रवान्, बलवान्, क्षीण-दृष्टि तथा स्त्री द्वारा धन प्राप्त करने वाला होता है।


सूर्य और शनि



(६) सूर्य और शनि की युति हो तो जातक विद्वान्, गुणवान्, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, धर्मात्मा, धातु का काम करने में कुशल तथा वृद्धों के ममान आचरण करने वाला होता है।


कुछ विद्वानों के मत में ऐसा व्यक्ति स्त्री-पुत्र के सुख से रहित—और कुछ के मत में सुख-युक्त—होता है।

चन्द्र और मंगल




(७) चन्द्रमा और मंगल की युति हो तो जातक युद्ध-कुशल, प्रतापी, आचारहीन, कलह-प्रेमी, धातु-शिल्प में कुशल, माता का शत्रु, रक्त-विकार का रोगी तथा व्यवसाय द्वारा जीविका उपार्जन करने वाला होता है।

चन्द्र और बुध




(८) चन्द्रमा और बुध की युति हो तो जातक कवि, सुन्दर, गुणो, प्रियवादी, दयालु, हँसमुख, अधिक बोलने वाला, विषयासक्त, कुल-धर्म का पालक तथा दुर्बल-शरीर वाला होता है।

चन्द्र और गुरु




(९) चन्द्रमा और गुरु की युति हो तो जातक सुशील, बिनम्र, धर्मात्मा, परोपकारी, सच्चा मित्र, देव-ब्राह्मण-भक्त, भाई-बहिनों से स्नेह रखने वाला, धनी तथा गुप्त मन्त्र वाला होता है।

चन्द्र और शुक्र




(१०) चन्द्रमा और शुक्र की युति हो तो जातक झगड़ालू, ब्यसनी, सुगन्ध-प्रिय, विक्रय-कार्य में कुशल. अनेक कार्यों का ज्ञाता तथा अल्प वस्त्राभूषणों वाला होता है।

चन्द्र और शनि




(११) चन्द्रमा और शनि की युति हो तो जातक आचारहीन, पुरुषार्थहीन, अल्प सन्ततिवान्, परस्त्रीगामी, वृद्धा स्त्री में आसक्त, हाथी-घोड़े रखने वाला, व्यवसायी तथा वेश्या द्वारा धन प्राप्त करने वाला होता है।

मंगल और बुध




(१२) मंगल और बुध की युति हो तो जातक कुरूप, कृपण, धनहीन, मल्ल-विद्या में कुशल, लोहे अथवा सोने का व्यवसाय करने वाला, बहुस्त्री-गामी विधवा से विवाह करने वाला तथा अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करने वाला होता है।

मंगल और गुरु




(१३) मंगल और गुरु की युति हो तो जातक मेधावी, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ, मन्त्रज्ञ, वाक्पटु, शिल्प-निपुण, शीलवान्, चतुर, घोड़ों का प्रेमी, सेना का अधिकारी, प्रधान अथवा उच्च पद पाने वाला होता है।

मंगल और शुक्र




(१४) मंगल और शुक्र की युति हो तो जातक गुणी, गणितज्ञ, प्रपंची, मिथ्यावादी, परस्त्रीगामी, अहंकारी, पापी, शठ, सबसे शत्रुना रखने वाला, परन्तु समाज में सम्मान पाने वाला होता है।

मंगल और शनि




(१५) मंगल और शनि की युति हो तो जातक जादूगर, ऐन्द्रजालिक, कलह-प्रिय, चोर, मिथ्यावादी, शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, मित्त-हीन, सुख-हीन, अपयशी, स्वधर्म को त्याग कर पर-धर्म ग्रहण करने वाला, उचित बात कहने वाला तथा विष अथवा मदिरा का निर्माता एवं विक्रेता होता है।

बुध और गुरु




(१६) बुध और गुरु की युति हो तो जातक धैर्यवान्, पण्डित, नीतिज्ञ, विनयी, उदार, गुणी, सुगन्ध-प्रिय तथा नृत्य-वाद्य में कुशल होता है।

बुध और शुक




(१७) बुध और शुक की युति हो तो जातक वेदज्ञ, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रतापी, सुखी, शिल्पज्ञ, चतुर, सुन्दर, आनन्दी, धनी तथा अनेक लोगों पर हुकूमत करने वाला होता है।

बुध और शनि




(१८) बुध और शनि की युति हो तो जातक चंचल-चित्त, कलह-प्रिय, उद्योगहीन, उचित बोलने वाला, भ्रमण-शील, संगीत-काव्य आदि में कुशल तथा दुर्बल शरीर वाला होता है।

गुरु और शुक्र




(१६) गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक विद्वान्, बुद्धिमान्, गुणवान्, धर्मात्मा, शास्त्रज्ञ, शास्त्रार्थ करने वाला, अत्यन्त सुखी, यशस्वी, धनी तथा सुन्दरी स्त्री, पुत्र-मित्र आदि के सुख से युक्त होता है।

गुरु और शनि



(२०) गुरु और शनि की युति हो तो जातक शूरवीर, यशस्वी, धनी, प्रधान सेनापति, कला-कुशल तथा स्त्री द्वारा इच्छित सुख प्राप्त करने वाला होता है।


शुक्र और शनि



(२१) शुक्र और शनि की युति हो तो जातक चंचल-बुद्धि, आनन्दी, लवण तथा अम्लरस का प्रेमी, उन्मत्त-प्रकृति, शिल्प-आलेखन में प्रवीण तथा दारुण संग्राम करने वाला होता है।


तीन ग्रहों की युति का फलविशेष

सूर्य : चन्द्र : मंगल




(१) सूर्य, चन्द्र और मंगल की युति हो तो जातक शूरवीर, अश्वविद्या में कुशल, रक्त-विकार से ग्रस्त, स्त्री-हीन, दया-हीन तथा यन्त्रादि के निर्माण में कुशल होता है।

सूर्य : चन्द्र : बुध




(२) सूर्य, चन्द्र और बुध की युति हो तो जातक विद्वान्, धनवान्, प्रियवादी, प्रतापी, श्रेष्ठ कवि अथवा कथाकार, वाक्पटु, शास्त्रज्ञ, कलाकार, संभा-प्रिय तथा राजा का सेवक होता है।

सूर्य : चन्द्र : गुरु




(३) सूर्य, चन्द्र और गुरु की युति हो तो जातक धर्मात्मा, स्थिर-बुद्धि, चंचल, चतुर, धूर्त, पर्यटन-प्रेमी, विद्वान्, सेवा-कुशल, देव-ब्राह्मण का पूजक तथा राजा का मंत्री होता है।

सूर्य : चन्द्र : शुक्र




(४) सूर्य, चन्द्र और शुक्र की युति हो तो जातक सुन्दर, परम तेजस्वी, अत्यन्त प्रतापी, भाग्यवान्, व्यसनी, शत्रु-संहर्ता, दाँतों के विकार से युक्त, परधनापहारी तथा धर्म में प्रीति न रखने वाला होता है।

सूर्य : चन्द्र : शनि




(५) सूर्य, चन्द्र और शनि की युति हो तो जातक अत्यन्त धूर्त, धर्म का पालन करने वाला, शील-रहित, सत्कर्म करने वाला, वेश्या-प्रेमी, ब्राह्मण तथा देवताओं का भक्त, व्यर्थ परिश्रम करने वाला, हाथी-बोड़ा पालने वाला तथा धातु-कर्म में कुशल होता है।

सूर्य : मंगल : बुध




(६) सूर्य, मंगल और बुध की युति हो तो जातक साहसी, प्रबल पराक्रमी, निर्लज्ज, कठोर-प्रकृति, सलाह देने में चतुर तथा धन, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के सुख से युक्त होता है ।

सूर्य : मंगल : गुरु




(७) सूर्य, मंगल और गुरु की युति हो तो जातक उदार-हृदय, प्रियवादी, सत्यवादी, उग्र-प्रकृति, सेनापति, नीतिज्ञ, श्रेष्ठ वक्ता, धनी, राजा का मंत्री तथा सब कार्यों के करने में कुशल होता है ।

सूर्य : मंगल : शुक




(८) सूर्य, मंगल और शुक की युति हो तो जातक सुन्दर, अत्यन्त चतुर, दयालु, गुणी, धनी, विनम्र, बहुत बोलने वाला, सुशील अथवा कुशील, कार्य-कुशल, नेत्र-रोगी, विषयासक्त तथा अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ।

सूर्य : मंगल : शनि




(९) सूर्य, मंगल शनि की युति हो तो जातक सुख, निर्धन, स्वजनों से तिरस्कृत, विकल, बन्धु-विहीन, कलह से व्याकुल, सघन रोमों वाला, रोगी तथा धन एवं पशुओं से रहित होता है ।

सूर्य : बुध : गुरु




(१०) सूर्य, बुध और गुरु की युति हो तो जातक शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ, लेखक, संग्रही, चतुर, अत्यन्त धनी तथा नेत्र-रोगी होता है।

सूर्य : बुध : शुक्र




(११) सूर्य, बुध और शुक्र की युति हो तो जातक माता, पिता तथा गुरुजनों से तिरस्कृत, स्त्री के कारण दुःखी, आचार-विहीन, सबसे शत्रुता रखने वाला, दुर्बुद्धि तथा परदेशवासी होता है।

सूर्य : बुध : शनि




(१२) सूर्य, बुध और शनि की युति हो तो जातक दुराचारी, परम दुष्ट, नपुंसक-जैसे स्वभाव वाला. बन्धु-बान्धवों से परित्यक्त, शत्रु द्वारा पराजित तथा नीच मनुष्यों का संगी होता है।

सूर्य : गुरु : शुक्र




(१३) सूर्य, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक पण्डित, सूरवीर, परोपकारी, अल्पभाषी, धन-हीन, नेत्र-रोगी, दुष्ट स्वभाव वाला, पराये कामों में अधिक रुचि रखने वाला तथा राजा का आश्रित होता है।

सूर्य : गुरु : शनि




(१४) सूर्य, गुरु और शनि की युति हो तो जातक सुन्दर, निर्भय, प्रगल्भ, विचारक, बन्धु-हितैषी, बहु मित्रवान्, मितव्ययी तथा राजा का प्रिय—कुछ विद्वानों के मतानुसार, राजा से द्वेष रखनेवाला—होता है।

सूर्य : शुक्र : शनि




(१५) सूर्य, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक दुराचारी, बन्धु-रहित, कुष्ठ-रोगी, कला-विहीन, सम्मानहीन, शत्रुओं से भयभीत तथा कुकर्मों होता है।

चन्द्र : मंगल : बुध




(१६) चन्द्र, मंगल और बुध की युति हो तो जातक पापी, दुराचारी, अपमानित, अत्यन्त दीन, नीचों का साथी, आजीविका-हीन तथा बन्धु-बान्धवों से हीन होता है।

चन्द्र : मंगल : गुरु




(१७) चन्द्र, मंगल और गुरु की युति हो तो जातक सुन्दर, बलवान्, क्रोधी, स्त्री-आसक्त, अपहरणकर्ता, पर-स्त्री-गामी, स्त्रियों को प्रिय, सदैव प्रसन्न रहने वाला तथा फोड़ा-फुंसी आदि के विकारों से ग्रस्त होता है।

चन्द्र : मंगल : शुक्र




(१८) चन्द्र, मंगल और शुक्र की युति हो तो जातक चंचल स्वभाव वाला, निरन्तर भ्रमणशील, कुशील तथा शीत से डरने वाला होता है। उसकी माता तथा पत्नी दुष्ट स्वभाव वाली होती हैं तथा पुत्र शीलवान् होता है।

चन्द्र, मंगल, शनि




(१९) चन्द्र, मंगल और शनि की युति हो तो जातक कुटिल, लोक-द्वेषी, कलह-प्रिय, क्षुद्र स्वभाव वाला तथा सदैव दुःखी रहने वाला होता है। माता का उसकी बाल्यावस्था में ही देहावसान हो जाता है।

चन्द्र : बुध : गुरु




(२०) चन्द्र, बुध और गुरु की युति हो तो जातक बुद्धिमान्, भाग्यवान्, धनवान्, यशस्वी, तेजस्वी, अत्यन्त प्रसिद्ध, कुशल वक्ता, श्रेष्ठ मनोवृत्ति वाला तथा स्त्री, पुत्र-मित्र आदि के सुख से युक्त होता है।

चन्द्र : बुध : शुक्र




(२१) चन्द्र, बुध और शुक्र की युति हो तो जातक बड़ा विद्वान्, ईर्ष्यालु, दुराचारी, धन का लोभी, नीच कर्म द्वारा आञ्छेविका उपार्जित करने वाला तथा श्राद्ध के विषय में अधिक श्रद्धालु होता है।

चन्द्र : बुध : शनि




(२२) चन्द्र, बुध और शनि की युति हो तो जातक श्रेष्ठ बुद्धि वाला, कला-कुशल, महाविद्वान्, पण्डित, प्रिय-वादी, विनम्र, विश्व-प्रसिद्ध, लम्बे शरीरवाला, ग्राम का अधिपति तथा राजाओं को प्रिय होता है।

चन्द्र : गुरु : शुक्र




(२३) चन्द्र, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक विद्वान्, मंत्रज्ञ, चतुर, कला-कुशल, राजाओं को प्रिय तथा सुन्दर शरीर वाला होता है। उसकी माता अत्यन्त सुशील होती है।

चन्द्र : गुरु : शनि




(२४) चन्द्र, गुरु और शनि की युति हो तो जातक अत्यन्त चतुर, व्यवहार-कुशल, स्त्रियों को प्रिय, शास्त्रज्ञ, राजा द्वारा सम्मानित, उच्च अधिकारी तथा स्वस्थ शरीर वाला होता है।

चन्द्र : शुक्र : शनि




(२५) चन्द्र, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक वेदज्ञ, धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरोहित, चित्रकार, लेखक तथा सुन्दर शरीर वाला होता है।

मंगल : बुध : गुरु




(२६) मंगल, बुध और गुरु की युति हों तो जातक प्रतापी, परोपकारी, संगीतज्ञ, श्रेष्ठ कवि, स्त्रियों को प्रिय, परहित-साधक तथा अपने कुल में श्रेष्ठ होता है।

मंगल : बुध : शुक्र




(२७) मंगल, बुध और शुक्र की युति हो तो जातक दुर्बल शरीर वाला, बहुत बोलने वाला, हीन कुल में उत्पन्न, अंगहीन, अत्यन्त उत्साही, ढीठ, घनी, चंचल तथा संतुष्ट स्वभाव का होता है।

मंगल : बुध : शनि




(२८) मंगल, बुध और शनि की युति हो तो जातक दुर्बल शरीर वाला, बुरे नेत्रों वाला, नेत्र-रोगी, मुख-रोगी, अत्यधिक कष्ट भोगने वाला, डरपोक, सहिष्णु, हास्य प्रिय, वन में रहने की इच्छा रखनेवाला, परदेश में रहने वाला तथा दूत-कर्म करने वाला होता है।

मंगल : गुरु : शुक्र,




(२९) मंगल, गुरु और शुक्र की युति तो जातक सुखी, सब को प्रसन्नता देने वाला, राजा का प्रिय, श्रेष्ठ लोगों द्वारा सम्मानित तथा उत्तम स्त्री-पुत्रों वाला होता है।

मंगल : गुरु : शनि




(३०) मंगल, गुरु और शनि की युति हो तो जातक दुराचारी, कृश-शरीर निर्धन, कुकर्मि, मित्रों द्वारा निन्दित परन्तु राजा का कृपापात्र होता है।

मंगल : शुक्र : शनि,




(३१) मंगल, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक अच्छे स्वभाव वाला, परदेश में रहने वाला, सदैव दुःख भोगने वाला तथा स्त्री के सुख से रहित होता है।

बुध : गुरु : शुक्र




(३२) बुध, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक सत्यवादी, परम यशस्वी, सदैव प्रसन्न रहने वाला, शत्रु-हन्ता, सुन्दर तथा राजा द्वारा सम्मानित होता है।

बुध : गुरु : शनि




(३३) बुध, गुरु और शनि की युति हो तो जातक अत्यन्त धनी, शीलवान्, भाग्यवान्, धैर्यवान्, पण्डित, सुखी, श्रेष्ठ वस्त्राभूषणों वाला तथा श्रेष्ठ स्त्री का पति होता है।

बुध : शुक्र : शनि



(३४) बुध, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक चुगलखोर, पर-स्त्रीगामी, धूर्त, मिथ्यावादी, दुराचारी, धैर्यवान्, स्वदेश-प्रेमी, नीच लोगों के साथ रहने वाला, दूर देशों की यात्रा करने वाला तथा कलाओं का ज्ञाता होता है।


गुरु : शुक्र : शनि



(३५) गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक नीच कुल में जन्म लेने पर भी धनी, यशस्वी, सुशील कीर्तिवान्, भूस्वामी, राजा-जैसा प्रतापी तथा निर्मल हृदय वाला होता है। वह अत्यन्त यश भी प्राप्त करता है।


चार ग्रहों की युति का फलादेश

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध




(१) सूर्य, चन्द्र, मंगल और बुध की युति हो तो जातक मायावी, चुगलखोर बकवादी, लेखक, चित्रकार, चोर, भाषा पर अधिकार रखनेवाला, सब काम करने में कुशल तथा मुख-रोगी होता है।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु




(२) सूर्य, चन्द्र, मंगल और गुरु की युति हो तो जातक शिल्पज्ञ, बलवान्, कार्य-कुशल, धनवान्, नीतिज्ञ, तेजस्वी, शोक-रहित, बड़ी आँखों वाला तथा स्वर्ण-जैसे कान्तिमान् शरीर वाला होता है।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, शुक्र




(३) सूर्य, चन्द्र, मंगल और शुक्र की युति हो तो जातक विद्वान्, धनवान् वाक्पटु, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ, स्त्री-पुत्र के सुख से सम्पन्न तथा वाणी से सम्बन्धित कार्यों (वकालत आदि) से जीविका अर्जित करने वाला होता है। परन्तु कुछ विद्वानों के मतानुसार ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज, परस्त्री-गामी, खोटे स्वभाव का, चोरं तथा धनहीन होता है।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, शनि




(४) सूर्य, चन्द्र, मंगल और शनि की युति हो तो जातक धनहीन, मूर्ख, दरिद्र, दुर्बल शरीर वाला, बीना अथवा विषम कद का तथा भिक्षा द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाला होता है।

सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु




(५) सूर्य, चन्द्र, बुध और गुरु की युति हो तो जातक तेजस्वी, नीतिज्ञ, शिल्पज्ञ, शोकरहित, अत्यन्त धनी, रोग-रहित, गौर-वर्ण तथा सुन्दर नेत्रों वाला होता है।

सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र




(६) सूर्य, चन्द्र, बुध और शुक्र की युति हो तो जातक सुन्दर, कान्तिमान्, सुवक्ता, राज्य द्वारा सम्मान-प्राप्त, छोटे कद वाला परन्तु मन में व्याकुल रहने वाला होता है।

सूर्य, चन्द्र, बुध, शनि




(७) सूर्य, चन्द्र, बुध और शनि की युति हो तो जातक निर्धन, दरिद्र, कुटुम्ब-हीन, विकलांग, नेत्र-रोगी, माता-पिता से हीन तथा भिक्षुक होता है ।

सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र




(८) सूर्य, चन्द्र, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक सुखी, गुणी, राजाओं द्वारा सम्मानित तथा जल, मृग एवं वन में प्रीति रखने वाला होता है ।

सूर्य, चन्द्र, गुरु, शनि




(९) सूर्य, चन्द्र, गुरु और शनि की युति हो तो जातक यशस्वी, धनी, प्रतापी, सर्वत्र सम्मानित, सुन्दर नेत्रों वाला, पतले शरीर वाला, स्त्रियों का प्रिय तथा बहुत पुत्रों वाला होता है ।

सूर्य, चन्द्र, शुक्र, शनि




(१०) सूर्य, चन्द्र, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक डरपोक, अत्यन्त दुर्बल शरीर वाला, स्त्रियों-जैसा आचरण करने वाला, परन्तु अन्य लोगों का अगुआ (नेता) होता है ।

सूर्य, मंगल, बुध, गुरु




(११) सूर्य, मंगल, बुध और गुरु की युति हो तो जातक विजयी, शूरवीर, चक्रधारी, देवता-ब्राह्मणों का सेवक, पर-स्त्रीगामी तथा कुशल सूत-निर्माता या सूत का व्यवसायी होता है।

सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र




(१२) सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति हो तो जातक चोर, दुर्जन, निर्लज्ज, पर-स्त्रीगामी, विषम अंगों वाला परन्तु देवता और ब्राह्मणों का पूजक तथा सदैव विजय पाने वाला होता है।

सूर्य, मंगल, बुध, शनि




(१३) सूर्य, मंगल, बुध और शनि की युति हो तो जातक प्रतापी, कवि, योद्धा, मन्त्री अथवा राजा, अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञाता, नीच पुरुषों की संगति में रहने वाला तथा नीच आचरण करने वाला होता है।

सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र




(१४) सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक अत्यन्त धनी, यशस्वी, नीतिज्ञ, मनुष्यों का पालक, सुन्दर शरीर वाला तथा राजा द्वारा सम्मानित होता है।

सूर्य, मंगल, गुरु, शनि




(१५) सूर्य, मंगल, गुरु और शनि की युति हो तो जातक दयालु, धनी, मनुष्यों में श्रेष्ठ, सुप्रसिद्ध सेनापति, मन्त्री, अन्न का संचय करने वाला, राजा द्वारा पूजित तथा सब कामों में सफलता पाने वाला होता है ।

सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि




(१६) सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक दुराचारी, मूर्ख, कटुभाषी, नीच कर्म करनेवाला, जन-द्रोही, मांसाहारी तथा नीच जाति के मनुष्यों को साथ रखने वाला होता है ।

सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र




(१७) सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक बुद्धिमान्, धनवान्, सुखी, प्रसन्न, विनयी, मानी, स्त्री-पुत्रादि के सुख से युक्त तथा सब कामों में सफलता पाने वाला होता है ।

सूर्य, बुध, गुरु, शनि




(१८) सूर्य, बुध, गुरु और शनि की युति हो तो जातक झगड़ालू, उद्योगहीन, निन्दित कर्म करने वाला, नपुंसक-जैसा तथा बहुत-से भाइयों वाला होता है ।

सूर्य, बुध, शुक्र, शनि




(१६) सूर्य, बुध, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक पवित्र हृदय वाला, सुन्दर, विद्वान्, पण्डित, सुवक्ता, उच्च विचारों वाला, भाग्यशाली, सुखी, भाइयों द्वारा सम्मानित, मित्रों वाला तथा स्त्री-पुत्रादि के सुख से युक्त होता है।

सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि




(२०) सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक सुखी, कवि, गिल्पज्ञ, करुणा से पूरित हृदय वाला, राजा का प्रिय, परन्तु लोभी और परम कृपण होता है।

चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु




(२१) चन्द्र, मंगल, बुध और गुरु की युति हो तो जातक परम विद्वान्, बुद्धिमान्, मन्थनादी, शास्त्रज्ञ, लोक से पूजित, सुखी जीवन व्यतीत करने वाला, मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा राजा का कृपापात्र होता है।

चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र



(२२) चन्द्र, मंगल, बुध और शुक्र की युति हो तो जातक झगड़ालू, नीच प्रकृति का, बुन्ध-विद्वेषी, भ्रातृ द्रोही, वेद-शास्त्र-निन्दक, नींद में समय बिताने वाला तथा नीच मनुष्यों से प्रेम रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री कुन्टा होती है।


चन्द्र, मंगल, बुध, शनि



१५०२

(२३) चन्द्र, मंगल, बुध और शनि की युति हो तो जातक सुखी, साहसी, स्त्री, पुत्र तथा भिलादि से युक्त, दो माताओं वाला तथा वीर-वंश में जन्म लेने वाला होता है ।


चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र



१५०३

(२४) चन्द्र, मंगल, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक धनी, मानी, पण्डित, साहसी, नीतिज्ञ, पुत्रवान्, अंगहीन तथा व्याकुल रहने वाला होता है ।


चन्द्र, मंगल, गुरु, शनि



१५०४

(२५) चन्द्र, मंगल, गुरु और शनि की युति हो तो जातक धनवान्, शूर-वीर, पण्डित, सत्यवादी, दयालु, उन्मादी, वचन का पालक, राजा द्वारा सम्मानित परन्तु नीच मनुष्यों के साथ रहने वाला होता है ।


चन्द्र, मंगल, शुक्र, शनि



१५०५


(२६) चन्द्र, मंगल, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक कुल-बंचका, महा डीठ, सब का शत्रु, दरिद्री, उद्वेगी, जुआरी, मलिन, सर्प-जैसी आँखों वाला, मद्य-मांस आदि का सेवी तथा वीर-वंश में जन्म लेकर भी कायर स्वभाव का होता है । उसकी स्त्री कुलटा होती है ।

चन्द्र, गुरु, शुक्र, बुध




(२७) चन्द्र, गुरु, शुक्र और बुध की युति हो तो जातक सुन्दर शरीर वाला, दयालु, दानी, चतुर, पण्डित, शास्त्रज्ञ, धनी, शत्रु-विहीन तथा माता-पिता से रहित होता है ।

चन्द्र, गुरु, शनि, बुध




(२८) चन्द्र, गुरु, शनि और बुध की युति हो तो जातक कवि, ज्ञानी, यशस्वी, धर्मात्मा, इन्द्रियजित्, बन्धु-प्रिय, तेजस्वी राज्य-मन्त्री तथा सर्वप्रिय होता है ।

चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि




(२९) चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक धनी, गाँव का स्वामी, राजा द्वारा सम्मानित, अनेक पत्नियों वाला तथा नेत्र-रोगी होता है ।

चन्द्र, गुरु, शुक्र, शनि



(३०) चन्द्र, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक पण्डित, परोपकारी, पुरुष-श्रेष्ठ, पर-स्त्रीगामी तथा धनहीन होता है । उसकी पत्नी मोटे शरीर वाली होती है । कुछ विद्वानों के मतानुसार ऐसा व्यक्ति स्थूल शरीरवाला, धर्मात्मा तथा चतुर होता है ।


मंगल, बुध, गुरु, शुक्र



१५१०

(३१) मंगल, बुध, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक सुशील, धनी, दयालु, राज-मान्य, स्वस्थ, लोकप्रिय, परन्तु अपनी स्त्री से कलह करने वाला होता है।


मंगल, बुध, गुरु, शनि



१५११

(३२) मंगल, बुध, गुरु और शनि की युति हो तो जातक सत्यवादी, पवित्र-हृदय, विनम्र, धैर्यवान्, विद्वान् सुवक्ता, शूर-वीर परन्तु धनहीन होता है।


मंगल, बुध, शुक्र, शनि



१५१२

(३३) मंगल, बुध, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक मधुरभाषी, मल्ल-विद्या में निपुण; लोक-प्रसिद्ध, पुष्ट शरीर वाला तथा कुत्तों को पालने वाला होता है।


मंगल, गुरु, शुक्र, शनि



१५१३

(३४) मंगल, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक धूर्त, विषयी, मानी, विनम्र, साहसी विद्वान्, धनी, पर-स्त्रीगामी तथा श्रेष्ठ मनुष्यों को प्रिय होता है।


बुध, गुरु, शुक्र, शनि



(३५) बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक मेधावी, वेद-वेदांग का ज्ञाता, शस्त्र-विद्या का प्रेमी परन्तु विषय-वासना में लीन रहने वाला कामी होता है ।


पाँच ग्रहों की युति का फलादेश

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु




(१) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध और गुरु की युति हो तो जातक दुष्ट, क्रोधी, छली तथा सदैव दुःखी रहने वाला होता है । उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव वाली होती है, जिसके कारण वह सदैव उद्विग्न बना रहता है । ऐसा व्यक्ति स्त्री-हीन भी हो सकता है ।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र




(२) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध और शुक्र की युति हो तो जातक मिथ्यावादी, दयालु स्वभाव का, बुन्ध-हीन, दूसरों का काम करने वाला तथा हिजड़ों-जैसी आकृति का होता है ।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शनि




(३) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध और शनि की युति हो तो जातक चोर, सदैव दुःखी, स्त्री-पुत्रादि से रहित, बन्धन (जेल या कैद) प्राप्त करने वाला तथा प्रायः अल्पायु होता है ।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र




(४) सूर्य, चन्द्र, मंगल गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक दुःखी, नेत्र-रोगी अथवा जन्मान्ध, माता-पिता के सुख से रहित, संगीतज्ञ तथा हाथी से प्रेम रखनेवाला होता है ।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शनि




(५) सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु और शनि की युति हो तो जातक व्यसनी, दुष्ट, झगड़ालू, डरपोक, दूसरों को दुःख देनेवाला, परध-नापहारो, सज्जनों का शत्रु तथा वृक्ष-जैसी आकृति वाला होता है ।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, शुक्र, शनि




(६) सूर्य, चन्द्र, मंगल, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक धनहीन, अधर्मी, सब का द्वेषी, परस्त्रीगामी तथा आचार-विचार से हीन होता है ।

सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र




(७) सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक धनी, यशस्वी, चतुर, राजा द्वारा सम्मानित, न्यायाधीश, राज्य-मंत्री तथा सर्वत्र प्रशंसित होता है ।

सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शनि




(८) सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु और शनि की युति हो तो जातक ऋणग्रस्त, कायर, उन्मादी, उग्र-स्वभावी, वेश्यागामी, दुष्ट कर्म करने वाला, परान्न पर निर्वाह करने वाला, घूर्त तथा अपने मित्रों के कारण दुःख पाने वाला होता है।

सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि




(९) सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक उत्साही एवं धन, सन्तान, मित्र एवं सुखों से हीन, रोगी शरीर वाला होता है। उसके शरीर पर रोंये अधिक होते हैं तथा कद लम्बा होता है।

सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र, शनि




(१०) सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक पण्डित, समर्थ, निर्भय, चंचल, ऐन्द्रजालिक, सुवक्ता, पापी, वाक्छल में प्रवीण, स्त्रियों का प्रिय तथा शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है।

सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र




(११) सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक धीर, समर्थ, सुन्दर, स्वच्छ, यशस्वी, धन-धान्य तथा सेवकों से युक्त, बहुत घोड़े रखने वाला, सेनापति तथा राजा का प्रिय होता है।

सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि




(१२) सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि की युति हो तो जातक भिक्षुक, अल्पधनी, जर्जर, मलिन, रोगी, जड़, पुत्रवान् तथा उद्विग्न चित्त वाला होता है ।

सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि




(१३) सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक दुःखी, स्थान-भ्रष्ट, बुभुक्षित, दरिद्री, रोगी तथा शत्रुओं से त्रस्त होता है ।

सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि




(१४) सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक विद्वान्, विचारवान्, तपस्वी, धनी भाई-बन्धुओं से युक्त तथा धातु, यंत्र अथवा रसायन के काम में प्रवीण होता है । वह प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है ।

सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि




(१५) सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक दयालु, धर्मात्मा, धनी, शास्त्रज्ञ, सुवक्ता, सेनापति, मित्रों का प्रिय तथा माता-पिता और गुरु का भक्त होता है ।

चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र




(१६) चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक विद्वान्, धनवान्, सज्जन, निष्पाप, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, बहुत पुत्रों वाला, मिलवान् तथा सुखी जीवन बिताने वाला होता है।

चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि




(१७) चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि की युति हो तो जातक मलिन, पराई सेवा करने वाला तथा अन्न की याचना करने वाला होता है। उसे रत्तीघी रोग भी होता है।

चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि




(१८) चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक कुरूप, मलिन, निर्धन, मूर्ख, दुष्ट कर्म करने वाला, पर-निन्दक, कठोर-हृदय, नपुंसक तथा अपने मित्रों से ही शत्रुता रखने वाला होता है।

चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि




(१९) चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक मलिन, पराई सेवा करने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, परन्तु विद्वान् होता है। उसके अनेक मित्र तथा अनेक शत्रु होते हैं।

चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि



(२०) चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक धनी, सुखी, अत्यन्त गुणवान्, विद्वान्, यशस्वी, गणाधीश, लोकपूजित तथा राजा का मंत्री होता है।


मंगल, बुध गुरु, शुक्र, शनि



(२१) मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक चंचल, आलसी, धनी, सुखी, लोकप्रिय, पवित्र वक्ता, दीर्घायु, अधिक सोने वाला तथा तामसी स्वभाव का होता है।


छः ग्रहों की युति का फलादेश

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र




(१) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक यशस्वी, भाग्यवान्, भोगी, धनधान्य तथा विद्या से युक्त, धर्माल्मा, अल्पभाषी तथा सुखी जीवन बिताने वाला होता है।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि




(२) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि की युति हो तो जातक दयालु, परोपकारी, चंचल चिह्न शुद्ध अन्तःकरण वाला, विवाद में विजय पानेवाला तथा वनों में विचरण करनेवाला होता है।

सूर्य, चन्द्र, मंगल बुध, शुक्र, शनि




(३) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक चिन्तित, प्रत्येक बात में संशय करने वाला, संग्राम अथवा विवाद में विजय पाने वाला, वन-पर्वतों में विचरण करने वाला तथा घातक स्वभाव का होता है।

सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि




(४) सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक क्रोधी, कृपण, धनी, सुखी, लोभी, सुन्दर, स्त्रियों को प्रिय, भ्रान्त-बुद्धि, राजाओं का कृपापात्र तथा युद्ध करने के लिए तैयार रहने वाला होता है।

सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि




(५) सूर्य, चन्द्र बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक धर्मज्ञ, वेदज्ञ, दयालु, क्षमाशील, स्त्री-विहीन, राज-मंत्री, राजा द्वारा सम्मानित तथा लोक में प्रसिद्ध होता है।

सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि



(६) सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक क्षमाशील, ब्रह्म-विद्या का वेत्ता, भिक्षुक, वनवासी, तीर्थयात्री तथा धन, स्त्री एवं पुत्र से विहीन होता है।


चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि



(६) चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक धनी, गुणी, यशस्वी, पवित्र हृदय वाला, आलसी, अनेक पत्नियों वाला, गुणवान्, राजमान्य अथवा राजमंत्री होता है।

सात ग्रहों की युति का फलादेश

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि




यदि सातों ग्रह—सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक ही भाव में बैठे हों तो जातक सूर्य के समान तेजस्वी, धनी, दानी, राजाओं द्वारा सम्मानित तथा शिवजी का परम भक्त होता है।


स्त्री-जातक

सामान्यतः पुरुष अथवा स्त्री की जन्म-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित ग्रहों का फलादेश एक-जैसा ही होता है, परन्तु कुछ ग्रहों की विभिन्न भावों में स्थिति के फलस्वरूप स्त्रियों के सम्बन्ध में उनके फलादेश में अन्तर भी आ जाता है। ऐसे अन्तर वाले फलादेश के विषय में आगे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।


स्त्रियों के सम्बन्ध में विशिष्ट फलादेश की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी लिखी पुस्तक 'स्त्री-जातक' का अध्ययन करना चाहिए।




(१) जिस स्त्री के जन्म-काल में लग्न तथा चन्द्रमा सम-राशि पर हों (चित्र १५४४), वह स्त्री स्वाभाविक आकार वाली होती है।




(२) जिस स्त्री के जन्म-काल में लग्न तथा चन्द्रमा विषम राशि पर हों (चित्र १५४५), वह पुरुष-जैसे आकार वाली होती है।




(३) जिस स्त्री के लग्न तथा चन्द्रमा सम-राशि पर हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो (चित्र १५४६), वह श्रेष्ठ शीलवती तथा सुन्दर वस्त्राभूषणों को धारण करने वाली होती है।



(४) जिस स्त्री के लग्न तथा चन्द्रमा विषम-राशि पर हों और उन पर पाप-ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो (चित्र १५४७), वह पापिष्य तथा बुरे कर्म करने वाली होती है।




(५) जिस स्त्री के लग्न तथा चन्द्रमा विषम-राशि पर हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो (चित्र १५४८), तो उसे मध्यम स्वभाव वाली समझना चाहिए।




(६) जिस स्त्री के लग्न तथा चन्द्रमा सम-राशि पर हों और उस पर पाप-ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो (चित्र १५४६), तो उसे भी मध्यम स्वभाव वाली समझना चाहिए।


टिप्पणी : जो ग्रह अधिक बली हो, उसी के अनुसार स्त्री का स्वभाव समझना चाहिए।




(७) जिस स्त्री की कुण्डली में जन्म-लग्न अथवा चन्द्रमा से सातवें घर में कोई भी ग्रह न बैठा हो, अथवा निर्बल ग्रह बैठा ही (चित्र १५५०), उसका पति निरुद्यमी होता है।




(८) जिस स्त्री की कुण्डली में जन्म-लग्न अथवा सातवें घर पर शत्रु-ग्रहों की दृष्टि न हो (चित्र १५५१), उसका पति भी निरुद्यमी होता है।




(९) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली के सातवें घर में बुध तथा शनि बैठे हों (चित्र १५५२), उसका पति नपुंसक होता है।




(१०) जिस स्त्री के सातवें घर में स्थिर राशि हो (चित्र १५५३), उसका पति सदैव घर में रहता है।




(११) जिस स्त्री के सातवें घर में चर राशि हो (चित्र १५५४), उसका पति सदैव परदेश में रहता है।




(१२) जिस स्त्री के सातवें घर में द्वि-स्वभाव राशि हो (चित्र १५५५), उसका पति घर तथा परदेश में दोनों जगह रहता है।




(१३) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली के सप्तमभाव में 'सूर्य' की स्थिति हो (चित्र १५५६), वह अपने पति द्वारा त्याग दी जाती है।




(१४) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली के सप्तमभाव में 'मंगल' की स्थिति हो (चित्र १५५७), वह बाल-विधवा होती है।




(१५) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली के सप्तम भाव में 'शनि' की स्थिति हो तथा सभी पाप-ग्रहों की उस पर दृष्टि हो (चित्र १५५८), वह अनव्याही ही रह जाती है। यदि विवाह हो भी तो उसके पति की मृत्यु शीघ्र हो जाती है।




(१६) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली के सप्तम भाव में सभी पाप-ग्रह एकत्र हो गए हों (चित्र १५५९), वह अवश्य विधवा होती है।




(१७) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली के सप्तमभाव में शुभग्रह बलहीन हों तथा पाप-ग्रह भी हों (चित्र १५६०), वह अपने पति को छोड़कर दूसरा पति करती है।




(१८) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली के सप्तम भाव में एक पाप-ग्रह बलहीन बैठा हो और उसे कोई शुभ ग्रह देखता न हो (चित्र १५६१), उसे उसका पति त्याग देता है।




(१९) जिस स्त्री की जन्म-कुण्डली के सातवें घर में चन्द्रमा के साथ मंगल की युति हो (चित्र १५६२), वह अपने पति की आज्ञा से पर-पुरुष-गमन करती है।




(२०) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कुम्भ में से कोई लग्न हो और उसमें चन्द्रमा तथा शुक्र दोनों ही बैठे हों तथा उन पर पाप-ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो (चित्र १५६३), तो ऐसी स्त्री अपनी माता के साथ पर-पुरुष-गमन करती है।




(२१) जिस स्त्री के जन्म-लग्न में चन्द्रमा और शुक्र दोनों बैठे हों (चित्र १५६४), वह ईर्ष्यालु स्वभाव वाली, दूसरों को सन्ताप देने वाली तथा स्वयं सदैव सुखी रहने वाली होती है।




(२२) जिस स्त्री के जन्म-लग्न में बुध तथा चन्द्रमा दोनों ग्रह बैठे हों (चित्र १५६५), वह संगीत-कुशल, सुखी, गुणवती, सुन्दरी तथा सब की प्रिय होती है ।




(२३) जिस स्त्री के जन्म-लग्न में बुध, शुक तथा चन्द्रमा—तीनों ही ग्रह बैठे हुए हों (चित्र १५६६), वह अनेक प्रकार के सुखों से युक्त, धनी तथा गुणवती होती है ।




(२४) जिस स्त्री की कुण्डली में लग्न से आठवें स्थान पर (अष्टम भाव में) कोई पाप-ग्रह बैठा हो तथा दूसरे स्थान में कोई शुभग्रह बैठा हो, (चित्र १५६७), वह अपने मति से अपने मृत्यु को प्राप्त होती है ।




(२५) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में वृष, वृश्चिक, सिंह अथवा कन्या—इनमें से किसी भी राशि पर चन्द्रमा स्थित हो (चित्र १५६८), वह अल्प-पुत्रवती होती है ।




(२६) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में मंगल, शुक्र और बुध बलवान हों तथा लग्न समराशि में हो (चित्र १५६६), वह ब्रह्मविद्या में प्रवीण, अनेक शास्त्रों की जानकार तथा ब्रह्मवादिनी होती है।



(२७) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली के सप्तम भाव में पाप-ग्रह बैठा हो तथा नवम भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा हो (चित्र १५७०), वह स्त्री संन्यासिनी हो जाती है। नवें घर में जो ग्रह बैठा हो, उसी की प्रव्रज्या समझनी चाहिए। सूर्य से तपस्विनी, चन्द्रमा से कपालिनी, मंगल से रक्तवस्त्र-धारिणी, शुक्र से चक्रिणी, शनि से नग्ना, बुध से दण्डी तथा गुरु से यति होती है।



(२८) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में केन्द्र में शुभ ग्रह बैठे हों तथा पाप-ग्रह ६, ८ या १२वें घर में हों तथा सप्तम भाव में पुरुष राशि हो (चित्र १५७१), वह शान्त स्वभाव की, ऐश्वर्य-शालिनी, पुत्रवती तथा रानी अथवा रानी-जैसी होती है।



(२९) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में बुध लग्न में उच्च का होकर बैठा हो तथा गुरु एकादश भाव में हो (चित्र १५७२), वह ऐश्वर्य-शालिनी, रानी अथवा रानी-जैसी होती है तथा उसकी गणना संसार की प्रसिद्ध स्त्रियों में की जाती है।


विशिष्ट योग

जन्मकुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न ग्रहों की विशिष्ट स्थिति के कारण विशिष्ट योग भी बनते हैं, जिनका फलादेश सामान्य स्थिति वाले ग्रहों से भिन्न होता है।


अगले पृष्ठों में कुछ ऐसे ही विशिष्ट फलादेशों का वर्णन किया जा रहा है।

महसुओं प्रकार के विशिष्ट योगों के फलादेश की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी लिखी पुस्तक 'योग-रत्नाकर' का अध्ययन करना चाहिए।


राजयोग




(१) लग्न में चन्द्रमा और गुरु, दसवें भाव में शुक्र एवं तुला, मकर अथवा कुम्भ में शनि हो तो जातक राजा के समान अथवा राजमान्य होता है।




(२) दसवें, ग्यारहवें, पहले, दूसरे तथा तीसरे भाव में संपूर्ण शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक राजा के समान होता है।




(३) गुरु बुध के साथ बैठे हो अथवा बुध के द्वारा दृष्ट हो तथा गुरु, मीन अथवा धनुराशि का होकर, केन्द्र में बैठे हो तो ऐसे जातक की आज्ञा को राजागण भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं।




(४) चन्द्रमा केन्द्र में हो तथा गुरु लग्न को छोड़ कर, नवम अथवा पंचम दृष्टि से केन्द्र को देख रहा हो, साथ ही बलवान दृष्टि से शुक्र को भी देखता हो तो जातक राजा के समान भाग्यशाली होता है।




(५) गुरु लग्न में तथा बुध केन्द्र में बैठा हो तथा वह नवम भाव के स्वामी द्वारा दृष्ट भी हो तो जातक राजमान्य होता है।




(६) गुरु सातवें, नवें अथवा पाँचवें भाव में बैठा हो तथा लग्नेश की उम्र पर दृष्टि भी हो तो जातक राजमान्य होता है।




(७) शनि केन्द्र, पंचम अथवा नवम भाव में अपनी उच्च राशि अथवा मूल त्रिकोण राशि में हो तथा दशम भाव पर उसकी दृष्टि भी हो तो जातक राजमान्य होता है।




(८) नवम भाव का स्वामी चन्द्रमा के साथ द्वितीय भाव में बैठा हो तो जातक राजमान्य होता है ।




(९) चन्द्रमा मंगल के साथ द्वितीय अथवा तृतीय भाव में बैठा हो अथवा राहु के साथ पंचम भाव में बैठा हो तो जातक राजमान्य होता है ।




(१०) यदि जन्म-काल में पाँच ग्रह उच्च के हों, तो जातक चक्रवर्ती राजा अथवा मंत्री होता है ।




(११) यदि जन्म-काल में बुध उच्च राशि का हो, मंगल तथा शनि मकर राशि में हों तथा गुरु, चन्द्रमा तथा शुक्र तीनों धनु राशि में बैठे हों तो ऐसा जातक महाराजाधिराज होता है ।




(१२) यदि सूर्य सिंह राशि में, मंगल मकर में, शनि कुम्भ में तथा चन्द्रमा मीन राशि में हो तथा लग्न भी मीन ही हो तो ऐसा जातक महाराजा होता है ।




(१३) यदि मंगल मेष राशि का होकर लग्न में बैठा हो तो ऐसा जातक राजा होता है ।




(१४) गुरु कर्क लग्न में हो तथा मंगल मेष राशि का होकर दशमभाव में बैठा हो तो ऐसा जातक राजनीतिज्ञ एवं शत्रु-जयी राजा होता है ।




(१५) बृहस्पति उच्च का होकर लग्न में बैठा हो, दशम भाव में मेष का सूर्य हो तथा एकादश भाव में शनि, शुक्र और बुध तीनों बैठे हों, तो ऐसा जातक अत्यन्त पराक्रमी राजा होता है ।




(१६) शनि मकर राशि का होकर लग्न में बैठा हो, सूर्य सिंह राशि का, बुध मिथुन का, मंगल मेष का, शुक्र तुला का तथा चन्द्रमा कर्क का हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक समुद्र-पर्यन्त पृथ्वी का अधिपति (राजा) होता है।




(१७) शुक्र मिथुन का हो, बुध कन्या का होकर लग्न में बैठा हो, मंगल तथा शनि-मकर राशि में हों तथा चन्द्रमा और गुरु मीन राशि में हों, तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक शत्रुनाशक, परम पराक्रमी तथा ऐश्वर्य-शाली राजा होता है।




(१८) सिंह का सूर्य लग्न में हो एवं चन्द्रमा मेष में, शनि कुम्भ में, गुरु धनु में तथा मंगल मकर में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति राजाधिराज होता है।




(१९) मेष का गुरु लग्न में हो, चन्द्रमा ततुर्थ तथा शुक्र दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा होता है।




(२०) कर्क का गुरु लग्न में हो तथा सप्तम, चतुर्थ अथवा दशम स्थान में शुक्र, शनि और मंगल हों, तो ऐसा व्यक्ति अत्यन्त प्रतापी राजा होता है।




(२१) वृष का चन्द्रमा लग्न में हो तथा चतुर्थ सप्तम एवं दशम भाव में सूर्य, गुरु तथा शनि बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति अत्यन्त प्रतापी एवं यशस्वी राजा होता है।




(२२) गुरु, चन्द्र, बुध तथा शुक्र, लग्न, तृतीय, नवम एवं एकादश भाव में बैठे हों, तथा मकर का शनि लग्न में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति राजाधिराज होता है।




(२३) मीन राशि का शुक्र बुध के साथ लग्न में बैठा हो, मकर का मंगल हो तथा गुरु एवं चन्द्रमा धनु राशि के हों, तो ऐसा जातक चक्रवर्ती राजा होता है।




(२४) गुरु उच्च का होकर केन्द्र में बैठा हो तथा शुक्र दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति परम यशस्वी राजा होता है ।




(२५) मेष के गुरु तथा सूर्य लग्न में हों, मंगल दशम भाव में तथा शुक्र, बुध एवं चन्द्रमा नवम भाव में हों तो ऐसा जातक दिग्विजयी राजा होता है ।




(२६) मेष में सूर्य, कर्क में गुरु और तुला में शनि तथा चन्द्रमा हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा होता है ।




(२७) द्वितीय भाव में सूर्य हो तथा शुक्र, गुरु एवं चन्द्रमा केन्द्र में हों परन्तु वे न तो अस्त हों और न शत्रु-ग्रहों द्वारा दृष्ट ही हों, तो ऐसा जातक शत्रुजयी एवं अत्यन्त प्रतापी राजा होता है ।




(२८) कर्क में गुरु, मेष में सूर्य, मीन में शुक्र तथा वृष में चन्द्रमा हो और वह शनि द्वारा दृष्ट भी हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यन्त प्रतापी राजा होता है।




(३६) पंचम भाव में बुध, शुक्र तथा गुरु हों, परन्तु वे अस्त न हों, मकर का मंगल सूर्य से रहित हो तथा नवम भाव में शनि बैठा हो, तो ऐसा जातक राजा-धिराज होता है।




(३०) गुरु तथा शुक्र चतुर्थ भाव में हों तो ऐसा जातक धनी, पराक्रमी एवं पृथ्वीपति होना है।




(३१) कर्क राशि में गुरु के साथ चन्द्रमा बैठा हो तो ऐसा जातक कश्मीर देश का राजा होता है।




(३२) उच्च राशिस्थ चन्द्रमा बुध के साथ बैठा हो तो जातक मगध देश का राजा होता है। यदि चन्द्रमा बलवान् हो तो जातक किसी भी अन्य स्थान का राजा हो सकता है।




(३३) जन्म-राशि का स्वामी लग्न में हो तथा लग्नेश बली होकर केन्द्र में बैठा हो तो नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी राजा होता है।




(३४) मेष का सूर्य चन्द्रमा के साथ बैठा हो तो ऐसा जातक राजा होता है।




(३५) गुरु तथा शुक्र उच्च राशिस्थ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों, तो ऐसा जातक राजा अथवा राजमंत्री होता है।




(३६) पापग्रह लग्न में हो और उस पर कर्क के गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धनी तथा यशस्वी राजा अथवा राजा के समान होता है।




(३७) गुरु मकर राशि के अतिरिक्त किसी और लग्न में बैठा हो अथवा कर्क राशिगत होकर कर्क के नवांश में हो तो जातक राजा होता है।




(३८) गुरु चन्द्रमा के साथ केन्द्र में बैठे हो तथा उस पर शुक्र की दृष्टि हो एवं कोई ग्रह नीच का न हो तो ऐसा जातक यशस्वी राजा होता है।




(३९) द्वितीय भाव में बुध, शुक्र और गुरु बैठे हों तथा सप्तम भाव में मंगल और चन्द्रमा हों, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुजयी एवं अत्यन्त प्रतापी राजा होता है।




(४०) शुक्र नवम भाव में हो, चन्द्रमा दशम भाव में हो तथा अन्य सभी ग्रह एकादश भाव में हों तो ऐसा जातक राजा होता है ।




(४१) राहु तथा मंगल षष्ठ भाव में हों तथा बुध और सूर्य दशम भाव में हों, तो जातक राजा होता है ।




(४२) वृष में गुरु, मिथुन में चन्द्रमा, मकर में मंगल, सिंह में शनि, कन्या में सूर्य और बुध तथा तुला में शुक्र हो, तो जातक महाराज होता है ।




(४३) वृहस्पति उच्च का होकर लग्न में बैठा हो तथा अन्य सभी ग्रह बुरे भी हों, तो भी जातक दीर्घायु, सेनापति, धनी, सुखी राजमान्य होता है ।




(४४) धनु का मंगल और शुक्र, मीन का बृहस्पति, तुला का बुध तथा नीच के गनि और चन्द्रमा हों, तो ऐसा जातक धनहीन राजा होता है।




(४५) मीन का शुक्र अथवा बुध हो, द्वितीय भाव में राहु तथा लग्न में सूर्य हो तो जातक भोगी, दानी, यशस्वी, राजमान्य एवं पृथ्वी का स्वामी होता है।




(४६) तृतीय भाव में गुरु तथा एकादश भाव में चन्द्रमा हो, तो जातक सब राजाओं में प्रसिद्ध राजा होता है।




(४७) पंचम भाव में गुरु तथा दशम भाव में चन्द्रमा हो, तो जातक अपने वंश का पालन करने वाला, बुद्धिमान्, जितेन्द्रिय तथा तपस्वी राजा होता है।



(४८) तुला, धनु अथवा मीन राशि का शनि लग्न में स्थित हो, तो ऐसा जातक पृथ्वीपति (राजा) होता है।




(४९) कर्क में 'गुरु', एकादश भाव में चन्द्रमा, बुध और शुक्र तथा मेष राशि में सूर्य हो, तो जातक पृथ्वीपति होता है।




(५०) लग्न में शनि और चन्द्रमा तथा अष्टम भाव में शुक्र हो, तो ऐसा जातक वैश्याप्रेमी मानी राजा होता है।

सिंहासन-योग


षष्ठ, अष्टम, द्वितीय, तृतीय तथा द्वादश भाव में सभी ग्रह विद्यमान हों, तो ऐसा जातक राजसिंहासन पर बैठा है।






स्वज-योग

अष्टम भाव में पाप-गृह तथा लग्न में अन्य शुभ ग्रह हों, तो ऐसा जातक समाज का नेता होता है।




हंस-योग

पंचम, नवम, सप्तम तथा लग्न—इन भावों में सभी ग्रह हों, तो ऐसा जातक अपने कुल को पालने वाला होता है।



चाप-योग

शुक्र तुला में, मंगल मेष में तथा गुरु स्वराशि पर स्थित हो, तो ऐसा जातक राजा होता है।




प्रथम चतुःसार योग

यदि सभी ग्रह चारों केन्द्रों में स्थित हों तो ऐसा जातक महाधनी राजा होता है।


द्वितीय चतुःसार योग

यदि सभी ग्रह मेष, कर्क, तुला तथा मकर इन चारों राशियों में स्थित हों, तो ऐसा जातक महाघनी राजा होता है ।




दण्ड-योग

यदि सभी ग्रह कर्क, मिथुन, मीन, कन्या तथा धनु राशि में स्थित हों, तो ऐसा जातक राज्य-सिंहासन पर बैठता है ।




वाणी-योग

यदि प्रथम, द्वितीय तथा द्वादश भाव के अतिरिक्त अन्य सभी भावों में सभी ग्रहों की स्थिति हो तो ऐसा जातक अपने कुल का प्रधान, गुणी, धनी, प्रतापी, अत्यन्त धैर्यवान्, सुखी, प्रियवादी तथा ऐश्वर्यशाली होता है ।




कमी का योग

यदि सूर्यादि सातों ग्रह जन्म-कुण्डली के दशम तथा एकादश भाव में स्थित हों अथवा लग्न और सप्तम भाव में स्थित हों, तो नीच कुल में उत्पन्न जातक भी राजा होता है ।




अमर योग




यदि सभी पापग्रह केन्द्र में हों, अथवा सभी शुभ ग्रह केन्द्र में हों तो इन दोनों प्रकार से अमर योन बनता है। पापग्रहों के अमर योग में जन्म लेने वाला जातक क्रूर-स्वभावी राजा तथा शुभ ग्रहों के अमर योग में जन्म लेने वाला जातक सौम्य-स्वभावी राजा होता है।

एकावली योग



लग्न अथवा कित्ती भी भाव से आरम्भ करके क्रमशः सातभावों में सात ग्रह स्थित हों, तो ऐसा जातक महाराजा होता है।


द्वितीय हंस-योग



सभी ग्रह मेष, कुम्भ, धनु, तुला, मकर तथा वृश्चिक राशि में हों, तो ऐसा व्यक्ति राजा अथवा राजपूजित एवं सब प्रकार के ऐश्वर्यों का स्वामी होता है।

पंचधा मैत्री-चक्र

	सूर्य	चन्द्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
अधिमित्र	चन्द्र मंगल	सूर्य बुध	सूर्य चन्द्र	शुक्र चन्द्र		बुध	
मित्र	गुरु	<u>मंगल</u> शुक्र	शनि		शनि		गुरु
सम	शुक्र		गुरु बुध	सूर्य मंगल	<u>शुक्र</u> चन्द्र मंगल	सूर्य चन्द्र <u>शनि</u>	बुध <u>मंगल</u> शुक्र
शत्रु	बुध	गुरु शनि	शुक्र	<u>गुरु</u> शनि		मंगल गुरु	
अधिशत्रु	<u>शनि</u>				बुध <u>शुक्र</u>		सूर्य चन्द्र



६४८ प्रत्येक नर-नारी अपनी आयु का व्यौरा स्वयं निकाल सकते हैं

आपका भाग्य और जीवन (आयु-निर्णय)

(आपकी आयु कितनी होगी ?)

ज्योतिष विद्या एक महासागर है, एक विशाल विज्ञान है, जिसमें असंख्य ग्रन्थ-रत्न भरे पड़े हैं, किन्तु प्रस्तुत पुस्तक मानों गागर में सागर है जिनके लेखक हैं—अनेक ज्योतिष ग्रन्थों के रचयिता प्रकाण्ड-विद्वान् पं० जगन्नाथ शास्त्री। जैसा कि पुस्तक का नाम से ही प्रकट है, इसमें आपके भाग्य जीवन में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएँ, आपकी आयु और मृत्यु आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की ज्योतिषीय विधियाँ लिखी गई हैं।

इस अद्भुत ग्रन्थ को लेखक ने दस भागों (अध्यायों) में विभक्त करके पूर्वोक्त सभी विषयों को विस्तारपूर्वक समझाया है। यथा—1. प्रथम भाग में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन आदि बारहों राशियों के आधार पर आयु ज्ञात करना बताया है। 2. द्वितीय भाग में जन्मकुण्डली देखकर आयु ज्ञात करना, तथा शुभाशुभ फलदेश, भाग्योदय, लाभ-हानि, रोग-आरोग्य, शुभ-अशुभ शकुन, दूत विचार आदि की जानकारी दी गई है। 3. तृतीय भाग में मृत्यु की पूर्व सूचना, मृत्यु-सूचक चिन्ह, मृत्यु सूचक स्वप्न आदि के विषय में ऐसी ज्ञातव्य बातें बताई गई हैं जिन्हें पढ़कर आप दंग रह जायेंगे। इसी प्रकार 4. चतुर्थ भाग में भी इसी विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 5. पंचम भाग है श्वेत कौतुकम्। इस भाग में प्रत्येक मनुष्य के आचार-विचार, उन्नति-अवनति, चाल-चलन व उत्थान-पतन के बारे में कुण्डली द्वारा सही जानकारी प्राप्त करना बताया गया है। 6. षष्ठ भाग में विस्तारपूर्वक यह जानना बताया गया है कि अमुक व्यक्ति की आयु कितनी होगी ? अर्थात् उसकी मृत्यु किस आयु में होगी ? और किस प्रकार होगी ? 7. सप्तम भाग में स्वर-ज्योतिष के बारे में प्रश्नोत्तर विधि से व्यापक जानकारी दी गई है। 8. अष्टम भाग में मृतात्माओं से बातचीत करने की विधि बताई गई है। 9. नवम भाग में आयु ज्ञात करने के ज्योतिषीय चार्ट दिए गए हैं, और 10. दशम भाग में स्त्रियों की आयु, आचार-विचार तथा भाग्योदय आदि के सम्बन्ध में विस्तृत एवं गूढ़ जानकारी है।

इस ग्रन्थ रत्न की जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। उपर्युक्त पंक्तियों में इस ग्रन्थ की विषय-वस्तु का जो संक्षिप्त परिचय हमने दिया है सुहृद् पाठकों के लिए अपने आप में वह स्वयं प्रत्यक्ष व ठोस प्रमाण है। यह पुस्तक न केवल ज्योतिषियों, वरन् प्रत्येक जन-साधारण के लिए भी अत्यन्त उपयोगी व अनमोल ग्रन्थ है। आज ही किसी भी बुकसेलर से खरीदिए बचवा वी० पी० पी० द्वारा हमसे मंगाइये। मूल्य 24/- रु०

★ बृहद् विशाल सामुद्रिक विज्ञान ★

हस्तरेखा तथा लक्षण शास्त्र पर हिन्दी का सबसे बड़ा एवं प्रामाणिक ग्रन्थ जो 12 खण्डों में है। सहस्रों पृष्ठ तथा हजारों चित्रों से परिपूर्ण ग्रन्थ का मूल्य 151/- रु० 51/- रु० अग्रिम भेजकर शेष 100/- रु० की बी. पी. पी. मंगाएँ। असली प्राचीन हस्त लिखित 'भृगुसंहिता महाग्रन्थ' न्यौछावर 501/- वाला तथा असली प्राचीन हस्तलिखित मन्त्र महापांख दक्षिणा 171/- वाला भी छप रहा है। जेबानी पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, चौक बड़गाहबुला, दिल्ली-6

